


मुत्तिसोपानकी-प्रस्तावना.

गाथा-काव्य

सो तव्वस्स सव्वस दुहस्स मुक्कां । जंवाहइ सययंजन्तुमेयं ॥
 दोहामयं विप्पमुक्को पसत्थो । तो होइ अच्चन्त सुही कयत्थो ॥१॥
 अणाइ काल पभवस्स एसो । सव्वस्स दुक्खस्स पमोख्खमग्गो
 वियाहि ओ जं समु विसत्तच्चा । कमेण अच्चन्त सुही भवन्ति ॥१११॥

उत्तराध्यायन अ० ३२

इन जगतालय निवासी सब प्राणीयों उन्नति केही इच्छक हैं, उन्नति करो !
 २. ऐसा निर्धोष चारोंही तरफ हो रहा है, कोइ स्वय शरीरकी उन्नति करने उद्यमीहै,
 कोइ स्वय कुटुम्बकी उन्नति करने पर्यन्ती है, कोइ स्वय जातिकी ग्राम की देसकी उ
 न्नति करने पर्याप्त करते हैं, ऐसेही कितनेही विद्याकी, ज्ञानकी, धर्मकी, समाज-सम्प्र
 दायों की उन्नति करने कोसीश करते हुवें भी दृष्टि आते हैं. इत्यादि इन सर्व प्रकार
 की उन्नति करने का मुख्य उद्देश अत्मोन्नति करने काही है. अथात्-सर्व प्रकारकी
 उन्नतिके अन्तिम उन्नति जो करने की है, वो अत्मोन्नति ही है. इसलिये अन्य सर्व
 प्रकार की उन्नतियों है सो अत्मोन्नतिके सोपान पंक्तिये रूप है, अत्मोन्नति साध है,



मुत्तिसोपानकी-प्रस्तावना.



गाथा-काव्य

सो तव्वस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को । जंवाहइ सययंजन्तुमेयं ॥
 दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो । तो होइ अच्चन्त सुही कयत्थो ॥१॥
 अणाइ काल पभवस्स एसो । सव्वस्स दुक्खस्स पमोख्वमग्गो
 वियाहि ओ जं समु विसत्तच्चा । कमेण अच्चन्त सुही भवन्ति ॥१११॥

उत्तराध्यायन अ० ३२

इस जगतालय निवासी सब प्राणीयों उन्नति केही इच्छक हैं, उन्नति करो !
 २ ऐसा निर्धोप चारोंही तरफ हो रहा है, कोइ स्वयं शरीरकी उन्नति करने उद्यमीहै,
 कोइ स्वयं कुटुम्बकी उन्नति करने पर्यबी है, कोइ स्वयं जातिकी ग्राम की देसकी उ
 न्नाति करने पर्यास करते हैं, ऐसेही कितनेही विद्याकी, ज्ञानकी, धर्मकी, समाज-सम्प्र
 दायों की उन्नति करने कोसीश करते हुवें भी दृष्टि आते हैं. इत्यादि इन सर्व प्रकार
 की उन्नति करने का मुख्य उद्देश अत्मोन्नति करने काही है. अथात्—सर्व प्रकारकी
 उन्नतिके अन्तिम उन्नति जो करने की है, वो अत्मोन्नति ही है. इसलिये अन्य सर्व
 प्रकार की उन्नतियों है सो अत्मोन्नतिके सोपान पंक्तिये रूप है, अत्मोन्नति साद्य है,

खूबकी साथ कथा गया है. उस कथन प्रमाणे परवृत्त कर अनन्तात्मो औ उन्नति दि-
शा परमात्म पदको प्राप्त हुवे हैं. जिससे खातरी होती कि जिनेन्द्र प्रणितही आत्मोन्न
तिका मार्ग तहा सत्य है. निशांकित है, परमादरानिय है तबही उपरोक्त गाथामें फ-
रमाया है:— “इस संसारका अति गहन दीर्घ पन्थ जिसमें जीवों अनादि कालसे
परि भ्रमण कर रहे हैं, वो जीवों जो समय धर्म (जिन प्रणित सुत्रानुसार प्रवृत्तिका
सम्यक प्रकारसे) पालन करते हैं वो अनुक्रमसे सर्व दुःखों से मुक्त हो अखन्त परम
मुख के भुक्ता बनते हैं. यह आत्मोन्नति (मोक्ष) का मार्ग अनादि कालसे इस जगता
लय में प्रवृत्त रहा है जिसे आराध अनन्त जीवों मुक्ति प्राप्त करी है, वृत्तमान में महा-
विदेह क्षेत्र से संख्याते जीवों इसी मार्ग को आराध कर मोक्ष प्राप्त कर
रहे हैं. और आगमिक कालमें इसी मार्गके प्रभावसे निर्वाण पावेंगे अर्थात्-मोक्ष के
मार्ग दोनही है. एकही है ” वोही आत्मोन्नति (मुक्ति) का सत्य न्याय मार्ग इस “मु-
क्ति-सोपान-गुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी ” नामक ग्रन्थ में अनुक्रमसे चउदह गु
णस्थान द्वारा दर्शाया है. इसे पठन श्रवण कर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक यथाविधी आराध-
पाल आत्मोन्नति के इच्छको इष्टार्थ सहज से साध सकें इसही उम्मेदसे इस ग्रन्थ को
प्रसिद्धी में लाने की मुख्य फरज समझ. आत्मोन्नतिके इच्छकों के कर कमलमें स-
विनय समर्पण कर कृतज्ञता समझताहूं.

लाला सुखदेव सहायजी—ज्वलाप्रसाद.

यह ग्रन्थ निर्माण होने का मुख्य प्रयोजन.

परम पूज्य पण्डित राज कवीचरेन्द्र श्रीतिलक ऋषिजी महाराजके हस्त लिखित
दो पत्रों (पाने) मुझे दक्षिण देशमें धर्म परिचार करने के मुख्य अधिकारिणी सतिशि-
रोमणी महासतीजी श्री राम कवरजी के पाससे संवत् १९५६ में प्राप्त हुवे. जिनमें १४
ही गुणस्थानों पर ७२ यहां दर्शाता हूं:—द्वारों संक्षेपित यंत्र में लिखे थे. वो यंत्र वै-
से ही रूपमें.

१४ गुणस्थान.	१	२	३	४	५
१ नामद्वार	मिथ्यात्व	सांवादन	मिश्र	अत्रति सम दृष्टि	देश विरति
२ लक्षणद्वार	३ तत्वखोट माने	किञ्चित धर्म स्पर्श	भद्रिकभावी	७ प्रकृति उपशमावे	११ प्र. उपशमावे
३ स्थितिद्वार	३ प्रकारकी	ज. उ. द. आ वली ७ समे	ज. उ. अ- न्तर मूहूर्त	ज. अं. उत्कृ ६६ सागर	ज. अ. उ. क्रोड पूर्व
४ क्रियाद्वार	२४ इर्यावही टली	२३ मिथ्या त्वी. टली	२४ मिथ्या त्व वधी	२३ द्वजापर	२२ अत्र तटली
५ कर्म की सत्ताद्वार	८ की सत्ता	एवं	एवं	एवं	एवं
६ कर्म बन्ध द्वार	८ बन्धे	८ बन्धे	७ अऊटल	८ बन्धे	एवं
७ कर्म वेदे द्वार	८ वेदे	८	८	८	८
८ कर्म उदयद्वार	८ उदय	८	८	८	८
९ कर्म ऊदीरणा द्वार	७ तथा ८	एवं	७ आयुटला	७ तथा ८	एवं
१० कर्म निर्जरा द्वार	८ निर्जर	८	८	८	८
११ भाव ५ द्वार	३ उ. ख. प.	एवं	एवं	५	५
१२ कारण द्वार	५ मि. अ. प्र. क. जो.	४ मि टला	५ पूर्वके	३ अत्रटला	३ एवं

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
प्रमत संयति	अप्रमत संयति	नियती वादर	अनियती वादर	सूक्ष्म सम्पराय	उप. शा. न्त मोह	क्षीणमोह	सयोगी केवली	अयोगी केवला
१५ प्रकृति उपशमावे	५ प्रमाद खपावे	अपूर्व करण करे	२१ प्र. क्ष योपशमा	२७ क्षयो प शमावे	२८ प्र. उ पशमावे	२८ प्र. खपावे	१० बो लपावे	७ बोल पावे
ज. अ. उ. क्रोडपूर्व	ज. १. समय उ. अन्तर	ज. समय उ. अन्त	ज. १. समय उ. अन्त	ज. १. समय उ. अन्त	ज. एक उ. क्रोर	ज. उ. अन्त मूर्द्ध	ज. अन्तर उ. क्रोडपूर्व	ज. उ. ५ लघु अक्ष.
२ आरंभी परिग्र	१ मायावती	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ इर्यावही	१ एवं	०
एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	७ मोहटला	७ एवं	४ घातीटले	४ एवं
एवं	एवं	७ आयुटला	एवं	६ मोह टला	१ सता वेदनी	एवं	एवं	बन्धनही
८	८	८	८	८	७ मोह टला	७ एवं	४ घातीटले	४ एवं
८	८	८	८	८	७ मोहटला	७ मोहटला	१ घातीटले	१ एवं
एवं	७ आयुटला	एवं	एवं	५ तथा ६ मो. ट.	५ तथा २ अ. ट.	एवं	२ नाम गोत्र	नहीं
८	८	८	८	८	७ मोहटला	एवं	४ घाती	४ एवं
९	९	९	९	९	९	४ उटला	३ क्षायटला	३ एवं
३ एवं	२ प्रमाटला	२ एवं	२ एवं	२ एवं	१ योग	१ एवं	१ एवं	नहीं

१४ गुणस्थान.	१	२	३	४	५
१३ मारगणा द्वार	४ ३-४ ५-७	नहीं	३ ४.५ ७	२ ५-७	२ ६-७
१४ उपमार्गणाद्वार	नहीं	१ १	१ १	३ ३-२ १	४ ४-३ २-१
१५ परिसहद्वार	२२ पात्रे २० वेदे	एवं	एवं	एवं	एवं
१६ आत्माद्वार	६ ज्ञा. चा टली	७ ज्ञानटली	६ ज्ञा. चाटली	७ चारिटली	८
१७ जीवकाभेद द्वार	१४	६ ३ वी अ. अस २	१ सन्नीप्रज	२ सन्नी प्र. अ.	१ सन्नी प्र.
१८ जगेद्वार	१३ आहा २ नथी	१३ एवं	१० २वै. २ आ १ कार्य	१३ आहा २ नहीं	१२ कार नहीं
१९ उपयोगद्वार	६ अ. ३ द. ३	६ ज्ञ. ३ द. ३	६ अ. ३ द. ३	६ ज्ञा. ३ द. ३	६ एवं
२० छेड्याद्वार	६	६	६	६	६
२१ समाकित द्वार	नहीं	१ सेस्वा	नहीं	४ उ. ख वे. क्षा.	४ एवं
२२ चरित्र द्वार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	संयम संयम
२३ वेदद्वार	३	३	३	३	३

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१ ७	१ ८	१ ९	१ १०	२ ११-१२	नहीं	१ १३	१ १४	मोक्ष
५-४ ३-२ १	२ ६-४	२ १-४	२ ८-४	२ ९-४	२ १०-४	नहीं	नहीं	नहीं
एवं	एवं	एवं	एवं	१४ वे दे १२	एवं	एवं	११ वेद ९	११ वेदे ९
८	८	८	८	८	७ कपाटली	७	७	६ जो गटली
१ एवं	१	१	१	१	१	१	१	नोसनी नांअस.
१४ कार नहीं	१४ ३ मि. १ का. नहीं.	४ मन ४ वच १ का	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९ एवं	५त. ७म २व. २४ २ का	नहीं
७ ज्ञा. ४ द. ३	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	२ के ज्ञा. के. द.	२ एवं
६	३ शुभ	१ शुक	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	नहीं
४ एवं	४ एवं	२ उ. खा.	२ एवं	२ एवं	२ एवं	१ क्षा	१ क्षा	१ क्षा
३ सा. छे. प.	१ एवं	२ सा. छे.	२ सा. वे	१ सूक्ष्म	१ यथा	१ एवं	१ एवं	१ एवं
३	३	३	३ या नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

१४ गुणस्थान.	१	२	३	४	५
१३ मारगणा द्वार	४ ३-४ ५-७	नहीं	३ ४.५ _७	२ ५-७	२ ६-७
१४ उपमार्गणाद्वार	नहीं	१ १	१ १	३ ३-२ १	४ ४-३ २-१
१५ परिसहद्वार	२२ पावे २० वेदे	एवं	एवं	एवं	एवं
१६ आत्माद्वार	६ ज्ञा. चाटली	७ ज्ञानटली	६ ज्ञा. चाटली	७ चारिटली	८
१७ जीवकाभेद द्वार	१४	६ ३ वी अ. अस २	१ सन्नीप्रज	२ सन्नी प्र. अ.	१ सन्नी प्र.
१८ जगेद्वार	१३ आहा २ नथी	१३ एवं	१० २वै. २ आ १ कार्य	१३ आहा २ नही	१२ कार नहीं
१९ उपयोगद्वार	६ अ. ३ द. ३	६ झ. ३ द. ३	६ अ. ३ द. ३	६ ज्ञा. ३ द. ३	६ एवं
२० श्रेयाद्वार	६	६	६	६	६
२१ संमाकित द्वार	नहीं	१ सेस्वा	नहीं	४ उ. स्व वे. क्षा.	४ एवं
२२ चरित्र द्वार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	संयमा संयम
२३ वेदद्वार	३	३	३	३	३

प्रस्तावना

	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१ ७	१ ८	१ ९	१ १०	२ ११-१२	नहीं	१ १३	१ १४	मोक्ष
६-४ ३-२ १	२ ६-४	२ १-४	२ ८-४	२ ९-४	२ १०-४	नहीं	नहीं	नहीं
एवं	एवं	एवं	एवं	१४ वे दे १२	एवं	एवं	११ वेद ९	११ वेदे ९
८	८	८	८	८	७ कपाटली	७	७	६ जो गटली
१ एवं	१	१	१	१	१	१	१	नोसनी नांअस.
१४ कार नहीं	१४ ३ मि. १ का. नहीं.	४ मन ४ वच १ का	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९त. ७म २व. २८ २ का	नहीं
७ ज्ञा. ४ द. ३	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	७ एवं	२ के ज्ञा. के. द.	२ एवं
६	३ शुभ	१ शुक्र	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	नहीं
४ एवं	४ एवं	२ उ. खा.	२ एवं	२ एवं	२ एवं	१ क्षा	१ क्षा	१ क्षा
३ सा. छे. प.	१ एवं	२ सा. छे.	२ सा. वे	१ सूक्ष्म	१ यथा	१ एवं	१ एवं	१ एवं
३	३	३	३ या नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

१४ गुणस्थान	१	२	३	४	५
२४ ध्यानद्वार	आ. ४ रौ ४	८ एवं	९ धर्म १	१० ध.२	११ ध. ३
२५ सज्ञाद्वार	४	४	४	४	४
२६ गतिद्वार	४	४	०	१ द्रव	१
२७ हेतुद्वार	५५ आहार २ टले	५० ५ मि टल	४३ ४ अनं ३ मि ६	४६ ३ मिश्र वद्दे	४० ४अ. १ का. वा. अ. ट.
२८ शाश्वता गुणस्थान	शाश्वता	अशाश्वत	एवं	शाश्वता	एवं
२९ शाश्वतायोगद्वार	१३ आ. २ टला	१२ टला	१० ३वे मि. ट.	१३ अमीर	११ उ.मि १ का. टला
३० सनी असनीद्वार	२	२	१ सनी	२	१ सनी
३१ कर्म प्रकृति वन्ध	११७	१०१	७४	७७	६७
३२ कर्म प्रकृति उदय	११७	१११	१००	१०४	८७
३३ कर्म प्रकृति ऊदीरणा	११७	१११	१००	१०४	८७
३४ कर्म प्रकृति सत्ताद्वार	१४८	१४७	१४७	१४८	१४८
३५ आयुर्कर्म के भाङ्गे	२८	२८	२६	२०	१२

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१२ वं. ४	९ अ. ४ व. ४ शु. १	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९ एवं	१ शु. २	१ शु. ३	१ शु. ४
४	नो. सन्या.	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं
१	१	१	१	१	१	नहीं	नहीं	मोक्ष
२७. ४ प्र ११ अ. ८-२ आहाथ	२४. ३ मि. ८ ल.	२२. १ वं. १ आ.	१६. वहां सादिटलि	१०. ३ वे. ३ सजा.	२ सं. लो. भटला	९ एवं	९ तथा ७ जोग	नहीं
एवं	अशाश्वत	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	शाश्वत	अशाश्वत
१२ अहा. वाधा	९. ४ म. ४ व. १ का.	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९ एवं	९. २ म. २ व. १ का	नहीं
१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	१ एवं	नोसना सना	एवं
६३	५९	५८-५६ २६	२२-२१ २०-१९ १८	१७	१	१	१	नहीं
८१	७६	७२	६६	६०	५२	५७-५५	४२	१२
८१	७३	६९	६३	५७	५६	५४-५२	३९	१० तथा नहीं
१४८	१४८	१४८	१४८	१४८	१४८	१०१ ९९	८५	८५-९३
६	६	२	२	२	२	१	१	१

	१४ गुणस्थान.	१	२	३	४	५
३६	वेदनीय कर्मके भाङ्गे	४	४	४	४	४
३७	गौत्र कर्मके भाङ्गे	२	२	२	२	२
३८	आहारक अनारक	२	२	१ आ.	२	१ आह
३९	कारण ५५ द्वार	५०	५०	५०	५०	५०
४०	समुत्पात २ द्वार	५ प्रथम	५ ”	४ तेजट	४ प्रथम	६ केव टली.
४१	शरीर ५ द्वार	४ आ.न.	४ एवं.	४ एवं	४ एवं	४ एवं
४२	नीयंठ ६ द्वार	नही	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
४३	निमित्त ८२ द्वार	७४	७४	७४	७४	७४
४४	भापकऽभापक	२	१ भा.	१ भा.	२	१ भा.
४५	पढमऽपढम द्वार	२	२	२	२	२
४६	चरमाचरम द्वार	२	२	२	२	२
४७	भवीअभवी द्वार	२	१ भवी	१	१	१

१४ गुणस्थान	१	२	३	४	५
४८ गतिभ्रमद्वार	४ गत ४ आगत	१ गत. ३ आ.	४ गत. ४ आ.	५ गत. १ आ.	६ गत. ३ आ.
४९ एकभवमें स्पर्शना	ज. १. उ. १००	ज. १ उ. २	ज. १ उ. प्र. हजार	ज. १ उ. प्र. संख्या	ज. १ उ. प्र. हजार
५० घणाभवमें स्पर्शना	ज. २ उ. असंख्य	ज. २ उ. ५	ज. २ उ. अ. संख्या	एवं	ज. २ उ. प्र. हजार
५१ कालद्वार	काल करे	एवं	काल नहीं	काल करे	एवं
५२ परभवलेजाने द्वार	जावे	जावे	नहीं	जावे	नहीं
५३ अवघेणाद्वार	ज. अंगु. अ. उ १ हजार यों	एवं	एवं	एवं	ज. १ अंगु. उ १ हजार यों
५४ इन्द्रिय द्वार	१-२-३-४ ५	२-३-४-५	१ पंचेद्री	एवं	एवं
५५ दंडक द्वार	२४	१९५ स्थ. ट.	१६ शिक्कं. टले.	१६ एवं	२ म, ती
५६ अल्पा बहुमद्वार	१२ अनंत गुण	८ असंख्या त गुण	१ असंख्या-	१० असं.	७ असं.
५७ एकजीव आश्रीअन्तर	ज. अनंत उ. ६६ भा.	ज. अं. उ. अर्ध पु.	एवं	एवं	एवं
५८ घणाजीव आश्रीअन्तर	अंतर नहीं	ज. एक. सम उ. पल्पक अ. भाग	एवं	अंतर नहीं	अंतर नहीं
५९ कर्मनिर्जरा आश्रीद्वार	निर्जरानहीं	एवं	एवं	असंख्यात गुण	एवं

१४ गुणस्थान.	१	२	३	४	५
६० निरन्त्र गुण द्वार	प्रत्यक असंख्या भाग	एवं	एवं	आवलकाके असं. भाग	एवं
६१ देवलोक २६ मर्यादा	२१ स्वर्ग	१२ स्वर्ग	मोनही	१२ देवलोक	१२ देव
६२ आयुष्यवन्ध द्वार	४ गतिके वन्ध	३ नर्कटली	नहीं वन्धे	२ गति म. दे.	१ देवगति
६३ चडपड ४ गति द्वार	१ दा दुर	१ परनाल	२ इलाड उलाल	४ ही	३ इलाड परनाल उलाल
६४ वन्धाके भाङ्गे ४ उकाल आश्री १२ क्रम प. ध०	२ भांग १२	२ भांगा १२	एवं	एवं	एवं
६५ वेदनी आश्री भाङ्गा	२ भांगा १२	एवं	एवं	एवं	एवं
६६ मोहनी आश्री भाङ्गा	२ भांगा १२	एवं	एवं	एवं	एवं
६७ आयुष्य आश्री	४ १-२-३-४	२ १-२-३-४	४ १-२-३-४	४ ३-४	४ १-२-३-४
६८ संघयण द्वार	६	६	६	६	६
६९ पद्मी २ उद्धार	१९	११	७	११	२
७० सिद्ध स्पर्शना द्वार	निमा	भजना	एवं	निमा	भजना
७१ आदसमच्छठाणडीयाद्रा	छठाण वडी.	छठा	छठा	छठा	छठा
७२ तीर्थकरस्पर्श द्वार	नहीं	नहीं	नहीं	स्पर्श	नहीं
७३ तीर्थकर गौत्रवन्ध	नहीं	नहीं	नहीं	वन्धे	वन्धे
७४ पद्मी द्वार	१५. १४ रत्न १ मंड.	१५ एवं	१५	द्विती. च. वी. वा. म. सा.	२ श्रा. सा.
७५ भाव ५३ द्वार	३४	३३	३३	३५	३४

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
समय स्थिति तक	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं
२६ स्वर्ग	एवं	एवं	एवं	१ अनुत्त.	एवं	मरे नहीं	मरे नहीं	मोक्ष
एवं	एवं	अवन्ध	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं
एवं	एवं	एवं	एवं	४ ही	२ परनाल उलाल	१ इलड	एवं	गत नहीं
एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	एवं	१ चौथा	एवं
एवं	एवं	एवं	एवं	२ भांगा ३४	२ भांगा २४	१ भांगा चौथा	एवं	एवं
एवं	एवं	एवं	एवं	२ भांगा ३४	एवं	१ भांगा चौथा	एवं	४ एवं
३ १-२-४	३ १-३-४	२ ३-४	२ ३-४	२ ३-४	२ ३-४	१-४	१-४	१-४
६	६	३ प्रथम	३	३	३	१ प्रथम	१	१
२	२	२	२	२	२	२	४	४
नीमा	नीमा	एवं	एवं	एवं	भजना	नीमा	नीमा	नीमा
छठा	छठा	छठा	छठा	तुला	तुला	तुला	तुला	तुला
स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श	नहीं.	स्पर्श.	स्पर्श	स्पर्श
वन्धे	गन्धे	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं.	नहीं	नहीं	नहीं
३ क्षी. सा. स.	एवं	एवं	एवं	एवं	३ सा. स	४ ती. सा. स.	४ एवं	४ एवं
३३	३०	२८	२२	२२	२१	१९	१४	१३

इस मुजब संक्षेपित ७५ द्वारोंका यन्त्र मिला सो कण्ठाग्र कर लिया, परन्तु इस
 ाँके तत्व गम्य गुह्य ज्ञानकी मुझेपूरी समझ न होनेसे मन बहुतही मुरझाने लगा. सर्व
 तरहसे खुलासा जानने अति उत्कण्ठा जगी उसवक्त थोड़ेही अरसे बाद प्रकरण र-
 ताकर ' ग्रन्थ का चौथा भाग मुझे मिला जिसमें रहे हुये छेही ग्रन्थोंका अद्यन्त प-
 ष्यन दत्त चित्त से करने से—कर्म बन्ध उदय उदीरणाकी प्रकृतियों का खुलासा कु-
 छ २ होने लगा. कुछ समझा और कुछ नहींभी समझा परन्तु उनको सारंश रूप य-
 न्त्र एक पाल पें लिख मेरेपास रक्खा और बारम्बार अणुमेहा युक्त पठन मनन कर-
 ते २ इच्छा हुईकी इस गुणठाग द्वार थोकडे के पुरे १०० द्वार होवें तो बहुतही १ अ-
 च्छा, इस विचार ही विचार में बहुत वर्ष चले गये परसंज्ञानुपेत हैद्रावाद आना हुआ.
 और सीकंद्रावाद वाले गणेशमलजी समद्रीयाकी धर्मके शौकीनजान समायिक प्र-
 तिक्रमण थोकडे सूत्रादिका अभ्यास कराया ज्ञानके शौकीन बनाये तब उनका भी क-
 हना हुआकी इस गुणस्थानाद्वार के १०० द्वार तो पूर्ण जरूरही करना चाहिये ! एसा
 सुन मनमें निश्चयतो हुआ की कैसेभी कर १०० द्वार पुरे करूं. परन्तु ऐसा गहन ज्ञा-
 नका ग्रन्थ मेरे जैसे स्वल्प मतिवाले को बनाना बहुतही बौद्धिक मालुम होने लगा तो
 भी निश्चय खण्डन नहीं किया और नवे २ ग्रन्थोंका पठन मनन करते २ जो, जो
 बात ध्यान में जचती गइ उसकी नोट करते २ ९० द्वार पूरे किये. उसवक्त वाघली
 (खानदेश) के निवासी धर्म प्रिय ज्ञान रसिक मुकण्ठी भाइ रत्नचन्दजी चोरडीया दर्-
 शनार्थ हैद्रावाद आये. और यहाँ स्थापन हुआ "ज्ञान वृद्धि खाता" का अवलोकन
 कर ज्ञानवृद्धि करने की उत्कण्ठा जगी और रु १०० रत्नचन्दजी, दोलतरामजी चां-
 रडीये वाघलीवाले, रु. १०० संचालालजी ऊदारामजी मूथा जामडी वाले, रु. १००
 इन्द्रचन्द्रजी वच्छराजजी रांका वाघलीवाले, रु. १२० रत्नचन्दजी रामचन्दजी कांकर-
 रीया वाघलीवाले और रु. १२० खेमचन्दजी हंसराजजी बम्ब वोर कुण्डे वाले. यों
 पांचों सइ ग्रहस्यों मिल ५०० रुपये ज्ञानखाते में अर्पण कर सविनय कहने लगे कि
 कोई अभिनव अत्युत्तम ग्रन्थ इस खरचसे प्रसिद्ध हुआ तो बडा उपकार होगा. उसव
 क्त मेरे मन में घोटाती हुई बात अनयास कहवा गइ कि " गुणस्थाना रोहण शतदा
 री " ग्रन्थ जो मैं नवा बनानेका विचार कर रहा हूँ सो कहे तो इस खरचसे प्रसिद्ध
 हो सकेगा. यह उन्होंने सहर्षे स्वीकार किया और उसी वक्त "परमात्म मार्ग दर्शक"
 ग्रन्थ प्रसिद्ध होने वाला था उसमे जाहीरात भी देवा गइ वश फिरतो यह बात प्तत

होगइ तव मुझे वडाही फिकर हुवाकी है प्रभु ! ऐसे गहन ज्ञानकी पुस्तकको में कैसे प्रसिद्धीमें धर सकुंगा. आगेक्या होगा इत्यादि.

उसवक्त सुयोगसे जिनके फरमानसे परमात्म मार्ग दर्शक ग्रन्थकी रचनाकी इगथी और जो मुझे ज्ञान ब्रद्धि के काम में ग्रन्थों और सलहा द्वारा वारस्वार सहायता कर मेरपर महान उपकार करता कच्छ देश को पावन करने वाले आठकोटी मोटीपक्ष समुदायके परम पूज्य श्री कर्म सिंहजी महाराजके शिष्यवर्य ज्ञानानंदी कवी श्वर श्री नागचन्द्रजी महाराजके करकमल में 'परमात्म मार्ग दर्शक' ग्रन्थ गया उसमें 'गुणस्थानारोहण शतद्वारी' की खुशखबर पढते ही गुणस्थानाद्वारका एक ग्रन्थ मेरेपास भेजा. "भद्रपुरुषों बिना भेरे स्वभाव सेही उपकार करते हैं" उसमें १०० द्वारोंका अवलोकन करतेही मेरे रोम २ विक्रश्वर हो गये और हिम्मत बन्धीकी अब १०० द्वार सहलाइसे लिख सकुंगा कच्छसे आये गुणस्थान द्वारमें १०४ द्वारथे जिसके नाम-१ नाम द्वार, २ लक्षणद्वार, ३ किरियाद्वार, ४ कारणद्वार, ५ हेतुद्वार, ६ इव्यप्रमाण ७ अकर्षा, ८ स्थिति, ९ कर्मबन्ध, १० कर्मउदय, ११ कर्मऊदीरणा, १२ कर्मसत्ता १३ कर्मवेदना, १४ कर्मनिर्जरा, १५ गति, १६ आगति, १७ दण्डक १८ अहारकअनाहारक, १९ सूक्ष्मवादर, २० तत्संस्थार, २१ गति, २२ जाति, २३ दण्णक २४ भाषकऽभाषक, २५ परितऽपरित, २६ चर्मऽचर्म, २७ पढमऽपढम, २८ पच्चखाणऽपच्चखाण, २९ सरागीवीतरागी, ३० वीर्य, ३१ काल, ३२ परभवगमन, ३३ शाश्वतऽशाश्वत, ३४ विरहकाल, ३५ क्षेत्र, ३६ स्थानक, ३७ परिणाम, ३८ ध्यान, ३९ ध्यानकेपाये, ४० भव्य-भव्या, ४१ छद्मस्त केवली ४२ संयता-संयति ४३ समोह-समोह मरण, ४४ विग्रहा-विग्रगति, ४५ भवसंख्या, ४६ सिद्धजीव स्पर्शना ४७ एकसमयमेजीव, ४८ एकसमय में कितनेचचे, ४९ जीवकभेद, ५० गुणस्थान, ५१ जोग ५२ उपयोग, ५३ लेशा, ५४ पर्याप्ता-पर्याप्ता, ५५ छःप्रजा, ५६ सामान्यजोग ५७ सामान्यउपयोग, ५८ ज्ञान, ५९ अज्ञान, ६० दर्शन, ६१ तीर्थअतीर्थ, ६२ कल्प ६३ लिङ्ग, ६४ वेदीऽवेदी, ६५ शरीर, ६६ अवघेणा, ६७ संघयण ६८ संठाण, ६९ कषाय, ७० कषायप्रकृति, ७१ सज्ञा, ७२ इन्द्रिय, ७३ समुदघान ७४ वेद ७५ प्राण ७६ आहारदिशी, ७७ आहारओजादि, ७८ आहार सचेतादि, ७९ दृष्टि, ८० भाव ८१ प्रणामी, ८२ निवृत्ति, ८३ करण, ८४ पुण्यप्रकृतिबन्ध, ८५ पाप प्रकृतिबन्ध ८६ बन्धीकेभाङ्गे, ८७ भार्गणा, ८८ अरोह अवरोह, ८९ गति दृष्टिन्त, ९० श्रेणी,

+	१	नामद्वार	ॐ	२०	परस्पर मार्गणा
÷	२	अर्थद्वार	ॐ	२१	परस्पर उपमार्गणा
०	३	प्रश्नोत्तरद्वार	ॐ	२२	अरोह अवरोह
×	४	प्रवेगद्वार	×	२३	चडाचडगति
÷	५	लक्षणद्वार	×	२४	अन्तरकाल
०	६	दृष्टान्तद्वार	×	२५	विरहकाल
=	७	गुणद्वार	×	२६	एकभवमें स्पर्श
×	८	अवघेणाद्वार	×	२७	बहुत भवमें स्पर्श
ॐ	९	उत्पत्तिद्रव्यप्रमाण	ॐ	२८	परस्पर स्पर्श
ॐ	१०	भावतीद्रव्यप्रमाण	×	२९	पदमापदम
ॐ	११	व्यपतीद्रव्यप्रमाण	ॐ	३०	शान्वना शान्वन
ॐ	१२	क्षेत्रप्रमाण	ॐ	३१	परभवगमन
ॐ	१३	क्षेत्रस्पर्शना	ॐ	३२	भवसंगत्या
+	१४	काल (स्मित)	+	३३	अत्या बहुत
×	१५	कालप्राप्त	ॐ	३४	तिकरिया
ॐ	१६	भाव प्रमाण	×	३५	मृच्छहेतु कारण
×	१७	निरन्तरगुण	ॐ	३६	मिथ्यान्त्र हेतु
ॐ	१८	मार्गणा	ॐ	३७	अविरत हेतु
ॐ	१९	उपमार्गणाद्वार	ॐ	३८	कषाय हेतु

ॐ	३९	योग हेतू	ॐ	५८	देश घाति कर्म प्रकृति
+	४०	समुचय हेतू	०	५९	अघाति कर्म बन्ध
ॐ	४१	चार बन्ध	ॐ	६०	अघाति कर्म प्रकृति
ॐ	४२	समुचय कर्म बन्ध	०	६१	पुण्य कर्म बन्ध
÷	४३	ज्ञानावरणीयबंध	ॐ	६२	पुन्यकर्म प्रकृति बन्ध
ॐ	४४	दर्शनावरणीयबंध	०	६३	पाप कर्म बन्ध
ॐ	४५	वेदनीयबंध	०	६४	पाप कर्म प्रकृति बन्ध
ॐ	४६	मोहनीय बन्ध	ॐ	६५	परावर्तमान कर्म बन्ध
ॐ	४७	आयुष्य बन्ध	ॐ	६६	परावर्तमानकर्मप्रकृतिबंध
ॐ	४८	नाम कर्म बन्ध	०	६७	अपरावर्तमानकर्म बंध
ॐ	४९	गौत्र कर्म बन्ध	ॐ	६८	अपरावर्तमानकर्मप्रकृति
ॐ	५०	अन्तराय कर्म बन्ध	÷	६९	भूयस्कार कर्म बन्ध
०	५१	ध्रुवकर्मबन्ध	÷	७०	भूयस्कार कर्म प्रकृति
ॐ	५२	ध्रुवकर्म प्रकृति बंध	÷	७१	अल्पतर कर्म बन्ध
०	५३	अध्रुव कर्म बन्ध	÷	७२	अल्पतर कर्म प्रकृति
ॐ	५४	अध्रुव कर्म प्रकृति बंध	÷	७३	अवस्थित कर्म बन्ध
०	५५	सर्व घाति कर्म बन्ध	÷	७४	अवस्थित कर्म प्रकृति
ॐ	५६	सर्व घाति कर्म प्रकृति	÷	७५	अव्यक्त बन्ध
०	५७	देश घाति कर्म बन्ध	+	७६	समुचयकर्मप्रकृति बन्ध

≡	७७	कर्म बन्ध व्यछेद	०	१६	क्षेत्रविपाक कर्मोदय
≡	७८	कर्मप्रकृति बंध व्यछेद	ॐ	१७	क्षेत्रविपाककर्मप्रकृति उ
÷	७९	समुचय कर्मोदय द्वार	०	१८	भव विपाक कर्मोदय
ॐ	८०	ज्ञानावरणी उदयद्वार	ॐ	१९	भयाविपाक कर्म प्रकृति.
ॐ	८१	दर्शनावरणीय उदय	०	१००	जीवविपाककर्मोदय
ॐ	८२	वेदनी उदय द्वार	ॐ	१०१	जीवविपाककर्मप्रकृति
ॐ	८३	मोहनीय उदय द्वार	०	१०२	पुद्गलविपाक कर्मोदय
ॐ	८४	आयुष्य उदय द्वार	ॐ	१०३	पुद्गलविपाककर्मप्रकृति उ
ॐ	८५	नाम उदय द्वार	०	१०४	सर्व घाति कर्मोदय
ॐ	८६	गौत्र उदय द्वार	ॐ	१०५	सर्वघातिकर्मप्रकृति उदय
ॐ	८७	अन्तराय उदय द्वार	०	१०६	देशघातिक कर्मोदय
०	८८	ध्रुवकर्मादय	ॐ	२०७	देशघातिकर्मप्रकृति उ.
ॐ	८९	ध्रुवकर्म प्रकृति उदय	०	१०८	अघातिकर्मोदय द्वार
०	९०	अध्रुव कर्मोदय द्वार	ॐ	१०९	अघातिकर्मप्रकृति उदय
ॐ	९१	अध्रुव कर्म प्रकृति उदय	०	११०	समुचयकर्मप्रकृति उदय
०	९२	पुण्य कर्मोदय द्वार	०	१११	कर्मोदय व्यच्छेद
ॐ	९३	पुण्य कर्म प्रकृति उदय	≡	११२	कर्मप्रकृति उदय व्यच्छेद
०	९४	पाप कर्मोदय द्वार	=	११३	समुचय उदीरणा
ॐ	९५	पाप कर्म प्रकृति उदय	ॐ	११४	ज्ञानावरणी कर्म उदीर

११५	दर्शनावरणीकर्म उदीर.	०	१३४	ध्रुवकर्म सत्ताद्वार
११६	वेदनिय कर्म उदीरणा	१३५	१३५	ध्रुवकर्म प्रकृति सत्ता
११७	मोहनीयकर्म उदीरणा	०	१३६	अध्रुवकर्म सत्ताद्वार
११८	आयुर्कर्म उदीरणा	१३७	१३७	अध्रुवकर्मप्रकृति सत्ता
११९	नामकर्म उदीरणा	०	१३८	सर्वघातिककर्म सत्ता
१२०	गौत्रकर्म उदीरणा	१३९	१३९	सर्वघातिककर्मप्रकृतिस-
१२१	अंतरायकर्म उदीरणा	०	१४०	देशघातिक कर्म सत्ता
१२२	समुचयकर्मप्रकृति उदी.	१४१	१४१	देशघातिकर्मप्रकृतिसत्ता
१२३	कर्मोदीरणा व्यच्छेद	०	१४२	अघातिकर्म सत्ता
१२४	कर्मप्रकृतिउदीरणा व्य	१४३	१४३	अघातिकर्मप्रकृति सत्ता
१२५	समुचय कर्म सत्ताद्वार	१४४	१४४	समुचयकर्म प्रकृतिसत्ता
१२६	ज्ञानावरणी सत्ताद्वार	०	१४५	कर्मसत्ताव्यच्छेद द्वार.
१२७	दर्शनावरणी सत्ताद्वार	१४६	१४६	कर्मप्रकृती सत्ताव्यच्छेद
१२८	वेदनिय सत्ता द्वार	१४७	१४७	समुचकर्म भंग द्वार
१२९	मोहनीय सत्ताद्वार	१४८	१४८	ज्ञानावरणी भङ्ग द्वार
१३०	आयुर्कर्म सत्ताद्वार	१४९	१४९	दर्शनावरणी भङ्ग
१३१	नामकर्मसत्ता द्वार	१५०	१५०	वेदनीयभङ्गद्वार
१३२	गौत्रकर्म सत्ताद्वार	१५१	१५१	मोहनाथि भङ्ग द्वार
१३३	अन्तरायकर्म भत्ताद्वार	१५२	१५२	आयु भङ्ग द्वार

÷	१५३	नाव भङ्ग द्वार	×	१७२	पा-गति द्वार
÷	१५४	गौत्रभंग द्वार	×	१७३	जागति द्वार
÷	१५५	अन्तराय भङ्ग द्वार	क	१७४	आजातिद्वार
क	१५६	वन्धिके भाङ्गे	क	१७५	पाजातिद्वार
क	१५७	इर्यावहीके भाङ्गे	०	१७६	जा-जातिद्वार
कक	१५८	मुल भाव द्वार	क	२७७	आकाया द्वार
कक	१५९	औदायिक भावद्वार	×	१७८	पाकाया द्वार
कक	१६०	उपशमिक भाव	०	१७९	जाकाया द्वार
कक	१६१	क्षयोपशमिक	क	१८०	आदण्डक द्वार
कक	१६२	सायिकभाव	×	१८१	पादंडकद्वार
कक	१६३	परिणामिक भाव	०	१८२	जादंडक द्वार
कक	१६४	सनीपातिक भाव	×	१८३	सामान्य जीव भेद
कक	१६५	समुचय भाव द्वार	कक	१८४	विशेष जीवभेद द्वार
क	१६६	श्रेणीद्वार	×	१८५	जीवायोनी द्वार
×	१६७	कर्मवेदे द्वार	कक	१८६	कुलकोटी द्वार
×	१६८	कर्म तिर्जराद्वार	क	१८७	सूक्ष्म वादर द्वार
≡	१६९	दशकरण द्वार	क	१८८	त्रस स्थावर द्वार
÷	१७०	गुणश्रेणी द्वार	क	१८९	सन्नीऽसन्नीद्वार
×	१७१	आ-गति द्वार	क	१९१	भापकऽभापक द्वार

×	१९१	आहारकऽनारक	×	२१०	स्वर्गकी मर्यादाद्वार
✽	१९२	ओजादि आहार	×	२११	पटस्थानहानीवृद्धि
✽	१९३	सचितादि द्वहार द्वार	✽	२१२	मूल उपयोगद्वार
✽	१९४	दिशी आहार	+	२१३	अज्ञान द्वार
✽	१९५	पर्गाप्त अपार्याप्त	+	२१४	ज्ञानद्वार
✽	१९६	पर्याद्वार	+	२१५	दर्शनद्वार
×	१९७	प्राणद्वार	+	२१६	समुचय उपयोग द्वार
✽	१९८	इन्द्रियद्वार	+	२१७	दृष्टि द्वार
✽	१९९	इन्द्रिय विषयद्वार	×	२१८	भव्या भव्यद्वार
×	२००	सज्ञाद्वार	✽	२१९	चरमा चरम द्वार
×	२०१	वेद द्वार	✽	२२०	परिता परित द्वार
+	२०२	कषाय द्वार	+	२२१	परिसह द्वार
+	२०३	लेख्याद्वार	+	२२२	आत्मा द्वार
✽	२०४	योगद्वार	×	२२३	ध्यान द्वार
×	२०५	शरीर द्वार	✽	२२४	ध्यानके पाये द्वार
✽	२०६	संघयण द्वार	✽	२२५	पठद्रव्य द्वार
✽	२०७	संठाणद्वार	✽	२२६	परिणामद्वार
✽	२०८	मरणद्वार	✽	२२७	वीर्य द्वार
✽	२०९	विग्रहगतिद्वार	✽	२२८	तीर्थ अतीर्थ द्वार

+	२२९	सम्यक्त्वद्वार	ॐ	२४०	निर्जरा भेद द्वार
ॐ	२३०	संयता संयति द्वार	०	२४१	करणी फल द्वार
ॐ	२३१	लिङ्ग द्वार	+	२५०	तीर्थकर गौत्रोपार्जे
+	२३२	चारित्र्य द्वार	+	२५१	तीर्थकर स्पर्श
ॐ	२३३	नियता द्वार	०	२५२	श्लोक्षद्वार
ॐ	२३४	कल्पद्वार			
ॐ	२३५	परिसह द्वार			
ॐ	२३६	प्रमादद्वार			
ॐ	२३७	सरागी वीतरागीद्वार			
ॐ	२३८	पडवाइ अपडवाइ			
ॐ	२३९	छद्मस्त केवलीद्वार			
ॐ	२४०	समुदघात द्वार			
ॐ	२४१	देवद्वार			
ॐ	२४२	परिणामी द्वार			
×	२४३	कारण द्वार			
×	२४४	निघृति द्वार			
ॐ	२४५	आश्रव द्वार			
ॐ	२४६	संवरद्वार			
ॐ	२४७	निर्जराद्वार			

जिस द्वार के अंक की पीछे + ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों बहुतस्थान लिखें पाये. जिसके पीछे x ऐसा चिन्ह किया है 'श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके हस्त लिखित पत्र में से लिये हैं. जिसके पीछे ÷ ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों श्री नागचन्द्रजी के भेजे हुवे 'गुणठाणाद्वार' में से लिये हैं. जिसके पीछे * ऐसा चिन्ह किया है वो द्वारों श्री नागचन्द्रजीके भेजे हुवे 'चिचार सार प्रकरण' ग्रन्थ मेंसे लिखे. जिसके पीछे = ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों 'छे कर्म ग्रन्थ' मेंसे लिये हैं. जिसके पीछे ० ऐसा चिन्ह किया वो द्वारों 'गोमठ सारके कर्मकान्ड' में लिये है. जिसके पीछे - ऐसा चिन्ह किया है वो प्रकरण संग्रह मेंसे लिया. और जहां ० ऐसा चिन्ह किया है वो पूर्वापर अपेक्षासे स्वमति से लिखे हैं.

यों सब २५२ द्वारोंकी नोटकर ग्रन्थ लिखना फिर तीसरी वक्त शुरू किया. और ६०० पृष्ठ में पूर्ण कर पुनः शुद्धाद्यत्ति लिखनेका विचार करते संकल्प हुवा कि इस ग्रन्थको मूल कान्ड और अर्थ कान्ड में दो विभाग में विविक्षित कर २५२ द्वारों को गुणनिष्पन्न चारों खाडों में अलग २ बाट लिखनेसे खुल्लोसा अच्छा होगा. तदनुमारी शुद्धाद्यत्ति लिखी जिसके ८०० पृष्ठ हुवे.

जैन तत्व प्रकाश, परमात्म मार्ग दर्शक ध्यान कल्पतरु इत्यादि ग्रन्थों तो फक्त तीन चार महीने जितनी मुदत में ही लिख सकाथा परन्तु इस ग्रन्थको लिखने १॥ वर्षका मुम्मार लग गया जिसका सबब— अब्बल तो इस ग्रन्थ का विषय बहुतही गहन है. उसे स्पष्ट करने जितनी इसमें मगज मारी करनी पडी वैसी अब्बल किसी भी पुस्तक लिखते नहीं करनी पडी थी. तोभी इसमें बहुतसे विषयोंको तीन २ चार २ वक्त लिखते ही मनकी पूर्ण खातरी न हुइ तब फक्त मूल प्रमाणे उतारा करनाही उचित समझा. वैसेही किया. और दूसरी जबर अन्तराय का उदय होनेसे मुझे आत्मसाधन में और ज्ञानवृद्धि और कार्य में पूर्ण सहायता के कर्ता-विघ्न विपत्ती के हर्ता परम पूज्य तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराजके शरीरमें असाता वेदनीयका प्रबल उदय होनेसे सब प्रकारकी सहायता बन्ध पडी और अन्य कार्यमें सन्धना भाग पडा, व्याख्यान आहारलाना और पधोपचार और आने वालोंके साथ वारतालाप वगैरा कार्य मेरेही करनेके होनेसे उधर लक्षकी प्रेरना अधिक होने लगी, लिखते अपूर्ण विषय को छोड आठ २ दिनतक उसे अबलोकन करनेकाभी अवसर प्राप्त हुवा न जिससे उस विषयक अनुसन्धमेंकी विस्मृति होने से घोटाला हो गया बहुत खामीयों रहगइ तब विचार होता है की महारा

ज के आगम हुवे बाद द्वितीया वृत्ति लिखकर कच्छ पंजाव मालवा काडीया वाडमे विचरते पण्डित मुनिराजोंके निघानीचे निकला शुद्धि वृद्धि के साथ फिर हाथ से लिखे बाद छपवाऊंगा. इत्यादि विचार ही विचार में रहगया और भव्यतव्यता योग म हाराजश्रीका आयु अन्त हो गया. फिर विना कारण एकस्थान रहना होवे नही. एक विन पूर्ण चित्त की स्थिरता और अन्य अनेक ग्रन्थों सहायता नही. जिससे ज्ञान वृद्धि के कार्य में आगे बढ़ना अटका और जो वाकी ३॥ महिने का चौमास का काल वाकी रहाथा. उसमें लिखने और छपने प्रारंभ किये हुवे ग्रन्थो जयसेण वीजय सेण चरित्र, वीरसेण कुसुम श्री चरित्र, सम्बेग सुधा चरित्र, सद्धर्म बोध मराठी पुस्तक की द्वितीया वृत्ति इत्यादिको समप्त करना, पुरुष सुधारना, श्री केवल ऋषि महाराजका चरित्र रचना तथा व्याख्यान और साधुकी नियमित किरिया का करना व गैरा कार्यो गुन्थने से इस ग्रन्थ की यों त्यों समाप्ति करी. और अपना धर्मका प्रेस आजमेरे भेजनेका विचार था परन्तु अबल दिया हुवा जयसेण चरित्र के पांच महिने में कुल पांच ही फारम छापकर दिये बोभी बहुत अशुद्ध जिससे मन हट गया. और सन्मुख ही यह काम होता अच्छा जान यहांके नवीन हुवे 'शारदाप्रेस' के उत्सा ही मैनेजरको जलदी और शुद्ध कार्य करने का करार कर दिया. पुरुष में करकशन का रते भी कितनेक स्थान शुद्धि वृद्धि करी है तोभी इस ग्रन्थ में बहुत अशुद्धियों और खामीयों रह गइ है यह में निश्चय से कहता हूं. उसके लिये ऊपर दर्शाइ हुइ बेरी ला चारी पर रहम कर पाठक गणो क्षम वकसेंगे ? और जैनशास्त्रज्ञ पण्डित महात्मा ओं इसका शुद्धिपत्र बना कर जो वकसीस करेगे तो सभार स्वीकार द्वितीया वृत्ति छपानेका प्रसङ्ग हुवा तो योग्य सुधारा जरूर ही करना चाहता हूं जी.


मैं अल्पज्ञ बहुत दोषी हूं । यह ग्रन्थ है महान ॥

मिथ्यालाप दुष्कृत्य करूं । सुधार जो विद्वान ॥

उन्नत आत्म का दास,

अमोलख ऋषि.

समर्पण पत्र.




स्वर्गस्थ-पूज्य पाद परमुपकारी तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज साहेब की परम पवित्र सेवामें.

जिनोंके कुलमें समुत्पन्न हो जैन धर्म पाया, जिनकी वैराग्य मय सुद्रा ने वैरागी बनाया. जिनोकी हरकत रह से पूर्ण सहायता मिलने से सदान प्राप्त करसका और उसका लाभ अन्यको देनेको जो मेरी फरज थी वो कुछ बजा सका. इत्यादि जो जो कुछ योग्य कार्य कर जैनके चारों तीर्थोंका और अनेकोका कृपा प्राप्त जो मेरी पामर आत्मा वनीहै सो सब पुण्य प्रताप आपश्री काही है. इत्यादि सदृशों से मनाकर्षण हो यह 'मुक्तिसोपान गुणस्थानारोहण अदीशत द्वारी' नामक ग्रन्थ आपश्री जी की सेवामें ही समर्पण कर कृतज्ञता समझता हूँ.

शिक्षु-अमोल ऋषि.



उपकार पत्र.



कच्छ देश पावन कर्ता आठकोटी मोटी पक्षी के परम पूज्य स्याद्राभो निधी श्री कर्म सिंहजी महाराज के शिष्य वर्य पाण्डित प्रवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी महाराज की सेवा में:—

इस ग्रन्थ के पूर्ण १०० द्वार भी लिखने अशक्त हुवे को २५२ द्वार लिखने जितनी शक्ति की वकसीस आपके कृपा दान किये हुवे "गुणस्थान द्वार" और "विचार सार प्रकर्ण" ग्रन्थों के पठन मनन सेही हुईहै. ऐसे ही तंत्र आपने परुपकार बुद्धिसे आज ७ वर्ष से उत्साह और सहायता दान दे ज्ञान दान रूप परम साभ मुझसे दिला रहे हो. यह आपका उपकार अकल्प है जी.

कृपाभिलाषी-अमोलऋषि.

ग्रंथ कर्ताका संक्षिप्त जीवन चरित्र.

मारवाड देशके मेडत शहरके रइस, मंदरमार्गी बडे साथ ओसवाल कांसटीया गौतके, भाइ कस्तूरचंइजी व्यापार निमित्ते मालवाके आसटे (जोदपुर) ग्राममें आरहेथे, उनका अकस्मात् आयुष्य पूर्ण होनेसे उनकी सुपत्नी जवारावाइने वैराग्य पाकर ४ पूर्वोको छोड साधुमार्गी जैन पंथ में दिक्षा ली, और १८ वर्षतक संयम पाला. माता पिता व पत्नी के वियोगकी उदासीसे सेठ केवलचंदजी भोपाल शहर में आरहे और पिताके धर्यानुसार मंदीर मार्गीयोके पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, पूजा आदि कंठाग्र किये. उसवक्त श्री कुंवरजी ऋषिजी महाराज भोपाल पधारे, उनका व्याख्यान सुननेको भाइ फूलचंदजी थांडीवाल केवलचंदजीको जबरदस्तीसे लेगये. महा राज श्रीने सूर्यगडांगकी सूत्रके चतुर्थ उद्देशकी दशमी गाथाका अर्थ समझाया, जिससे उनको व्याख्यान प्रतिदिन सुननेकी इच्छा हुई. शनेः शनेः प्रतिक्रमण, पच्चीस बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा लेनेका भाव होगया. परंतु भोगावली कर्मके जोरसे उनके मित्तोंने जबरदस्तीसे हुलासावाइ के साथ उनका लग्न कर दिया. दो पुत्र को छोड वो भी आयुष्य पूर्ण कर गइ. पुत्र पालनार्थ, सम्बन्धीयो की प्रेरणासे तीसरी वक्त व्याव करनेके लिये मारवाड जाते, रस्ते में पुज्य श्री उदै-मागरजी महाराज के दर्शन करने को रतलाम उतरे, वहां बहुत शास्त्रके जाण, भर युवानी में सजोड शीलव्रत धारण करने वाले भाइ कस्तूरचंदजी लसोड केवलचंदजी को मिले. वो उनको कहने लगे कि, 'विषका प्याला सहज ही गिरगया, तो पुनः उसको भरनेको क्यों तैयार होते हो?' यों कहते उनको पूज्य श्रीके पाम ले गये, पूज्य श्रीने कहाः—'एक वक्त वैरागी बने थे, अब बनडे (वर) बनानेको तैयार हुवे क्या?' इत्यादि वचनों सुन केवलचंदजी ब्रह्मचार्यव्रत धारणकर भोपालगये. दिक्षा लेनेका विचार स्वजनोंको दर्शाया, परंतु आज्ञा नहीं मिलनेसे एक मासतक भिक्षाचारीकर आज्ञा संपादन करी और सम्मत १९४३ चेत सुदी ५ के रोज श्रीपूनाऋषिजी महाराजके पास दिक्षा ले पूज्यश्री खूवाऋषिजी महाराजके शिष्यहुवे. जौर ज्ञान अभ्यासकर तपश्चर्य करनी सुरू करी १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २०, २१, ४१, ५१, ६१, ६३, ७१, ८१, ८४, ९१, १०१, १११, १२१ यह तपश्चर्या तो छळ

के आगारसे करी, और इसके सिवाय, छ; महीनेतक एकान्तर उपवास वगैरा बहुत तप किया. तथा पूर्व, पंजाब, मालवा, गुजरात, काठीयावाड, झालवाड, सोंघवाड, मेवाड, मारवाड, तैलंगाणा, दक्षिण, वगैरा बहुत देश स्पर्श

श्री केवलचंदजीके ज्येष्ठ पुत्र अमोलख चंदजी पिताकी साथ ही शिक्षा लेनेको तैयार हुवे, परन्तु वालवयके सबव से स्वजनोंने आज्ञा नहीं दी और मोसाल में पहुंचा दिया. एकदा कबीवर श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य पंडित श्रीरत्नऋषिजी महाराज और तपस्वी श्रीकेवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे. वहांसे दो कोस खेडी ग्राम में मामाके यहां अमोलख चंदजी थे वो पिताके दर्शनार्थ आये. दर्शन से वैराग्य पुनः जाग्रत हुआ, और ११ वर्ष जितनी छोटी वय में (संवत् १९४४ फाल्गुण वदी २ को शिक्षा धारन करली. श्री अमोलख ऋषिजी श्री केवल ऋषिजी के शिष्य होने लगे, परंतु उनोंने कहा कि मेरा अभी शिष्य करने का इरादा नहीं है. तब पूज्य श्री खुवारुषिजी महाराज के पास लेगये, पूज्य श्रीने अमोलख ऋषिजीको अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री चेना ऋषिजी महाराजके शिष्य बनाये. थोडे ही कालमें श्री चेनाऋषिजी और श्री खुवा ऋषिजीका स्वर्गवास होनेसे श्री अमोलख ऋषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ तीन वर्ष विहार किया, फिर श्री केवल ऋषिजी एकल विहारी हुवे. और श्री रत्नऋषिजी दुर ग्राम रहे, इसलिये अमोलख ऋषिजी दो वर्षतक श्री भेरू ऋषिजी के साथ रहे, उसवक्त सं. १९४८ के फाल्गुन में ओसवाल ज्ञाती के पन्नालालजी नाम के ग्रहस्थने १८ वर्ष की उम्रमें शिक्षा धारन कर अमोलख ऋषिजीके चले हुवे. उनको साथ ले जावरा ग्राममें आये, वहां श्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरु के वियोगसे दुःखी हो रहे थे. उनको संतोष उपजाने पन्ना ऋषिजी को समर्पण कर दिये, देखिये! एक-यह भी उदारता! पीछे श्री रत्नऋषिजीका मिलापहोनेसे उनके साथ विचरे, इन महापुरुषने उनको योग्य जान, बहुत संतसे शास्त्रध्यास कराया, जिसके प्रसादसे गद्य-पद्यमें कितनेक ग्रंथ बनाये, और बना रहे हैं. तथा अनेक स्वमति-परमतिर्यों को सत्य धर्ममें द्रव किये और कर रहे हैं.

श्री अमोलख ऋषिजी के, संवत् १९६९ में मोती ऋषिजी नाम के एक शिष्य हुए, कि जिनोंने बंबई में काल किया.

हमारे सुभाग्योदय से सं० १९६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महारा

ज रस्ते में क्षुधा तथा आदि अनेक दुःख परिसह सहन कर यह क्षेत्र पावन किया और बृद्ध अवस्थाके कारण से अशक्त शरीर होने से यहां विराजमान हुवे थे और इनकी सेवामें पंडित प्रवर वाल ब्रह्मचारी श्री अमोलख ऋषिजी महाराज यहां विराजते थे। मुनि श्रीके सद्बोधसे आजतक ५४९०० पुस्तके अमूल्य सर्व हिंदमें और ब्रह्मा अमेरिका, आफ्रिका, आदि देशोंतक दिये गये हैं, इससे खुला मालुम होता है कि विद्वान मुनिराजों और उदार प्रणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिलनेसे समयानुसार प्रवृत्ति करने से जग जीवोंको कैसा लाभ मिलता है।

अब हम आत्यन्त अपसोस से कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्रको धर्म मार्ग में प्रसिद्ध लाने वाले और ज्ञान दान का अमूल्य दान दिला सर्व हिन्द के धर्मात्माओंको तोष ने वाले तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज वि. सं. १९७१ की चेत सुदी प्रति पदासे बीमारी बहुत ही बढगइ तब सावण वद्य ५ को सर्व साथ अत्यन्त नम्र भावसे स्वमतस्वपना करीये और नवमीके दिन आलोचना निन्दता कर अन्नाहारक त्याग किये और १३ मंगलवार के दिन १०॥ बजे अपने मुखसे संथारा कर १॥ बजे देहोत्सर्ग हुवा !! और श्री अमोलख ऋषि जी उग्रह विहारी हुवे। जिससे जैसे राजा विना रइयत मुनि तैसेही सब यहां का होकर ज्ञान खाता बन्ध पढा है जी।

हमारी नम्र विनंती है कि जैसा प्रयास ज्ञान बृद्धि का वाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी और इन के सद्बोध से यहां के तथा अन्यग्राम के श्राव कोने किया हैं। इससे भी अधिक सर्व हिन्दके साधु मार्गीयों से होने की अत्यन्त आ बश्यकता है, जो सर्व संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ज्ञान बृद्धि-सम्प-बृद्धि वगैरा साधुमार्गी धर्मोन्नाति के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा शक्ति प्रवृत्ति करेंतो यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुनः पूर्ण प्रकाश मय होवे !

धर्मोन्नाति इच्छक,

राजा बहादुर लाला-सुखदेव सहायजी ज्वालाप्रशाद.

के आगाँरसे करी, और इसके सिवाय, छः महीने तक एकान्तर उपवास वगैरा बहुत तप किया। तथा पूर्व, पंजाब, मालवा, गुजरात, काठीयावाड, झालवाड, सोंघवाड, मेवाड, मारवाड, तेलंगाणा, दक्षिण, वगैरा बहुत देश स्पर्श

श्री णेवलचंदजीके ज्येष्ठ पुत्र अमोलख चंदजी पिताकी साथ ही दिक्षा लेनेको तैयार हुवे, परन्तु बालवयके सबब से स्वजनोंने आज्ञा नहीं दी और मोमाल में पहुंचा दिया। एकदा कबीर श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पाटवी शिष्य पंडित श्रीरत्नऋषिजी महाराज और तपस्वी श्रीकेवलऋषिजी महाराज इच्छावर ग्राम पधारे। वहांसे दो कोस खेडी ग्राम में मामाके यहां अमोलख चंदजी थे वो पिताके दर्शनार्थ आये। दर्शन से वैराग्य पुनः जागृत हुआ, और ११ वर्ष जितनी छोटी वय में (संवत् १९४४ फाल्गुण वदी २ को दिक्षा धारण करली। श्री अमोलख ऋषिजी श्रीकेवल ऋषिजी के शिष्य होने लगे, परन्तु उनोंने कहा कि मेरा अभी शिष्य करने का इरादा नहीं है। तब पूज्य श्री खुवाऋषिजी महाराज के पास लेगये, पूज्य श्रीने अमोलख ऋषिजीको अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री चेना ऋषिजी महाराजके शिष्य बनाये। थोडे ही कालमें श्री चेनाऋषिजी और श्री खुवा ऋषिजीका स्वर्गवास होनेसे श्री अमोलख ऋषिजीने श्री केवल ऋषिजीके साथ तीन वर्ष विहार किया, फिर श्री केवल ऋषिजी एकल विहारी हुवे। और श्री रत्नऋषिजी दूर ग्राम रहे, इसलिये अमोलख ऋषिजी दो वर्षतक श्री भेरू ऋषिजी के साथ रहे, उसवक्त सं. १९४८ के फाल्गुण में ओसवाल जाती के पन्नालालजी नाम के ग्रहस्थने १८ वर्ष की उमरमें दिक्षा धारण कर अमोलख ऋषिजीके चले हुवे। उनको साथ ले जावरा ग्राममें आये, वहां श्री कृपारामजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरु के वियोगसे दुःखी हो रहे थे। उनको संतोष उपजाने पन्ना ऋषिजी को समर्पण कर दिये, देखिये! एक यह भी उदारता! पीछे श्री रत्नऋषिजीका मिलापहोनेसे उनके साथ विचरे, इन महापुरुषने उनको योग्य जान, बहुत खतसे शास्त्रभ्यास कराया, जिसके प्रसादसे गद्य-पद्यमें कितनेक ग्रंथ बनाये, और बना रहे हैं। तथा अनेक स्वमति-परमतियों को सत्य धर्ममें द्रव किये और कर रहे हैं।

श्री अमोलख ऋषिजी के, संवत् १९६९ में मोती ऋषिजी नाम के एक शिष्य हुए, कि जिनोंने बंबई में काल किया।

हमारे सुभाग्योदय से स० १९६२ से तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज

ज रस्ते में क्षुधा तथा आदि अनेक दुःखर परिसह सहन कर यह क्षेत्र पावन किया और बृद्ध अवस्थाके कारण से अशक्त शरीर होने से यहां विराजमान हुवे थे और इनकी सेवामें पंडित प्रवर बाल ब्रह्मचारी श्री अमोलख ऋषिजी महाराज यहां विराजते थे। मुनि श्रीके सद्बोधसे आजतक ५४००० पुस्तके अमूल्य सर्व हिंदमें और ब्रह्मा अमेरिका, आफ्रिका, आदि देशोंतक दिये गये हैं, इससे खुला मालुम होता है कि विद्वान मुनिराजों और उदार प्रणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिलनेसे समयानुसार प्रवृत्ति करने से जग जीवोंको कैसा लाभ मिलता है।

अब हम आत्यन्त अपसोस से कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्रको धर्म मार्ग में प्रसिद्ध लाने वाले और ज्ञान दान का अमूल्य दान दिला सर्व हिन्द के धर्मात्माओंको तोषने वाले तपस्वीराज श्री केवल ऋषिजी महाराज वि. सं. १९७१ की चैत सुदी प्रतिपदासे बीमारी बहुत ही बढगइ तब सावण वद्य ५ को सर्व साथ अत्यन्त नम्र भावसे खमतखमना करीये और नवमीके दिन आलोचना निन्दना कर अन्नाहारक त्याग किये और १३ मंगलवार के दिन १०॥ बजे अपने मुखसे संथारा कर १॥ बजे देहोत्सर्ग हुवा !! और श्री अमोलख ऋषि जी उग्रह विहारी हुवे, जिससे जैसे राजा बिना रइयत मुनि तैसेही सब यहां का होकर ज्ञान खाता बन्ध पढा है जी।

हमारी नम्र विनंती है कि जैसा प्रयास ज्ञान बृद्धि का बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी और इन के सद्बोध से यहां के तथा अन्यग्राम के श्राव कोने किया हैं, इससे भी अधिक सर्व हिन्दके साधु मार्गीयों से होने की अत्यन्त आवश्यकता है, जो सर्व संघ इस प्रत्यक्ष दाखले को ध्यान में लेकर, ज्ञान बृद्धि-सम्प-बृद्धि वगैरा साधुमार्गी धर्मोन्नाते के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा शक्ति प्रवृत्ति करेंतो यह पूर्ण शुद्ध धर्म पुनः पूर्ण प्रकाश मय होवे !

धर्मोन्नाति इच्छक,

राजा बहादुर लाला-सुखदेव सहायजी ज्वालाप्रशाद.

द्वी मुक्ति सोपान-गुणस्थान रोहण अर्दीशतद्वारिका

❀ शुद्ध पत्रम्. ❀

पाठक गणों! प्रथम निम्न लिखित अशुद्धियोंको शुद्धकर फिर यत्रासे पढीये
पृष्ठ. ओली. अशुद्ध. शुद्ध. | पृष्ठ. ओली अशुद्ध. शुद्ध.

३	२६	नतव्य	भव्यतव्य	६४	३	प्रमाणउ	प्रमाण
७	१३	चिविक्षित	विविक्षित	६५	२	आश्रय	आश्रव
८	४	अवघेण	अवघेणा	६६	८	परम तु	पु खलु
११	१७	गौत्रकर्मद्वार	गौत्रकर्मभंगद्वार	६९	२	तत्र	त्रत
१२	२५	समुठ घाए	समुघाए	७१	३	भागवन	भोगवने
२३	९	सययं	संजय	७४	१२	भोजन	भाजन
१७	११	दोस्थानीरसका	०	८१	९	त्रातिमा	परतिमा
२२	२६	रणघात	रसघात	८१	१८	वाम	वाङ्ग
२५	२५	सज्वला	संज्वल	८४	२५	चारिक	उपचारिक
२६	६	लाभ	लोभ	९२	११	आयुष्य	आयुष्य
२६	२८	रण	करण	९२	१२	सुखवस्थान	सुखस्थान
२८	१०	सम	समय	९४	२६	रूप और	पारम क.मु.कि
३६	३	करीना	करना	९५	१	पत	तप
३९	१५	विराय	विराम	९७	२७	का	कर
४१	२३	ल	लृ	९९	२५	को	की
४२	७	खंघयण	संघयण	१००	२४	को को	की
४३	२२	अठक	अटक	१०३	३	त्व(छाल)चा	त्वचा(छाल)
४४	२०	शास्त्रवसे	शास्त्रसे व	१०५	२	में	०
४५	३	जीवोंगे	जीवोंने	१११	८	वोदाणावाकरहाजावे	०
४५	४	में	०	"	१४	कालका	शालाका
४५	१७	मा	मारे	११४	२३	मरिता	परिता
४५	१८	देवोंगे	देवोंगे	११८	४	को	क्रोड
५०	१	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व	१२१	१८	नइ	इन
५०	१५	दी	दीप	१२२	१०	परिवार	परिवारसे
५०	२९	रीतराग	वीतराग	१२३	३-४	दक्षिण	उत्तर
५१	१८	पात्र	मात्र	१२४	४	दोजन	योजन
५९	१३	गुड	गुड	"	१२	घात	धात
६०	४	मुघा	भूया	"	२१	मवर्ष	वर्वत
६०	१६	संरमणात	में रमणता	१२५	१६	७ और	और ७

१३१	१४ कथनयाकरे	कथनकर	१६ वर्वणा	वर्गणा
१३२	२० अन्य	अन्य	१ अनाति	अनन्ति
१३३	२२ रूप	रूपी	१८ वर्गणा	०
१३५	११ और	सो	५ धंवाता	बंधाता
१३८	३ उपावसे	उपावसे	१५ सो	यो
"	१६ मान	मन	१६ थीणद्ध	थीणद्धी
१४१	८ स्वभा	स्वभाव	१३ मिलेता है	मिलता है
"	१२ ऐपिन्ह	ऐसे पिंड	२४ बस	सब
"	१२ ओ	और	२८ अद्रंत	अद्रत
"	१५ डर्म-सूर्क	डर्म-सूर्य	५ बत	तब
१४५	११ चडे	जडे	१० गार्त्रकमे	गौत्र कर्म
१४७	१६ आताम	आताप	१९ प्रति	प्रकृति
१५५	१२ (धल)	(धूल)	२१२ पृष्ठांक	२०२
१६२	९ संयमा	संयम	२१२ १६ तथा	तथा
१६४	८ बोध	बन्ध	२१४ १० सोने से	होनेसे
"	२५ होवाहै	होताहै.	" १२ वो	वे
१६५	५ का	०	" २५ सूर्यकीप्रभाव	सूर्यकी प्रभा
१६८	१४ अतिप	अतिम	१६ सो	स
"	" हांस्य	हांस्य	१२ इथावर	स्थावर
१६९	नोट भी केए	भी एक	नोट और भी	और कभी
"	४ स्थानवर	स्थावर	" पमश	उपशम
"	१४ शुभ	०	" १ क्षय	क्षय
१७०	१५ संक्तोष	संतोष	" ३ फेवल	केवल
१७३	१७ अस्थिषटक	अस्थिर षटक	२२३ ३ संयोग	संयोगी
१७५	५ वेधन	बंधन	२२५ नोट संगव	संभव
"	१८ प्रकृति	प्रकृति का	" " शक्तका	शक्ता
१७६	१८ बत	तब	२२६ पृष्ठांक १३६	२२६
"	२१ ख्यानी	०	" १ कर्मक	कर्मके
१७८	२ थीण त्रिक	थीणद्धी त्रिक	" १८ असाताक्षयका	आसाताकाक्षय
१७९	१४ नरगति	नरकगति	२२७ ४२२कार२२का,	२२कार१का
"	१७ अध्यायसाय	अध्यवसाय	२७का,	१७का,
१८२	१२ संघयण	संघयण	१ और २	और २ में का
१८४	८ इस	०	" नोट विवमन्न	विमान
२८९	१ जघस्य	जघन्य	२२८ इस पृष्ठमें गडबडबहुतही होगइ है	

द्वी मुक्ति सोपान-गुणस्थान रोहण अर्दीशतद्वारिका

❀ शुद्ध पत्रम्. ❀

पाठक गणों! प्रथम निम्न लिखित अशुद्धियोंको शुद्धकर फिर यत्रासे पढायें।
पृष्ठ. ओली. अशुद्ध. शुद्ध. | पृष्ठ. ओली अशुद्ध. शुद्ध.

३	२६	नतव्य	भव्यतव्य	६४	३	प्रमाणउ	प्रमाण
७	१३	चिविक्षित	विविक्षित	६५	२	आश्रय	आश्रव
८	४	अवघेण	अवघेणा	६६	८	परम तु	पु खलु
११	१७	गौवकर्मद्वार	गौवकर्मभंगद्वार	६९	२	तत्र	त्रत
१२	२५	समुठ घाए	समुघाए	७१	३	भागवन	भोगवने
२३	९	सयय	संजय	७४	१२	भोजन	भाजन
१७	११	दोस्थानीरसका	०	८१	९	त्रातिमा	परतिमा
२२	२६	रणघात	रसघात	८१	१८	वाम	वाङ्ग
२५	२५	सज्वला	संज्वल	८४	२५	चारिक	उपचारिक
२६	६	लाभ	लोभ	९२	११	आयुष्य	आयुष्य
२६	२८	रण	करण	९२	१२	सुखस्थान	सुखस्थान
२८	१०	सम	समय	९४	२६	रूप और	पारम क.मु.ा
३६	३	करीना	करना	९५	१	पत	तप
३९	१५	विराय	विराम	९७	२७	का	कर
४१	२३	ल	लृ	९९	२५	को	की
४२	७	संघयण	संघयण	१००	२४	को को	की
४३	२२	अठक	अटक	१०३	३	त्व(छाल)चा	त्वचा(छाल)
४४	२०	शास्त्रसे	शास्त्रसे व	१०५	२	में	०
४५	३	जीवोंगे	जीवोंने	१११	८	वोदाणावाकरहाजावे	०
४५	४	में	०	"	१४	कालका	शालाका
४५	१७	मा	मारे	११४	२३	मरिता	परिता
४५	१८	देवोंगे	देवोंगे	११८	४	को	क्रोड
५०	१	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व	१२१	१८	नइ	इन
५०	१५	दी	दीप	१२२	१०	परिवार	परिवारसे
५०	२९	रीतराम	वीतराम	१२३	३-४	दक्षिण	उत्तर
५१	१८	पात्र	मात्र	१२४	४	होजन	योजन
५९	१३	गुड	गुड	"	१२	घात	धात
६०	४	मुधा	भूया	"	२१	प्रवर्ष	वर्षत
६०	१६	सरमणात	में रमणता	१२५	१६	७ और	और ७

१३१	११ कथनयाक्त्रे	कथनकर	१६	वर्गणा	वर्गणा
१३२	२० न्यय	अन्य	१९०	१ अनाति	अनन्ति
१३३	२२ रूप	रूपी	"	१८ वर्गणा	०
१३५	११ और	सो	१९३	५ वधाता	वधाता
१३८	३ उपवासे	उपावसे	१९५	१५ सो	यो
"	१६ मान	मन	१९६	६ थीणद्ध	थीणद्धी
१४१	८ स्वभा	स्वभाव	"	१३ मिलेता है	मिलता है
"	१२ ऐपिन्ह	ऐसे पिंड	"	२४ वस	सव
"	१२ ओ	और	१९९	२८ अद्रत	अद्रत
"	१५ स्म-सूर्क	स्म-सूर्य	२००	५ वत	तव
१४५	११ चडे	जडे	२०१	१० गार्कमे	गौव कर्म
१४७	१६ आताम	आताप	२०२	१९ प्रति	प्रकृति
१५५	१२ (धूल)	(धूल)	२१२ पृष्ठांक	२०२	२१२
१६२	९ संयमा	संयम	२१२	१६ तथा	तथा
१६४	८ वोध	वन्ध	२१४	१० सोने से	होनेसे
"	२५ होवाहै	होताहै.	"	१२ वो	वे
१६५	५ का	०	"	२५ सूर्यकीप्रभाव	सूर्यकी प्रभा
१६८	१४ अतिप	अतिम	२१५	१६ सो	स
"	" हांगय	हांस्य	२१७	१२ इथावर	इथावर
१६९	नोट भी केए	भी एक	"	नोट और भी	और कभी
"	४ स्थानवर	स्थावर	२२०	" पमश	उपशम
"	१४ शुभ	०	२२१	" १ क्षय	क्षय
१७०	१५ संक्तोष	संतोष	"	" ३ फेवल	केवल
१७३	१७ अस्थिरपटक	अस्थिर पटक	२२३	३ संयोग	संयोगी
१७५	५ वेधन	बंधन	२२५	नोट संगव	संभव
"	१८ प्रकृति	प्रकृति का	"	" शक्तका	शक्ता
१७६	१८ वत	तव	२२६ पृष्ठांक	१३६	२२६
"	२१ ख्यानी	०	"	१ कर्मक	कर्मके
१७८	२ थीण विक	थीणद्धी विक	"	१८ असाताक्षयका	आसाताकाक्षय
१७९	१४ नरगाति	नरकगति	२२७	४२२का२२का,	२२का२१का
"	१७ अध्यायसाय	अध्यवसाय	"	२७का,	१७का,
१८२	१२ संघयण	संघयण	"	९ और २	और २ में का
१८४	< इस	०	"	नोट विवमन्न	विमान
२८९	१ जघस्य	जघन्य	२२८	इस पृष्ठमें	गडवडवहुतदी होगइ है

२२९	५ गंपावे	खपावे	२५९	२ नक में	नर्क में
"	१० सत्तान	सत्ता	"	२७ और ३१का	और ३१
"	१९ बाकीकेके	बाकी के	२६०	१७ ८ नरक	२ नर्क
२३०	नो६ प्रत्याख्यानी	अप्रत्याख्यानी	२६१	७ स्थान नहीं	स्थानही
२३१	२ जनन्ता	अनन्तान	२६२	१२ स्थार	स्थान
"	५ पूवाक्त	पूर्वोक्त	२६३	१० लत्ता	सत्ता
२३२	२ २ स्य	२ हांस्य	२६५	१० चनुष्य	मनुष्य
"	४ हांडन	इन	"	१६ नको	इनको
२३५	१८ और दे	और दो	"	१७ ७८ सत्ता	७८ की सत्ता
२३६	१४ सन्त	सत्ता	२६६	१२ व्रतते	प्रवर्तते
२४१	४ संज्वसल	संज्वल	"	नो५ यनके	इनके
२४३	६ तिर्यचायु	तिर्यचायु	"	" मोव्य	योग्य
"	१३ सात ७	सत्ता ७	२६७	१९ करो	कर
२४४	१३ जानवाले	जानेवाले	२६८	१४ यदय	उदय
२४७	७ नद्योत	उद्योत	२६९	नो२ भांह	भाङ्गे
२४७	२६ अस्त्रि	आस्थार	"	" वावीके	वाकी के
२५०	२ सूक्ष्मपर्याप्ता	सूक्ष्म अपर्याप्ता	१७२	१८ जिनन्त	जितना
"	नो४ जितन	जितनी	१७३	६ एकेद्रियान्हक	एकेद्रियादिक
२५१	१७ का, का,	का,	१७९	१९ जैसा शमिक	ओपशमिक
"	नो१ कामेसे	कायसे	१८१	३ गात्र	गौत्र
"	" और	और	"	५ कर्म होतेहै	कर्मके होते हैं
२५२	२ अय;	अयशः	१८३	४ पश्रु	पन्न
"	७ सति	रति	१८७	७ उदयावसी	उदयावली
"	१० उदमें	उदय में	"	१७ नने	होने
२५५	४ योते है.	होते है.	२८२	२ परिमाण	परिणाम
"	नोट दौर्भाग्य	दौर्भाग्य	२९१	१० खुसासा	खुलासा
२५७	६ इस ओलीपेभी गडवड होगया		"	१६ उत्कृष्टण	उत्कृष्ट
"	१५ सनुष्य	मनुष्य	"	२५ अपकर्षण	अपकर्षण
"	२१ १-भाया	१ भाङ्गा	२९२	२ कर्णों	करणों
"	२४ तीर्थकर के	तीर्थकर के	"	५ इही	दोही
२५८	२ और २२	और १२	२९३	७ चपकर्ष	अपकर्ष
"	१९ २ पचेन्द्रिय	३ पचेन्द्रिय	"	११ झूलासा	खुलासा
"	२२ यह	यहां	"	१४ फरसीफरसी	फरसी
"	" ८ वैक्रय	२ वैक्रय	"	१५ थता	तथा

२१३	१२ समुद्रग	सम्यग	३३५	७ टासस्म	ठाणस्म
"	२३ निर्जरा	निर्जरा	३४६	१५ औदायिक	कुछ औदायिक
२१६	७ कर	०	३५०	६ गुरुमिथ्यात्व	पुरुगनीमिथ्यात्व
२१७	१५ नन	मन	३५४	४ (अचारी)	(अचौरी)
२१८	१४ निर्यच	तिर्यच	"	१५ प्रका	प्रकार
"	१८ कैशल्यता	कौशल्यता	"	१९ ८	२
३०१	१२ पुष्क	पुष्प	३५६	१५ पूर्य	पूर्ण
"	१७ साति	सात	३५७	१३ गमन गमन	ममनागमन
"	२७ काले	बाले	३५८	१० सो मोह	सो क्षीण मोह
३०२	४ आद्वय	कण्डया	३६०	१३ मिथ्यात्व	मिथ्यात्व
"	६ रसमा'रसया'	रसया-रसमें	३६७	१६ बीसरे	तीसरे
३०३	१७ वर्ष	पूर्व	३६९	१६ जघस्य	जघन्य
३०५	१४ क वित	कपायला	३७०	२ औ	और
"	१७ मनुष्य	धनुष्य	"	३ तथा	तथा
३०७	२८ जुड	जुडे	"	६ अनन्तांत	अनन्तानन्त
३०८	५ गणधर	गणधर	"	१० क्ररेड	क्रोड
"	७ आदारिक	औदारिक	३७१	५ अनन्तात	अनन्तानन्त
"	७ सूत्र	शुक्र	३७२	२० तिजय	तिजय
"	१८ हडीयों	हडीयों	३७४	९ मुहुते	०
३१२	७ षड	षड	"	१० गमन	गमन
३१४	८ यथार्थ	अयथार्थ	३७५	३ मुहुते	मुहुते
३१७	४ व्युच्छिन्नकिरित्तव्युच्छिन्नकिरिय	०	३७६	पुष्पके अक्षर	पुष्पके अक्षर
३१८	६ पढते	०	"	१८ अक्षर	अक्षर
३२१	५ जघन्य	जघन्य	३७७	१२ अक्षर	अक्षर
३२३	४ अतिचार	अतिचार	"	१३ अक्षर	अक्षर
"	२८	"	३८३	१४ अक्षर	अक्षर
३२५	इसपृष्ठीकी पांचवी ओलीभीवडेअक्षरमें		"	१५ अक्षर	अक्षर
"	१२ ८	८ क्षीपरिसद	३८४	१६ अक्षर	अक्षर
३२७	५ दर	दूर	"	१७ अक्षर	अक्षर
"	१७ मुष्य	गुष्य	"	१८ अक्षर	अक्षर
३२८	५ ३३ सागर	३ फलान	३८५	१९ अक्षर	अक्षर
"	१२ क्रोड पूर्व	देसइम क्रोडपूर्व	"	२० अक्षर	अक्षर
३३०	२० (इन वचन	(इन वचन	"	२१ अक्षर	अक्षर
३३२	४ कुट्टि	कुट्टि	"	२२ अक्षर	अक्षर

३९६	११ बन्ध	बध	४६५	१२ इक्कासवाकर्म	इक्कीसवाकर्मसता
३९९	३ ६	०	४६६	४ अविरतिमें	अविरति से
४०४	१५ आगे पाग	अङ्गोपाङ्ग	४६८	१२ सत्ता	साता
४०५	८ होता है.	होता है. आगे गौ	४६९	१८ सत	सत्ता
		त्र कर्मका बंधनहीं	४७३	९ तिर्यचाकायु	तिर्यचायुका
४०६	१४ का ३१	३१ का	"	१४ तिर्यचु	तिर्यचायु
४०७	१३ प्रकृति	प्रकृति बन्ध	४८२	९ ३ ज्ञान	३ अज्ञान
४०९	८ ११	१२	"	११ ३ दर्शन	३ज्ञान३दर्शन
४१०	७ अठाय	अठारा	४८४	१३ होडिंगरहगया	समुच्चयभावद्वार
४११	८ कर्म बन्ध	कर्मप्रकृतिबन्ध	४८८	४ नेलबन्धि	न बन्धि
४१५	५ २	१	४८९	१४ और भी	और ४१ वा
"	२१ १	२	४९१	११ साववा	सातवा
४१७	५ ८	७	४९३	२० श्रमी	मिश्र
४१९	१६ ५३	५३में	४९४	१० अपर्माप्ते	अंपर्याप्त
४३०	३ नस्कात	नरकानु	४९५	इस पृष्ठ में दोद्वार	छापने रहगये
४३३	१ झीण	क्षीण	५००	८ हेडिंगके नीचेके	ओली उपरचाहि
४३७	३ लोभ ३ ३ विनका	लोभवना ३ ३ का	५०१	१० लेश	लेशा
४४०	८ ३६१	३६	५०३	११ मरणद्वार	स्वर्गपर्यादद्वार
४४२	२२ अघाति	०	५०६	१३ सयरेगी	सयोगी
४४५	१६ केवली केवली केवली के		५०९	१० पायेचा	पायेचार
४४७	१२ १.१२	१.१३	५११	४ ततिंतीर्था	तीर्थातीत
४५८	नोट स्य	स्वर्ग	५१४	७ प्रमाद	प्रमाद
४५९	७ और	०	५१८	७ ३	६
४६१	८ चउदवा	चउदवा	५२१	१५ निर्जरा	निर्जरा
"	२१ संयोगी	सयोगी		इस सिवाय औरभी	बहुतसी अशुद्धियों इ-
"	२२ सालवा	सोलवा		स पुस्तक में रहगइ है.	जिसका मुख्य सब
४६२	२१ सत्तापाती	सत्ताद्वार		व विहार करने से पुरुषका	करक्सन बरोत्र
४६३	१३ १ अं	५ अं-		र न होना तथा बहुतही	जलदी से काम पू
४६५	८ मागमें	भागमें		रा कराने का है इसलिये	नम्र विनती है-

कि जो जो अशुद्धिया दृष्टि आवे उसे जानाबोगे तो संभार स्वीकार द्वितीया वृत्ति छपने के प्रसंग आनेसे सुधारा किया जायगाजी.

अमोल ऋषि.

श्री मुक्ति-सोपानका अनुक्रमणी.

मङ्गला चरणम्	१	अववेणा, उप्तति, पावति, क्षपति, औ	
परिशिष्ट	२	र द्रव्य परिमाण इन द्वारों के खुलासे	
प्रवेशिका	७	के लिये प्रमाण बोध क हा है जिसमें	
नाम खण्डानुक्रमणी और अर्थद्वार अर्थ	१३	डाला पाला के दृष्टांत से गणित वि-	
प्रश्नोत्तर और प्रवेश द्वार अर्थ.	१५	भाग दर्शाया है.	
उपशम श्रेणिका खुलासा.	१६	क्षेत्र स्पर्शना और क्षेत्र प्रमाण के खु-	
खपक श्रेणिका खुलासा.	३२	लासे के लिये अलोक का और लो-	
लक्षणद्वार और ३४ मिथ्यात्व.	४४	क्रमें रहे मुरस क्षेत्रों का स्वरूप बताया	
शेष दर्शन का स्वरूप.	५२		
नैयायिक दर्शन का स्वरूप	५३	द्वितीय खण्डानु क्रमणी	
वैशाखिक और सांख्य दर्शन	५४	जीव कर्म का स्वरूप और सन्वध	१२८
मीमांस दर्शन का स्वरूप	५७	ज्ञाना वरणी कर्म और ५ ज्ञानका ,,	१२९
चार्वक दर्शन का स्वरूप	५९	दर्शना वरणी कर्म और ९ प्रकृति	१३४
चौथा गु. का अर्थ नवतत्त्व.	६९	वेदनी और मोहनी कर्म २८ प्रकृति	१३६
पांचवे गु. का लक्षण ११ प्रतिमा.	६३	आयुष्य कर्म वन्ध के १६ कारण	१४०
व्रत और अतिचार	६६	नाम कर्म की ९३ प्रकृति अर्थ युक्त	१४१
छठे गु. लक्षण ५ महाप्रत	६९	गोत्र कर्म और अन्तराय कर्म	१५१
सातवे गु. लक्षण ५ प्रसाद	८१	आठों कर्म की १४८ प्रकृति का यंत्र	१५२
छठे दृष्टान्त द्वारका खुलासा	८५	किरिया द्वार का अर्थ २५ क्रिया	१५५
३६३ पाखंडी ५ समवाय	८६	हेतुद्वार ५७ हेतुका खुलासा	१५९
कृष्ण वामुदेव श्रेणिक महाराज	८९	प्रकृति वन्ध कर्म वन्ध के कारण	१६१
दश श्रावको का यंत्र विवेचन	९१	कर्म वन्धके ४ प्रकार ८ ही कर्मोंपर	१६४
धन्नावा सार्थ वाही की कथा	९२	उत्तर प्रकृतियों पर ४ ही वन्ध	१६५
आचार्य धर्म घोषजी की कथा	९३	स्थिति वन्ध के ४ भांडे आठों ही क	
धन्ना अणगारकी कथा	९४	र्मकी और १४८ प्रकृति की ज. उ.	
येय कुमार की कथा.	९५	स्थिति.	१७१
प्रसन्न चन्द्र राज ऋषिजी की कथा	९६	उत्कृष्ट स्थिति वन्ध के श्वाभि	१७५
हरकेशी बल ऋषि की कथा	९७	अनुभाग (रस) वन्ध चौठाणी आदि	१७६
गोतम गणधरका कथा	१००	जयन्य रस वन्ध के श्वाभि	१७८
कुंडरिक पुंडरिक की कथा	१०१	उत्कृष्ट रस वन्ध के श्वाभि	१८१
खन्धक मुनि की कथा	१०२	रस वन्ध के चार प्रकार	१८४
माहावीर श्वाभि कथा	१०३	प्रदेश वन्ध कर्म वर्गणा का खुलासा	१८५
गजमुकुमालजी की कथा	१०४	कर्मोंकी दलिलकी अल्या बहुत	१९६
सातवा गु. का अर्थ पुद्गल परावर्त	१०५	ध्रुव वन्ध की प्रकृति का अर्थ	२००
		अध्रुव वन्धकी कर्म प्रकृतिका अर्थ	२०१

घातिक अघातिक प्रकृतिका अर्थ	२०३	परण, विग्रहगति, स्वर्ग मर्यादद्वार	३११
पुन्य पाप प्रकृति का अर्थ	२०५	चतुर्थ खण्ड.	
परावर्तमान अपरावर्तमान प्रकृति	२०६	धर्मारोहणके ३३ द्वारों का खुलासा	३१३
भूयस्कारादि चारों बन्धका अर्थ	२०८	१२ उपयोगका खुलासा	३१३
उदय-द्वारों और चारों विपाकका अर्थ	२१४	दृष्टि, भव्याभव्य, चरमाचरम, परिता	
ध्रुवोदय अध्रुवोदय को प्रकृति	२१६	परित, पट्टीद्वार, इनका खुलासा	३१४
उदीरणाके द्वारों का अर्थ	२१७	आत्मा, ध्यान ध्यान के पाये	३१६
सत्ताके द्वार और ध्रुवाध्रुव सत्ता	२१८	पट द्रव्य द्वार	३१७
कर्मोंके भङ्ग द्वारों का अर्थ	२१९	परिणाम, वीर्य, तीर्थ, सम्यक्त्व द्वार	३१८
ज्ञानावरणी-दर्शनावरणी के भांग	२२३	संयति, लिंग, चारित्र्य द्वार	३१९
वेदनीय कर्म के भाङ्गे	२२६	नियंटा द्वार ६ निग्रंथार्थ	३२२
मोहनीय कर्म के भाङ्गादि	२२७	कल्प और परिसह द्वार	३२४
आयुष्य कर्म के भाङ्गादि	४२१	प्रमाद द्वार ९ प्रमाद	३२५
नाम कर्म के भाङ्गे १४ गुणस्थानपर	२६९	सरगी वीतरागद्वार	३२६
गौत्र कर्म के भाङ्गे	२८०	पडवाइ, लज्जस्त, समुत्थातद्वार	३२७
अन्तराय कर्म के भाङ्गे	२८१	देवद्वार-५ देवोंके बोल	३२८
बन्धी के और इर्यावही के भाङ्गे	२८१	परिणामी, करण, निवृत्तिद्वार	३२९
पांच भावोंका खुलासा	२८२	आश्रव और संवर के भेद	३३०
पांचों भावोंके भेद सूत्र से	२८४	निर्जरा और करणी फल द्वार	३३१
दशकरण द्वार का खुलासा	२९१	हेयादि, तीर्थकर गौत्र बन्ध २० बोल	३३२
गुणश्रेणीका खुलासा	२९३	तीर्थकर स्पर्श और मोक्ष द्वार	३३३
तृतीय खण्ड.		इति अर्थकांडानु क्रमणी.	
संसारारोहणके ४१ द्वारोंका खुलासा	२९९	अथ मूल खंडानुक्रमणी.	
सामान्य १४ विशेष ५६३ जीव भेद	२९९	प्रवेशिका	३३५
जीवायोनी और कुल कोडी	३०१	मूल ३२द्वारोंके नाम, १ नाम	३३६
ब्रह्म स्थावर और सन्नी असन्नी	३०२	दुसराअर्थद्वार	३३७
भापक, आहारक-ओजादि-सचितादि-		तीसरा प्रश्नोत्तर द्वार	३३९
दिशी आहार, पर्याप्ताद्वारार्थ	३०३	चौथा प्रवेश द्वार	३४४
प्राणाद्वार, इन्द्रियद्वार	३०४	पांचवा-लक्षण द्वार	३४९
इन्द्रिय विषयद्वार खुलासा	२०५	छठा-दृष्टान्तद्वार	३५९
संज्ञा-वेद-कपाय द्वार खुलासा	३०६	सातवा-गुणद्वार	३६५
लेख्याद्वार और जोग द्वार खुलासा	३०७	आठव अक्षेणा द्वार	३६८
शरीर द्वारका विशेषार्थ	३०८	नववा-उत्पति द्रव्य परिमाण	३६९
संघयण द्वारका खुलासा	३१०		

दशवा पावति द्रव्य परिणाम	३७०	६० अघातिक कर्म प्रकृति बन्ध	४११
इग्यारवा स्वपति द्रव्य परिमाण	३७१	६१ पुण्यकर्मबन्ध ६२ पुण्यप्रकृति	४१२
चारवा क्षेत्र परिमाण तेरवा स्पर्शना	३७२	६३ पाप कर्म बन्ध द्वार	४१३
चडदवा कालपरिमाण (स्थिति) द्वार	३७३	६४ पाप कर्म प्रकृति बन्ध	४१४
पन्दरवा काल प्राप्त द्वार	३७५	६५ परावर्तमान कर्म प्रकृति बन्ध	४१५
सोलवा भावपरिमाण' सतरावा निरं-		६६ परावर्तमान कर्म प्रकृति बन्ध	४१६
तर गुण, अठरावा मार्गणा द्वार	३७६	६७ अपरावर्तमान कर्म और ६८ अ	
उन्नीसवा उपमार्गणा द्वार	३७७	परावर्तमान कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	४१७
वीसवा परस्पर मार्गणा द्वार	३७८	६९ भूयस्कार कर्म बन्ध और ७० भू	
इक्कीसवा परस्पर उपमार्गणा द्वार	३७९	यस्कार कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	४१८
२२ उवरोह अवरोह, २३ चडाचडगाति	३७४	७३ अन्पतर कर्म बन्ध, ७२ अल्पतर	
चौवीसवा अन्तरकाल द्वार	३८२	कर्म प्रकृति बन्ध, ७३ अवास्थित कर्म	
२५ विरह' २६ एकभवमें स्पर्शना	३८३	बन्ध.	४२१
२७ बहुतभवमें स्पर्शना २८ परस्पर	३८४	७४ अवास्थित कर्म प्रकृति बन्ध, ७१	
२९ पढमापढम, ३० शाश्वताशाश्वत	३८६	अव्यक्त कर्म बन्ध' ७६ समुचय कर्म	
३१ परभवगमन ३२ भवसंख्या और		प्रकृति बन्ध.	४२२
तेतीसवा अल्पा बहुतद्वार	३८७	७७ कर्म और ७८ कर्म प्रकृति बन्ध	
चौतीसवा किरियाद्वार	३९०	बुच्छति.	४२४
पैंतीसवा मूलहेतु (कारण) द्वार	३९१	७९ कर्मोदयके ३४ द्वारोंके नाम	४१६
३६ मिथ्यात्व हेतु ३७ अविरत हेतु	३९२	समुचयकर्मोदय, ८० ज्ञानावरणादय	४१७
३८ कषायहेतु, १९ योग हेतु	३९३	८१ दर्शनावरणी उदय, ८२ वेदनी	
४० समुचय हेतुद्वार	३९५	उदय, ८३ मोहनीयोदय द्वार	४१८
४१ चार बन्ध ४२ समुचय बन्ध	३९९	८४ आयुष्योदय ८५ नामोदय द्वार	४१९
४१ ज्ञानावरणी ४४ दर्शनावरणी'	४००	८६ गोत्र कर्मोदय द्वार	४३१
४५ वेदनीय, ४६ मोहनीय बन्ध	४०१	८७ अन्तरायो दय' ८८ ध्रुवकर्मोदय	
४७ आयुष्य कर्म प्रकृति बन्ध	४०२	८९ ध्रुवकर्म प्रकृतियों द्वार	४३२
४८ नाम कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	४०३	९० अध्रुव कर्म, ९१ अध्रुव प्रकृति	४३३
४९ गोत्रकर्मबन्ध, ५० अन्तरायबन्ध		९२ पुन्य कर्मोदय द्वार	४३४
५१ ध्रुवकर्मबन्ध ५२ ध्रुवप्रकृतिबन्ध	४०५	९३ पुस्य कर्म प्रकृतियों दय	४३५
५१ अध्रुवकर्मबन्ध ५४ अध्रुवप्रकृति	४०६	९४ पाप कर्मोदय द्वार	४३५
५५ सर्व घातिक कर्म बंध द्वार	४०८	९५ पाप कर्म प्रकृतियों दय	४३६
५६ सर्व घातिक कर्म प्रकृति बंध	४०९	९६ क्षेत्र विपाक कर्मोदय, ९७ क्षेत्र	
५७ देशघातिक कर्म बन्ध, ५८ देश-		विपाक प्रकृति, ९८ भवविपाककर्म	४३७
घातिक कर्मप्रकृति बन्ध १९ अघाति	४१०	९९ भवविपाक कर्म प्रकृतियों दय	४३८

१०० जीवविपाक कर्मोदय द्वार	४३८	१३९ सर्वघातिकर्म प्रकृतिसत्ताद्वार	४६१
१०१ जीवविपाक प्रकृतियोदय	४३८	१४० देशघातिक कर्म सत्ताद्वार	४६१
१०२ पुद्गल विपाक कर्मोदय द्वार	४३९	१४१ देशघातिक कर्म प्रकृतिसत्ताद्वार	४६२
१०३ पुद्गल विपाक कर्मप्रकृतियोदय	४३९	१४२ अघातिक कर्म सत्ताद्वार	४६२
१०४ सर्व घातिक कर्मोदय द्वार	४४०	१४३ अघातिकर्म प्रकृति सत्ताद्वार	४६२
१०५ सर्व घातिक कर्म प्रकृतियोदय	४४१	१४४ समुचय कर्म प्रकृति सत्ताद्वार	४६३
१०६ देशघातिक कर्मोदय द्वार	४४१	१४५ कर्म सत्ता व्युच्छतिद्वार	४६३
१०७ देशघातिक कर्म प्रकृतियोदय	४४२	१४६ कर्म प्रकृति सत्ता व्युच्छति	४६३
१०८ अघातिक कर्मोदय द्वार	४४२	कर्म भङ्गादि १२ द्वार.	
१०९ अघाति कर्म प्रकृतियोदय	४४२	१४७ समुचय कर्म भंग द्वार	४६७
११० समुचय कर्म प्रकृतियोदय	४४५	१४८ ज्ञानावरणीय कर्म भंग द्वार	४६८
१११ समुचय कर्मोदय व्युचति द्वार	४४५	१४९ दर्शनावरणीय कर्म भंग द्वार	४६९
११२ समुचयकर्मप्रकृतियोदयव्युच्छति	४४५	१५० वेदनीय, १५१ मोहनीय भंग	४७०
कर्म उदीरणाके १२ द्वारों.		१५२ आयुर्कर्म भंग द्वार	४७२
११३ समुचय कर्म उदीरणा द्वार	४४७	१५३ नाम कर्म भंग द्वार	४७५
११४ ज्ञानावरणी, ११५ दर्शनावरणी	४८४	१५४ गोत्रकर्म भंग द्वार	४७६
११६ वेदनीय, ११७ मोहनीय उ०	४४९	१५५ अन्तराय कर्म भंग द्वार	४७७
११८ आयुर्कर्म, ११९ नामकर्म उ०	४५०	१५६ बन्धी के भंग द्वार	४७८
१२० गोत्रकर्म, १२१ अन्तरायकर्म उ.	४५१	१५७ इर्यावही के भंग द्वार	४७९
१२२ समुचयकर्म प्रकृति उदीरणा	४५१	भावादि १३ द्वार.	
१२३ कर्म उदीरणा व्युच्छति द्वार	४५३	१५८ मूल भाव द्वार	४८०
१२४ कर्म प्रकृति उदीरणा व्युचति	४४३	१५९ औदयिक भाव द्वार	४८१
कर्म सत्ताके १२ द्वार.		१६० ओपशामिक भाव द्वार	४८१
१२५ समुचय कर्म सत्ताद्वार	४५५	१६१ क्षयोपशामिक, १६२ क्षायिक भा	४८२
१२६ ज्ञानावरणी कर्म सत्ता द्वार	४५५	१६३ परिणामिक भावद्वार	४८३
१२७ दर्शनावरणीय, १२८ वेदनीयस	१५६	१६४ सन्धी पातिक भावद्वार	४८३
१२९ मोहनीय कर्म सत्ताद्वार	४५६	१६५ समुचय भाव भेद द्वार	४८४
१३० आयुष्य कर्म सत्ताद्वार	४५७	१६६ श्रेणीद्वार	४८६
१३१ नाम, १३२ गोत्र, १३३ अन्तराय	४५८	१६७ कर्मवेद, १६८ कर्म निर्जरा	४८७
१३४ प्रव कर्म सत्ता द्वार	४५९	१६९ दशकरण, १७० गुणश्रेणीद्वार	४८७
१३५ प्रव कर्म प्रकृति सत्ताद्वार	४५९	१७१ आगातिद्वार	४८९
१३३ अश्रुव कर्म सत्ता द्वार	४६०	१७२ पागति, १७३ जागति १७४ आ-	
१३७ अश्रुव कर्म प्रकृति सत्ताद्वार	४६०	जाति, १७५ पाजाति	४९८
१३८ सर्व घातिक कर्म सत्ताद्वार	४६१	१७६ जाजाति, १८७ आकाया, १७८	

कायाद्वार

१७९ जाकाया, १८० आदंडक,	४९१	२१७ दृष्टि, २१८ भव्याभव्य, २१९ चरमाचरम, २२० परितापरित, २२१	
१८१ पादंडकद्वार-	१९२	पट्टी द्वार	५०६
१८२ जाडंडक, १८३ जीवभेद,	१९३	२२२ आत्मा, २२३ ध्यानद्वार,	५०८
१८४ विपेश जीव भेदद्वार	४९४	२२४ ध्यानके पाये द्वार,	५०९
१८५ जीवायोनी, १८६ कुलकोडी,	४९५	२२५ द्रव्य, २२६ परिणाम, २२७	
१८७ सूक्ष्म वादर, १८८ त्रसस्थार,		वीर्य द्वार .	५१०
१८९ सन्नीअसन्नी द्वार	४९६	२२८ तीर्थातीर्थ, २२९ सम्यक्त्व,	
१९० भाषक अभाषक, १९१ अहारक		२३० संयतासंयति, २३१ लिंगद्वार	५११
अनारक, १९२ ओजादि आहार	४९७	२३२ चारित्र, २३३ भव्याभव्यद्वार	५१२
१९३ सचितादि आहार द्वार, १९४		२३४ कल्प, २३५ परिसह,	५१३
दिशी आहार द्वार,	४९८	२३६ प्रमाद, २३७ सरागी, वीतरागी	
१९५ पर्याप्ता अपर्याप्ता द्वार		२३८ पडवाइ अपडवाइ	५१४
१९६ पर्याद्वार	४९८	२३९ छद्मस्त केवली, २४० समुदघा	
१९७ प्राणद्वार	४९९	त, २४१ देवद्वार.	५१५
१९८ इन्द्रिय, १९९ इन्द्रिय विषय,		२४२ परिणामी द्वार,	५१६
२०० सज्ञाद्वार,	५००	२४३ करण द्वार	५१७
२०१ वेदद्वार, २०२ कषाय द्वार,		२४४ निवृत्ति द्वार	५१८
२०३ लेशाद्वार, २०४ योग द्वार,	५०१	२४५ आश्रव द्वार	५१९
२०५ शरीर, २०६ संघयण, २०७		२४६ संवर द्वार	५२०
संटाण २०८ मरण द्वार	५०२	२४७ निर्जरा, २४८ निर्जरा भेद	
२०९ विग्रहगति, २१० स्वर्गकी मर्या		द्वार, २४९ करणी फल द्वार	५२१
दा, २११ षटस्थान	५०३	२५० तीर्थकर गोत्रोपार्जना, ५२१	
२१२ मूल उपयोग द्वार	५०५	तीर्थकर स्पर्शना, और २५२ मोक्ष	५२२
२१३ अज्ञान, २१४ ज्ञान, २१५ द-		इनके २५२ द्वारों के संक्षेपित यंत्र.	
र्शन, २१६ समुचे उपयोग,	५०६	इति मुक्तिसोपानकी अनुक्रमणी.	

ग्रंथ प्रसिद्ध कर्ताका संक्षिप्त जीवन चरित्र.

दक्षिण हैद्राबाद में दिल्ली जिल्लेके कानोड (महेंद्रगढ) से आकर निवाल करने वाले अग्रवाल वंशमें शिरोमणि-धर्म-न्याय-विनय दया क्षमा उदारता--निर्भमानता आदि गुणों युक्त लालजी साहेब नेतरामजी के सु पुत्र रामनारायणजी का जन्म संवत् १८८८ पौष वद ९ का हुआ, और उनके सु पुत्र सुखदेव सहायजीका जन्म संवत् १९२० पौष सुद १५ का हुआ, और उनके सुपुत्र ज्जालाप्रसादजी का जन्म संवत् १९५० के श्रावण वदी १ का हुआ. उक्त तीनों लालाजीने सनातन जैन धर्म के पुज्य श्री मनोहरदासजी महाराजकी सम्प्रदायके पूज्य श्री मंगलभेनजी स्वामी पास सम्यक्त्व धारण करी है. परन्तु यहां हैद्राबाद में आये पीछे साधु दर्शन न होनेसे जैन मंदिर में जाते थे, और हजारों रुपये खर्चकर मनहर मंदिर भी यहां बनाया है. तथा प्रभावना स्वामीवत्सल आदि कार्यों में अच्छी मदद करते हैं; यहांके जौहरी वर्गमें अग्रेसर हैं, और राज्य दरबार में लाखों रुपैया लेनदेन करते हैं.

लालाजीके तर्फसे एक दानशाला हमेशा चालु है, और भी सदाव्रत अनाथोंकी सहायता वगैरा पुन्य कार्य अच्छी तरह करते हैं. संसारिक प्रभंगों में भी लखों रुपैया व्यय इन्होंने किया है, ऐसे श्रीमंत होने पर भी बिलकुल अभीमान नहीं है.

जबसे तपस्वीजी श्रीकेवल ऋषिजी महाराज और इनकी सेवामें बालब्रह्मचारी धुनि श्री अमोलल ऋषिजी महाराजका यहां विराजना हुआहै तबसे लालाजी सुखदेव सहायजी जरूरी कारण शिवाय हमेशा व्याख्यान श्रवण का लाभ लेते हैं, एकसे ९ वर्ष शास्त्रादि श्रवणकर शास्त्रकी रहस्योंमें बहुत दीर्घ बुद्धिवान बनेहैं. उपभोग परिभोग से बहुत सी रुची मन्द हुई है, संसार के हरेक कार्यो पापारंभ को घटाकर यत्नका प्रति बंध किया है, और ज्ञान वृद्धी के शोकीन हो 'जैन तत्व प्रकाश' परमात्म-मार्ग दर्शक, ध्यान कल्पतरु, मुक्ति सोपान जैसे बड़े, २ ग्रन्थों, तथा और भी चरित्रों वगैरा हजारों ग्रन्थों, हजारों रुपये का सद व्ययकर छपाकर प्रसिद्ध कर जो हिंदू के जैन वर्ग आदि को अमूल्य ज्ञानका लाभ दे उपकार किया तथा कर रहे हैं. औरभी इन्होंने तीन वर्षसे सूती हुई श्वे० स्था० जैन कान्फरन्स को जाग्रत कर ता. १२-१३-

१४ अप्रैल १९१३ को तिकन्द्रावादमें भाराड़ जिसमें रु. २१००० का सद्व्यय किया, और ७४०० रुपये देकर स्था. कान्फरन्स आफिस को बड़ा प्रेस सब सामग्री युत बना दिया. और भी हजारों रूपका सद्व्यय कर हैदरावाद में एकही वक्त चारों सत्पूरुषोंकी दिक्षा उत्सव किया. तैसे ही प्रथम अपने देशमें भी केइयोंके दिक्षा दिराइ है. ऐसे और भी गुप्त दान अवसर उचित कर यथा अवसर यथा उचित द्रव्य व्यय कर रहे है. यों तन धन धन कर यथा शक्ति धर्म दीपा रहे हैं, यह लालाजी साहेब की धर्म फैलाव की उत्कंठा हरेके श्रीमंतोंको अनुकरण करने जैसी है. ऐसे उदार कृत्यों से धर्म दीपता है, सदज्ञान के प्रसारसे अपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय होते हैं, और पढनेवाले को सुगने वालेको, यों एकेकसे आगे अनेक जीवों को महा लाभ मिलता है. इसलिये यह बात सब ध्यान में ले यथा शक्ति धर्मी वृद्धि करेंगे. इस हेतुसे ही यह संक्षिप्त जीवन चरित्र यहां दिया है.

गुणानुरागी,
सेक्रेटरी-ज्ञान वृद्धि खाता.

जैनधर्म विदाकर प्रसिद्ध आचार्य १००८ पृथ्वी
शुभाथली महाराज पं० शशी श्रीज्ञानचन्द्रजी
महाराज मुनि श्रीशुशालचन्द्रजी म० श्री जयचन्द्रजी





॥ श्री ॥



मुक्ति - सोपान.



अपर नाम

गुणस्थान रोहण-अद्वैतद्वारी

श्री मंगला चरणम्-गाथो

अह मुइअ सयल जग सिहर । मरुव निरुवम सहाव सिद्धि मुहं॥
अनियण मब्बावाहं । ति-रयण सारं अणु हवांति तं वंदामि ॥१॥

अर्थ—इष्टितार्थ सिद्धि करनेके लिये मैं प्रथम श्री परमात्मा को नमस्कार करता हूँ. वो परमात्मा कैसे है? तो कि-सर्वांश कर्मोंका क्षय कर 'मुइअ'—अर्थात् परम शुचि—परम पवित्र हुवे हैं, जिससे 'सयल जग सिहर'—अर्थात् सकल जगत् में जो सुख है, उन सर्व सुखोंसे उत्कृष्ट-अधिक सुख प्राप्त किया है, वो परमात्माका सुख कैसा है? तो कि-'अरुज'—अर्थात् शरीरिक रोगादि और मानसिक चिन्तादि इत्यादि दुःखों से रहित है, क्योंकि-जहां शरीर और मन दोनों का अभाव है, वहां उन से प्राप्त होते हुवे दुःख होवेही कहां से? अर्थात्—नहीं होवे; इसलिये परमात्मा का सुख 'निरुवम'—अर्थात्—ओपमा रहित निरोपम है. क्यों कि—जिसका अनुभव (समझ) शरीर या मनसे होवे तो उसको किसीभी प्रकार के पदार्थिक सुखकी ओपमा देकर बता सकें; परन्तु ऐसा पदार्थ इस संसारमें कोई हैही नहीं कि जिस की ओपमा दे सिद्ध परमात्माके सुखकी तुल्यना कर बतावें. क्योंकि—वो सिद्ध परमात्मा का सुख 'सहाव'—अर्थात् स्वभाव सेही उत्पन्न हुवा-स्वभाविक है, न कि-संसारिक सुखों के जैसे पर कृत्रिम होवे. इसलिये सिद्ध परमात्माके सुखकी ओपमा देकर बतावें ऐसा कोई पदार्थ हैही नहीं. तो फिर वो सुख कैसा है? तो कि-'सिद्धि मुहं'—अर्थात् सिद्ध परमात्मा का सुख 'तिरयण सारं'—अर्थात् ज्ञान दर्शन औ-

र चारित्र्य इन तीनों-सार पदार्थ रत्नों समान धर्मका प्रति पूर्ण पनें-यथातथ्य (जैसी तरहसे करना चाहिये वैसीही तरहसे) आराधना-पालना-स्पर्शना-अन्त तक करने से प्राप्त हुआ है. इसलिये उस सुख का 'अनियण'-अर्थात् कदापि नाश नहीं होता है-अन्त नहीं आता है-ऐसा अनन्त है. और 'मन्वावाह'-अर्थात् उस सुख में कदापि किसी प्रकार की किञ्चित मात्र ही व्याधी, विकल्पता मिश्रता या किञ्चित मात्र नुन्यता-कभी पना होताही नहीं है. ऐसे परम सुख को जो "अणु ह्वंति"-अर्थात् अनुभव लेते हैं-भोगवते हैं, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा त्रि-करण त्रियोगकी विशुद्धि से वारम्बार वन्दना नमस्कार होवो!

❀ परिशिष्ट ❀

यह विश्व अनन्तान्त जीवों से प्रति पूर्ण भरा हुआ है. वे सब जीव गुणकी अपेक्षा से अनन्त प्रकार के हैं, जैसे-ज्ञानादि गुणों में सब से हीन गुण के धारक-और चैतन्यतादि लक्षणों में सब से हीन शक्ति के धारक सूक्ष्म निगोद के जीवों हैं उन जीवों में से कभी कोई एक जीव एकार्थ अंश अधिक गुणकी वृद्धि होने से ऊंच दिशाको प्राप्त होता है, यों अन्त गुण पुण्याधिक होते सूक्ष्म निगोद से निकल बाहर (बड़े) निगोद मय शरीर को प्राप्त होता है, वहां भी अनन्त गुणाधिक पुण्य होने से प्रत्येक एकेन्द्रिय-पृथ्व्यादि स्थावर काय में आता है, यों अनुक्रम से अन्तान्त गुण पुण्याधिक होते द्वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय-असंज्ञीय पचेन्द्रिय-संज्ञीय पचेन्द्रिय-तरक-देव मनुष्य-पर्याय तक प्राप्त करता है. यहां तक आकर कोईक जीव सर्व दुर्गुणों का सर्वांश नाश कर संपूर्ण गुण मय जब आत्मा बन जाता है तब सर्वज्ञतादि गुण प्रगट होते हैं, उस आत्मा को साकारी (शरीर धारक) परमात्मा कहते हैं. और कुछ काल सकार रहेबाद शरीरादि सर्व संयोगों का सर्वांश त्याग होते निजात्म के स्वाम निज एकही स्वरूप मय जब आत्मा हो सिद्ध स्थान को प्राप्त करता है, उस आत्मा को परम परमात्मा कहा जाता है. वोही आत्मा मंगलाचरण में कथन किये मुजब अनो-पम निराबाध परम सुखका अनुभव करता है, सुख भुक्तता है. और उपरोक्त कथन मुजब जो जीवों सहज स्वभाव से निपजते हुवे पुण्याधिकतासे आकर्षा कर संज्ञी पर्याय तक आये हैं ज्ञानादि गुण कुछ विशेषांस जिदकी आत्मा में प्रकाश हुवे हैं, वो-

जीवों श्री आचारांग सूत्र के प्रथमाध्याय के कथनानुसार 'सहसम्भी मड्याए' अर्थात् स्वानुभव (जाति स्मरणादि ज्ञान) से जानकर, या 'परवागरणाणं' अर्थात्-तत्त्वज्ञोंद्वारा श्रवण कर, 'अन्नेसिं अन्ति एवा सोच्चा' अर्थात्-किसी का सहज वचन श्रवणकर या ग्रन्थों में पठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमात्माके परम सुख के ज्ञाता-जानकार हुवे हैं, उन को परम सुख प्राप्त करने की जिज्ञासा-अभिलाषा होवे यह स्वभाविक ही है. उनकी जिज्ञासा-इच्छा पूर्ण करने जो आत्मा सर्वज्ञ-सकार परमात्मा पद को प्राप्त हुवे हैं उनोंने स्वानुभव द्वारा निश्चयात्म पूर्वक परम परमात्मा पद को प्राप्त करने के अन्तान्त गुणों को ज्ञान कर जाने हैं, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागने - समझाने और उन गुणों में जीवों को लगा कर मार्ग में प्रवर्तित कर परमपद प्राप्त करने जितना काल - समय निज पर का न होने से कार्य कौं असाध्य जान परम कृपालु अर्हंत - सर्वज्ञ देव ने मुमुक्षुओंपर अत्यंत करुणा दृष्टि कर परमात्म पद प्राप्ति के कार्य को सहज साध्य बना देने -स्वल्पज्ञों कौं समझा देने उन परमात्मा पद प्राप्ति के अनंतानंत गुणों का समावेश कुछ स्वल्प (थोड़ी) संख्या में करना उचित समझा कि जिस से सर्व मुमुक्षुओं - परमात्म पद के इच्छकों सहज में समझें और परमात्म पद प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्ति कर परमात्म के परम सुख के भुक्ता बनें. इस हेतु से उन अनंत गुणों का शिर्फ चउदह (१४) बातों मेंही समावेश कर दिया और उनका नाम 'चउदह गुणस्थान' या 'चउदह जीवस्थान' स्थापन क्रिया. इतनी थोड़ी संख्या में होने से मुमुक्षुओं शीघ्र समझ जावें परमात्म स्थान को प्राप्त करने, उत्ताही बने, प्रयत्न शील हो पर्याप्त करें, और परमात्मा बन अनन्त सुख कौं भुक्ते.

उन १४ गुणस्थान के नाम इस प्रकार हैं:—

मिच्छे सासण मिस्से । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥

निअट्टि अनिअट्टि सुहुम । व सम खीण सजोगी अजोगी गुण ॥

अर्थ—“प्रथम विध्यात्म गुणस्थान”—जगत निवासी प्रायः सभी जीवों का मूलस्थान अनादि से यही है, कर्मों रुपी महा भेद्य घटा से अच्छादित हुवा चैतन्य चंद्र मूर्छित - वे भान दिशा में पडा हुवा काल लब्धि परि पक होते-व्याधि वेदनादि सहने से - कुछ कर्मोंश पतले पडने से - स्व स्वभाव से - मतव्य ताके योग्य सहज-ही ऊंचा आता है - वो पुण्यांश की प्रबलता कर अज्ञान तपश्चरणादि के प्रभाव से इक्कीसवा स्वर्ग (नववीं ग्रन्थक तक चले जाता है. इस स्थान में रही हुई आत्मा इतने

विवाग अट्टघाड - छक्क - उदय विच्छ हो दुग्गे ॥

ऊदीरणा दह विच्छोहदु, धुव्वचउ सत्तानव घाड छक्क विच्छोह दुग्गे।६

भङ्ग नव बन्ध इरिया । भावट्ट सेणी वेए निज्जरा ॥

करण गुण सेणीओ । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतद्वारा॥७॥

अर्थ-कम्म सत्त भाग तीअठ सत्तद्वारा' कहतां-दूसरा कर्मरोहण खंड के सां-
तो प्रकरण के विल १.३७ द्वारः—(१.) कर्मोत्पत्ति प्रकरण के ७ द्वारः—'किरिया'
कहतां प्रथम-किरिया द्वार, 'कारण' क० दूसरा मूलहेतु (कारण) द्वार, 'हेउपंच'
क० हेतुके पांच द्वारः-तीसरा-भिध्यात्व हेतु द्वार, चौथा अविरत हेतु द्वार, पांचवा कपाय
हेतु द्वार, छठा-जोग हेतु द्वार, सातवा-समुचय हेतु द्वार. (२) कर्म बंध प्रकरण के
३८ द्वारः—'चउ बंध' क० प्रथम चार बंध द्वारः- " नव कम्म बंध ओ " क० कर्म
बंध के ९ द्वारः - दूसरा-समुचय कर्म बंध द्वार, तीसरा-ज्ञानावरणीय कर्मबंध द्वार-
चौथा दर्शनावरणीय कर्मबंध द्वार, पांचवा वेदनीय कर्मबंध द्वार, छठा-मोहनीय क-
र्म बंध द्वार, सातवा आयु कर्मबंध द्वार, आठवा नाम कर्मबंध द्वार, नवमा-भोत्र कर्म
बंध द्वार, दशवा अंतराय कर्म बंध द्वार. 'धुव्व चउकं" ध्रुव बंध के चार द्वारः-इग्या-
रवा-ध्रुवकर्म बंध द्वार, बारवा-ध्रुव कर्म प्रकृति बंध द्वार, तेरवा-अध्रुव कर्म बंध द्वार,
चउदवा-अध्रुव कर्म प्रकृति बंध द्वार, 'घाड छक्क' क० घातिक कर्म के छे द्वारः- पंद-
रवा-सर्व घातिक कर्म बंध द्वार, सोलवा-सर्व घातिक कर्म प्रकृति बंध द्वार, सतरवा
देश घातिक कर्म बंध द्वार, अठारवा-देश घातिक कर्म प्रकृति बंध द्वार, उन्नीसवा-अ-
घातिक कर्म बंध द्वार. 'पुण्य पाव दुग्गे' क० पुण्यके दो और पापके दो द्वार-इक्कीस-
वा-पुण्य कर्म बंध द्वार, बावीसवा-पुण्य कर्म प्रकृति बंध द्वार, तेवीसवा-पाप कर्म बंध
द्वार, चौवीसवा-पाप कर्म प्रकृति बंध द्वार. 'परावत्त चउ' क० परावर्त मान कर्म बंध
के चार द्वारः—पच्चीसवा-परावर्त मान कर्म बंध द्वार, छब्बीसवा-परावर्तमान कर्म
प्रकृति बंध द्वार, सत्तावीसवा-अपरावर्त मान कर्म बंध द्वार, अठावीसवा-अपरावर्तमान
कर्म प्रकृति बंध द्वार. "भुयकार अप्प अवठी दुग्गे" क. भुयस्कार के दो, अल्पतरके
दो, और अवस्थित के दो यों छे द्वारः—उन्नतीसवा-भुयस्कार कर्म बंध द्वार, तीस-
वा-भुयस्कार कर्म प्रकृति बंध द्वार, इकतीसवा - अल्पतर कर्म बंध द्वार, वत्तीसवा
अल्पतर कर्म प्रकृति बंध द्वार, तेंतीसवा अवस्थित कर्मबंध द्वार, चौतीसवा-अवस्थि-

त कर्म प्रकृति बंध द्वार, पैंतीसवा अव्यक्त कर्म बंध द्वार. 'बन्ध' क० छत्तीसवा-समुचय कर्म बंध द्वार, 'विच्छेद दुगे' क० विच्छेदके दो द्वारः-पैंतीसवा कर्म बंध विच्छेद द्वार, अड़तीसवा कर्म प्रकृति बंध विच्छेद द्वार. (३) कर्मोदय प्रकरण के ३६ द्वार 'कर्मोदय नव' क० कर्मोदय के ९ द्वारः-प्रथम-मूळ कर्मोदय द्वार, दूसरा-ज्ञानावरणीय कर्मोदय द्वार, तीसरा-दर्शनावरणीय कर्मोदय द्वार, चौथा-वेदनीय कर्मोदय द्वार पांचवा-मोहनीय कर्मोदय द्वार, छठा-आयु कर्मोदय द्वार, सातवा- नाम कर्मोदय द्वार आठवा-गोत्र कर्मोदय द्वार, नववा अंतराय कर्मोदय द्वार. 'ध्रुव चउ' क० ध्रुव कर्मोदय के चार द्वारः-दशवा-ध्रुव कर्मोदय द्वार, इग्यारवा ध्रुव कर्म प्रकृतियोदय द्वार, बारवा-अध्रुव कर्मोदय द्वार, तेरवा-अध्रुव कर्म प्रकृतियोदय द्वार, "पुण्य पावचउ" क० पुण्यके दो और पापके दो यों चार द्वार-चउदवा-पुण्य - कर्मोदय द्वार, पंदरवा-पुण्य कर्म प्रकृतियोदय द्वार. सोलवा-पाप कर्मोदय द्वार, सत्तरवा- पाप कर्म प्रकृतियोदय द्वार. 'चउ विवाग अट्ट' क० चार विपाको के ८ द्वारः-अठारवा-क्षेत्र विपाक कर्मोदय द्वार, उन्नीसवा-क्षेत्र विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, बीसवा भव विपाक कर्मोदय द्वार, इक्कीसवा भव विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, बाबीसवा जीव विपाक कर्मोदय द्वार, तेबीसवा - नीव विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, चौबीसवा-पुद्गल विपाक कर्मोदय द्वार, पच्चीसवा - पुद्गल विपाक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, 'घाड़ छक्क' क० घातिक कर्मोदय के ६ द्वारः-छव्वीसवा-सर्व घातिक कर्मोदय द्वार, सत्ताबीसवा-सर्व घातिक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, अट्टाबीसवा - देश घातिक कर्मोदय द्वार, उन्नतीसवा-देश घातिक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, तीसवा - अघातिक कर्मोदय द्वार, इकतीसवा-अघातिक कर्म प्रकृतियोदय द्वार, 'उदय' क० वत्तीसवा- समुचय कर्म प्रकृतियोदय द्वार. 'विच्छेद दुगे'-कर्मोदय विच्छेद के दो द्वारः-तैंतीसवा-कर्मोदय विच्छेद द्वार, चौतीसवा-कर्म प्रकृतियोदय विच्छेद द्वार. (४) कर्म उदीरणा प्रकरण के १२ द्वारः- 'उदीरणा दश' क० कर्मोकी उदीरणा के १० द्वारः- प्रथम-समुचय कर्मोदीरणा द्वार, दूसरा - ज्ञानावरणीय कर्म उदीरणा द्वार, तीसरा-दर्शनावरणीय कर्म उदीरणा द्वार, चौथा-वेदनीय कर्म उदीरणा द्वार, पांचवा - मोहनीय कर्म उदीरणा द्वार, छठा-आयु कर्म उदीरणा द्वार, सातवा-नाम कर्म उदीरणा द्वार आठवा-गोत्र कर्म उदीरणा द्वार, नववा-अंतराय कर्म उदीरणा द्वार, दशवा - समुचय कर्म प्रकृति उदीरणा द्वार. 'विच्छेद दुगे' क० व्यच्छेद के दो द्वारः-इग्यारवा-कर्म

उदीरणा व्यच्छेद द्वार, चारवा-कर्म प्रकृति उदीरणा व्यच्छेद द्वार. (५) कर्म सत्ता प्रकरण के २२ द्वारः—‘सत्तानव’ क.कर्म सत्ता प्रकरण के ९ द्वारः— पहिल्या समुचय कर्म सत्ताद्वार, दूसरा-ज्ञानावरणीय कर्म सत्ताद्वार, तीसरा-दर्शनावरणीय कर्म सत्ताद्वार, चौथा-वेदनीय कर्म सत्ताद्वार, पांचवा - मोहनीय कर्म सत्ताद्वार, छटा-आयु कर्म सत्ताद्वार, सातवा-नाम कर्म सत्ताद्वार, आठवा-गोत्र कर्म सत्ताद्वार, नववा अंतराय कर्म सत्ताद्वार, ‘ध्रुवचउ’ क. ध्रुव कर्म सत्ताके ४ द्वारः—दशवा ध्रुव कर्म सत्ताद्वार, इग्यारवा-ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता द्वार, बारवा अध्रुव कर्म सत्ता द्वार, तेरवा अध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता द्वार “घाइ छक्कं” क.घातिक कर्म प्रकृति सत्ता के ६ द्वारः—चउदवा सर्व घातिक कर्म प्रकृति सत्ता द्वार, पंदरवा - सर्व घातिक कर्म प्रकृति सत्ताद्वार, अठारवा-अघातिक कर्म सत्ताद्वार, उन्नीसवा - अघातिक कर्म प्रकृति सत्ताद्वार, ‘सत्त’ क० बीसवा - समुचय कर्म प्रकृति सत्ताद्वार, “विच्छेद दुग्गे” क० कर्म सत्ता विच्छेद के दो द्वारः—इक्कीसवा - कर्म सत्त विच्छेद द्वार, बावीसवा-कर्म प्रकृति सत्ता विच्छेद द्वार, (६) कर्म भंग प्रकरण के ११ द्वारः— “भंग नव” कर्मों के भांगके ९ द्वार-पहिल्या - समुचय कर्म भंग द्वार, दूसरा-ज्ञानावरणीय कर्म भंग द्वार, तीसरा - दर्शनावरणीय कर्म भंग द्वार, चौथा वेदनीय कर्म भंग द्वार पांचवा मोहनीय कर्म भंग द्वार, छटा आयु कर्म भंग द्वार सातवा नाम कर्म भंग द्वार, आठवा गोत्र कर्म भंग द्वार, नववा अंतराय कर्म भंग द्वार, ‘बाधि’ क० दशवा बंधी भंग द्वार, ‘इरिया’ क० इग्यारवा इर्यावही भंग द्वार. (७) भावादि प्रकरण के १३ द्वारः—‘भवउ’-भाव के ८ द्वारः—पहिल्या-मूल भावद्वार, दूसरा-उदय भाव द्वार, तीसरा उपशम भावद्वार, चौथा क्षयोपशम भाव द्वार, पांचवा - क्षायिक भाव द्वार, छटा परिणाधिक भाव द्वार, सातवा सन्नीपातिक भाव द्वार, श्रेणी-क० आठवा श्रेणीद्वार, ‘वेद’ क० नववा कर्म वेदे द्वार, ‘निज्जरा’ दशवा कर्म निर्जरा द्वार. ‘करण’ क० इग्यारवा दश करण द्वार. ‘गुणमेणी’ क०—बारवा गुण श्रेणी द्वार यह सब कर्मरोहण त्वण्डके १३७ द्वार हुवे.

गाथा—गइ जाइ काय दण्डग । तित्तिओ जीव दुय योनी कुलओ॥
सुहुम तस्स सन्नी । भासग आहारत्तिय पयाय दुग्गे ॥८॥
पाण इन्द्रियहु सन्ना । वेए कसाय लेसा योग सरिर ॥

संघयण संठाण मच्चु । विग्गह सग्ग दव्व संसार दारा ॥१॥

अर्थ—तीसरा-संसारारोहण खण्ड के ४१ दारः—'गइ जाइ काय दण्डमं त्तित्तिओ' कहतां-गति जाति काया और दंडक इन चारों के तीन तीन दार होनेसे १. २ दार होते हैंः—प्रथम-आगति दार, दूसरा-पागति दार, तीसरा-जागति दार, चौथा-आजाति दार, पांचवा-पाजाति दार, छठा - जाजाति दार, सातवा- आकाया दार, आठवा-पाकायादार, नववा-जाकायादार, दशवा-आदण्डकदार, इग्यारवा-पादण्डकदार, बारवा-जादण्डक दार, 'जीव दुग्गे'—जीवके दो दारः—तेरवा-सामान्य जीवके भेद दार, चउदवा-विशेष जीवभेद दार, पंदरवा-योनी' क० जीवा योनी दार; सोलवा-कुल क्रोडी दार; 'सुहुम' क० सत्तरवा - सूक्ष्म वादर दार; 'तस्स' क० अठारवा-वस स्थावर दार; 'सन्ती' क० उन्नीसवा-सन्नी असन्नीदार; 'भात्तग'—वीसवा-भापक अभापक दार, 'आहार चउ' - आहारकके चारदारः- एक्कीसवा-आहारक अगाहारक दार; बावीसवा-ओजादि आहार दार; तेवीसवा-सच्चित्तादि आहारदार; चौवीसवा-दिशी आहार दार; 'पयाय दुग्ग'—पर्या के दो दारः—पच्चीसवा-पर्या दार; छत्वीसवा-पर्यासा अपर्यासा दार. 'पाण' क०—सत्तावीसवा-प्राणदार 'इन्द्रिय दुग्गे' इन्द्रियके दो दार; अठावीसवा-इन्द्रियदार, उन्नतीसवा-इन्द्रिय विष दार. 'सन्ना' क० तीसवा-सद्वादार, 'वेए' के० इकतीसवा-वेददार, 'कपाय' क० बत्तीसवा-कपायदार. 'लेशा' क० तैंतीसवा - लेशादार, 'योग' चौतीसवा - योग दार, 'सररीर' क० पैंतीसवा-शरीर दार, 'संघयण' क० छत्तीसवा-संघयणदार, 'संठाण'क० सैंतीसवा-संस्थान दार, 'मच्चु' क० अडतीसवा-समोयामयोय मरण दार, 'गइ' क० उन्नचालीसवा-विग्रहगति दार, 'सग्ग' क० चालीसवा-स्वर्ग की मर्यादा दार, और 'दव्व' एक चालीसवा-पटद्रव्य दार.

गाथा-उवओग पंच दिट्ठी । भव चरम परित पयवी आया ॥

ज्ञाण पाये दव्व । परिणाम वीय तित्थ समत्त संजाय ॥१०॥

लिङ्ग चरित नियंठा । कप्प परिस्सह पम्माय रागीय ॥

पडित छउम समुठघाए । देव परिणामी करण निव्वात्ति ॥११॥

आसव संवर निज्जराहु । फल तित्थ गोय तित्थ पासे ।


मोक्खस कारण ओ । ए एक चालीस धम्मदारा ॥१२॥


अर्थ-धर्मरोहण खण्डके ४१. द्वारः—‘उवओग पंच’ क० उपयोग के पांच द्वारः—प्रथम—मूल उपयोग द्वार, दुसरा—अज्ञान द्वार, तीसरा—ज्ञान द्वार, चौथा—दर्शन द्वार, पांचवा—समुचय उपयोग द्वार, ‘दिंठी’ क० छट्टा दृष्टिद्वार, ‘भव’ क० सातवा व-व्याभव्य द्वार ‘चरम’ क० आठवा-चरमाचरमं द्वार, ‘परीत’ क० नववा-परितापरित द्वार, ‘पयवी’ क० दशवा-पदवीद्वार, ‘आया’ क० इग्यारवा-आत्मा द्वार ‘ज्ञाण’ क० बारवा-ध्यान द्वार, पाय क० तेरवा-ध्यान के पाये द्वार ‘दच्च’ क० चउदवा-पट द्रव्य द्वार, ‘परिणाम’ क० पंदरवा-परिणाम द्वार, ‘वीय’ क० सोलवा वीर्य द्वार, ‘तित्थ’ क० सत्तरवा-तीर्थातीर्थ द्वार, ‘सप्रत्त’ क० अठारवा-सम्यक्त्वद्वार, ‘सयय’ क० उन्नीसवा-संयता संयति द्वार, ‘लिंग) क० बीसवा-लिंगद्वार, ‘चरित्त’ क० इक्कीसवा-चरित्र द्वार, ‘नियंठे’ क० बावीसवा - नियंठा द्वार, ‘कल्प’ क० तैंवीसवा-कल्पद्वार, ‘परिसह क० चौवीसवा-परिसह द्वार, पम्माय’ क० पच्चीसवा-प्रमाद द्वार, ‘रागी’ क० छव्वसि वा-सरगी वीतरागी द्वार, पडित’, क. सत्तावीसवा-पडवाइ अपडवाइ द्वार ‘छउम’ क० अठावीसवा-छव्वस्त वीतरागी द्वार० ‘समुथा’ क० उन्नतीसवा-समुद घात द्वार, ‘देव’ क० तीसवा-पांच देव द्वार. ‘परिणामी’ क० इकतीसवा-परिणामद्वार, ‘करण’ क० वत्तीसवा-करण द्वार, ‘निवत्ती’ क० तैंतीसवा-निवृत्ति द्वार, ‘आसव’ कहतां चो-तीसवा-आश्रव द्वार, ‘संवर’ क० पैंतीसवा-संवर द्वार, ‘निज्जरादु’ क० निज्जरा के दो द्वारः—छत्तीसवा-निज्जरा द्वार सैंतीसवा-निज्जरा भेदद्वार, ‘फल’ क० अडतीसवा फल द्वार, ‘तित्थगोय’ क० उन्नचालीसवा-तीर्थकर गोत्र वन्ध द्वार, ‘तित्थ फास’ चालीस वा- तीर्थकर स्पर्शना द्वार. और ‘मोक्ख’ कहतां इकतालीसवा-मोक्ष द्वार.

गाथा—इमाओ चउ खण्डे । सव्वे दारा भवन्ति अदीसत ॥

चउदहसस गुणठाणे । मूल मूल अत्थ अत्थओ ॥११॥

अर्थ—ऐसी तरह से चारों खण्ड में सर्व २५२ द्वारों की रचना कर इसका मूल मतलब तो मूल काण्ड में चउदेदी गुणस्थानोपर वतया है. और उसका विस्तार के साथ अर्थका खुलासा समझाने अर्थ कान्ड किया गया है.





“श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्वारी”

प्रथम-“अर्थ काण्ड.”

प्रथम-खण्ड-“मूलद्वारारोहण का अर्थ”




प्रथम नाम द्वारका-अर्थ.

इस सम्पूर्ण विश्वालय में रूपी अरूपी द्रव्य मय सचेतन अचेतन अनन्त पदार्थ गुण और पर्याय कर के अनेक भाव में परिणमते हैं. उन सबोंकी पहिचान नाम स-ज्ञा सेही होती है. इसलिये प्रथम नाम द्वार कहा, और उस में अनुक्रम से गुणों की बुद्धि होते जीवों चडते हैं जिनके चौदह मुख्य भेद कर अनुक्रमसे १४ ही गुणस्थानोंके नाम और अपर नाम बताये हैं.

२ दुसरा-अर्थद्वार का अर्थ.


नाम ३ प्रकार के होते हैं:—(१) यथार्थ नाम (२) अयथार्थ नाम और (३) अर्थ शुन्य नाम. (१) जो गुण निष्पन्न नाम होवे, अर्थात् जैसा जिस पदार्थका नाम होवे वैसाही उसमें गुण पाता होवे - जैसे जीवका नाम - तीनों ही काल में अमर होनेसे-जीवता रहने से जीव कहते हैं. चैतन्यता युक्त होनेसे चैत्यन्य कहते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राणका धारक होने से प्राणी कहा जाता है. इत्यादि नाम रखें सो यथार्थ नाम. (२) जिस वस्तु का जैसा नाम होवे वैसा उस में गुण नहीं पावे. जैसे जीवका नाम धूल, कचरा, हीरा, मोती इत्यादि रखे सो अयथार्थ नाम.



“श्री गुणस्थाना रोहण अष्टाशतद्वारी”

प्रथम-“अर्थ काण्ड.”

प्रथम-खण्ड-“मूलद्वारारोहण का अर्थ”



प्रथम नाम द्वारका-अर्थ.

इस सम्पूर्ण विश्वालय में रूपी अरूपी द्रव्य मय सचेतन अचेतन अनन्त पदार्थ ण और पर्याय कर के अनेक भाव में परिणमते हैं. उन सबोंकी पहिचान नाम स-ा सेही होती है. इसलिये प्रथम नाम द्वार कहा, और उस में अनुक्रम से गुणों की द्वि होते जीवों चडते हैं जिनके चौदह मुख्य भेद कर अनुक्रमसे १४ ही गुणस्था-ोंके नाम और अपर नाम बताये हैं.

२ दुसरा-अर्थद्वार का अर्थ.

नाम ३ प्रकार के होते हैं:—(१) यथार्थ नाम (२) अयथार्थ नाम और (३) अर्थ शुन्य नाम. (१) जो गुण निष्पन्न नाम होवे, अर्थात् जैसा जिस पदार्थका नाम होवे वैसाही उसमें गुण पाता होवे - जैसे जीवका नाम - तीनों ही काल में अमर होनेसे-जीवता रहने से जीव कहते हैं. चैतन्यता युक्त होनेसे चैत्यन्य कहते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राणका धारक होने से प्राणी कहा जाता है. इत्यादि नाम रखें सो यथार्थ नाम. (२) जिस वस्तु का जैसा नाम होवे वैसा उस में गुण नहीं पावे, जैसे जीवका नाम धूला, कचरा, हीरा, मोती इत्यादि रखे सो अयथार्थ नाम.

(३) जिसका कुछ अर्थ नहीं होवे जैसे-हंस ने का अवाज, छींकनेका शब्द, वज्रित्र का अवाज इत्यादि अर्थ शुन्य नाम इन तीनों प्रकार के नामों में से यथार्थ नामही प्रमाण भूत सर्व मान्य होता है. सोही चतुर्दश गुणस्थान के जो प्रथम द्वार में नाम कहे सो यथार्थ नाम हैं. अर्थात् जैसा जिनोंका नाम है वैसेही उनमें गुण पाते हैं सो दूसरे द्वार में बताया है.

३—तीसरा-प्रश्नोत्तर द्वारका अर्थ.

किसी वस्तु के नाम के अर्थ दो तरह के होते हैं:— १. व्यवहारिक सो लोक रूढी प्रमाणों, और २. निश्चयिक सो परमार्थिक:—व्यवहारिक से अधिक मान-निय निश्चयिक नामार्थ होता है. इसलिये १४ ही गुणस्थानों के निश्चयिक नाम हैं. इन का व्यवहारिक रीति से कोई उलट अर्थ भाष होवैतो उसका निर्णय तीसरे प्रश्नोत्तर द्वार में किया गया है.

४—चौथा-प्रवेश द्वार का अर्थ.

ऐसे जो गुणों के भंडर रूप जो शुभस्थान है, उन में प्रवेश कर ने गुणज्ञ और गुण वृद्धिक जरूर ही इच्छेगे. उनकी इच्छानुसार कार्य सिद्ध कर ने की रीति-अर्थात् उन गुणस्थानों में प्रवेश करनेका उपाय चौथे प्रवेश द्वार में कहा है.

इस द्वार का सम्पूर्ण खुलासा वार स्वरूप समजाने के लिये उपशमश्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों श्रेणीयों का स्वरूप समजाने की बहूतही आश्यकता है. इस लिये 'सप्तमिका नामक पट्टम् कर्म ग्रंथानुसार जरा विस्तार से दोनों श्रेणीयोंका स्वरूप यहां दर्शाया जाता है:—

“उपयोगो लक्षणम्”—इस तत्त्वार्थ सूत्र के फरमान मुझव जीवका जो निज स्वाम लक्षण-गुण है सो “उपयोग” है, अर्थात् अनादि काल से आत्मा ज्ञान दर्शन रूप सत् लक्षणों की धारक है. परंतु यह दोनोंही गुणों अनादि से अपने स्वभाव से कर्मों कर अच्छादित हो रहे हैं ढका रहे हैं. जिस के योग से यह आत्मा भ्रमित हुवा निगोद तिर्यच नरक देव और मनुष्यों की गति मेंनाना प्रकार का रूप धारण कर-बंध-निकाचित-उदय तथा निर्जरा की सत्ता रख ने वाले पुन्य पाप के फलों-का अनेक प्रकार से अनुभव लेता, वो ऊपरोक्त ज्ञान दर्शन रूप उपयोगों के स्वभावसे

उन उन परिणाम अध्यवसाय तथा अन्य २ स्थानादि को प्राप्त होता अनादि काल से मिथ्यात्वी होने पर भी परिणाम विशेष (कर्मोंका परिपक्वता से भाव विशेष) जिस से अपूर्व करणादि ऐसा होता है कि जिसके द्वारा स्वयं आत्माही सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन रूप निजात्म गुणों को उन कर्मों पटलों को अलग कर प्रगट करसकता है, सो कैसे कर सकता है? इस बात का खुलासा उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीगत जीवों का स्वरूप समझ ने से अच्छी तरह से होसकेगा. इसलिये सोही कहते हैं.

“उपशम श्रेणी”

प्रथम अनंतान बन्धि चौकडी और दर्शन त्रिक इन सातों मोहनीय कर्म की प्रकृतियोंकी-रसोदय की अपेक्षा से तो अविरति सम्यग् दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान तक चडे वहां तक उपशम रहता है. और किसिके प्रदेशोदय की अपेक्षा से भी इस ही अविरति सम्मक् दृष्टि चोथे गुणस्थानमें उपशान्त हुइ ही कही जाती है. और अपूर्व करण गुणस्थान में तो यह सातों ही प्रकृतियों रसोदय और प्रदेशोदय दोनों उदय आश्रिय भी उपशान्त हुइ कहना; इन सतों में से प्रथम अनंतान बन्धि चौकडी को उपशम कर नेका स्वरूप कहते हैं.

चौथा-अविरति सम्यक दृष्टि, पांचवा-देशाविरति, छटा - प्रमत्त, और सातवा अप्रमत्त इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें प्रवृत्त ते जीवों में का कोइ भी एक जीव -जघन्य से तेजु लेश्या के परिणाम वाला, मध्यम से पञ्जलेश्याके परिणाम वाला, और उत्कृष्टता से शुक्ल लेश्या के परिणामोमे परिणामवाला. इन तीनों शुभ लेश्या के परिणामों में से किसी भी लेश्या के परिणामोमे परिणामता विशुद्धात्मा ज्ञान उपयोग से उपयुक्त एक आयुष्य कर्म विना वाकी के सातों कर्मों को स्थिति को भोगते रजव सब स्थिति एक कोडा कोडी सागरोंमप में कुछ कम भोगवनी वाकी रहा जाय तब अंतर मुहुर्त पर्यन्त अवहाय मान परिणाम अर्थात् विशुद्ध चित्त की वृत्ति वाला रहता है. ऐसी तरह से रहता हुवा आत्मा परावर्त मान प्रकृतियों में की शुभ प्रकृतियोंका ही बंध करता है परंतु असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं करता है और जो अपरा वर्तमान ध्रुव बन्धिकी ज्ञानावरणी आदि अशुभ प्रकृतियों बन्धेतो उसका चौठाणीये रस बंध को छोड कर. दोठाणीया रसबंध करता है, और शुभ प्रकृतियों का दो स्थानी रस बंध छोडकर चौस्थानी रस बंध करै; और एक स्थिति बंध को पूर्ण

कर के, दूसरा स्थिति बंध करना सुरु करे, सो पहिले २ के स्थिति बंध की आपेक्षा से पल्योपम के संख्याते भाग कमी स्थिति को कर के बंधता है. ऐसीही तरह जो जो आगेको स्थिति बंध करे वो वो पहिले २ के स्थिति बंध से पल्योपम के असंख्यातवे भाग कमी २ करता हुवा स्थिति का बंध करता है.

यों करण काल के अंतर मुहूर्त पर्यंत रहकर फिर अनुक्रम से अलग २ अंतर मुहूर्त प्रमाण के तीन करणों करता है. जिनके नाम-१ यथा प्रवृत्ति करण, २ अपूर्व करण, ३ अनिवृत्ति करण, और चौथा उपशांत अधा होता है, सोभी अंतर मुहूर्त का ही जाणना.

१ प्रथम-यथा प्रवृत्ति करण का स्वरूप :—यथा प्रवृत्ति करण में प्रवेश कर ता हुवा प्राणी प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि की वृद्धि को करता है, और ऊपरोक्त प्रकृतियों में से शुभ प्रकृतियों के बन्धादि दो स्थानी रस का चौस्थानीये रस को दो स्थानीयां कर बंध करताहै.परंतु यहां तथा विधी तत्प्रयोग्य विशुद्धि के अभाव कर १ स्थिति घात २ रसघात, ३ गुणश्रेणी और ४ गुण संक्रम इन चारों कार्यों में का एक भी काम नहीं कर सकता है अनेक जीवों की अपेक्षा कर इस करण में प्रवृत्तने वाले जीवोंके असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय के स्थानक प्रथमही समय में होते हैं. वो भी छेस्थान पतित होते हैं. और पहिले समय के अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थानक विशेषाधिक होते हैं. योंही दूसरे समय के अध्यवसाय स्थानक से तीसरे समय के अध्यवसाय स्थानक अधिक होते हैं. तीसरे से चोथे समय के अधिक होवें. यों पहिले २ के समय से आगे २ के समय के अध्यवसाय स्थानक विशेषाधिक होते हैं. जिसकी जो कदापि स्थापना की कल्पना करें तो विषम चतुरस्र क्षेत्र का निरंधन होता है. ऐसी तरह यथा प्रवृत्ति करण के अन्तिम समय तक आता है वहां तक कहना चाहीये. यहांपे अध्यवसाय के स्थानको विशुद्धिकी अपेक्षा कर के-एकेके से छेस्थान वृद्धिवन्त होते हैं वो ऐसी तरह:—यथा दृष्टान्त-दो पुरुषों ने एक साथही यथा प्रवृत्ति करण में प्रवेश किया, उसमे से एक तो सर्व जघन्य विशुद्धि की श्रेणीमें प्रतिपन्न हुवा. और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके अध्यवसाय स्थानक में प्रतिपन्न हुवा. उन दोनों की विशुद्धि का तारतम्य पना यहां बतातेहैं-प्रथम जीव के प्रथम समय में सर्व से जघन्य मंद विशुद्धि सर्व से स्तोक (थोड़ी)

है, उस से उसही पुरुष के फिर दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि अनन्त गुणी अधिक होती है. उस से तीसरे समय की जघन्य विशुद्धि अनन्त गुणी, यों अनन्तानन्त विशुद्धि की वृद्धि करता हुआ इस यथा प्रवृत्ति करण के असंख्याते भाग व्यतिक्रान्त करता है. तब जघन्य पद विशुद्धि वाले पुरुष की जो अंतिम जघन्य विशुद्धि हुई उस से दूसरे पुरुषकी प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्त गुणी अधिक होती है. और उस से भी जघन्य विशुद्धि के स्थानक से निवृत्तता था उसकी उपरीतन जघन्य विशुद्धि अनन्त गुणी, उस से दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्त गुणी, उस से तीसरे समय की जघन्य विशुद्धि अनन्त गुणी, उस से भी उसके आगेके समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्त गुणी अधिक. यों ऊपर के और नीचेके एकांतर विशुद्धि के स्थानक अधिक २ करते दोनों जीवोंके यथा प्रवृत्ति करण के अंतिम समय में जघन्य स्थान होवे वहां तक कहना. उसके बाद उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थानक निरन्तर अन्तिम समय पर्यन्त अनन्त गुण वृद्धि लिये कहना. यह यथा प्रवृत्ति करण जान ना.

२ दूसरे अपूर्व करण का स्वरूप;—अपूर्व करण के प्रति समयोंमें जो अध्यवसाय के स्थानक होते हैं वो असंख्यात लोकों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं; उतने होते हैं और प्रति समय छः स्थान वृद्धि तथा छः स्थान हानी युक्त होते हैं, सोही कहते हैं:—
१. प्रथम के उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थानक से दूसरा विशुद्धिका स्थानक विशुद्धि की अपेक्षा कर जो हीन (कमी) होवे तो—१. अनन्त भाग हीन होवे, २ असंख्यात भाग हीन होवे, और ३ संख्यात भाग हीन होवे. यह भाग आश्रिय तीन स्थान हीनता के कहै. तैसेही—१. संख्यात गुण हीन होवै, २ असंख्यात गुण हीन होवै, और ३ अनन्तगुणहीन होवै यह तीनों स्थानों गुण आश्रिय हीनता के जानना यों हानी के स्थानों होते हैं. और जो प्रथम के अध्यवसाय का स्थानक से विशुद्धि की अपेक्षा दूसरा अध्यवसाय का स्थानक वृद्धिलिये होवे तो—१. अनन्त भागाधिक होवे, २ असंख्यात भागाधिक होवै और ३ संख्यात भागाधिक होवे. तैसेही—१. संख्यात गुणाधिक होवे, २ असंख्यात गुणाधिक होवे, और ३ अनन्त गुणाधिक होवे. यो परस्पर (आपस में) वृद्धि के और हानी के मिले १, २ अध्यवसायके स्थानक होते हैं, यहां अपूर्व करण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि सब से कमी होती है, बोधी यथा प्रवृत्ति करण के चरम (अन्तिम) समय की उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानक से अनन्त गुण अधिक जानना. उस से प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्त गुण अधिक जानना. उस से दूसरे समय की जघन्य

विशुद्धि अनंत गुण अधिक होती है, और उससे भी दुसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुण अधिक होती है, ऐसे अपूर्व करण के अंतिम समय लग कहना. इस अपूर्व करण में प्रवेश करने वाला प्रथम समय सेही:—स्थिति घात, २ रसघात, ३ गुण-श्रेणी, ४ गुण संक्रम, और ५ अन्यस्थिती बंध. यह ५ कामों एकही वक्त इकट्ठे करता है, इनका स्वरूप खुलासा वार कहते हैं:—

(१) स्थिति घात का स्वरूप:—जो क्रोधादि कषाय की स्थिती भोगवनी वाकी रही होवे, उसे सत्ता में से अग्रभाग की स्थिति को उकेरे अर्थात्—उसकी स्थिति भाग का अग्रस्थान उत्कृष्ट तो बहुत सागरोपम प्रमाणें होता है, और जघन्य से पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाणें होता है, उस स्थिति के खंड (टुकड़े) करे, उसे उकेरना कहते हैं. ऐसी तरह उकेर कर उस के दलिये (चूरा) जो नीचेकी आद्य स्थिति खंड करने की रही है उस दल में उन दलियों को प्रक्षेप करे, यों अंतर मुहूर्त कालतक उस स्थिति खंड को उकेरे. योंही जो फिर वाकी स्थिति रहे उस के अग्रभाग से पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति कर के उसकादल पाहिले की तरेही अंतर मुहूर्त वाकी रहै उसे नीचे की स्थिति में मिलावे. यों अंतर मुहूर्त २ की स्थिति में उसका दल मिलाते २ अपूर्व करण के काल में अनेक हजारों स्थिति खंड खप जाते हैं. तब जो अपूर्व करण के प्रथम समय में जितनी कर्म की स्थिति सत्ता थी उस से संख्यात गुण कम स्थिति सत्तारही सो स्थिति घात.

(२) रस घातका स्वरूप:—जो अशुभ कर्म का रस विन भोगवा हुवा रहा है, उस रस का अनंतवा भाग छोडकर, वाकी रहे अनुभाग के भाग अंतर मुहूर्त में खपावे - विनाश कर, फिर जो अनंतवा भाग वाकी रहा उसका अनंत वा भाग छोडकर वाकी रहे अनुभाग के सब भागों को अंतर मुहूर्त में खपावे, फिर पहले छोडा जो अनंतवा भाग उसका भी अनंतवा भाग छोड कर वाकी रहे अनुभाग के भागों को अंतर मुहूर्त में खपावे, यों अनुभाग खंड के अनेक सहश्र एक स्थिति खंड में व्यति क्रमें, और उस स्थिति खंड के अनेक सहश्र से अपूर्व करण समाप्त होवै. इस खंड के काल से स्थिति खंड का काल संख्यात गुणा अधिक और स्थिति खंड से अपूर्व करणका काल संख्यात गुण अधिक जानना,

(३) गुण श्रेणी का स्वरूप:— अंतर मुहूर्त प्रमाण कर्म स्थिति से जो ऊपरकी कर्म स्थिति वर्त रही है उस में से दलिये गृहण कर' अपनी उदयावलिाकी ऊपर

की स्थिति में समय २ में असंख्यातगुण २ चडता हुआ दलिक सक्रमावे - मिलावे: वो ऐसी तरह कि-प्रथम समय स्तोक, उससे दुसरे समय में असंख्यात गुण अधिक, उस से तीसरे समय में असंख्यात गुण अधिक, यों जावत अंतर मुहूर्त के अंतिम समय पर्यंत कहना. यह अंतर मुहूर्त अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण के काल से कुछ अधिक काल जानना. यह तो पहिले समय में गृहण किया उस दल का निक्षेप करने की विधि बताइ. यों दुसरे समय से लगा कर अंतिम समय पर्यंत समय २ गृहित दलका भी निक्षेप कर ने की विधि-रीति जानना. अर्थात्-जो समय २ में दलिक गृहण करे वो सब अलग २ अंतर मुहूर्त के सब अलग २ समय के दल में मिलावे, यों अपूर्व करण के समय अनिवृत्ति करण के समय अनुक्रम में कम होते २ बाकी रहे उन में गुण श्रेणि दलिक का निक्षेप शेष बाकी रहे उस में होवे. उस से अधिक - वहे नहीं.

(४) गुण संक्रम का स्वरूप:—जो अपूर्व करण के प्रथम समय में विना बंधाती ऐसी जो अनंतान बंधि अदिक अशुभ प्रकृति यों है उसका दल बंधती हुई ऐसी जो संज्वलादि प्रकृति उस में समय २ में असंख्यात गुण अधिक मिलावे, मिला कर फिर पर प्रणति रूप में परिणमावे, उसे गुण संक्रम कहते हैं. सो पहिले समय सर्व स्तोक (सब से थोडा) संक्रमावे उस से दुसरे समय असंख्यात गुण अधिक संक्रमावे, यों समय २ में असंख्यात गुणाधिक २ वृद्धि पाता हुआ दलका संक्रमण करे.

(५) अन्य स्थिति बंध का स्वरूप:—अपूर्व करण के पहिले समय में जो कर्म का स्थिति बंध कहा उसकी अपेक्षा से अपूर्व करण के दुसरे समय में जो दुसरा स्थिति बंध का प्रारंभ करे वो स्तोक (कमी) जानना. इसलिये इसे अपूर्व स्थिति बंध कहते है. यहां स्थिति बंध और स्थिति बंध का काल बरोबर ही जानना. इन दोनों का एकही वक्त प्रारंभ होता है. और एकही वक्त में पूरा करते हैं.

यों ऊपारोक्त पांचोंही कार्यों अपूर्व करण में होते हैं.

३. अनिवृत्ति करण का स्वरूप:—अनिवृत्ति करण में एकही वक्त प्रवेश करने वाले सब जीवोंके प्रथम समय में एकसाही अध्यवसाय का स्थान होता है अर्थात्-अपूर्व करण के प्रथम समय में जो जीव वर्तता है और जो पहिले वर्ते हैं और जो आगे को वर्तेगे, उन सबोंका अध्यवसाय स्थानक एकसा-एक रूपीही होता और प्रथम समय के अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थान अनं

गुणे अधिक विशुद्धि लिये होते हैं. यों जितने समय अनिवृत्ति करण के हैं उतने समय के अध्यवसाय स्थानक पीछे के अध्यवसाय स्थानक से आगे के अध्यवसाय स्थानक विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणों अधिक होते हैं- इसका अनिवृत्ति करण ऐसा नाम देने का मतलब यह है कि-जो इसमें प्रवेश करते हैं. उन सबोंके अध्यवसाय स्थानक का परस्पर निवृत्ति और व्यवृत्ति न होती है, इसकी अपेक्षा से अर्थात्-भेदन होवे सबोंके एकसे अध्यवसाय होवे इसलिये अनिवृत्तिकहा है. यहां समय २ प्रति एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके होतेहै उसकी स्थापना मुक्तावलीकी माफिक(०-०-०-०)ऐसी करना. और यहां भी प्रथम समयसे ही स्थिति वातादि पांचोंही काम एक ही वक्तमें अपूर्व करणके जैसेही होते हैं. यों अनिवृत्ति करणका असंख्यातवा भाग गये वाद वाकी एक भाग रहे तब अनंतान बंधीकी नीचेकी उदयावली की मात्र स्थिति को छोड़ कर वाकी अंतर मुहूर्त प्रमाणसे संक्रमा कर भोगवता है. जैसे मनुष्य गति में वाकी की तीनों गति को संक्रमा कर अजोगी केवली भोगवते हैं. उसेही स्तिवुक संक्रम कहते हैं. अन्त करण को अभिनव स्थिति बंध के काल प्रमाणको अंतर मुहूर्त का कहते हैं. अर्थात् वो अंतर मुहूर्त नवीन स्थिति बंधाद्वा समान जानना. वो अंतकरण के दलिक को उकर कर पर प्रकृति बंधाती है उसमें संक्रमावे और प्रथम स्थिति का दलिक आबालिका मात्र सो वेद्यमान उदयावत्ति पर प्रकृति में स्तिवुक संक्रम कर संक्रमावे, x

अब अन्तकरण किये वाद दूसरे समय में अनंतान बंधि की ऊपर की स्थितिका दलिया उपशमाना शुरू करे. वो ऐसी तरह कि-पहिले समय में स्तोक उपशमावे, दुसरे समय उस से असंख्यात गुणा उपशमावे, उसे संक्रमा कर भोगवे. जैसे मनुष्यगति में वाकी की तीनों गति को संक्रमा कर अजोगी केवली द्विचरम समय में भोगवते हैं. तैसे यहां भी जानना. यों समय २ में असंख्यात २ गुण अधिक चढता हुवा उपशम करता हुवा अंतर मुहूर्त के अंतिम समय अनंतान बंधिका सर्वदल उपशमित होता है. जैसे धूल के पुंज को पाणी की वृन्दों से सींच २ कर घनादिक से कूट २ कर सूक्ष्म-(वारीक,) करे, वो ऐसा वारीक करे कि उसे कोई ग्रहण

+ जो अनुदयी प्रकृतिका दल है उस को उदयावत्ति प्रकृति में मिलते हैं, उसे ही स्तिवुक संक्रम कहते हैं.

नहीं कर सके. तैसे ही कर्म रूप रेणु (धूल) के समूह को विशुद्धि रूप पाणी के प्रभाव से सींच २ कर अनिवृत्ति करण रूप घन से कूट २ कर ऐसा सूक्ष्म करे कि-वो फिर बंधन-संक्रमण-उदय उदीरणा-निद्धत और निकाचनादिक करण को प्राप्त होने अयोग्य होवे. उसे अनन्तान बांधी उपशमना कहना.❀

* [अब यहां—कितनेक आचार्य कहते हैं कि अनन्तान बांधी की उपशमना तो नहीं होती है, परन्तु विसंयोजनाही होती है. विसंयोजना भी क्षपण विशेष को कहते हैं. जिसका स्वरूप ऐसा है:—श्रेणिको अप्राप्त हुवे ऐसे चारों गति के सन्नि पचेन्द्रिय पर्याप्ता अधिरति सम्पगृह्णति जीवों तथा तिर्थच और मनुष्य इन दोनों गति वाले देश धिरति जीवों, तथा प्रमत और अप्रमत मनुष्यों, अनन्तान बांधी की चारों कपार्योंको क्षपानेके लिये जैसे पाहिले कहा वैसेही यथा प्रवृत्ति आदि तीनों करणों करे, परन्तु इतना विशेष जो आनिवृत्ति करण में प्रवेश किया हुवा अन्तर करण नहीं करता है, परन्तु उद्वलना संक्रम कर खपावे सो उद्वलना संक्रम का स्वरूप कहते हैं.

[उद्वलमान संक्रम का स्वरूप :—अनन्तान बांधी आदि कर्म प्रकृति का दल प्रथम समय पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति खण्ड है उसको अंतर मुहुर्त उकेर कर दूसरी प्रकृतिमें संक्रमावे. योही दूसरे समय दूसरा स्थिति खण्ड करके उसका कुछ भाग दूसरी प्रकृतिमें संक्रमावे, और कुछ भाग अपनी नीचेकी स्थितिमें संक्रमावे. परन्तु दूसरी स्थितिमें जितना संक्रमावे उससे अपनी नीचेकी स्थिति जों संक्रमावेसो असंख्यात गुणा जानना. यों समय २ में स्थिति खण्ड करेवो पीछे २ के स्थिति खण्ड की अपेक्षा-विशेष हीन दलकी अपेक्षा अनन्त गुणा होता है. और संक्रमाने के समय में भी अपनी नीचे की स्थिति में असंख्यात गुणा संक्रमाते हैं. तथा दूसरी प्रकृति में विशेष हीन २—(कम) करता २ संक्रमावे, यों द्वीचरम समय तक संक्रमाते हैं. और अन्तिम समय में तो अपनी स्थिति बाकी न रही उस से सब दल को दूसरी प्रकृति में संक्रमाते हैं, उसेही सर्व संक्रम-याने उद्वलमान संक्रम कहते हैं.]

अब दर्शन मोहनीय विक्रको उपशमाने की रीति कहते हैं:—

मिथ्यात्वकी उपशमना तो मिथ्यात्वी के तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के इन दोनों केही होतीहै, और सम्यक्त्व तथा मिश्र मोहनीय की उपशमना क्षयोपशम सम्यक्त्वी के ही होती है. इसमें मिथ्यात्वी के तो ग्रन्थिभेद करते प्रथम उपशमसम्यक्त्वा की प्राप्ति करने वालेके मिथ्यात्व की उपशमना जैसे होती है उसकी रीति कहते हैं:—
कोइ सन्धी पंचान्द्रिय पर्याप्ता करण काल के पहिले अन्तर मुहूर्त काल पर्यन्त समय २ में अनन्त गुणावृथी गत विशुद्धि में प्रवर्तता ऐसा अभव्य सौथिक जीवकी विशुद्धि की अपेक्षा अनन्त गुण विशुद्धिवन्त ऐसा मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान और विभंगज्ञान इन में के किसी भी साकार उपयोग युक्त और मनादि तीनों जोगों में से किसी भी जोग युक्त प्रवर्तता जघन्य परिणाम से-तेजुलेख्यामें, मध्यम परिणाम से पद्मलेख्या में और उत्कृष्ट परिणाम से शुक्लेख्या में प्रवर्तता, मिथ्यात्व दृष्टि चारों गतिमें से किसी भी गति वाला, कुछ कम एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति सातों कर्मोंकी वाकी रहे. इत्यादि सर्व पहिले कीही तरह जहां तक यथा प्रवृत्ति करण और अपूर्वकरण यह दोनों मिथ्यात्व उपशमाने को पूर्ण करे तहां तक कहना. परन्तु यहां इतना विशेष कि-अपूर्वकरण में गुण संक्रमण करता नहीं है. फक्त-स्थितिधात, रसधात गुणश्रेणी, और अन्यस्थिति बन्ध यह चारों कामही प्रथम से प्रारंभ करता है. और गुणश्रेणी दालिक रचना भी उदय समय से लगाकरही जानाना. और फिर अनिवृत्ति करण में भी ऐंसेही कहना. फिर अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये बाद और फक्त एकही संख्यातवा भाग रहे तब मिथ्यात्व की नीचे की प्रथम स्थिति आनता न बन्धि की तरह अन्तर मुहूर्त मात्र नीचे छोड कर. ऊपर अन्तर मुहूर्त मात्र अभिनव स्थिति बन्ध के अन्तर मुहूर्त जितनी (पहिली स्थिति के अन्तर मुहूर्त से कुछ अधिक) अभिनव स्थिति के बन्ध के काल जैसी, ऐसी मिथ्यात्वकी अन्तकरणद्धा करे. वो अन्तकरण वाला कर्मदल कुछ उकरे के पहिले की स्थिति में मिलावे, और कुछ दूसरी ऊपरकी स्थितिमें मिलावे. वहां पहिले की स्थिति में वर्तता जीव ऊदीरणाका प्रयोग कर प्रथम स्थितिका दल उदया वालिका के ऊपरका है उसे आकर्ष कर उदया वालिका में मिलावे-उसे ऊदीरणा कहते हैं. और जो दूसरी स्थिति के नजदीकसे ऊदीरणा प्रयोग करके उसमें का दल आकर्ष (खेंच) कर उदया वालिका में मिला-भोगवे. अब उदय और ऊदीरणा करके प्रथम स्थितिका दल भो-

गवता जिसवक्त वो पहिली स्थिति दो आवलिका बाकी रहे तब भागे का अन्त आवे. तब एक आवलिका तक उदय और ऊदीरणा प्रवर्ते. और अन्तिम आवली में तो ऊदीरणा से भी निवृत्ते. तब अन्तिम आवली में फक्त उदय कोही भोगवता है. फिर उस आवलिका के अन्तिम समय में दूसरी स्थिति के दालिक का न्सभेद कर—तीन-पुंज करे. वो ऐसी तरह से कि—उसमें जो देशघातिक एक स्थानीया रस स्पद्रक तथा उत्कृष्ट रसोदीरणा की अपेक्षा से दोस्थानीये रस सहित जो दल है सो प्रथम—सम्यक्त्व पुंज तथा कितनेक एकस्थानीये रस स्पद्रक सर्व घातिक सहित है, और कितनेक दोस्थानीये रसके स्पद्रक सर्वघातिक रहित है; सो दूसरा मिश्रपुंज. और सर्वघातिका चौस्थानिये तथा तीनस्थानीये रसस्पद्रक सहित जो दल है सो तीसरा मिथ्यात्वपुंज. फिर उससे अनन्तर समय में मिथ्यात्व दालिक के उदय के अभावसे उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है.

अब वेदक सम्यक्त्वी के प्रदेशोदय की अपेक्षा से मिथ्यात्व की उपशमना की रीति कहते हैं:—कोइ वेदक सम्यक्त्वी संयम में प्रवर्तता हुवा अन्तर मुहूर्त काल में दर्शन त्रिका का उपशम करे यहां तीन करण करने पडतें है. उसकी रीति पहिले कहे प्रमाणेही अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये बाद अन्तकरण करता है, वो अन्तकरणी अन्तकरण करताहुवा सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति को अन्तर मुहूर्त प्रमाणे स्थापन करे. और मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की प्रथम स्थिति को आवलिका मात्र स्थापे. फिर उसके दालिक को उकेर २ कर सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति में मिलावे. वहां मिथ्यात्व और मिश्र इन दोनोंके जो प्रथम स्थिति के दालिक हैं. उनको सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति में स्तिवुक संक्रम कर संक्रमावे. और सम्यक्त्व की प्रथम स्थिति के दल को रसोदय विपाक के अनुभवने से भोगवते हुवे सो अनुक्रम से क्षयहोवें तब उपशम सम्यक्त्वी होवें. और इन तीनों मोहनीय की ऊपर की स्थिति का दल उपशमानेका तो पहिले जैसे अनलान वंधिये की ऊपरकी स्थितिका दल उपशमाने की रीति कही वैसीही यहां जानना

अब चारित्र मोहनीय की उपशमाने की रीति कहते हैं—चारित्र मोहनीय का उपशम कर ने वाले भी पहिले कहे मुजब ब्या प्रवृत्ति आदि तीनों करण करते हैं, इस में प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में तो यवा प्रवृत्ति करण करै, और अपूर्व करण गुणस्थान में अपूर्व करण करे, और आवियड बदर गुणस्थानमें अनिवृत्ति करण करै,

इन के कर ने का सब स्वरूप ऊपर कहे मुजब ही जम्पना, विशेष में इतना है कि जो अपूर्व करण में गुण संक्रमे तो बंध नहीं होवे ऐसी सब अशुभ प्रकृति को प्रवर्ते, और अपूर्व करणद्धा के असंख्याते भाग गयेवाद् - निद्रा प्रचलाका बंध विच्छेद होने वाद् बहुत स्थिति खंडों को अति क्रमणे से - अपूर्व करणद्धा के संख्यात भाग गये वाद् बाकी एक भाग रहे तब - देव द्विक, पंचेंद्रिय जाती, वैक्रिय द्विक, आहार-क द्विक, तेजस. कार्मण, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, वस नवक, आदेय, निर्माण, और जिननाम इन ३० प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है उस के वाद् स्थिति खंड प्रथक्त्व जानेसे अपूर्व करण के अंतिम समय - हांस्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चारों प्रकृतियोंका बंध विच्छेद होने. हांस्य रति अरति शोक, भय और जुगुप्सा इन छः प्रकृतियोंका उदय रहता है.

यहां सर्व मोहनीय कर्म के अंतिम समय - देशोपशमना, निधत्ति, निकाचन-ना, करण का विच्छेद होवे तब आगे के समयमें अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है; वहां भी स्थिति घात आदिक पांचों कामों पहिले कहे हैं उसही तरह से कर ते हैं. सो अनिवृत्ति करणद्धा के संख्याते भाग गये वाद् चारिव मोहनीयकी २१ प्रकृति-का अंतर करण करता है. उस वक्त संज्वलकी चौकड़ी में की जो कपाय उदयको प्राप्त होवे वो कपाय और तीनों वेदों में सो जो वेद उदय को प्राप्त होवे सो वेद, इन दोनों प्रकृति की प्रथम स्थिति अपने उदय काल के प्रमाण जितनी होती है उन दोनों को छेड कर बाकीकी जो ११ प्रकृति जिसका उदय नहीं है उनकी प्रथम स्थिति आवालिका मात्र होती है, वहां अपने उदय कालका प्रमाणका अल्पा बहुत कहते हैं:-

तीनों वेदों में से स्त्री वेदका और नपुंसक वेदका उदय काल थोडा होता है और स्वस्थान में परस्पर तुल्य होता है. उन से पुरुष वेदका उदय काल संख्यात गुणा अधिक जानना. उस से संज्वलका क्रोधका उदय काल विशेषाधिक, उस से संज्वल के मान का उदय काल विशेषाधिक, उस से संज्वल की माया का उदयका-ल विशेषाधिक उस से संज्वल के लोभक। उदयकाल विशेषाधिक, इस में जो संज्वल के क्रोध के उदय में उपशम श्रेणीका आरंभ करे, उस के जहां लग अप्रत्याख्यनी और प्रत्याख्यानी इन दोनों क्रोधका उपशम नहीं होवे वहां लग संज्वलके क्रोधका उदय होता है, ऐसेही जो संज्वल के मानोदय में श्रेणी का आरंभ करे उस के जहां

तक अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी मान का उपशम न होवे वहांतक संज्वल के मान का उदय पावे. ऐसेही संज्वल की माया के उदय में श्रेणी का आरंभ करे उस के जहातक अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी माया का उपशम न होवे वहांतक संज्वल की माया का उदय होवे. और ऐसेही संज्वल के लोभ के उदय में श्रेणी आरंभ करे उस के अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संज्वल के लोभ का उपशम न होवे वहां तक वादर संज्वल के लाभका उदय पावे. यों अपने २ उदय काल की अपेक्षा से उस के उदय में प्रवर्तता श्रेणीका आरंभ करे वो जो कपाय अथवा जो वेद के उदय में श्रेणी का आरंभ करै वो कपाय अथवा वो वेदका उदय काल थाकता हुवा उस के उतने काल की उतनी प्रथम स्थिति होती है. और दुसरे सब की आवलिका मात्र स्थिति प्रथम स्थिति होती है. यहां जितने काल में स्थिति घात करे तथा दुसरे काल का अन्य स्थिति बंध करे उत ने काल में अन्त करण भी करे. यह तीनों ही साथ करे अर्थात् एकही वक्तमें आरंभ करे और एकही वक्तमें पूर्ण-करे. परंतु उसका काल प्रथम स्थिति से असंख्यात गुणा अधिक होता है. अब अंत-करण का दल प्रक्षेपने की विधि लिखते हैं:—जिस प्रकृत्ति का जहा बंध और उदय दोनो हैं, उस प्रकृत्ति का अंतकरण सत्कदल कुछेकतो प्रथम स्थिति में मिलाना और कुछेक दूसरी स्थिति में मिलाना. जैसे पुरुष वेद के उदय में श्रेणी का आरंभ करे, उस के पुरुष वेदका बंध होवे और उदयतो हेही, इसलिये पुरुष वेद का अन्त-करण दल दोनों स्थिति में मिलाना. और जिस प्रकृत्ति का उदय तो है परंतु बंध नहीं है. उसका अंतकरण का दल प्रथम स्थिति में ही मिलाना. जैसे-स्त्री वेदका तो उदय है परंतु बंध नहीं है, उस न स्त्रीवेद के उदय में जो श्रेणी प्रारंभी वो अंतकरण सत्कदल अपनी प्रथम स्थिति में ही मिलावे. और जिस प्रकृत्ति का जहां उदय नहीं है, और बंध है. उसका अंतरकरण दल दूसरी स्थिति में मिलावे परंतु प्रथम स्थिति में नहीं मिलावे. जैसे-संज्वल क्रोध के उदय में श्रेणी आरंभी वो वाकी तीन संज्वल की कपाय का बन्ध करता है, वो उसका अन्तकरणदल दूसरी स्थिति में मिलावे. और जिस प्रकृत्ति का बंध तथा उदय दोनों नहीं है, उस का अन्तकरण दल अन्य प्रकृत्ति में मिलावे. जैसे-दुसरी अप्रत्याख्यानीय और तीसरी प्रत्याख्यानीय कपाय का अंतकरण दल संज्वल अन्य प्रकृत्ति है उस में मिलावे. यों अंत-रण कियेवाद् प्रथम नपुंसक वेदका उपशम करे, वो प्रथम समय में थोडा दल उपश-

मात्रे, दूसरे समय उस से असंख्यात गुणा यों समय २ में असंख्यात गुणा बधता उ पशमता हुवा अन्तिम समय में सर्व उपशांत होवे. वहां प्रथम समय से लगाकर द्वि चरम समय पर्यंत जो दल उपशमाया है उस से असंख्यात गुणा दल अन्य प्रकृति में मिलावे; और अंतिम समय में जिस प्रकृति में मिलावे उस से असंख्यात गुण उपशमावे. यों नपुंसक वेद उपशमाने से पहिले की अनंतान बंधि चौकडी तथा दर्शन त्रिक इन सातों सहित आठों मोहनीय की प्रकृति का उपशांत होवे. फिर ऊपरोक्त विधि से अंतर मुहूर्त पर्यंत स्त्रीवेदको उपशमावे. फिर हाँस्यादि छेओं प्रकृति योंको अन्तर मुहूर्त पर्यंत उपशमावे. फिर सब साथही मोहनीयकी बाकी रही १५ प्रकृति का उपशांत होवे. उस वक्त पुरुष वेदका बंध उदय और ऊदीरणा का विच्छेद होवे, और उसकी प्रथम स्थिति का भी विच्छेद होवे. जब पुरुष वेद की प्रथम स्थिति दो आवलि बाकी रहे पूर्वोक्त आगे न होवे उस वक्त मार्गदल विशेषदल हुवा इसलिये वहां हाँस्यादिक छेओं प्रकृति का दल पुरुष वेद में तो मिले नहीं, तब उन हाँस्यादि छेओंका दल संज्वल के क्रोधादिक में मिलावे. यों हाँस्यादि छेओं प्रकृति उपशमाये बाद एक समय कम दो आवलि पुरुष वेद उपशमावे, वोभी, प्रथम समय में सब से थोडा, उस से दूसरे समय असंख्यात गुणा अधिक उपशमावे, यों समय २ में असंख्यात २ गुणा अधिक २ उपशमता हुवा. एक समय कम दो आवलिका रहै वहांतक कहना. और कितनाक दल दुसरी प्रकृति में यथा प्रवर्त संक्रम कर संक्रमावे. परंतु प्रथम समय से विशेष हीन दुसरे समय में संक्रमावे. यों समय २ कम २ संक्रमाता हुवा आवलिकाके चरम समय तक जाय; ऐसी तरह पुरुष वेद का उपशांत हुवे बाद मोहनीय की १६ प्रकृतियोका उपशांत होवे.

फिर जिस समय हाँस्यादि छेओं प्रकृति का उपशम होवै, उस समय से पुरुष वेदकी प्रथम स्थिति का क्षय होवे. तदनंतर अप्रत्याख्यानी क्रोध और प्रत्याख्यानी क्रोध, तथा संज्वल का क्रोध इन तीनों क्रोधों को एक साथही उपशमावे. वो पूर्वोक्त रीति से उपशमाते हुवे जिस वक्त संज्वल के क्रोध की प्रथम स्थिति एक समय कम तीन आवलि बाकी रहे, उस वक्त अप्रत्याख्यनीया और प्रत्याख्यानीया इन दोनों क्रोधका दल संज्वल के क्रोध में प्रक्षेप नहीं करना, संज्वल के मानादिक में मिलावे, क्योंकि फक्त तीन आवलि जितनाही क्रोधका दल बाकी रहा है उस में किसी भी प्रकृति का दलका पतद् गृह नहीं होता है, अर्थात् उस में दूसरी प्रकृति

के दलका समावेश नहीं होता है. और उसकी दो आवली बाकी रहे तब तहां आगे विच्छेद होता है. और एक आवली बाकी रहे तब संज्वलका क्रोध का बंद उदय उदीरणा का विच्छेद होता है. और अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी क्रोध उपशांत होता है. तब १८ प्रकृति यों का उपशांत होवे.

फिर संज्वल क्रोध की प्रथम स्थिति एक आंवालि का कादल और दो आंवालि एक समय कम यहां बंधा जो ऊपरकी स्थिति का दल उसविना सब उपशांत होता है उस के बाद जो संज्वल के क्रोध का प्रथम स्थिति का एक आंवाली का दल सो संज्वल के मान में स्तिवुक संक्रम कर संक्रमावे. और समय कम दो आंवालि का बन्धका ऊपर की स्थिति का दल सो पुरुष वेद उपशमनाधि कारिके प्रस्तात्र में उपाव बताया उसही तरह से उपशमावे, तथा अन्य प्रकृति में संक्रमावे. यों समय सम दो आंवालि संज्वलन क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपशमावे. यों मोहनीयकी १९ प्रकृति योंका उपशम हुवा.

जिस वक्त संज्वल के क्रोधका बन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा, उस समय से लगाकर संज्वल के मान की दुसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर उसे प्रथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय में तो स्तकोक प्रक्षेपता है, और उस से दूसरे समय में असंख्यात गुण अधिक प्रक्षेप करे, यों समय २ असंख्यात गुणा अधिक चडता हुवा प्रक्षेप करे. सो यावत प्रथम स्थिति के अन्तिम समय तक प्रक्षेप करे, प्रथम स्थिति करण के प्रथम समय से लगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वल इन तीनों मानों को एक साथही उपशमावे. वो वैसेही जिस वक्त संज्वल के मान की प्रथम स्थिति समय कम तीन आवली का रहे उस वक्त पहिले कहे मुजवही संज्वल के मान में अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त प्रत्याख्यानादि मान का दल संज्वलकी माया मे संक्रमावे, ऐसेही अर्थात् क्रोध की तरह ही मान के उपशमानेकी विधि जानना. यों अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मानको उपशमावे तब मोहनीय की २१ प्रकृति का उपशम होता है.

संज्वल के मान के बंध उदय उदीरणा विच्छेद हुवे बाद संज्वल के मानकी माफि कही एक आवलिक में उपशमावे. तब २२ प्रकृति उपशमी और जिस समय में संज्वल के मान का बंध उदय उदीरणा का विच्छेद होवे उसके प्रथम से लगाकर संज्वलकी माया की दुसरी स्थिति में से दलको आकर्ष कर पहिले कहे मुझष प्रथम

स्थिति गत करके वेदे. उसही समय से लगाकर तीनों माया का उपशम करने लगे बोधी मान की तरह एक आवली रहे संज्वलकी माया का बंध उदय उदीरणा विच्छेद होवे उस समय अपत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय माया उपशांत होवे तब मोहनीय की २४ प्रकृति यों का उपशांत हुवा.

उस वक्त संज्वल की माया का प्रथम स्थिति गत एक आवली तथा समय कम आवलिकाद्विक में बंधा हुवा जो उपर की स्थिति गत दलिक उसको छोड कर बाकी रहा सर्व उपशांत होवे. फिर प्रथम स्थिति गत एक आवलिका को स्तिबुक संक्रम कर संज्वल के लोभ में संक्रमावे. और समय कम दो आवलिका बंधे हुवे दलिक को पुरुष वेदमें उपर कहे मुजवही उपशमावे, यों संक्रमावे. फिर समय कम दो आवलिका संज्वल की माया उपशांत होवे तब मोहकी २५ प्रकृति का उपशांत हुवा.

जिम वक्त संज्वल की माया का बंध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा तदनंतर दुसरे समय में ही संज्वल के लोभ की दुसरी स्थिति में से दलका आकर्षण कर प्रथम स्थिति को रचे उस प्रथम स्थिति लोभ वेदनाद्रा के तीन विभाग दो प्रमाण से करे—उस में प्रथम विभाग का नाम - अश्वकरणाद्रा और दूसरे विभाग का नाम - किट्टि करणाद्रा.

प्रथम अश्वकरणाद्रा विभाग में वर्तता आत्मा पूर्व स्पर्द्धक ः में से दल गृहण कर अपूर्व स्पर्द्धक करें. उस स्पर्द्धकी उपरकी वर्गणा के रस विभाग से एक रस विभाग ज्यादा या दो रस विभाग ज्यादा. रस विभाग सहित यों जावत सब जीवों से अनंतगुणा पर्यंत से एक रस विभाग कम रसोपेत कर्म स्कंध दल नहीं मिलता है.

÷ स्पर्द्धक का स्वल्प—जीव अनन्त कर्म प्रमाणुं से निप्यन्न स्कन्ध उसे कर्म पणें गृहण करता है, वहां एकेक कर्म स्कन्ध में जो सबसे जवन्य रस है उस के दो विभागकी केवल ज्ञानों भी कल्पना नहीं कर सकें. ऐसा बारीक छेदता हुवा सब जीवों को रस का विभाग देता है. और ऐसेही बरोवरी के जवन्य रस के कर्म स्कन्ध दल उसका समुदाय उसे वर्गणा कहते हैं, उस से एक रस विभाग चडता कर्म स्कन्ध की दूसरी वर्गणा. उस से दो रस विभाग चडते कर्म स्कन्धकी तीसरी वर्गणा. यों एकेक रस विभाग चडती २ वर्गणा करता अभव्य से अनन्त गुणी आधिक और सिद्ध से अनन्त गुणहिन प्रमाण वर्गणा का सा मुदाय उसे स्पर्द्धक कहते हैं.

अर्थात् सब जीवों से अनंत गुण रस विभाग में अधिक रस सहित जो कर्म स्कंधका दल होवे, ऐसे स्कंध के समुदाय सो दूसरे स्पर्द्धक की प्रथम वर्गणा जाणना. उस से एक रस विभाग जियादा कर्म स्कंध का समुदाय सो दूसरी वर्गणा, यों एकेक रस विभाग जियादा होते २ अभव्यसे अनंत गुण अधिक वर्गणा होवे उस के समुदाय को दुसरा स्पर्द्धक कहना. योंही फिर सब जीवों से अनंत गुण अधिक रस भाग मिलानेसे कर्म स्कंधके समुदाय की तीसरी स्पर्द्धकयों वो भी पूर्वोक्त अभव्यसे अनंत गुण, अनंत वर्गणासे स्पर्द्धक होवे. ऐसे अनंत स्पर्द्धक का बंध जीवने पाहिले किया है. इसलिये इसे पूर्व स्पर्द्धक कहते हैं; और उसमेंसे दल लेकर उस दलको प्रकर्ष विशुद्धिके वश से अत्यंत रसहीन करके अपूर्व स्पर्द्धक करे. क्योंकि इस संसारमें परिभ्रमण करते इस जीवने किसी वक्त बंध आश्रिय ऐसे रस स्पर्द्धक नहीं करे. परंतु अबही विशुद्धिके वश हो करता है, इसलिये इसे अपूर्व रस स्पर्द्धक कहना. अश्वकरणाद्धा वीते वाद दूसरे किट्टि करणाद्धा में प्रवेश कर वहां पूर्व स्पर्द्धक से दुसरे अपूर्व स्पर्द्धक से दल लेकर उस से रसकी किट्टि करे * उस किट्टि करणाद्धाके अन्तिम समय में एकही साथ अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी यह दोनों लोभ को उपशमावे. और उस ही वक्त संज्वलके लोभकाभी विच्छेद होवे. और वादर संज्वल लोभ की बंध उदय उदीरणाका विच्छेद होवे, तत्र अनियाट्टि वादर गुणस्थान का भी काल पूर्ण होवे, यों नवमे गुण स्थान तक ७ प्रकृत्तियों से लगाकर २५ प्रकृत्तियों तक मोहनियका उपशांत होवे.

फिर नववे गुणस्थान के अन्तिम समय में अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी प्रकृत्ति लोभ की उपशमाये वाद दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में २७ प्रकृत्ति का उपशम होवे. इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त प्रमाण काहै. उस में प्रवेश किया हुआ जीव संज्वल के लोभकी उपरकी स्थिति में से कितनी एक किट्टि आकर्ष कर उसकी पहिली स्थिति सूक्ष्म सम्पराय अद्धा जितनी कर के वेदे. और सूक्ष्म किट्टि किया हुआ जो दलिक और समय कम दो आवलिका बंधासो दल उसे उप-

* किट्टिका स्वरूप—जो पाहिले स्पर्द्धक से वर्गणा को गृहण कर २, अनन्त गुणा रस कामी कर २ बहुत दूर २ रखना. जैसे मिथ्या कल्पना से—जिसके १०० रस विभाग हैं. अथवा पञ्चोत्तरसो वीडोत्तरसो थे. उस के पांच पन्दरे पचीस रस विभाग रखे उसे किट्टि करण कहते हैं.

शमात्रे. अन्तिम समय में संज्वल के लोभ का उपशांत होवे, उसही वक्त-५ ज्ञानावरणीय की ५ अंतराय की, ४ दर्शनावरणीय की, उँच गौत्र और यशः कीर्ति इन १६ प्रकृति यों के बंधका व्यवच्छेद करे. उस वक्त बाद दुसरेही समय में उन महात्मा आँको उपशांत कपायी कहे जाते हैं क्यों कि यहां ही मोहनीय की सर्व २८ही प्रकृतियोंका सर्वतः उपशांत होता है.

वो उपशांत कपायी महात्मा जघन्य से तो एक समय ही रहै, और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त पर्यंत रहै. फिर तो जरूरही पतन को प्राप्त होते हैं. वो पतन दो तरह से होता है:— एक भव से और दुसरा काल से.

(१) जिसका आयु पूर्ण होजावें उसवक्त मनुष्य भवका क्षय होने से मरकर अनुत्तर विमान में देवता होवे. वहां प्रथम समय मेंही बंध सक्रमणादी आठों कारणों फिर उदय प्रवर्तवे. वो सीधाही इग्यारवे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान परही आकर ठेहरता है. परंतु बीच में के गुणस्थानोंको विलकुलही स्पर्शता नहीं है. और उपशम सम्यक्त्वसे पडकर उसही समयमें वेदक सम्यक्त्वी होताहै, सो भव क्षय पडवाइ जानना- और (२) इग्यारवे गुणस्थान का जो अंतर मुहूर्त का काल है सो पूर्ण भोग कर उ-पर जाने के रस्ते के अभाव से वो वहां से पीछे पडे, हो जहां २ बंध उदय उदीर-णा की प्रकृति का व्यवच्छेद हुवा है तहां २ से पीछा करता जिस तरह से चडेये वै सीही तरह पीछा पडे, वो पडते हुवे कोइ प्रमत होवे, कोइ अविरति होवे और कोइ-सास्वदानी होकर मिथ्यात्व में भी आते हैं.

यह उपशम श्रेणी एक भव में उत्कृष्ट दो वक्त करते हैं, परंतु जो दो वक्त उपशम श्रेणी करते हैं वो निश्चय से उस भव में क्षपक श्रेणी नहीं करते हैं, परंतु एक वक्त उपशम श्रेणी कर दुसरी वक्त क्षपक श्रेणी करलेवें तो कुछ ना नहीं है.



“ क्षपक - श्रेणी. ”

क्षपक श्रेणी में प्रवर्तने वाले महात्मा मनुष्य की-आठ वर्ष से अधिक उम्र, वज्र वृष नारच संघयण, शुद्ध ध्यान वंत, अविरति-देश विरति-प्रमत संयाति अप्रमत संयाति इन में से कोई भी होवौ, परंतु इतना विशेष कि-जो केवल अप्रमत संयाति ही होवेतो पूर्वके जानकर होवे, और शुद्ध ध्यान उपगत होवे. और दूसरे सब धर्म ध्यान उपगत होते हैं. ऐसे जीव शुभ योगमें वर्तते क्षपक श्रेणीका आरंभ करते हैं. वो प्रथम अनंतान बंधि चौककी विसंयोजना कर खपावे, इस विसंयोजना करनेकी विधि पाहिले कह आये हैं वैसेही जाणना तदनंतस्-तीनों मोहनीयको क्षपाने प्रवर्त होवे. वहां यथा प्रवृत्ति आदि तीनों करणों पाहिले कहे वैसेही तरहसे करे. परंतु इतना विशेष जो अपूर्व करणके पाहिले समय सेही अनुदिन मिथ्यात्व और मिश्रका दल वो उदय वन्त सम्यक्त्व मोहनीय में गुण संक्रमण कर संक्रमावे, और उन दोनों का उद्गल अर्थात् संक्रमण करना शुरू करे. उस वक्त प्रथमतो बडे २ जो स्थिति खण्ड हैं उन्हकों उवेले. उस से दुसरा स्थिति खण्ड बहुत कम उवेले. उस से भी तीसरा बहुत कम उवेले यों अपूर्व करण के अंतिम समय पर्यंत उवेलना करे. इसमें जो अपूर्व करण के पाहिले समय जो स्थिति का सत्तावन्त होवे उस से असंख्यात गुण कम स्थिति का सत्तावंत होवे.

तदन्तर दुसरे समय में अनिवृत्ति करण में प्रवेश करे, वहां भी स्थिति घात आदि सर्व पूर्वोक्त विधि प्रमाणें ही कर ते हैं. अनिवृत्ति करण के प्रथम समय में दर्शन त्रिक का भी देशोपशमना निवृत्ति निकाचनाका व्यवच्छेद करे; वहां प्रथम समय से दर्शन मोहनीय त्रिककी स्थिति सत्ताका घात करता २ सहश्रों गम स्थिति खण्ड गये वाद, बाकी जिस वक्त असन्धी पचेन्द्रिय की स्थिति सत्ता सामन स्थिति रहे. फिर उतनेही स्थिति खण्ड के सहश्रों गम गये वाद चौरिन्द्रिय की स्थिति समान सत्ता रहे, फिर उतनेही स्थिति खण्डके सहश्रों गम गये वाद, तेन्द्रिय की स्थिति समान सत्ता रहे, फिर उतने ही स्थिति खण्ड के सहश्रों गम गये वाद वेन्द्रिय की स्थिति जितनी सत्ता रहे. फिर भी उतनेही स्थिति खण्ड के सहश्रों गये वाद पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाणें दर्शन त्रिक की स्थिति सत्ता रहे, तदन्तर तीनों दर्शन मोहनीय का भी प्रत्येक एकेक संख्यातवा भाग छोड कर बाकी की सर्व स्थिति खपावे तदन्तर फिर भी बाकी छोडा हुवा संख्यात भाग का एक संख्यात वा भाग

छोड़कर बाकीकी सर्व स्थिति की घात करता २ स्थिति घात के बहुत सहश्र अति-क्रमें उसवक्त मिथ्यात्व के असंख्यात भाग का खण्डन करे और मिश्र मोह तथा सम्यक्त्व मोह का संख्यातवा भाग का खण्डन करे. उस के बाद यों बहुत स्थिति खण्ड गये बाद, जिसवक्त मिथ्यात्व का दल आवलिका मात्र रहे, और मिश्र मोह तथा सम्यक्त्व मोह का दल पल्लोपमके असंख्यातवे भाग प्रमाणेही रहता है.

अब स्थिति खण्ड के दल को खण्डन करने की प्रत्येक विधि कहते हैं :—
खण्डन किये हुवे ऐसे मिथ्यात्व के दल उनका मिश्र और सम्यक्त्व दोनों में प्रक्षेप करे, और मिश्रका दलतो फक्त सम्यक्त्व मेंही प्रक्षेप करे, और सम्यक्त्व का दल सम्यक्त्व अपने नीचे की स्थिति में प्रक्षेप करे, उसके बाद जो मिथ्यात्व का दल आवलि मात्र रहा है. उस भी स्तिवुक संक्रम कर सम्यक्त्व में संक्रमावे. तब मिथ्यात्व क्षीण होवे. उसके बाद मिश्र का तथा सम्यक्त्व का असंख्याते भाग कर के उस के खण्डमें बाकी एक भाग रक्खे. फिर उस के भी असंख्यात भाग कर एक भाग बाकी रक्खे. और सर्वों का खण्डन करे. यों कर ते २ कितनेक स्थिति खण्ड गये बाद, मिश्र मोहनीय एक आवलिका मात्र रहै, उस वक्त सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति सत्ता आठ वर्ष प्रमाण की रहे उस वक्त निश्चय नय के मत से तो सर्व विघ्नोंका नाश हो गया ! इसलिये इसे दर्शन मोहनीय का क्षपक (क्षायिक) सम्यक्त्वी) कहना.

तदनन्तर-फिर भी सम्यक्त्व के स्थिति खण्ड को अंतर मुहूर्त प्रमाण उकेरे. उसका दल उदय समय से आरंभ कर सर्व स्थिति सत्ता समय २ संक्रमावे, उस में भी उदय समय सब से थोड़ी संक्रमावे. उस से दुसरे समय असंख्यात गुण अधिक उस से तीसरे समय असंख्यात गुण अधिक, यों समय २ असंख्यात गुण अधिक २ संक्रमाता २ इस गुण श्रेणी के मस्तक पर्यंत जाणना. उसके बाद ऊपर तो विशेष २ हीन जहां लग स्थिति का अन्तिम समय होवे वहां लग संक्रमावे, यों अंतर मुहूर्त २ प्रमाण अनेक स्थिति खण्डों को उकेरता है. और निक्षेपण भी करता है, वो स्थिति दल में संक्रमाता द्विचरम स्थिति खण्ड पर्यंत जावे. उस द्वीचरम स्थिति खण्ड से अन्तिम खंड असंख्यात गुणा करे; वो अन्तिम स्थिति खण्ड जिस वक्त उकेरे उसे क्षपक कृत करण ऐसा नाम कहना. इस कृत करणाद्रा में वर्तता ऐसा जीव, किसी पूर्व आयुका बंध किया होतो वो आयु क्षय हुवे मरकर चारों गति में की किसी भी गति में अवतार लेलेता है. और लेख्या के विषे पहिले तो शुक्र लेख्या में था

और वर्तमान में तो अन्य हलकी लक्ष्या में जावे, इसलिये सप्तक क्षय का शुरु करने वाला प्रस्थापक होकर मनुष्य निष्ठापक होता भी चारों गति में का जीव कहा है, और जो पूर्व बंधे हुवे मनुष्य वाला क्षपक श्रेणी शुरु करे, और अन्नतान बंधि चौकडी को खपाकर फिर मृत्यु होणे के संभव से श्रेणी से विरमें तो भी अनंतान बंधि का बीज भूत मिथ्यात्व है उसका नाश हुवा नहीं इसलिये फिर भी कदाचित् अनंतान बंधि सजीवन करते प्राप्त होवे. परंतु जिसने मिथ्यात्व का क्षय किया है वो मिथ्यात्व के विनाश से फिर अनंतान बंधि का बंध नहीं करे. क्योंकि बीज विना अंकुर की प्राप्ति नहीं होती है. और इन सातों प्रकृति को क्षय कर जो चढते परिणाम में मृत्यु प्राप्त होवे तो अवश्य देवगति मेंही उत्पन्न होवे. और जो पतीत परिणामी होवे तो अनेक प्रकार के परिणामों के संभव से जैसे परिणामकी विशुद्धि में प्रवर्तता मरण करे तैसी गति में जावे, और जिस ने पूर्व आयुका बंध किया है, ऐसा जीव जो उस वक्त काल करै नहीं तो भी सात प्रकृति के क्षयसे निश्चय उन के वैसै ही परिणाम रहे, परंतु आगे की दुसरी चारित्र मोहनीय की प्रकृति खपानेका उद्यम करे नहीं. और क्षण सप्तक पूर्वायु बंध के सबवसे मुक्ति नहीं पावे. तो भी तीसरे अथवा चौथे भव में तो जरूरही मोक्ष पावे; क्योंकि जिस ने देवायु या नरकायु का बंध किया हो तो वो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे भव में मोक्ष पावे. और जो मनुष्य अथवा तिर्यच का आयु बंध किये बाद सप्तक क्षय करे, वो नियमा से असंख्या वर्षायुतका बंध करे. (परन्तु जिसने अवल संख्यात वर्षायु के स्थान में जानेका बन्ध किया हो तो वो सप्तक का क्षय नहीं करता है.) और वो मरकर निश्चय से युगलियाही होवे. ओर वहां तो भव प्रत्यय निश्चय से देवायुकाही बंध है, इसलिये वो देवगति में जावे, और देवगति में भव प्रत्यय सम्यक्त्व होने के सबव से मनुष्यायु काही बन्ध करे इसलिये वहां से चवकर मनुष्य होवे, और वहां फिर आयुर्वन्ध करे नहीं, फक्त चारित्र गृहणकर बाकी रही २१ चारित्र मोहनीय की प्रकृति का क्षय कर मुक्ति पद प्राप्त करे इस अपेक्षासे क्षायिक सम्यक्त्वी चौथे भव से मोक्ष प्राप्त करता है.

(इन सातों प्रकृति का क्षय तो अविरति सम्यक् दृष्टि गुणस्थान में ही होता है, और जो करेतो देशविरति, प्रमत संयाति, अप्रमत संयाति इन में से कोईभी कर सक्ता है)

और जो आयु विना बन्धे क्षपक श्रेणीका आरंभ करै तो वो अवल इस सप्त-
क का क्षयकरे तो वो नियमा से अनुपरत परिणाम वन्त—चडते परिणाम से आगे
चारिव मोहनीय की प्रकृतियों को क्षपाने उद्यम कर, तब—यथा प्रवृत्ति आदि ती
नो करणों (उपशम श्रेणी में कहे सुझवही यहाँ) करै. यहाँ अप्रमत्त गुणस्थान में य
था प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण गुणस्थान में अपूर्व करण और अनि श्रुतिवाद्दर गुण-
स्थान में अनिष्टात्ति करण करे. वहाँ अपूर्व करण में स्थिति यात आदि कर अप्रत्या-
ख्यानी चौकडी और प्रत्याख्यानी चौकडी की आठों कषायों को ऐसी तरह से खपा
वे कि-वो अनिष्टात्ति करणाद्धा के प्रथम समय मेंही उस कषयाष्टक की पल्योपमके
असंख्यातवे भाग प्रमाण मात्र स्थिति बाकी रहे. फिर-थीण द्विविक, नरक द्विक, ति
र्यच द्विक, पहिली चार जाति, स्यावर नाम, उद्योत नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम
नरगाति और तिर्यचगाति तत्प्रयोग नाम कर्म की १३ प्रकृति, तथा पूर्वोक्त थीणाद्वि
विक सो दर्शनावरणी की यों सब १६ प्रकृति यों को उद्बल ना संक्रमकर
प्रति समय उबेल २ जब पल्योपम के असंख्यातवे भाग जितनी सी स्थिति वहाँ रहे
तब उन १६ प्रकृतियों को प्रतिप्रमय बन्वती हुई अन्य प्रकृति में गुणसंक्रमण कर सं
क्रमा २ कर क्षीण करता २ अनिष्टात्ति वाद्दर गुणस्थान के संख्याते भाग मये वाद्द
वाकी एकही भाग रहे तब उन सब प्रकृतियों का क्षय करे.

(यहाँ आचार्या के दो मत हैं:—(१) अप्रत्याख्यानी चौकडी और प्रत्या-
ख्यानी चौकडी जो पहिले खपानी शुरू करी थी परन्तु अभीतक क्षय हुई नहीं. उस
के बीच में पहिलेही उन १६ प्रकृतियोंका क्षय किया, और (२) यह १६ प्रकृतियों
का क्षय करती वक्त ही बीच में उन आठों प्रकृति का क्षय कर दिया ऐसाभी कि-
तनेक आचार्योंका फरमान है.)

आठ या शोळे कषाय खपायेवाद्द अन्तर मुहूर्त में १ नो कषाय और संज्वल
की चौकडी का अन्त करण करै, फिर नपुंसक वेद की ऊपर की स्थिति वाला दल
उबेलने की विधि सेही खपाना शुरू करे, वो अंतर मुहूर्त में उबेलता २ पल्योपम के
असंख्यातवे भाग प्रमाण जब स्थिति रहे तब बंधती हुई प्रकृतियोंमें उसका दल गुण
संक्रमकर संक्रमावे, यों करते अंतर मुहूर्तमें उसका सर्वतः नाश होवे. फिर वो नपुंसक वेद
की नीचे की स्थिति का दल जो नपुंसक वेदके उदय में श्रेणीका आरंभ किया हो
तो वेद २ कर खपावे, अन्यथा तो आवली मात्र रहे तब उसे उदयवन्त बद्यमान प्रकृ

त्तीमें स्तिबुक संक्रमकर संक्रमावे यों नपुंसक वेद क्षय किये वाद, अन्तर मुहूर्त में स्त्री वेदको भी ऐसी तरह से खपावे. फिर हांस्यादि छेओं प्रकृत्तिका एकही वक्त में साथही क्षय करीना शुरू करे, उन नो कषाय का उपर की स्थितिकी दल पुरुष वेद मे पतद गृह न होवे इसलिये उस का पुरुष वेद में संक्रम नहीं करता हुवा संज्वल के क्रोध में पूर्वोक्त रीति से संक्रमावे. यों कर ने से अन्तर मुहूर्त में उन छेओं नो कषाय का क्षय होवे, उत ही समय में पुरुष वेद का वन्ध उदय ऊदीरणा का विच्छेद होवे और एक समय कम दो आवलीका वन्धाथा जो पुरुष वेदका दल वो छोडकर वाकी सब क्षय होवे. उस समय में अवेदक होवे. यह पुरुष वेद में श्रेणी करे उसकी विधि कही, और जो नपुंसक वेद में श्रेणी का प्रारंभ करे वो वो पहिलेही स्त्रिवेद और नपुंसक वेद दोनों का एकही वक्त क्षय करे, उस क्षय के समयमें ही पुरुष वेदका वन्धादिका विच्छेद होवे. उसवक्त अवेदक हुवा पुरुष वेद का और हांस्यपटक का एकही वक्त में क्षय करे.

और जो स्त्री वेद के उदय में श्रेणि आरंभे तो पहिले नपुंसक वेदखपावे उसके क्षय की वक्तही पुरुष वेदके वन्धादिका विच्छेद होवे फिर नपुंसक वेद और हांस्य पटक का एक वक्तमें क्षयकरे.

और जो पुरुष वेदमें श्रेणीकी आरंभकरे तो वो पुरुषवेदी क्रोधको वेदेता हुवा क्रोधके तीन विभाग करे—१. जो घोडे के कान के जैसे छोटे छोटे पुद्गलो के खण्ड करे इसलिये उसे अश्वकरणाद्धा कहते हैं. २. उस रसरहित दल को कूट २ कर किट्टिकी तरह अत्यन्त सूक्ष्म करे उसे दूसरा किट्टि करणाद्धा कहना. ३. वो किट्टि करणाद्धा किये वाद उस किट्टि को वैदे उसे तीसरा किट्टिवेदनाद्धा कहीये. उस में से प्रथम अश्वकरणाद्धा में वर्तता हुवा समय २ में अनन्त अपूर्व स्पर्दक सज्वलकी चौकडी के अन्त करण की ऊपर स्थिति में करे; अर्थात् सज्वलकी चौकडी के अन्तकरणकी उपरकी स्थिति के प्रति समय अनन्त अपूर्व स्पर्दक करे. (स्पर्दकरन की विधि पहिले कही वैसीही जाणना) और इस अश्वकरणाद्धा में वर्तता पुरुष वेदका भी समय कम दो आवलीका रूप काल कर के क्रोध में गुण संक्रमण कर के संक्रमाता हुवा अन्तिम समय में सर्वतः संक्रमावे. यों यहां पुरुष वेद का क्षय होवे. और अश्वकरणाद्धा की भी समाप्ती हुइ. फिर किट्टि करणाद्धा में प्रवेश कर सज्वलकी चौकडी की ऊपर की स्थिति गत दलिक की किट्टि कर, वो किट्टि परमार्थ से तो अनन्त है, तो

भी अल्पज्ञों को समजाने स्थूल भेद की अपेक्षा-असत् कल्पना से एके क कषाय की तीन २ कल्पना कल्पनी तव १२ किट्टि होवे, यह तो क्रोधसे क्षपक श्रेणी आरंभे उस आश्रिय कहा.

और जो मानोदय में श्रेणि प्रतिपन्न होवे तो उसे उद्वलन अनेक प्रकार की विधिकर क्रोधका क्षय कियेवादा बाकी रही तीनों कषाय की ऊपरोक्त विधिसे ९ किट्टि करे. और जो माया के उदय में श्रेणिका आरंभ करेतो क्रोध और मान इन दोनों को उद्वलन विधिकर खपाने से बाकी रही दोनों कषाय की ६ किट्टिकरे. जो लोभके उदय में श्रेणिका आरंभ करैतो क्रोध मान माया इन तीनों को उद्वलन विधिकर उबेलकर खपावे, बाकी रहे एक लोभकी ही ३ किट्टि करे. यह किट्टि करने की विधि कही.

यह किट्टि करणाद्रा पूर्ण हुवे बाद किट्टिवेदना अद्धा में प्रवेशकीया हुवा जो क्रोध में श्रेणिका आरंभ करे तो वोक्रोध की दूसरी स्थिति में रहा हुवा प्रथम किट्टिका दलिया दूसरी स्थिति में से आकर्ष प्रथम स्थिति गत करके वो जहां तक एक समय अधिक एक आवलीरहे वहां तक वेदताहै. फिर उसके अन्तर समयमें ऊपरकी दूसरी स्थिति में रहा हुवा दूसरी किट्टि का दल उसको आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर के वोभी एक समय अधिक एक आवली रहे वहां तक वेदे. फिर ऊपर की स्थिति तीसरी किट्टि के दल को आकर्षकर प्रथम स्थिति गत कर वेदताहै. यों तीनों किट्टिवेदनाद्रा में ऊपर की स्थिति के दलिक को गुण संक्रम कर प्रति समय असंख्यात गुण वृद्धि युक्त संज्वल के मान में प्रक्षेप करे, यों तीसरी किट्टि के आद्राके अन्तिम समय में संज्वल के क्रोधका वन्ध उदय उदीरणा का साथही व्यछेद होताहै. और सत्तामें भी अन्तिम समय कम दो आवलिका वधा हुवा दल रहा है उस सिवाय दुसरा नहीं है. क्यो कि सब प्रक्षेप मान में होगया है; उसे आगे के समय में मान की दूसरी स्थिति में से प्रथम किट्टिका दल आकर्ष कर प्रथम स्थिति करके अन्तर मुहूर्त तक वेदते हैं. वहां जो क्रोधका दल बाकी रहा है उसे एक समय कम दोआवलिका गुणसंक्रम कर संक्रमावे और अन्तिम समय तो सर्व संक्रम कर संक्रमावे. अर्थात् यहां क्रोध का क्षय हुवा.

योंही मानकी प्रथम किट्टि का दल प्रथम स्थिति में किया हुवा है उसे वेदते २ एक समय अधिक एक आवली बाकी रहै तव फिर दूसरे समय में मानकी ऊपर की

स्थिति का दल आकर्ष कर प्रथम स्थिति गत कर ऐसेही वेदते २ समयाधिक आवली वाकी रहे. तदन्तर समय में मानकी ऊपर की स्थिति की तीसरी किट्टि कादल आकर्ष कर उसको प्रथम स्थिति गत कर जहां तक एक समयाधिक एक आवलिका मात्र रहै वहां तक वेदे. तब उसके अन्तिम समयमें मानका वन्ध उदय उदीरणाका एकही वक्त में विच्छेद होवे. और सत्तामे एक समय कम दो आवलिका बन्धा हुआ दल रहै. क्यों कि वाकी रहा हुआ दल माया मे प्रक्षेप कर खपाया है.

तैसेही माया का दूसरी स्थिति गत की प्रथम किट्टि का दल उसे प्रथम स्थिति गत कर अन्तरमुहूर्त पर्यन्तवेदे. उसमें जो वाकी बचा हुआ मानका दल रहाथा उसको समय कम दो आवलिका गुण संक्रम कर अन्तरमुहूर्त पर्यन्त माया में संक्रमावे. और अन्तिम समय तो सर्व संक्रम कर संक्रमावे, तब मानका क्षय हुआ. और मायाकी भी प्रथम किट्टि कादल वेदते समयाधिक आवलिका मात्र रहै तब तदन्तर समयमें आगे की दूसरी स्थिति किट्टि दल को प्रथम स्थिति कर के समय कम आवली रहे वहां तक वेदे. तदन्तर समय में दूसरी स्थिति गत रहा हुआ तीसरी किट्टि का दलिक उसको आकर्ष कर प्रथम स्थिति गत कर के वेदे. यों पूर्वोक्त रीतिसे माया की किट्टि के दल को वेदता २ अन्तिम किट्टि का दल प्रथम स्थिति गत कर वेदते हुवे. तब समयाधिक आवलिका मात्र रहै, तब मायाका वन्ध उदय उदीरणा का व्यच्छेद हुआ. फक्त एक समय कम दो आवलि सत्ता में रहा है. वाकी के सब को संज्वल के लोभ में मिला है.

फिर संज्वल के लोभकी ऊपर की स्थिति के प्रथम किट्टि का दल आकर्ष कर प्रथम स्थिति गत करके अन्तर मुहूर्तमें वेद ताहै. वाकी रहा समय कम दो आवलीक संज्वलकी मायाका दल उसको अन्तर मुहूर्त पर्यन्त गुण संक्रम कर लोभमें संक्रमावते अंतर मुहूर्त के अन्तिम समय में सर्व संक्रम कर संक्रमावे. उस वक्त संज्वल के लोभकी प्रथम किट्टि का दल भी समयाधिक आवलिका जितना रहै. तदन्तर समय में संज्वल के लोभके ऊपरकी दूसरी स्थिति की दूसरी किट्टिका दल खेंचकर प्रथम स्थिति गत कर के वेदते २ आगे की तीसरी किट्टि के दल गृहण कर के उसकी सूक्ष्म २ किट्टिक रे. वोभी जहां तक दूसरी संज्वल के लोभको किट्टिका जो प्रथम स्थिति गत किया है उसकी समयाधिक आवलिका मात्र रहै वहां तक करे. उस समय मेंही संज्वलके लोभ का वन्ध विच्छेद होवे. और वादर कषाय का और उदीरणा काभी विच्छेद हो-

वे. और अनिवृत्ति वादर गुणस्यात के काल काभी विच्छेद होवे. इन तीनों का साथही विच्छेद होताहै.

उसके आगे के समयमें लोभकी सूक्ष्म किट्टिका दल ऊपरकी दूसरी स्थिति में से आकर्ष कर प्रथम स्थिति करके वेदे, उसे सूक्ष्म सम्पराय कहते हैं. पहिले जो तीसरी किट्टि की बाकी रही, आवल्लिका की अन्तिम किट्टि रही है वो सर्व वेदता हुआ पाप प्रकृति यों में स्तिबुक संक्रम कर संक्रमावे, तब लोभकी प्रथम किट्टि की बाकी रही सब आवल्लिका सो दूसरी किट्टि के दल में संक्रमावे और दूसरी किट्टि की सब आवल्लिका तीसरी किट्टि के दल में संक्रमा कर वेदे.

अब लोभकी सूक्ष्म किट्टिका दल और पूर्व समय कम दो आवल्लिका बढा हुआ दल उसकी प्रति-समय स्थिति घातादिक कर के वेदता हुआ सूक्ष्म सम्पराय अद्धा के संख्याते भाग जावे और एक भाग बाकी रहे वहां तक स्रपावे. अब जो एक समय रहा है उसे संज्वल के लोभ की सब अपवर्तना करणे से अपवर्त कर X अर्थात् संज्वल के लोभकी स्थिति और रसको कम कर के बाकी सूक्ष्म सम्पराय अद्धा जितना रखवे. अब वो लोभकी अपवर्ती हुई स्थितिको वेदता २ संज्वल का लोभ समया थिक आवली मात्र रहे वहां तक जावे. वहां इसकी ऊदीरणा हो-विराय पाकर फक्त उदय करकेही वेदते हैं. वो अन्तिम समय तक जानना. और अन्तिम समय में ५ ज्ञानावरणी. ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय, १ ऊंच गौत्र १ यशःकीर्ति. इन १. ६ प्रकृति का वन्य विच्छेद होताहै. और मोहनीय के उदय का और सत्ताका भी विच्छेद होता है.

संज्वल के लोभका सर्वाश क्षय किये वाद-क्षीण कषायी हुवे, उनके भी मोहनीय बिना, दूसरे सब कर्मोंका-स्थिति घात रसघात-गुणश्रेणी-गुण संक्रम यह पुर्वोक्त विधिसेही इस क्षीण कषाद्धाके संख्याते भाग जावे वहां तक प्रवर्ते. और बाकी एक भाग रहे तब-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय, और २ निद्रा यों

X अपवर्तना का स्वल्पः—जो कर्म की स्थिति रस का घटाना अथात् संज्वल का स्थिति रस घटाकर बाकी सूक्ष्म सम्पराय जितना रखे, अभी भी सूक्ष्म सम्पराय अद्धा अन्तर सुदूर्त जितनी रही है, उस वक्त मोहनीयके स्थिति घातादि पांच पदार्थ निवर्ते, परन्तु अभीतक दूसरे कर्मों का स्थिति घातादिक प्रवर्ती ताहै. यहां जो कर्म की स्थिति तथा रसका घटाना उसी का अपवर्तना " कहना.

१६ प्रकृति की सत्ताकी स्थिति सर्व अपवर्तन मान से अपवर्तन कर अर्थात्—घटा कर क्षीण कपाय के अद्धा जितनी करे, परन्तु निद्रा दिक की स्थिति स्वरूप की अपेक्षा से एक समय कम करे, और कर्म रूपसे बराबर होवे. सो कपाय अद्धा अभीभी अन्तरमु-हूर्त प्रमाण है. उस वक्त उन १६ प्रकृतियों के स्थिति घातादि विराम पावे. परन्तु जो दूसरी बाकी रही स्थिति है उसके स्थिति घातादि कायम है. इन १६ प्रकृति की उदय ऊदीरणा करके वेदते २ एक समायधिक आवली मात्र बाकी रहे वहां तक वे दे. फिर ऊदीरणा से भी विराम (निद्रादि) पावे. उस वक्त एक आवली मात्र फक्त उदय करके ही वेदते हैं. वो भी क्षीण कपाय के द्विचरम x समय पर्यन्त फिर उस द्वि चरम समय में—छन्नस्त (ठकी हुई) अब स्यामैही निद्रा और प्रचला कानाश क-रे—सत्ताकी अपेक्षा से क्षय होवे. फिर—५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय ५ अन्तरा-य इन १४ प्रकृति का छन्नस्त अवस्था के अन्तिम समय में घात करे.

यों इन १४ प्रकृतिका क्षय होतेही दूसरे समय में व्यवहार नय के मतानुसार सयोगी केवली भगवन्त होते हैं ! और निश्चय नय के मतानुसार तो उसही समय में के वली गिनेजाते हैं ! उस केवल ज्ञान रूप महादिव्य जगत्—चक्षुकर लोकालोक के सर्वद्र-व्य क्षेत्र काल भाव और भवों को सर्वांश कर देखते जानते हैं. इस वक्त जो पर म पुण्यात्मा जीव तीर्थकर गौत्र का उपाजन कर के आये होते हैं उनके यहां ❀ अष्ट प्र-तिहार्य, ३४ अतिशाय, ३५ वाणी गुण, इत्यादि गुणों की प्राप्ति होती है. यह सामान्य केवली के नहीं होते हैं. यह जघन्य तो अन्तर मुहूर्त पर्यन्त उत्कृष्ट देशऊणा (८ वर्ष कम) क्रोड पुर्व पर्यन्त भूमण्डल में मुखसे विहार करके सत्य धर्म को पूर्ण प्रका-श में लाते हैं.

इन केवल ज्ञानी भगवन्तों में से जिनके आयु कर्म थोडा होवे और वेदनीय क र्म अधिक होवे तो ८ समयमें समुद्रघात हो वो कर्म बराबर होजाते हैं. समुद्रघात हुवे बाद अन्तर मुहूर्त बाद व उत्कृष्ट ६ महीने बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं. और बहुत से केवली भगवन्त बिना स मुद् घात कियेही मुक्ति प्राप्त कर ते है.

फिर दोनों प्रकार के केवली भगवन्त भी भवोप गृही कर्मों के क्षय करने के

x अन्तिम समय के पहिले के समय को “ द्विचरम ” कहा जाता है ❀ सामान्य केवली के और तीर्थकर के फक्त इन गुणों की ही न्यून्याधिक ताहै बाकी तो सर्व गुण बराबर होते हैं.

लिये—लेख्यातीत, अत्यन्त अग्रकम्य. परम निर्जरा का कारण ऐसा शुद्धध्यानका तीसरा पाया ध्याते हुवे योगोंका निरुंधन करना शुरू कर तेंहें. प्रथम वादर वचन जोग का निरुंधन करने को प्रवर्तें. वहां वादर काया योग कर के वादर मन योग का और सूक्ष्म मन योग कर के वादर वचन योग को रुंधन करे. फिर सूक्ष्म काया योग कर वादर काया जोग का रुंधन करे. फिर उसही कर के सूक्ष्म मन जोग का रुंधन करे, फिर सूक्ष्म वचन जोग का रुंधन करे. फिर सूक्ष्म काया जोग का रुंधन करते सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक शुद्ध ध्यान के तीसरे पाये करके उदारीक शरीर के अन्दर रहे हुवे प्रदेशों के छिद्रों को आत्म प्रदेशों को घन रूप कर पूर्ण करे (खड़े—बुरे) तब दो भागके प्रदेशों घन होने से मूल शरीर से तीसरे भागके जितनी अवघेहना उन आत्म प्रदेशों की घन रूप होकर रहजाती है. इसही ध्यान में प्रवर्त ते हुवे स्थिति घातादि कर सयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय—एक आयुष्य विना वाकी के तीनों कर्मों को अयोगी गुणस्थान की अवस्था है वैसे स्थिति वन्त करे; परन्तु इतना विशेष—जिनकर्मों का अयोगी गुणस्थान में उदय नहींहैं, उन कर्मों की स्थिति स्वरूपापेक्षा करके समय मात्र कम करे. कर्म स्वरूप की अपेक्षा से अयोगी अवस्था जितनी करे.

उस अयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय में: २ औदारिक द्विक, ४ ते जप्त—कार्मण शरीर, १० छे संस्थान, ११ प्रथम संघयण १५ वर्ण चतुष्क, १६ अगुरु लघु नाम, १७ उप घात नाम, १८ पराघात नाम २० शुभ—अशुभविहायो गति. २१ प्रत्येक नाम, २२ स्थिर नाम, २३ आस्थिर नाम, २४ शुभ नाम, २५ अशुभ नाम, २६ निर्माण नाम, २७ सुस्वर नाम, २८ दुस्वर नाम २९ उशाश्वस और ३० दोनो वेदनीय में की एक वेदनीय, इन ३० प्रकृति की उदय और उदीरणा का विच्छेद होता है, तब दूसरे समय में अयोगी केवली होते हैं; यहां फक्त पंच लघु अक्षर (अ. इ. उ. ऋ. ल.) उचार करने में जितना काल लगता है, उतने काल तक रहते हैं, इसस्थान को प्राप्त होतेही व्युपरित क्रिया—अप्रतिपाती नामें शुद्ध ध्यान का चौथा पाया प्राप्त होता है.

इस गुणस्थान में स्थिति घातादि कुछभी नहीं हैं, फक्त जितनी उदय वति प्रकृति है उनको वेदता हुवा—खपावे. और जिन प्रकृतिका उदय नहीं फक्त सत्तामें हीहै उनके दलिये उने स्तिवुक संक्रम कर उदयवति प्रकृति में संक्रमा कर वेद २कर खपा—

वे. यों अयोगी गुणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर तहैं.

अब यहां जो स्वभावसे प्रकृतियों का नाश होता है उनके नामः—२. वैक्रय आहारक - शरीर, ४वैक्रय आहारक बन्धन. ६ वैक्रय आहारक संघातन. ८ वैक्रय आहारक अंगोपांग. ९ देव गति, १० देवानु पूर्वी, यह १० प्रकृतियों देवगति के बन्ध की वक्त में बन्ध ती है, इसलिये इने देवगति सहचारीणि कही जाती है. इनका भी द्विचरम समय में नाश करते हैं. फिर ३-औदारिक - तेजस - कार्मण यह तीनों शरीर, ६ इन तीनों का बन्धन, ९ इन तीनों का संघातन, १५ छे खंघयण, २१ छे संस्थान, २२ औदारिक अंगोपांग, २६ वर्ण चतुष्क, २७ मतुप्यानु पूर्वी, २८ पराघात नाम, २९ उपघात नाम ३० अगुरुलघु नाम, ३२ शुभा शुभखगति, ३३ प्रत्येक नाम, ३४ अपर्याप्ता नाम, ३५ उश्वास नाम, ३६ स्थिर नाम, ३७ अस्थिर नाम, ३८ शुभनाम, ३९ अशुभनाम, ४० सुस्वर नाम, ४१ दुस्वर नाम, ४२ दुर्भग नाम, ४३ अनादय नाम, ४४ अयशकीर्ति नाम, और ४५ निर्माण नाम. यह ४५ प्रकृति योंका यहां उदय नहीं होने से द्विचरम समय में इनका भी विच्छेद होता है.

अब द्विचरम समयमें खपाया १ जो साता असाता में का एक वेदनीय २ मनु-प्यायु, ३ मनुष्य गति ४ पंचेन्द्रिय की जाति, ५ व्रस नाम, ६ वादरनाम, ७ पर्याप्ता-नाम, ८, सुभग नाम, ९ आदेय नाम, १० यशकीर्ति नाम, ११ उंच गौत्र यह ११ ही प्रकृति मनुष्यगति सहगत है, अर्थात् मनुष्यगति में यह प्रकृतियों जरूर पाती है, इसलिये मनुष्य शरीर के साथ इन ११ प्रकृति का उदय तो सामान्य केवली में पाता है, और १२ तीर्थकर नाम सहित १२ प्रकृति का उदय तीर्थकर में पाता है, इन १२ प्रकृति का चउदवे अयोगी केली गुणस्थान के अन्तिम समय में सर्वांश क्षय करत हैं. "कृतस्त कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः" अर्थात्-सर्व कर्मों के बन्धन से मुक्त होना-छूटना उसीको मोक्ष कहते हैं. यों क्षपक श्रेणी प्रातिपन्न महात्माने अनुक्रम से सर्व कर्मोंका नाश करते हुवे चउदवे गुणस्थान के अन्तिम समय सर्व कर्मंश रहित होतेहैं उसही वक्त वो मोक्ष हुवे समजला.

सूत्र-पूर्व प्रयोगाद् - आविद्ध कुलाल चक्रवद्,

ऽसङ्गत्वाद् - व्यपगतलेपा लाम्बुवद्,

बन्ध छेद , एरण्ड बीज वद्,
तथा गति परिणामच्च - ऽग्निशिखावच्च ॥

तदन्तर मूर्द्ध गच्छत्या लोकान्तात् ॥ तत्वार्थ सूत्र. अ. १० ॥

अर्थात्— “तदन्तर” उन कर्मों के सर्वांश से छूटे बाद—(१) जैसे - कुम्भार का घुमाया हुआ चाक, छोड़ें बाद भी पूर्व के प्रयोग (थक्के) से बहुत कालतक घुमा (फिरा) करता है, तैसाही अनादि से परिभ्रमण करने का जो जीव का स्वभाव कर्म भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मों से छूटे बाद भी मुक्ति स्थान में जाने तक की गमन क्रिया करता है. तथा बहुत काल से मुक्ति गमन के लिये तप संयमादि किरिया कर रहे थे उस प्रयोग से मुक्ति में जाते हैं. (२) जैसे-मट्टी से छाया हुआ तुम्बा पानी में डूबा हुआ सो वो मट्टीका का लेप गलनेसे उस संगत से रहित होने से स्व स्वभाव से पाणी के उपर अन्त में आकर टेहरता है, तैसे ही आत्मा रूपतुम्बा जो कर्म रूप मट्टी से लेपाय हुआ संसार समुद्र में डूब हुआ था वो अनेक - अकाम सकाम निर्जरा रूप पाणी के प्रयोग से गलने से उस वजन से मुक्त हो हलका हुआ लोकान्त में मुक्ति है वहां जाकर टेहरता है. (३) जैसे गोहे-डोडे में (फलमें) एरंडी का बीज बन्धा था वो फल सूक कर गोहा फटतेही एरण्ड बीज उछलकर उपर जाता है, तैसेही आत्मा कर्म रूप बन्ध से छूटतेही उपर को उछलता - जाता है. और (४) जैसे अग्नि से प्रज्वलित मशाल को जो कभी उल्टी भी कर दी तो भी उसकी ज्वाला (झाल) उर्द्ध-उंची दिशाकोही स्वस्वभाव से गमन करती है, तैसेही संसार में झुकाने वाले कर्म रूप पवन का अभाव होनेसे आत्मा स्वस्वभाव कर उर्द्ध-मोक्ष को जाती है.

प्रश्न—जो आत्मा का बन्ध से छूटे बाद उर्द्ध गमन करनेका ही स्वभाव है तो फिर मोक्षस्थान में जाकर अटक क्यों जाती है? टेहर क्यों जाती है? आगे को क्यों नहीं गमन करती है?

उत्तर—“धर्मास्ति काय अभावात्”—अर्थात् जैसे मछलीको गमन शक्ति में पाणी की सहायता से है, तैसेही आत्मा और पुद्गलों का गमन धर्मास्ति काय नामक लोक व्यापी एक द्रव्य की सहायतासे है. अर्थात् धर्मास्तिके सहायसे ही आत्मा और पुद्गल गमन कर शक्ते हैं. उस धर्मास्तिका लोकाग्रके आगे अलोक में अभाव-नास्ति

होने से आत्मा आगे को नहीं जा सकती है. वहां ही लोक के अन्त में स्थिरी भूत होकर ठेहर जाती है.

श्लोक—दग्धे बीजे यथात्यन्ते । प्रादुर्भवति नाकूरः ।

कर्म बीज तथा दग्धे । नारोहति भवाकूरः ॥८॥

अर्थात्—जैसे दग्ध किया—अग्नि कर जला हुआ बीज से अंकुर का प्रादुर्भाव होता है. अर्थात्—जले हुवे बीज से अंकुरा नहीं फूटता है, ऐसीही संसारके बीज भूत सर्व कर्मों रूप बीज भस्म भूत होनेसे वो जन्म रूप या किसी प्रकारकी व्याधी-दुःख रूप अंकुर उत्पन्न नहीं करसकते हैं. जिस से सिद्ध परमात्मा सदा काल अचल और अव्याबाध हैं.

श्लोक—संसार विषया तीतं । मुक्ता नाम व्ययं सुखम् ॥

अव्या बाध मिति प्रोक्त । परमं परमार्पिभिः ॥ २० ॥

अर्थात्—वो मोक्ष स्थान में संस्थित रही हुई आत्मा—संसार के सर्व विषयों से पर—अर्थात् श्रेष्ठ और अव्या बाध अर्थात्—सर्व प्रकार की बाधाओंसे रहित, अनन्त काल तकही न्युन्या धिकता रहित एकसी ही बनी रहती हैं, ऐसे निरुपम—अत्युत्तम सुख के भुक्तती हैं.

(५) पांचवा—लक्षण द्वार का अर्थ.

ऐसी तरह से जो अनुक्रम से गुणस्थाना रोहण करते हैं—जों जों आगे २ के गुणस्थानों में बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों उनके आत्म गुण भी अधिक्यता विधुद्धता को लेते हुवे वृद्धि होते हैं. वो गुण कौन से और कैसी तरह वृद्धिपाते है, यह स्वरूप दर्शाने के वासते पांचवा वा “लक्षण द्वार” कहा गया है.

प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान के लक्षण में जो शास्त्रवसे अन्यन्य ग्रन्थों से संग्रह कर के मिथ्यात्व के ३४ भेद लिखे गये हैं जिसका अर्थ.

(३४) मिथ्यात्व

सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व के दो भेद—१. अव्यक्त मिथ्यात्व. और २. व्यक्त मिथ्यात्व.

१. अव्यक्त मिथ्यात्व सो—जैसे चन्द्रहांस्य मदिरा का सेवन करने से मनुष्य

वे भान हो मूर्च्छित हो पड़ जाता है. उसे अपने पराये अच्छे बुरेका कुछभी भान न-
ही होता है, तैसही सूक्ष्म निगोद से लगाकर असत्नी तिर्यच तक तो यह एकही मिथ्यात्व
निश्चय से पाता है, और बाकी के दंडको के जीवों में से बहुत से जीवोंगे यह मि-
थ्यात्व में पाता है. इस मिथ्यात्व के वशमे पड़ेहुवे जीवों ज्ञानावरणी आदि कर्मों का अंति
तीव्र रस चन्द्रहॉस मदिरा जैसा परिगमने से वो धर्म अयर्म पुण्य पाप अच्छा बुरा इ-
त्यादि कुछभी नहीं समझते हैं. फक्त सुख दुःख रूप होती हुई वेदना वेदने सिवाय दू-
सरा कुछभी ज्ञान उनमें न होनेसे अव्यक्त मिथ्यात्वी कहे जाते हैं.

(२) “व्यक्त मिथ्यात्व” सो-जैसे-किसीको पीलीया का रोग होने से वो श्वेत
वस्तु को भी पित्त (पीली) देखता है. तैसही यह मिथ्यात्व एक सत्ची पचेन्द्रिय मेंही
पाता है, इसमिथ्यात्वके वश्य में पड़े जीवको कर्मरूप पीलीये के रोगसे ग्रासित हुई वि-
परीत बुद्धि कर सर्व पदार्थों विपरीत-उल्टेही भाष होते हैं. सत्य को असत्य, असत्य
को सत्य; न्यायको अन्याय, अन्यायको न्याय, इत्यादि सब उल्टे जानते-श्रद्धते हैं. सो
व्यक्त मिथ्यात्वी. आगेजो मिथ्यत्वके भेद किये जावेंगे उन सर्वोंका समावेश इसमें होता है.

सुखत्व मिथ्यात्व के पांच प्रकार भी कहे हैं:—

(१) “अभिग्रह मिथ्यात्व” सो-जो जीवों-दृष्ट ग्राही-कदाग्रही होते हैं. वो अपने
ध्यान में जो बात जची सो सब सत्ची, बाकी की सब झूठी जानते हैं, कैंसेभी सद्बोध
-सद्दुपाय से उने समजाने कोइ भी समर्थ न होवे. और वो सत्संग भी इसही डरके मा-
नहीं करते हैं, कि रखे उन ज्ञानी महात्मा के पास जाऊंगा तो मेरी श्रद्धा पलटा देवेंगे
कभी कोइ उनको उसके धर्मकी असत्यता भी बतादेवे तो वो सीधा यह उत्तर प्रदान
करें कि-इस मजब में ऐसे २ विद्वान श्रीमान लोक हैं सो वो क्या मूर्ख हैं! वश-हमारे
आगे यह पंचायत निकालाही मत करो ! ऐसा जो गर्दभ पुंछग्रही * कीमाफिक-
दुराग्रही होवे सो अभिग्रही मिथ्यात्वी.

* किसी एक अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारीने फजर होतेही अपने पुत्र से कहा
कि तू आगे चलकर दुकान लगा ! में भी पीछेसे आताहूं. परन्तु याद रखना कि-“पाहिले ग्रा-
हक को खाली मत जानदेना.” यह हुकम पुत्र प्रमाण कर दुकान पर आया दुकान लगाइ.
उस वक्त-एक गझेने आकर अनाज में मुंह डाला. तब दूसरा दुकान दार उसे भगाने लगा,
तब वो वाणिक पुत्र संतत हो बौला कि-खबर दार ! इसे भगाना नहीं, खालेनदो, फिर हिं

(२) "अनाभिग्रह मिथ्यात्वी"—यह हट ग्राही तो नहीं होताहै. परन्तु भोला-निर्वृद्धि-असमझ होता है. यह सब देवों को सब गुरुओं को सब धर्मोंको सब धर्माव लम्बियों को एकसा जान ताहै मान ताहै. सब को बंदन नमन करे. सबकी सुने परन्तु भाव भेद कुछ समझे नहीं. जैसे कुडछी सब पकानोंमे फिर आवे परन्तु किसीके स्वादका उसे ज्ञान नहोवे तैसे. इसे सत्यासत्य का निर्णय करने की कुछभी दरकार नहीं होती है, पूछे से जवाब देताहै कि-सब मजबोंमें बडे २ विद्वानों पण्डितों हैं वोक्या सब मूर्ख हैं ? अपन को इस झगडे में पडने की कुछभी जरूर नहीं है. हमारे भावतो सब अच्छे हैं, सब को मानेंगे पूजेंगे जिससेही हमारी आत्मा का उद्धार होजावेगा. ऐ-

साब समझ लेंगे. क्योंकि मेरे बाप का हुकम है कि-पाहिले ग्राहक को खाली नहीं जानदेना, यों मुन सब लोकों हंसने लगे. और उसे समझाने लगे कि-गद्धे को माल खिलाने का तेरे बाप का हुकम नहीं है. यह ग्राहक नहीं है ! परन्तु वो तो पकही मंजुर नहीं करे. इतने में तो गद्धा पेट भर कर चला. तब वाणिक पुत्र बोला कि-माल खाया जिसके कुछभी तो दाम देजावो ! इतना अवाज सुनतेही मार के डरके मारे वो गद्धा भगने लगा. उसके पीछे वो वाणिक पुत्र भी भगा और गद्धकी पुंछा खूब मजबूत पकडली. उसवक्त गद्धेने उस वाणिक पुत्रके छाती में मुहपर पेरों में लत प्रहार करने शुरुकिये. यह विटम्बना उस की देखी कितनेक दयालु गृहस्थों जवर दस्ती कर पुंछ उसके हाथ में से छोडाने लगे. परन्तु वो छोडे नहीं. कहताहै कि-क्या में मूर्ख हूं ! जो मुफ्त में माल खाने दूंगा ! यों उसकी अनोखी मूर्खता का अवलोकन कर सब लोक चुपचाप स्वस्थान बैठे, और वो वाणिकपुत्र के अङ्गमें जवर प्रहार लगने से मूर्च्छित हो परवश्य पुंछ छोड पडगया ! उस वक्त उसका बाप भी आगया, और दूसरे के मुख से अपने पुत्र के मूर्खता के हाल सुन बडाही लज्जित हुआ. पुत्र को उठा दुकान में लाया. और कहने लगा कि-रेमूर्ख ! गद्धेको माल खिलाने का मे ने कत्र कहाथा ! पुत्र बोला कि-गद्धेको मत खिलाना ऐसाभी तो नहीं कहाथा. तुमारा हुकम उठाने उतना कष्टसहा तो भी मुझे मूर्ख बनाते हो ! वश, जानी तुमारी अकल. यों मु न बापजा भी चुपचाप होगये !! भवार्थ-ऐसीही तरह से जो अभिग्रह मिथ्यात्वी होते हैं, वो शास्त्र के और सद्गुरुओं के वचनो का अर्थका अनर्थ कर उनके जोगसे अनेक दुःख-कष्ट मुक्त ते हुवे भी उसका त्याग नहीं करतेहैं. वो गर्दभ पुंछग्राही वाणिक पुत्र की माफिक निन्दनीय और दुःखी होते हैं.

सा जो होताहै सो अनाभिग्रही मिथ्यात्वी.

(३)“अनाभि निवेशिक मिथ्यात्व” सो—किसीको सत्संगतके प्रसादसे, सत्शास्त्र के श्रवन पंडन से, या सत्-चलन चलन वाले सत्पुरुषों के दर्शन से; अपना मान नी-य मजब अन्तः करणमें सक्षात् असत्य-झूठ प्रातिभाष होने लग जावे. परन्तु मिथ्या मोहके प्रबलोदय कर उस गृहन किये हुवे असत्य मत का त्यागन नहीं करसके! और श्रीवीतराग के मार्ग को सत्य पथ्य तथ्य न्यायरूप जानता हुवा भी ग्रहण नहीं कर स के !! विशेषत्व-मिथ्यानुराग में मतवाला बनकर अपने असत्य पक्ष को स्थापन कर-ने, वीतराग का न्याय पन्थ का उत्थापन करने-सत्शास्त्रों के कथनोंको लोपे गोपे उ-त्थापे या विपरीत प्रगमावे, उत्मूत्र की परुपणा से-या कपोल कल्पित खोटे ग्रन्थों रा-स चोपाइ आदि की रचना रच, बेचारे भोले जीवों को भ्रम रूप फासमें फसा कूमा र्गमें लगावे, सन्मार्ग छोडावे. अपडूवे अन्य अनेकोकों डूवावे, ऐसी तरह जो फूटी ना-वा का सझाती होवे सो अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी.

दृष्टान्त—श्रीपार्श्वनाथ भगवन्त के कितनेक * संतानीया साधुओं गोशाले के मत में मिलकर श्रीमहावीर स्वामीजी की निन्दा करे लगे, तब श्रीमहावीर स्वामी के श्रावको ने उनसे पूछा कि—आप श्रीपार्श्वनाथ भगवान की परुपणा को भी जानतेहो, और श्रीमहावीर स्वामीजीकी परुपणा को भी जानतेहो. तैसेही गोशालाजी की परुप-णा को भी जान गयेहो. इन तीनों में से सत्य परुपणा किनकी है सो फरमाइये? तब वो साधुओं बोले कि—हां हम जानते हैं, जैसी परुपणा श्रीपार्श्वनाथ भगवान की थी वैसीही परुपणा श्रीमहावीर स्वामीजी की है; परन्तु हमने जो श्रीगोशालाजी का पक्ष धारन कियाहै, इसालिये हमारा वश पहाँचेगा वहां तक हमतो इस मतकी स्थापना कर-नेमें और महावीरके मतकी उत्थापना करनेमें कच्चास नही रक्खेंगे!! हमदुर्गति से नहीं डरतेहैं. यह सुन्तेही श्रावको उनके मिथ्यामोहका प्रबल उदय जान चुपचाप उठकर चलेगये ! ऐसे मिथ्यादृष्ट ग्राही जीवों को अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी जानना.

(४)“संशयिक मिथ्यात्व”सो—कितनेक पुण्यात्मा जीव श्रीजैन धर्मको तो पाये हैं, परन्तु सत्सङ्ग और सत्शास्त्र के पठन के अभाव से तथा कितनेक सत्संग और स-त्शास्त्रका पठन करभी अपनी दुर्बुद्धि के (मोहकी प्रबल ताके) प्रभाव से. या अन्य

मतात्रा लम्बियों की संगति उनके ग्रन्थों का पठन कर—वीतराग प्राणित सत्कथन में संशयि बनते हैं—वैमलाते हैं, और असत्कल्पना करते हैं कि सूइ अग्र भाग जितनी थोड़ीसी जगह में कन्द के अनन्त जीवोंका समावेश, लक्ष्यों योजन की अवघेणा, प्राचीन शहरों में क्रोडों घरों की वस्ती, अनन्त सिद्धहोते हुवे भी संमारी जीवों की राशी का नहीं घटना, वगैरा. ऐसी कितनी बातों प्रत्यक्षतामें झूठी दर्शाती हैं. इत्यादि ऐसी बातों में संशय करे सो संशयिक मिथ्यात्व.

दृष्टान्त—महा वैराग्य वन्त जामलीजी साधु के शरीरमें अकस्मात् महा वेदनी उत्पन्न होते शिष्यों को वीछोना करने का हुकम दिया, और थोड़ी देर बाद पूछा कि—“ वीछोना हुवा क्या ? ” शिष्याने कहा कि—कर रहे हैं; यह सुनते ही मन में विचार हुवा कि भगवन्त फरमाते हैं कि—“करेमाणे करे” अर्थात्—काम करना थुरु किया उसे कियाही कहना. और मैं यहां प्रत्यक्ष देखता हूं कि—“करे माणे अकरे” अर्थात्—काम करना थुरु किया उसे किया नहीं कहना, परन्तु काम पूरा किये बाद ही किया कहना, इसलिये “करे माण करे” यह महावीर का वचन झूठा है. मिथ्यात्व मोहोदय कर ऐसी शंका उत्पन्नहो तेही सम्यक्त्वका नाशकर किलविपी देवहुवे. यह संशय मिथ्यात्व.

(५) “अनाभोग मिथ्यत्व” सो-कर्मोंकी प्रबलता कर, तीव्रमोहके उदय, कर जीवों अज्ञान दिशा से चेतन्य हो अचेतन्य रूप होरहें हैं. जिनको अपना पर का विल कुलही भान नहीं है. ऐसे अजान अज्ञानी चारों गति के जीवों को स्वभावसे सहजही यह मिथ्यात्व लगता है.

और भी जैन ग्रन्थ में तीन प्रकारके मिथ्यात्व कहे हैं.—१. लोकीक मिथ्यात्व, २. लोकोत्तर मिथ्यात्व. और ३. कूपरावचनी मिथ्यत्व. इन एकेक मिथ्यात्व के-१. देव. २. गुरु, और ३. धर्म इन तीनों से अलग २. तीन तीन भेद करने से ९ भेद होते हैं सो अलग २ कहते हैं:—

(१) “लोकीक देवगत मिथ्यात्व”—जिनो में देव के-भगवान्-परमात्मा के जो गुणों हैं वो तो पावे नहीं. औ अनेक दुर्गुणों प्रत्यक्ष में देखने में आवे ऐसे किसी मनुष्य को देवको या उनकी मूर्ती को देव करके—भगवान् करके माने सो लोकीक देव गत मिथ्यात्व कहा जाताहै; जैसे-१. जिनके पास माला-स्मरणा है, वो प्रत्यक्षही अज्ञानी वा अल्पज्ञ देखातेहैं, क्योंकि-गिनती-संख्या ध्यान में न रहने सेही स्मरणा रखी जातीहै. २. जो “अह ब्रह्मसमी” अर्थात् हमही ब्रह्महैं, हमारी पूजा करने से मुक्ति मि-

लेगी, वगैरा अहंता के भरेहुवे शब्दोच्चार करते हैं सो प्रत्यक्षमेंही मथान्य भाश होते हैं ३ जो विमल खड्ग चक्र आदि शस्त्र के धारक हैं वो प्रत्यक्ष ही क्रोधाग्नि से प्रज्वलित भाष होतेहैं.

(४) जो कहते हैं कि मेंही कर्ता हर्ताहूं, मेरे हुकम बिन पत्ता भी नही हल सकता है, मेंही सर्व सामर्थ्य हूं वगैरा शब्दोंसे प्रत्यक्ष में अभी मानी देखाते हैं. ५ जो दगल वाजी टगाड़ करते हैं, छिपकर या रूपबदल कर दूसरे को छलते हैं जैसे मोहनी का रूप बना भ्रस्त्रा सुर को भस्म किया ऐसे मायावी गिनेजाते हैं. ६ जो लोभी-लालची होवे. नारेल डोडी जैसे निर्माल्य वस्तु के लोभ में पड शत्रुओं के नाश जैसा जुलम कर डालें वगैरा, को लोभी कहते हैं. ७ यह मेरा घर कुटुम्बहै यह मेरे राज्य सेनाहै, यह मेरे ऋद्धि भिद्धि है ऐसे ममत्वी को रागी कहते हैं. ८ तैसे यह मेरा दोषी दुःशमन, शत्रु निन्दक है, इसका नाश होवे ! ऐसे भाव वाले द्वेषी गिनेजाते हैं. ९ जो शोक चिन्ता फिकर करते हैं, हाय विलापात करते हैं रोतेहैं, शिरउर कूटतेहैं, वगैरा सो शोकीहैं. १० जो कहते कुछही हैं और करते कुछही हैं. मनमें कुछही, और बताते कुछही ऐसे झूठ बोलने वाले. पापके हिंसाके शास्त्रों का स्थापन कर कुमत का प्रसार करते हैं. ११ दूसरे के वस्त्र भूषण के हरण कर्ता, स्त्री पुत्रादि को भरसा कर उडाने वाले, इत्यादि चोरी करने वाले होवे १२ रखे यह मेरेसे अधिक होजावे. मेरा राजपाट हरण करलेवे, इत्यादि मत्सर भाव धारण कर अपत्तरा आदि के पास सेउ नके तप का भङ्ग कराने वाले वगैरा सोमत्सरी कहे जातेहैं, १३ संग्राम करने वाले, शीकार खेलने वाले, यज्ञ होमादि द्वारा-धर्मके नाम से मनुष्य पशु या किसी वस्तु का होम-हवन कराने वाले, भैंसे बकरे मुर्गे आदिके घातिक्रमो हिंसक कहे जाते हैं. १४ स्वस्त्री के या परस्त्री के लम्पटी, पुत्री और पशु के साथ भोग करने वाले, ऐसे जवर कामी. धुप दीप पुष्प फल सुगन्ध, शीतोपचार, उष्णोपचारके कर्ता कराता. स्वशरीर स्वकुटुम्बादि के प्रेम में रक्त रसमंडल खेलना, नाचना नचाना विषय राग गाना, स्त्रियों के पीछे घारेंर फिरना. वाजिव वजाना वज वाना. वगैरे क्रिडा के करने वाले जगत् जीवों को सुखी दुःखी करना. शरापया आशीर्वाद देना इत्यादि अनेक दुर्गुण जिनो में पाते होवे, वो प्रत्यक्ष कुदेव के लक्षण हैं. ऐसे देवों को तरण तारण दुःख निवारण जानकर वन्दे पूजे सो लोकीक देवगत मिथ्यात्व.

(२) "लोकीक गुरुगत मिथ्यात्व" सो-जिनों की आत्मा में गुरु के (साधु) के

गुण पावे नहीं, ऐसा को गुरु करके मानेंसो गुरु गत मिथ्यात्व. जैसे-जो-सचित्त (स जीव) मट्टी-पाणी-अग्नि-हवा-वनस्पति और वस (हलते चलते जीवों) इन छजीवों की कायका बधकरने वाले, चकारम कारादि गालीयों असत्य वचनके बोलने वाले, विनादि वस्तु लेवें चोरी कस्ने वाले, स्वस्त्रीया परस्त्री से गमन के करने वाले, धन धान्य चौपद दुपद आदि परिगृह के रखने वाले, रावी भोजन के कर्ता, मादिग मांस-कन्द-मूल इत्यादि अभक्ष्य वस्तु के भक्षण करने वाले, गांजा तमाखू चडस भांग आदिनशा के सेवन करने वाले, स्नान मंजन तेल अतर सुरमा छापा तिलक वस्त्र भूषणादि से शरीर को शोभा करने वाले, साफ नम्र रहे वारंगी वेरंगी अनेक तरहके वस्त्र धारण करने वाले, मुंड मुडाना जटा बडाना, भभूत रमाना इत्यादि अनेकरूप धारण कर ऊदर पूरना करने वाले, इत्यादि अनेक तरह के गुणाविना कोरा आडम्बर-पाखण्ड रचकर जो गुरु तरीके जगत् में पूजा रहैं, उनको तरण तारण दुःख निवारण जानकर जो बन्दन नमन पूजन करेसो लोकीक गुरु गत मिथ्यात्व.

३ " लोकीक धर्म गत मिथ्यात्व " - जो दुर्गति में पडते जीवों को धर-पकड रक्खे - पडने नहीं देवे, ऐसा जो परम लक्षण धर्म का है सो जिस में नहीं पाता, है, फक्त-नाम मात्र धर्म हैं-जैसे देवालयादि बन्धाना, तीर्थ स्नानादि करना, धूप दी यज्ञ हवन द्रव आदि करना, फल फूल पत्र द्रोव कुंपल छाल आदि तोडना मोडना, षट् मलमुर्गे भेंसादि जीवों का बध, इत्यादि कर्मों में धर्म का मानना, तथा होली राखी आदि मिथ्या पर्वों का मानना, एकादशि आदि तप नाम धारण कर कन्द मूल पकान मिष्ठानादि भोगवना, ऋतु दान कन्यादानादि देना, पंच धूनी तापना इत्यादि अनेक जो ढोंगी कृत्यो है, उसे तरण तारण दुःख निवारण जान पालना स्पर्शना सो लोकीक धर्मगत मिथ्यात्व.

४ "लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व" सो जिन-तीर्थकर ऐसा नाम तो धारण किया, परन्तु जिनों में तीर्थकर के गुण नहीं, गोशालावत्-उनको तीर्थकर देव कर माने, धन पुत्र स्त्री यश सुख की प्राप्ति के अर्थे-ग्रह दोष निवारण के अर्थे तीर्थकरों का नाम स्मरणादि करना इत्यादि इस लोक परलोकके द्रव्यीक मृत्यार्थ जो रीतराग तीर्थ करों का स्मरण बंदन नमन पूजा करेसो लोकोत्तर देव गति मिथ्यात्व.

५ "लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व"—सो जैन साधुका लिंग भेष तो धारण किया, परन्तु साधुके गुण जिनों में नहीं पाते होवें, पांच महा व्रत पांच समिति तीन

गुप्ति रहित होंगे. छेदी जीव काया का आरंभ करते होंगे. इत्यादि अनाचारी होंगे उनकी गुरु माने. तथा इस लोक परलोक द्रव्यिक सुखार्थ मुसाव्र ओंको दान दे वंद न पूजन मत्कार सन्मानादि करे सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व.

६ “लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व” सो—जैन धर्म तो नाम है. परन्तु जिनेश्वर के आज्ञानुसार जिस में करणी नहीं. देव गुरु धर्म निमित्त छेदी काया का वध, धूप दीप फूल पान फल का चढाना-भोगोप भोग लगाना, नाचना बजाना वगैरा हो उस में धर्म माने. तथा इस लोक परलोक के द्रव्यिक सुखार्थ संवर करणी सामायिक पोषा आविल उपवास अष्टमादि तप करे सो लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व.

७—९ “कुप्रा वचनी देव गत मिथ्यात्व” सो—हरी दरादि कुदेव को, “कुप्रा वचनी गुरुगत मिथ्यात्व” सो—बाबा जोगी आदि कुगुरुको, और “कुप्रा वचनी धर्मगत मिथ्यात्व” सो—यज्ञ होम स्नान तीर्थत्त्व वगैरे धर्म क्रियाको मोक्ष प्राप्ती की इच्छा में मानना वन्दन नमन करना इनहे मोक्ष दाता जानना सो कुप्रावचनी देव-गुरु-धर्म गत - मिथ्यात्व.

और श्री—जिनेश्वर प्रणित शास्त्रों में—१. ओछी-कमी, २. आधिकी-ज्यादा और ३. विपरीत-अनमिलती श्रद्धनाजानना. परूपना-कहना, और स्पर्शना करना सो भी तीन तरह के मिथ्यात्व गिने हैं:—जैसे

१. तीस गुप्ताचार्य ने आत्मा को एकही प्रदेशी मानी सो, तथा कतनेक मताव लम्बियों आत्माको - जवार के दाने जितनी, या दीपक पात्र या अंगुष्ठ सामान बताते हैं सो, और कितनेक-‘अपने पर आवेरेलो, तो बात को परीठेलो’ इस कहवत मुजव शास्त्र के वचनों को लोपेगोपे छिपावे या अन्य रूपमें परिणामावे इत्यादि ओछी करे सो परूपणा मिथ्यात्व.

२. ऐसेही कितनेक कहते हैंकि—“एकही आत्मा सर्व ब्रह्मान्ड मात्र में व्यापक (भरी) हुई है, तथा धर्म रक्षणार्थ शुद्ध उपकरण रखने वाले साधु को परिगृह धारी कहना, शास्त्र में श्री महावीर स्वामीके ७०० केवल ज्ञानी चले हैं और १५७३ तापस को केवल ज्ञान प्राप्त हुवा बताना वगैरा सर्वज्ञ प्रणीत मूर्खोंसे अधिक परूपणा मिथ्यात्व जाणना.

३. ऐसेही कितनेक श्री सर्वज्ञ प्रणित शास्त्रों से विपरीत-अन मिलती प्रसन्नादि प्रमाण द्वारा मिथ्या जानाती बातों को जो सत्य माने मनावे-एसा कपोल कल्पित

मन माने मत चलाने वाले ६ प्रकार के मत इस वक्त में प्रवर्त रहे हैं. जिनका संक्षे-
पित वर्णन :-

(१) बौध दर्शन का - स्वरूप. ॐ

बौध मति-१. बुद्धि देव, २ संघ (उनके सर्व मतावलम्बि) और ३ धर्म, इन तीनों को 'रत्न त्रय' मानते हैं. 'तारा' नामक देवी को उन के शासन (मत) की रक्षक जानते हैं, इन के धर्म गुरुओं-शिर मुंडाते हैं, चरमासनपर बैठते हैं, धातु रंगके वस्त्र रखते हैं, कमण्डल रखते हैं. उने भिक्षु नाम से बोलाते हैं. यह जिस पात्र में भिक्षा लाते हैं, उस में जो पडे उसे शुद्ध समझकर मांस का भी अहार करलेते हैं. परन्तु ब्रम्हचर्यादि अपनी क्रिया में बडे द्रढ होते हैं, इन की चार शाखा ओं है :- योगाचार, २ सौत्रिक ३ वैभाषिक और ४ मध्यमिक.

बौध मतावलम्बि के माननीय चार तत्वों:-१. दुःख, २. समुदाय, ३. मार्ग, और ४ निरोध. इनका खुलासा इस्तरे हैं: पहिले-दुःख को पांच स्कन्ध रूप मानते -१.रूप विज्ञान, रस विज्ञानादि निर्विकल्प जो विज्ञाह सो "ज्ञानस्कन्ध" २. सुखा दुःखा अदुःख सुखा. यह "वेदना स्कन्ध" पूर्वोपार्जित कर्मों से हुवा बतातेहैं. ३. स-विकल्प ज्ञान को "सज्ञा स्कन्ध" कहते हैं. ४ पुण्य अपुण्यादि समुदाय से "संस्कार स्कन्ध" मानते हैं. इसके प्रबोध से पूर्वानुभावका स्मरण होना कहते हैं. ५. पृथ्वीधातु तैसेही रूपादि को "रूप स्कन्ध" कहते हैं. इन पांचों स्कन्धो सिवाय आत्मादि कोइ भी पदार्थ नहीं हैं और यह पांचोही तत्व है सो निसभी नहीं रहते हैं. इन की क्षी-
ण २ में प्रवर्ती होतीही रहती है, ऐसा कहते हैं इन दुःख तत्व के कारण भूत दूसरा समुदाय तत्वहो ताहैं:-सो ऐसे है कि-जगत् में राग द्वेष का समोह उत्पन्न होता है जिस से यह में हं. यह मेरा है, यह दूसरे काहैं यह दूसरा है, ऐसा जो भा-

* कितनेक अज्ञ मनुष्यों जैन मत को बौध मत की शाखा जानते हैं, जिसका मुख्य सबब-जैन के चौबीसवे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, और बौध मत के स्थापक बुद्ध देव यह दोनों सम काल में होने का; तथा महावीर स्वामी की ज्ञाती और पिताका नाम बुद्ध देव जैसा होने का जाना जाता है. परन्तु जैन के २३ अवतार बुध के पहिले होंगये हैं, इस लिये जैन मत बहुत प्राचीन है यह बात अब पश्चिमात्य विद्वानोंने भी अनेक प्रमाण से सि-
द्ध कर बताइ है.

व उत्पन्न होता है, सो समुदाय तत्र कहा जाता है, इन दोनों तत्वों कोही संसार की प्रवृत्तिके हेतु रूप मानते हैं. इन दोनों तत्वोंसे विपक्षीभूत-मार्ग और निरोध तत्व है, जिस का स्वरूप ऐसा है कि-सर्व पदार्थों क्षीणमात्र रहकर नाश को प्राप्त होते हैं. कि-उसीवत् दूसरी क्षीण में उसके जैसेही दूसरे पदार्थ उत्पन्न होजाते हैं. पूर्व ज्ञानमें उत्पन्न हुई वासना को उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेकी शक्ति है और क्षीणक परम्परा पूर्वक जो मानसी पातीत होता है उसका नाम 'मार्ग' है, और यह मार्गही निरोध का कारण है. अर्थात्-चित्तकी निकेश अवस्था सो निरोध है, और सोही मोक्ष है.

और भी बोधमति १२ पदार्थ मानते हैं:-श्रोत चक्षु घ्राण रस और स्पर्श, यह पांचों इन्द्रियों, और इन पांचों के पांच विषय यों १०, और चित्त तथा शब्दायतन, इन १२ आयतनों की भी क्षीणीक मानते हैं. बोधमतिय-आत्मा को नहीं मानते हुवे फक्त दूटा का अनुसन्धन ज्ञान क्षणों कोही मानते हैं. इस से यह बात सिद्ध होती है कि-क्षुधा और को लगी. भोजन अन्य ने किया, और तृप्ति अन्य कोही आइ. तैसेही औषधी अन्य को दी, रोग अन्य का गया. ऐसेही अनुभव और को हुवा, स्मरण और को हुवा, बन्ध अन्य के हुवा, और मोक्ष अन्य हुवा. तपादिकेश कि सीने भोगा, और स्वर्गादि प्राप्ति किसी अन्य कोहुइ ! यह सब बातों प्रत्यक्ष में अन्य मिलती हुइ देखाती हैं. और रात्री भोजन तथा मांस आदि, अभक्ष का भक्षण यह प्रत्यक्ष में अधर्महै इत्यादि अनामिलते वनावसे इसे विपरीत परुपणा मिथ्यात्व कहा जाता है.

(२) नैयायिक दर्शन का स्वरूप.

नैयायिक मति-शिवको देव मानते हैं, गोतमांमुनि को गुरु मानते हैं, इन के धर्म गुरुओं वडी कोपीन पहनते हैं, कम्बल ओढते हैं, जटा रखते हैं, जटामें लिंग रखते हैं, शरीर को भस्म रमाते हैं, वगलमें तुम्बी और हाथ में दण्ड रखते हैं, निरस आहार और वनवास पसंद करते हैं, अतिथ पूजा वडी प्रियलगती हैं, कन्द मूल फूल फलादि का आहार करते हैं और कितनेक स्त्री रखते हैं, कितनेक नहीं भी रखते हैं, जो स्त्री नहीं रखते हैं वो उत्तम गिने जाते हैं, बृद्धवस्था प्राप्त होते कितनेक हंसवृत्ति (नग्नपना) धारण करते हैं, शिवजी सिवाय अन्य देव को नमन करने में पाप बताते हैं, उनके भक्तों 'उ नमो सिवाय' इस शब्द से नमस्कार करते हैं, तब वो "नमो शिवाय" इस शब्द से आशीर्वाद देते हैं. इन्नों का मुख्य उद्देश यह है, कि-किसीने भी १२ वर्ष पर्यन्त 'शैव शिक्षा' का पालन करलिया, फिरवो उसे छोड देवे तो भी मोक्ष पाता है. इनकी-

१ शैव, २ पाशुपत, ३ महाव्रत धर, और ४ काल मुख यह चार शाखाओं है. और गोतम मुनि (अक्षपदमुनि) कृत-‘न्यायसूत्र.’ उद्योत कर मुनिकृत न्यायवृत्ति भाषा, सर्वज्ञकृत-न्यायसार वगैरा सूत्रों को यह मानते हैं.

नैयायिको-१.अबल तो कहते हैं कि-सत्तायोग से सत्त्व है, और फिर कहते हैं कि-सामान्य, विशेष, समवाय, यह पदार्थों सत्ता के विनाही सत्तहै. २.एक स्थान कहा है कि-ज्ञान ज्ञान को आप जानता नहीं है, क्यों कि-अपने में आपही के क्रिया का विरोध होता हैं, और दूसरे स्थान कहाहै कि-इश्वरका ज्ञान आप आपको जानताहै, और स्वात्मा में क्रिया विरोध नहीं है. ३ आकाश को निरवयवी कह कर फिर कहते हैं कि आकाश का गुण शब्द है (तो अवयव विना शब्दोत्पत्ति कहां से हुई?)सोभी एक देशमें शुन्यता है सर्वतः नहीं है, और भी यह १.६ पदार्थों मानते हैं, उसमें भी बहुत विरोध भाष होताहै. तैसेही इश्वरको कर्ता यह मानते हैं, यह भी बड़ी विरुधता है. क्यों कि-जो कर्ता हैसो भुक्ताहै, और कृत कर्म फल भोगवनेसे अन्य में और इश्वरमें क्या तफावत्? तथा किसी भी वस्तुकी इच्छा होती है तब वो वस्तु निपजाताहै. और इच्छा है सोही दुःख है, अर्थात्-नुन्यता सेही इच्छा होती है, जो इश्वर होकर ही दुःखी हुवा तो फिर इश्वर कायका ? इत्यादि सबव से विपरीत परुपक गिने हैं.

(३) वैशेषिक दर्शन का स्वरूप.

वैशेषिक मति का श्रद्धान विशेष कर नैयायिक मति जैसाही है, फरक फक्त इतनाही है कि-वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, और कहते हैं कि-शिवजीने उल्लूका रूप धारण कर कणाद मुनिको वैशेषिक मतका स्वरूप बताया है, इसलिये इस मतका नाम “ औलुक्य ” भी है, यह-तर्कशास्त्र, वैशेषिक सूत्र, प्रसस्तकर भाष्य, किरणावली, लीलावती आदि: को मानते हैं. नैयायिक की तरह इन को भी विपरीत परुप जानना.

[४] सांख्य दर्शन का स्वरूप.

सांख्यमति के-देव-नारायण, और गुरु-त्रिदन्डीये होते हैं. इन के धर्म गुरुओं-कोपीन पहनते हैं धातुरङ्ग के वस्त्र रखते हैं, कितनेक शिरमुन्डाते है, कितनेक शिखा रखते हैं, और कितनेक जटा बढाते हैं, मृग चर्म का आसन रखते हैं, फक्त ब्राह्मण-के घर काही अन्नखाते हैं, जिस में कितनेक तो फक्त पंचग्रास (५ कवल) मात्र खा-

करदी संतोष करते हैं, और काष्ठ की मुहपति भी रक्वते हैं, इसका सबब यह ऐसा बताते हैं कि “श्वाशो च्छ्वास से जो जीवों हिंसा होती है वो इस से बचती है *” यह पाणीकी जीवानीकी यत्ना बहुत करतेहैं, कहते हैं कि-“पाणीकी एक सूक्ष्म विन्दूमें से एकेक जीव निकल कर जो भ्रमर जितना बडा शरीर बनावे तो तीनों लोक में समा-वे नहीं ! इतने जीव एकही विन्दू में हैं” ? और इनों में कितनेक एकेक महीने तक उपवासभी करतेहैं. इनके मतकी महिमा इनके “मठार शास्त्र” में ऐसी तरह लिखीहै-
श्लोक-हंस विपच खाद मोदं।नित्यं भुक्त्वच भोगान यथाऽभिकामं॥

यदि विदितं कपिल मतं । तत् प्रपस्यासि मोक्ष सौख्य मचिरेण ॥

पंच विंशति तत्वज्ञो । यत्र यत्रा श्रये रतः ॥

शिखी मुन्डी जटिवापि । मुच्य ते नात्र संशयः ॥

अर्थात्-कपिल मुनिके फरमाये २५ तत्वों को जानने वाला फिर वो हंसे खे-ले खावे पीवे सदा खुशीरहै. चाहे किसी भी आश्रम में रहै शिखा घारी हो या मु-ण्डित हो जैसी रुची होवे वैसार है, तो भी वो सर्व उपायी से मुक्त हो अल्प काल में मोक्षपाता है. इसमें संशयही नहीं है.

सांख्यमत के माननीये २५ तत्वों का स्वरूप.

१. प्रकृति तत्व.- (१) सत्त्व गुण का मुख लक्षण, चिन्ह प्रसन्नता, प्रसाद-बु-द्धि-लाघव-आश्रय-अनभिसंग-अद्वेष-प्रीत्यादि. सत्त्व गुण के कार्य-लिंग-आर्जव-मार्दव सख-शौच-लज्जा-बुद्धि-क्षमा-अनुकम्पा,-प्रसादादि. जिससे मुखोत्पत्ति होती है. उर्द्व्लो क निवासी देवताओं में प्रधानतासे सत्त्व गुणकी ही अधिक्यता है. (२) रजो गुणक दुःख लक्षण है, चिन्ह-संताप-ताप-शोष-भेद-चलित चित्त-स्तंभ-उद्वेगादि. यह रजो गुण कार्य लिंग-द्वेष-द्रोह-मत्सर-निन्दा-वचन-बन्धन-तपादिस्थान हैं. जिससे दुःखोत्प-

❀ श्लोक—ते प्राणाद तु यातेन । श्वासे नैकेन जंतवः ॥

ह्न्यते शत सो ब्रह्म । नृणु मात्राक्षर वादिना ॥

अर्थ-मुखहके विना श्वाशोश्वास लेनेसे व अणुमात्र शब्दोचार करने से ह-जारो ब्रम्हका (हजारों प्राणीका) नाश होता है.

ति होती है. अथो लोक तिर्यचनरक में प्रधानता से रजो गुण अधिक्य है. (३) तमो गुण-मोहलक्षण, चिन्ह दीन पणा. दैन्य-मोह-मरण-असादन-वीभत्सा-ज्ञान-गौरवादि तमों गुणके कार्या लिंग है. अज्ञान-मद-आलस्य-भय-दैन्य-कृपणता-नास्तिकता-विपाद-उन्माद-स्वप्नादि तमो गुणके कार्यहैं, मध्यलोकके मनुष्योंमें प्रधानतासे तमो गुण अधिक है. इन तीनों गुणोंकी सम अवस्थाको प्रकृति कहते हैं; प्रधान, अव्यक्त, प्रकृतिके नाम है, यह प्रकृतियों उत्पन्न और प्रलय रहित स्थिर होनेसे नित्य मान वे हैं. और अन्वय असा धारणी, अशब्दा, अपर्शा, अरसा, अगंधा, अव्यया, इन गुण मय प्रकृति को कहते हैं. २ प्रकृतिसे महान नामे दुसरा तत्व उत्पन्न होताहै, इसे बुद्धि भी कहते हैं. जिससे जड चैतन्य मनुष्य पशुका भेद मालुम पडता है. इस के-(१) धर्म, (२) ज्ञान, (३) वैराग्य और (४) एश्वर्य, यह ४ सात्विक बुद्धि के रूप; और (१) अधर्म, (२) अज्ञान, (३) अवैराग्य, और (४) अनैश्वर्य, यह ४ तामसी बुद्धिके रूप यों ८ रूप हैं. ३ इस बुद्धि तत्व से अहंकार नामक तीसरा तत्व उत्पन्न होताहै. (अहंकार से १६ गुण उत्पन्न होते हैं) ४ स्पर्श, ५ रस, ६ घ्राण, ७ चक्षु, ८ श्रोत्र, (इन पांचों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि यह अपने विषय को आप जानती है.) ९ वायु (गुदा), १० उपस्थ, (पुरुष चिन्ह स्त्री चिन्ह), ११ वच (शब्द), १२ पाद(पग) १३ हाथ (इन पांचो को कर्मेन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि यह काम देती है), १४ मन(यह जब ज्ञानेन्द्रिय से मिलता है तब ज्ञान रूप बन जाता है और कर्मेन्द्रिय से मिलता है तब कर्म रूप बनजाता है क्योंकि इस कि संकल्प वृत्ति है,) १५ रूप तन्मात्र से-शुक्ल कृष्णादि वर्ण, १६ रस तन मात्र से तिक्तादि रस १७ गन्ध तन्मात्र से-सुरम्बदि गंध. शब्द तन्मात्र से-मञ्जुलादि शब्द विशेष, १९ स्पर्शतन्मात्र से-मृदु कठिनादि स्पर्श (यह १६ गुण अहंकार से होते हैं) २० रूप तन्मात्रसे-अग्निकी उत्पत्ति होती है. २१ रसतन मात्र से-पाणी उत्पन्न होता है, २२ गन्ध तनमात्र से-पृथ्वी उत्पन्न होती है, २३ शब्द तन्मात्र से-आकाश उत्पन्न होता है, २४ स्पर्श तन्मात्र से-वायु उत्पन्न होता है (यों ऊपर कहे पांचों तन्मात्र से पांचों भूतों कि उत्पत्ति होती है) और २५ वा "अकर्ता विगुण भोक्ता" अर्थात्-अकर्ता आत्मा विषय सुखादि के लिये पुण्यादि का कर्ता नहीं है, इसलिये अकर्ता है, क्योंकि आत्मा त्रण मात्र तोडने समर्थ नहीं है, इसलिये कर्ता प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति में प्रवृत्ति का स्वभाव है. "विगुण"-आत्मा सत्त्वादि गुण रहित है, क्यों कि-सत्त्वादि गुण प्रकृति का धर्म है. "भोक्ता"

आत्मा भोक्ता भी नहीं है. परन्तु प्रकृतियों के वीकार भूत उभय मुख दर्पणाकार जो बुद्धि है उस में संक्रमण होनेसे निर्मल आत्म स्वरूप के विषे सुख दुःख प्रति विम्बित होनेसे उदय मात्र भोक्ता कहलाता है. जैसे स्फटिक मणी के पास जैसे रत्न का पदार्थ होता है वैसेही रत्न मय वो मणी प्रति भाष होती है, यह सांख्य के २५ तत्वोंका स्वरूप संक्षेप में हुवा.

सांख्य मति-सत्त्व रज और तमो गुण से उत्पात्ति मान ते हैं सो अन मिलतीहै. क्योंकि-गुनी से गुण उत्पन्न होते हैं, परंतु गुनसे गुनी की उत्पात्ति कदापि नहीं होती है; जैसे मट्टी से घडा बनता है, परन्तु घडे से मट्टी कदापि नहीं बनती है. तैसेही आत्माको अकर्ता अभोक्ता मानना सो भी मिथ्या है. क्योंकि आत्म शक्ति की सत्ता बिना किसीभी जड पदार्थों में वस्तु उत्पन्न करने की और सुख दुःख रूप कर्म फल वेदने की शक्ति नहीं हैं. इत्यादि सबब से यह भी विपरीत परुपक गिने जाते हैं.

(५) मीमांस दर्शनका स्वरूप.

मीमांस मत का दूसरा नाम 'जैमिनीय' भी कहते हैं, इनके देव ब्रम्हा, और गुरु वेदों कोही मान ते हैं, अन्य किसी को भी गुरु नहीं मानते हैं. इन के धर्मावलम्बियों-सांख्यमति की तरह ही-कोइ एक दण्डधारी, कोइ त्रिदंड धारी होते हैं, धातु रत्न के वस्त्र पहन ते हैं, मृगचर्म के आसन पर बैठते हैं, कमण्डल रक्खते हैं, शिर मुण्डाते हैं, यज्ञोपवित को तीन वक्त धोकर पानी पीते हैं, शूद्र जातिका अन्न नहीं खाते हैं, अपन को 'सन्यस्त' कह कर बोलाते हैं, ब्रम्हको अद्वैत मानते हैं, और सब शरीर में एकही आत्मा मानते हैं. ÷ और आत्मा में लय हो जाने कोही मुक्ति मान ते हैं. अन्य-मुक्ति की नास्ति बताते हैं.

मीमांस मत की दो शाखा है-१. पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस. इन में पूर्व मीमांसी तो बहुतकर गृहस्थाश्रमीही रहते हैं, और उत्तर मीमांसी ओंकी ४ शा

÷ श्लोक-एक एवहि भूतात्मा । भूते भूते व्यवस्थितः ॥

एकधा बहुधा चैव । दृश्यते जल चन्द्रवत् ॥

अर्थात्-जैसे पानीके भरे हुवे अनेक घडों में एकही चन्द्रमाका प्रति विम्ब अलग २ दिखता, तैसेही एक परमात्मा सर्व आत्मा में व्यापे हुमे हैं.

खा है:—१. त्रिदन्डी, सशिखा, २. ब्रम्हसूची, ३. गृहत्यागी, और ४. परिगृही. इनमें— एकही वक्त पुत्र के घर में भोजन करने वाले, कुटि में रहने वाले, इन्हें 'कुटिचर' कहते हैं. २. पूर्वोक्त लिंग युक्त विप्र के घर का निरस आहार करने वाले, नदी के किनारे रहने वाले, को 'बहुदक' कहते हैं. ३. ब्रम्ह सूत्र, शिखा सहित, कपायवस्त्र, दन्डधारी, ग्राम में एक रात्री और नगर में तीन रात रहने वाले, ब्राह्मण के घर में धूम्र रहित अग्नि हो तब भोजन करने वाले, तपश्चर्यासे शरीर को मुकाने वाले, जो देशों देश फिरते रहते हैं, उनको 'हंस' कहते हैं. इन को जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब चारों वर्ण के घर का आहार करते हैं, और शरीर विलकुल अशक्त हो जाता है तब अनसन कर देह त्यागते हैं. और ४. वेदान्तक एकाध्यायी को 'परम हंस' कहते हैं.

यह कहते हैं कि—“हिंसा गार्ह्यत्” अर्थात् जो हिंसा इन्द्रियोंको और व्यश्र-पोषने को की जाती है वो हिंसा गिनी जाती है. परन्तु वेदोक्त-अश्वमेध, गौमेध, नर-मेध, अजामेध, मधु सपर्क, और पित्र तृप्ति के लिये जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं गिनी जाती है. और इनही के वेदोंकी स्मृति में ऐसा लिखा है:—

श्लोक—श्रुयुतां धर्म सर्वस्वं । श्रुत्वा चैव धार्यतां ॥

आत्मानः प्रतिकूलानि । परेषां न समाचरेत् ॥

अर्थात्—धर्म श्रवण कर धारण करने का येही सार है कि-किसी आत्मा के भी प्रतिकूल (दुःख प्रद) कृतव्य कदापि नहीं करे!

श्लोक—अन्धे तमसि मज्जाम । पशुभिर्ये यजा महे ॥

हिंसा नाम भवे धर्मो । न भूतो न भविष्यति ॥

अर्थात्—वेदान्ति का कथन है कि-यज्ञ निमित्त पशुका वध करने वाला अन्ध और तमसी मनुष्य है, क्योंकि हिंसा करने से धर्म न कदापि नहुवा और न होगा!! तथाच तत्र दर्शिनः पठन्ति:—

श्लोक—देवो पहार व्याजेन । यज्ञ व्याजेन वाथवा ॥

घ्नन्ति जन्तुन् गत घृणा । घोरान्ते यान्ति दुर्गति ॥

अर्थात्—देवों की तृप्ति के निमित्त और यज्ञ के निमित्त जो पशु का वध करते

हैं वो घोर (अति दुःख प्रद) दुर्गति में जाते हैं. ऐसे बहुत से दाखले दया धर्म की-
पृष्टि के उनोके शास्त्रोंमें होते हुवे भी यज्ञ और पिवादि निमत हिंसा करनेमें दोष न-
हीं मानते हैं. बल्के धर्म मानते हैं. इसलिये यह भी विपरीत परूपक मिथ्यात्वी गिने हैं

(६) चार्वाक दर्शन का स्वरूप.

चार्वाक मत का दूसरा नाम नास्तिक मत भी कहलाता है. इन के न तो कोई
देव है, और न कोई गुरु है फक्त कोई २ देवीको मानते हैं. इनके शास्त्र में
ऐसा लिखा है :—

श्लोक—पृथ्वी जलं तथा तेजो । वायु भूत चतुष्टयम् ॥

आधारो भूमिरे तेषां । मानं त्वक्ष जमेवही ॥ १ ॥

पृथ्व्यादि भूत संहत्या । तथा देह परिणतेः ॥

मदशक्तिः सुरांगे भ्यो । यद् यद् चिदात्मनि ॥२॥

अर्थ—पृथ्वी, पाणी, अग्नि और वायु इन चारों भूतों के आधार सेही सर्व श्रे-
ष्ठिहैं, और जेभ-गुड महुवा पाणी और अग्नि इन चारों के संयोग से मदिरा (दारु)
नामक पदार्थ उत्पन्न हो उन्मादका कर्ता होताहै, तैसेही उपरोक्त चारों भूतों के संयो-
ग से आत्माजीव उत्पन्न हो अनेक चेष्टा करता है. और इन चारों के वियोग से या
विनाश से आत्माका भी विनाश होता है. इन चारों भूतों शिवाय इस जगत् में दूस-
रा कोई पदार्थ है ही नहीं; न कोई जीव है; और न कोई पुण्य पाप है, तो फिर पु-
ण्य पाप के फल भुक्त न के लिये नरक और स्वर्गतो होवेही कहांसे? ऐसे कुबोध से
यह लोकों निडर बन मांस मदिरा परस्त्री या माता भग्नि को भी सेवन करनेमें चूकते
नहीं है. और इनोंने वारे महीने में उत्तम दिन कायम किया है उस दिन एकान्त स्था-
न में यह सब भेड़े हो स्त्री को नग्न कर योनी पूजते हैं, और भोग भी करते हैं. इन
की त्राम मार्ग काचली मार्ग आदि उपशाखाहैं, ऐसा व्याभिचारी मत तो प्रत्यक्षही
सर्व धर्मों से विरुद्ध विपरीत परूपक देखीताहैं. किंवहु.

और भी टाणांगजी सूत्र में १० प्रकार के मिथ्यात्व फरमाये हैं. १. “धम्म अ-
धम्म सच्चा” अर्थात्—धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व. आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रु-
त्कन्ध के चौथे अध्याय में फरमाया है:—

साधुओं को छोड़ कर और अन्य सब साधुओं को असाधु समझते हैं, ऊपरोक्त गुण संपन्न मुनिवरोंको निंदक लुप्यक भगवन्त के चोर आदि कहेंसो साधु असाधु सज्ञा मिथ्यात्व

४ “असाधू साधू सन्ना”—अर्थात्-असाधुको साधु श्रद्धे जैसे कितनेक कुल परापरा से चले आते मत में फसे हुवे साधु के गुण अवगुण जानने की बिलकुल ही दरकार नहीं रखते हुवे सारंभा, सपरिगृही, विपयी, कपायी, ग्रहस्थ जैसेही कृत-व्योंके करने वाले मन्वादि से भरमाकर, सरापादि से डराकर जो पेट भराइ कर ते हैं. मिथ्या अडम्बर वडाते हैं. ऐसे ढोंगी धृतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु सज्ञा मिथ्यात्व.

५ “जीव अजीव सन्ना”—अर्थात्-जीव को आजीव श्रद्धे, जैसे कितनेक चार वाक-नास्तिक मतीयों-पंच भूत वादीयों, पृथव्यादि के संयोग से ही जीवोत्पत्ति और भूतोंके वियोग से जीव की नास्तिक कहते हैं. कितनेक अद्वैतवादी अनेक जीवोंसे भरे हुवे इस विश्व में फक्त एकही आत्मा व्यापक बताकर सब जीवों की नास्तिक कर ते हैं. कितनेक असंख्य जीवोंका पिण्ड जो मट्टी पाणी अग्नि हवा है और अनन्त जीवोंका पिण्ड जो वनस्पति है, इनको निर्जीव मानते हैं, कहते/हैंकि यह तो भोगोप-भोग के लिये स्वभाविक ही उत्पन्न हुवे हैं, ऐसे ही कितनेक/कीडी मकोडी आदि प्रत्यक्ष में हलन चलन करते हुवे कोही निर्जीव बताते हैं. ऐसे ही कितनेक जैनीयों भी सूका अनाज बिगरे में निर्जीव-आचित्त सज्ञा धारन कर ते हैं, सो सर्व जीव अ-जीव सज्ञा मिथ्यात्व जानना.

६ “अजीव जीव सन्ना”—अर्थात् अजीवको जीव माने, जैसे कितनेक धातु पापण वस्त्र काष्ठ आदि की बनाइ हुइ मूर्ती को साक्षात् मनुष्य या पशु तुल्य समज ते हैं. देवता के वैक्रिये किये पुष्पादि को सजीव कहते हैं. इत्यादि जो श्रद्धे सो अ-जीव जीव सज्ञा मिथ्यात्व.

७ “मग्न उमग्न सन्ना”—अर्थात्-मार्ग को उनमार्ग श्रद्धे, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, शील, क्षमा, दया, शरलता, निर्लोभतादि जो सीधा सत्य मोक्ष का मार्ग सर्वज्ञ ने प्रकाश किया है. उसे संसार परि भ्रमण करने का कारण बतावे वगैरा श्रद्धेसो मार्ग उन्मार्ग सज्ञा मिथ्यात्व.

८ “उमग्न मग्न सन्ना”—अर्थात् उन्मार्ग को सन्मार्ग श्रद्धे, जैसे-क्रिडा कितु-हुल लीला नाचना गाना बजाना यज्ञ होमादि करना, इत्यादि धूम धाम को मोक्ष

सूत्र-जेय अतीता जेय पडुप्पन्ना जेय आगमिस्सा
 अरहन्त भगवन्तो ते सव्वे वि-एवं माइक्खन्ति
 एवं भासन्ति एवंपण्णवन्ति एवं परूवेति-सव्वे
 पाणा सव्वे मुया सव्वेजीवा सव्वे सत्ता-णहन्तव्वा,
 ण अज्जवेयव्वा, णपरिघातव्वा, णपरिता वेयव्वा,
 ण उद्दवयव्वा,-एस धम्मे सुद्धे णितिए सासए,
 समेच्चलयं खेयन्नेहिं पवेतित्ते.

अर्थ-सुधर्मा श्वाभी फरमाते हैं कि-अहो जंतु ! जो तीर्थकर भगवन्त-गये काल में हुवे, वर्तमान में हैं और आवते काल में होंगे उनसबों का एक यही फरमान है कि-“सर्व प्राणी (वेन्द्रिय तेन्द्रिय. चोरीन्द्रिय) सर्वभूत (वनस्पति) सर्व जीव (पचेन्द्रिय) और सर्व सत्व (पृथ्वी-पाणी-अग्नि-हवा)-इनको मारे नहीं, परिताप उपजावे नहीं, बन्धन में डाले नहीं, उपद्रव्य करे नहीं, किसीभी तरहसे कदापि किंचित मात्र दुःख देवे नहीं, सोही दयामय धर्म शाश्वत सनातन है; ऐसा खेदज्ञ(पर दुःख के जान) श्री जिनेश्वरों भगवन्तों का फरमान है.

ऐसे दयामूल शुद्ध पवित्र धर्म को अधर्म श्रद्धे सो द्रव्य से धर्म अधर्म श्रद्धानुवा, और निश्चय में आत्म स्वभाव ज्ञानादि गुणों सं रमणात् से जो धर्मोत्पत्ति होती है, उसे भूल पुद्गलानन्द जड पदार्थों से धर्मोत्पत्ति समझे सो धर्म अधर्मसज्ञा मिथ्यात्व.

२. “अधम्म धम्मसन्ना” अधर्म को धर्म श्रद्धे, अर्थात् यह जीव अनादि से अधर्म मार्ग में रमण कर रहा है, इसलिये अधर्म मार्ग में सहज रुची होती है, उस स्वभाव का प्रेरण हुवा हिंसा आदि पांचो आश्रव के सेवन में-अश्वमेधादि यज्ञों में, हिंसक पूजा, तीर्थस्नानादि. या बकरीईद जैसे कृतव्यो में धर्म माने सो अधर्म धर्मसज्ञा मिथ्यात्व.

३. “साहू असाहू सन्ना” कितनेक भोले जीवों साधुके गुणों से विलकुलही अवाकिफ होकर सब मनुष्यों जैसेही साधुओं को जानते हैं-साधु संसारी के भेद भाव में नहीं समझें, तथा जगत् में सत्पुरुष तो थोड़े हैं, और पाखण्डियों मुडचीरे बहुत हैं, उनको देख उनके जैसेही-शान्त दान्त ज्ञानी ध्यानी तपी जपी आदि गुण सागर मुनि वरों को समझते हैं, तथा कितनेक कुमत पक्ष में तने हुवे अपने पक्षके (सम्प्रदायके)

साधुओं को छोड़ कर और अन्य सब साधुओं को असाधु समझते हैं, उपरोक्त गुण संपन्न मुनिवरोंको निंदक लुप्यक भगवन्त के चोर आदि कहेसो साधु असाधु सज्ञा मिथ्यात्व

४ “असाधू साधू सन्ना”—अर्थात्-असाधुको साधु श्रद्धे जैसे कितनेक कुल परापरा से चले आते मत में फसे हुवे साधु के गुण अवगुण जानने की बिलकुल ही दरकार नहीं रखते हुवे सारंभा, सपरिशुद्धी, विषयी, कपायी, ग्रहस्थ जैसेही कृत-व्योंके करने वाले मन्वादि से भरमाकर, सरापादि से डराकर जो पेट भराइ कर ते हैं. मिथ्या अडम्बर बडाते हैं. ऐसे होंगी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु सज्ञा मिथ्यात्व.

५ “जीव अजीव सन्ना”—अर्थात्-जीव को आजीव श्रद्धे, जैसे कितनेक चार वाक-नास्तिक मतीयों-पंच भूत वादीयों, पृथ्व्यादि के संयोग से ही जीवोत्पत्ति और भूतोंके वियोग से जीव की नास्ति कहते हैं. कितनेक अद्वैतवादी अनेक जीवोंसे भरे हुवे इस विश्व में फक्त एकही आत्मा व्यापक बताकर सब जीवों की नास्ति कर ते हैं. कितनेक असंख्य जीवोंका पिण्ड जो मट्टी पाणी अग्नि हवा है और अनन्त जीवोंका पिण्ड जो वनस्पति है, इनको निर्जीव मानते हैं, कहते हैंकि यह तो भोगोप-भोग के लिये स्वभाविक ही उत्पन्न हुवे हैं, ऐसे ही कितनेक कीडी मकोडी आदि प्रत्यक्ष में हलन चलन करते हुवे कोही निर्जीव बताते हैं. ऐसे ही कितनेक जैनीयों भी सूका अनाज बिगरे में निर्जीव-आचित्त सज्ञा धारन कर ते हैं, सो सर्व जीव अ-जीव सज्ञा मिथ्यात्व जानना.

६ “अजीव जीव सन्ना”—अर्थात् अजीवको जीव माने, जैसे कितनेक धातु पापण वस्त्र काष्ठ आदि की बनाइ हुइ मूर्ती को साक्षात् मनुष्य या पशु तुल्य समज ते हैं. देवता के वैक्रिये किये पुष्पादि को सजीव कहते हैं. इत्यादि जो श्रद्धे सो अ-जीव जीव सज्ञा मिथ्यात्व.

७ “मग्न उमग्न सन्ना”—अर्थात्-मार्ग को उनमार्ग श्रद्धे, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, शील, क्षमा, दया, शरलता, निर्लोभतादि जो सीधा सत्य मोक्ष का मार्ग सर्वज्ञ ने प्रकाश किया है. उसे संसार परि भ्रमण करने का कारण बतावे वगैरा श्रद्धेसो मार्ग उन्मार्ग सज्ञा मिथ्यात्व.

८ “उमग्न मग्न सन्ना”—अर्थात् उन्मार्ग को सन्मार्ग श्रद्धे, जैसे-क्रिडा कितु-दुल लीला नाचना गाना बजाना यज्ञ होमादि करना, इत्यादि धूम धाम को मोक्ष

मार्ग समझे सो उन्मार्ग को सन्मार्ग सज्ञा मिथ्यात्व.

९ “रूची अरूची सन्ना”—अर्थात् रूची वस्तु को अरूची माने, जैसे प्रमाणु पु-द्रुल, कर्म वर्णना, वायु काय आदि रूची पदार्थ होकर भी दृष्टि गोचर नहोनेसे अरू-ची माने सो मिथ्यात्व.

१० “अरूची रूची सन्ना”—अर्थात् अरूची पदार्थों को रूची माने, जैसे धर्मास्ति काय आदि पंचास्ति काय जो अरूची है उने, रूची कहे, सिद्ध भगवन्त जो अवर्ण अगंधादि गुण संपन्न हैं. उनको रक्त वर्णादि को स्थापना करे, जो जीवों मोक्ष प्राप्त हो अरूची अवस्था धारण करी है उन्हे पुनः अवतार धारण कर रूची हुवे बतावे. आकाश जो अरूची है उसे शब्दादि गुणमय कहे. परमात्मा जो अरूची है, उन से श्रेष्ठि रूची की उत्पत्ति कहे, वगैरा अरूची को रूची सज्ञा मिथ्यात्व.

और भी ७ प्रकारके मिथ्यात्व जैन ग्रन्थोंमें कहे हैं सो:—

१ “अविनय मिथ्यात्व”—अर्थात्—श्री जिनेश्वर के, सदगुरुओं के, शास्त्रों के, वचनों को उत्थापे; भगवन्तको भी भूले-चूके बतावे; चतुर्विध संघका ज्ञानी ध्यानी तपी जपी त्यागी वैरागी इत्यादि गुणवन्तों की निन्दा करे—अवर्ण वाद बोले, इत्या-दि अविनय करे सो मिथ्यात्व.

२ “अशातना मिथ्यात्व”—अर्थात्—३३ अशातना करे, गुणोवृद्ध, वयोवृद्ध मान्यवन्त सत्पुरुषोंका सत्कार सन्मान नहीं करे. संताप उपजावे, या ताडना तर्जना-दि आशातना करे सो मिथ्यात्व.

३ “अक्रिया मिथ्यात्व”—अर्थात्—कितनेक तो आत्मा को अक्रिया ही मा-नते हैं, अर्थात्—आत्मा न तो शुभाशुभ कर्म की कर्ता है और न भुक्ता है, और कि-तनेक आत्मा साधन का उपाय जो यम नियमादि क्रिया की जाती है. उसे व्यर्थ-निर्ध-क बताते हैं. कितने फक्त एक ज्ञान सेही सिद्धी मानते हैं. क्रिया का साफ निषेध करते हैं. वगैरा यह सब अक्रिया वादी मिथ्यात्वी में गिने जाते हैं.

४ “अज्ञान मिथ्यात्व”—अर्थात्—जहां अज्ञान है वहां नियमासे मिथ्यात्व होताही है क्योंकि अज्ञानी धर्मा धर्म-शुभाशुभ कृतव्योंको और उनके फलसे आविज्ञ रहकर, फक्त अन्यके देखा देखी क्रिया करते हैं, और फक्त उस क्रिया से ही मोक्ष मानते हैं. यह ज्ञान का निषेध करते हैं, इसलिये अज्ञानी मिथ्यात्वी हैं.

५ “परिवर्तन मिथ्यात्व”—अर्थात्—सम्यक्त्वी तो हैं, परन्तु खुशामदी से ला-

लच वश हो मिथ्यात्वी के मिथ्याकृतव्यों में सहाय करना मिथ्यात्वियों से मिलकर रहना. मिथ्यात्वियों के जैसे कृतव्यों करना, सो परि वर्तन मिथ्यात्व.

६ “परिणाम मिथ्यात्व”—अर्थात्—व्यवहार में तो सम्यक्त्व का पालन कर ते हैं, परन्तु अभ्यन्तर में मिथ्यात्व मोहका उपशम न होने से परिणामों से मिथ्यात्व का सेवन होता है सो परिणाम मिथ्यात्व.

७ “प्रदेश मिथ्यात्व”—अर्थात्—जो अनादि काल से मिथ्यात्व के दलिये खीर नीर की तरह आत्म प्रदेशों के साथ मिल रहे हैं. वो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होनेसे ही दूर होते हैं. जहां तक क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति न होवे वहां तक प्रदेश मिथ्यात्व गिना जाता है. (इसकी सत्ता इग्यारवे गुणस्थान तक पाती है. क्योंकि वो पडवाइ हो मिथ्यात्व तक आजाते हैं)

यों शास्त्रों और ग्रन्थों के आधर से मिथ्यात्व के ३४ भेद लिखेगये हैं. यह लक्षणों जिनों में पाते होवें. उन्हे मिथ्यात्वी जानना.

दुसरे और तीसरे गुणस्थान का अर्थ मूल मुझवही समझना कुछ विशेष न हो नेसे न लिखा.

चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान के लक्षणः—

जीवादि नव तत्त्वों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कर बताया निश्चय और व्यवहार कर द्रव्य से क्षेत्रसे कालसे और भाव से जाने सो कहते हैंः—

१. “जीव तत्व”—सदा जीवता रहे, चेतना लक्षण युक्त, दश द्रव्य प्राण और चार भाव प्राण का धारक, प्रदेश आत्मक, ज्ञान दर्शन स्वभाव. द्रव्यार्थिक नय से निश्च. पर्यायार्थिक नय से अनिश्च, परिणामी द्रव्य, व्यवहार नय से कर्म का कर्ता और भोक्ता, निश्चय नय से शुद्ध चित्त पर्याय का कर्ता, निज स्वरूप का भोक्ता, उदयीक भाव के मिलापक रूप, छद्मस्तके चेष्टादि लिंग गम्य, केवली के प्रसङ्ग शरीर प्रमाण. अरूपी सो जीव द्रव्य. और (१) द्रव्य से निश्चय नय के मत से सर्व एक रूप हैं, व्यवहार नय के मत से—नरक तिर्यच मनुष्य देवादि में अनेक रूप धारण करते हैं. (२) क्षेत्र से सर्व जीवो असंख्यात प्रदेशा लोक व्यापी हैं. (३) का-से निश्चय नय के मत से ध्रोव्य आनादि अनन्त, व्यवहार नय के मतसे चारों गति में शरीर धारण की अपेक्षा उत्पात व्यय होताही रहता है जिस से, सादी सान्त हैं. (४) भाव से—निश्चय नय के मत से सब जीवों परिणामिक भाव में—अपने २ स्वभाव

में प्रवृत्तते हैं. और व्यवहार नय के मत से संसारी जीवों शुभाशुभ भाव में परीण मते हैं.

२ “अजीव तत्व”—सदा निर्जीव रहे, जड लक्षण, प्रमाण्ड आत्मक पुद्गल प्रदेश आत्मक, धर्मास्ति आदि तीनों द्रव्य-द्रव्यार्थिक नय से नित्य, पर्यायार्थिक नय से अनित्य, घट पटादि रूप पलटता रहे, परिणामिक द्रव्य, और (१) द्रव्य से-धर्मास्तिके द्रव्य का चलण सहाय गुण, अधर्मास्तिके द्रव्य का स्थिर सहाय गुण, आकास्तिके द्रव्यका विकाशदान गुण, काल द्रव्य का-पर्याय परावर्तन गुण, पुद्गल द्रव्यका पूर्ण गलन. (२) क्षेत्रसे-धर्मास्ति अधर्मास्ति और पुद्गलास्ति लोक व्यापक, असंख्या प्रदेशी, आकाश लोकालोक व्यापक, अनन्त प्रदेशी. काल व्यवहारसे अढाइ द्वीप-समय क्षेत्र व्यापक वर्तनसे सर्व लोक व्यापक अप्रदेशी, (३) कालसे द्रव्य नय की अपेक्षासे तो पांचों ही द्रव्य अनादि अनन्त हैं. और पर्याय से-देश प्रदेश आश्रिय या अगुरु लघु आश्रिय धर्मास्ति अधर्मास्ति उत्पाद व्यय आश्रिय काल, पूर्ण गलन आश्रिय या स्कन्ध परमाणु आश्रिय पुद्गल सादि सान्त हैं. (४) भाव से-चारों द्रव्य तो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित हैं, और पुद्गल वर्णादि सहित है.

३ “पुण्य तत्व”—किये कृतव्यों का पुनः शुभ फल दाता सो पुण्य, सुखदाता लक्षण, पुद्गलिक पदार्थ, आत्मोन्नति कर्ता. साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृति का भोगवना सो द्रव्य पुण्य, दान दयालुता, सराग संयम, शुभ परिणामों की प्रवर्ती सो भाव पुण्य. और (१) द्रव्य से-पुण्य के ४२ भेद. (२) क्षेत्र से-पुण्य पुद्गल लोक व्यापी, (३) कालसे-अभव्य आश्रिय संतति अनादि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सांत, (४) भाव से ९ प्रकार से पुण्य उपार्जन होवे.

४ “पाप तत्व”—जो अवन्नति दिशामें आत्मा को प्राप-पट्टके सो पाप, दुःख दाता लक्षण, पुद्गलिक पदार्थ, मिथ्यात्वादि कर्म प्रकृति सो द्रव्य पाप, मिथ्यत्वादि के उदय से उपहत मलीन परिणाम सो भाव पाप. और (१) द्रव्य से भोगवने के ८२ भेद, (२) क्षेत्र से-पाप पुद्गल लोका व्यापी, (३) काल से-अभव्याश्रिय अनादि अनन्त, भव्याश्रिय अनादि सान्त, (४) भाव से-१८ प्रकारे पापो पार्जे.

५ “आश्रव तत्व”—कर्म पुद्गल अनेका मार्ग सो आश्रव पुद्गलिक प्रणति रूप, उदायिक भाव की प्रणति रूप सो भाव आश्रव, तसनिमित्त रूप कर्म दलका आग-म् सो द्रव्य आश्रव. और (१) द्रव्य से पुण्य पापादि रूप दलिक का संचय करना

सो, (२) क्षेत्र से-लोक व्यापि, (३) काल से-अभव्याश्रिय अनादी अनन्त, भव्या-श्रिय अनादि सान्त, (४) भावाश्रिय-पुन्य पापका उपार्जन करना सो आश्रय.

६ "संवर तत्व"—आते हुवे कर्म पुद्गलों को रोक देवे—आत्मा को लगने न देवे सो संवर, आत्म परिणती रूप, निरुपाधि लक्षण, क्षायिक क्षयोपशमादि भाव रूप, भाव संवर, उस निमित्त प्रवर्तीसो द्रव्य संवर, और (१) द्रव्य से संवरके ९७ भेद, (२) क्षेत्र से चउदह राजु लोक (त्रस नाल) प्रमाणे. (३) कालसे-क्षायिक भाव आश्रिय सादि अनन्त, और क्षयोपशमिक भाव आश्रिय सादि सान्त, (४) भाव से अपने स्वरूप-ज्ञानादि गुणों में रमण करना सो सम्वर.

७ "निर्जरा तत्व"—आत्मा से सम्बन्ध पाये हुवे कर्म पुद्गलों का झडना सो निर्जरा. संयम तपादि जनक भाव सो भाव निर्जरा, और उससे जोजो कर्म पुद्गल आत्मासे दूर हुवे सो द्रव्य निर्जरा. और (१) द्रव्य से-निर्जरा के १२ भेद, (२) क्षेत्रसे-चउदह राजु लोक (त्रस नाल) प्रमाणे. (३) काल से-सादी सान्त. (४) भाव से सर्व इच्छाका निरुधन कर सम भाव में प्रवर्तन होवे सो निर्जरा.

८ "बन्ध तत्व"—शुद्धात्म गुणों के प्रतिकूल जो कपाय विषयादि गुणों है उनसे आकर्ष कर जो कर्म पुद्गलों का आत्मा प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होवे सो बन्ध. कर्म को ग्रहण करणे रूप जो चिक्कणास लिये सत्ता है सो भाव बन्ध, उसके जोग से जो कर्मों के दलीकोका जमाव होकर ठेहरे सो द्रव्य बन्ध, और (१) द्रव्य से बन्ध के चार प्रकार, (२) क्षेत्र से-लोक प्रमाण, (३) काल से-सादी सान्त, (४) भाव से राग द्वेष अज्ञानता रूप चीक्कास सो बन्ध.

(१) "मोक्ष तत्व"—समूल कर्मों का नाश कर आत्माका छूटकारा होना सो मोक्ष. कर्म पडलों के दूर होने से स्वानुभव होना सो भाव मोक्ष, जितानुभव से कर्मोंके बन्धन से छूटना सो द्रव्य मोक्ष, और (१) द्रव्य से मोक्ष साधन के ४ कारणों, तथा केवल ज्ञानी सो द्रव्य मोक्ष. (२) क्षेत्रसे-अढाइद्वीप प्रमाण. (३) काल से-सर्व सिद्धों आश्रिय अनादि अनन्त, एक सिद्ध आश्रिय सादि अनन्त, (४) भावसे सर्व कर्मोंसे निर्मुक्तसो सिद्ध क्षेत्र में जो सिद्ध भगवन्त अनन्त ज्ञानादि गुणयुक्त विराजते हैं सो भाव मोक्ष.

यों यह नवों पदार्थों—द्रव्यार्थिक नय से नित्यहैं, पर्यायार्थिक नयसे अनित्यहैं, निश्चय नय से अभिन्न हैं, व्यवहार नय से भिन्न हैं, सामान्य नयसे एक, विशेष नय

से—अनेक, ज्ञान नयसे ज्ञेय, क्रिया नयसे—हेयोपादेय, परस्पर सा पेक्षा, अनन्त धर्मात्म कथंचित्—उत्पन्न, कथंचित् द्वि नष्ट, कथंचित् ध्रौव्यः यों विरूप एकही समयमें श्रद्धे और भी इने नय निक्षेपे प्रमाण आदि द्वारा जिनेन्द्र प्रणित सूत्रानुसार श्रद्धे की रुची रखे सो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा जानना .

सम्यक्त्वी के ६७ लक्षणों का अर्थ मूल प्रमाणेंही जाणना.

पांचवे गुस्थान के लक्षण.

“श्रावककी ११. प्रतिमा.”

आर्य—श्रावक पदानि देव । रेकादश देशितानिय पुखतु ॥

स्वगुणाः गुणैः सह । संत्तिष्टन्ते क्रम विवृद्धा ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीजिनेश्वर भगवन्त ने श्रावकों को गुणवृद्धि करने के इग्यारे स्थानक फरमाये हैं, उनमें श्रावको प्रवर्त तेहुवे जों जों योग्यता को प्राप्त होतेहैं, त्यों त्यों पीछे के गुणों में कायम रहते हुवे आगे को गुणों की वृद्धि करते जाते हैं.

आर्या—दंसण वय साझाइय । पोसह सचित्त राइ भत्तेय ॥

बंधारंभ परिग्गह । अणुमण उदिट्ट देश विरदोय ॥२॥

अर्थ—उन ११. स्थानक के नाम—१.सम्यक्त्व, २ व्रत, ३ सामायिक, ४ पौषध, ५ रात्रिभोजन त्याग, ६ सचित्त त्याग, ७ ब्रम्हचर्य ८ आरंभ त्याग, ९ परिश्रम त्याग, १० अनुमति विरत, और ११. उदिष्ट विरति-देशविरति. इस प्रकार से अनुक्रम में गुणों वृद्धि करते हैं.

आगे इन ११. ही स्थानक कोंका अलग २ विस्तारसे स्वरूप कहत हैं:—

आर्या—सम्यग् दशन शुद्ध । संसार शरीर भोग निर्विण्ण ॥

पंचगुरू चरण शरणं । दर्शनिक स्तस्त्व पथ गृह्य ॥ ३ ॥

अर्थ—देश विरति—श्रावक का पद प्राप्त करने का अव्वलही पंक्तिया सम्यक्त्व है, जिसका विस्तार से वर्णन चौथे गुणस्थानमें कियागया है. उनगुणों संयुक्तही जीव इन पञ्चम गुणस्थान में प्रवेश कर यहां सम्यक्त्व की विशेषशुद्धि करते हैं. अर्थात्—संसार से शरीर से और भोगों से विरक्त भावी होते हैं. संसारिक कुटम्बको

तो मतलबी जान धायमाता (दूध पिलाने को रक्खी हुइ धाय) वच्चेको लाडलडाती हुइ भी विरक्त रहे त्यो ममत्व बन्धसे विरक्त रहै. व्योपारी ज्यो लाभोपार्जन की इच्छा से द्रव्य व्यय करते हैं, त्यो शरीर को धर्म करणी करने पोषते हुवे विभूषादिसे विरक्त रहै, और ज्यो व्यश्री अफीम को जहर जानते प्रमाण युक्त भोगवते है, त्यो भोगोपभोगका प्रमाण कर विरक्त रहते हैं. अर्हन्तादि पंच परमैष्टि केही शरण भूत जानते हुवे अन्य का शरण स्वप्न मात्रमें भी नहीं वांछते हैं, और सर्वज्ञ प्रणित तत्वों के ज्ञान को पथ्य (रुची कारक) आहार की मफिकं गृहणकर परिणमाते-पचतेहैं. सो दर्शनिक-सम्यक्त्व रूप प्रथम स्थानक में प्रवर्तक देशविरती श्रावक कहे जाते हैं.

“शङ्का काङ्क्षा विचिकित्सा ऽ न्यदृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यग्दृष्टे रतीचाराः”
अर्थात्-१. श्रीजिनेश्वर भगवन्त के अतिगहन समुद्र जैसे वचन अपनी अल्प लोटे जैसी बुद्धि में न समानेसे-ग्राह्यमें न आने से शङ्का-वैम लावे, २ धर्म करणी-फलकीया अन्यमतकी वांछा करै, ३ साधुओंके या रोगी ग्लानाके मलीन गात्र देख दुर्गच्छा करे, या करणी का फल होगा कि नहीं ऐसा सन्देह करे, ४ पर (दूसरे) पाखाण्डियों की परशंसा (माहिमा) करे. और ५ पाखाण्डियों का संस्तव (सदा) पारिचय-सङ्गति करे, तो सम्यक्त्व में अतिचार (दोष) लगता है. एसा जान सम्यक्त्वी श्रावक इन पांचोंही कामोंसे दीर्घ उपयोग युक्त सदा बचाव करते ही रहते हैं. सम्यक्त्व में दोष लगने नहीं देते हैं.

ऐसीतरह से जब दर्शन-सम्यक्त्व में निश्चलात्मक बन जाते हैं. तब अधिक वैराग्यकी वृद्धि कर ने दुसरे व्रत नामक स्थान में प्रवेश करते हैं. जिसका स्वरूप कहते हैं.

आर्या-निरति क्रमण मणुव्रत । पंचक मपि शील सप्तकं चापि ।

धारयते निःशल्यो । यो सौ व्रति नामतो व्रतिकः ॥ ४ ॥

अर्थ-“निःशल्योव्रति”-इस सूत्रानुसार प्रथम-हृदय रूप क्षेत्र(खेतको) तीनो शल्यों से निष्कन्ट-विशुद्ध करतेहैं अर्थात्-प्रथम माया शल्य का निकन्दकर - अभ्यान्तर-अतःरीक चित्तवृत्तिको शरल (ढोंगकी अभिलाषा रहित) बनाते हैं, दूसरे नियाना-निदान शल्यका निकन्द कर व्रत-धर्म करणी के इहलोक परलोक सम्बन्धि फलकी वांछा नहीं करते. विरवांछक (अनररी) करणी कर उसका महान लाभ प्रा-

स करते हैं. और तीसरा पिप्यादंशण-कुमत श्रद्धान का शल्य का निकन्द कर जिन वचनों के युक्त आस्तिक्य वन. की हुइ व्रतादि करणी को निर्मळ-निर्दोष रक्खते हैं. इन तीनों शल्य रहित हृदय क्षेत्र को बना फिर सम्यक्त्त युक्त व्रत बीजारोपण करते हैं सो कहते हैं:-

सूत्र-हिंसा नृतस्तेया ब्रह्मपरि ग्रह भ्यो विरतिं व्रतम् ॥

दिग्दे शानर्थ दण्ड विरति । सामायिक पौषधोपवासो

भोग परिभोगाऽतिथि संविभाग व्रत सम्यन्नश्च ॥

अर्थ-हिंसासे, झूठसे चोरीसे, मैथुन से, और परिग्रह से, पांचों से जो निवृत्तते हैं-इने छोडते हैं सो पंच व्रत कहे जाते हैं. इन से निवृत्ति दो तरह से होती है:- "देश सर्व तो अपु मइती" अर्थात्-जो सर्वथा प्रकारे इन पांचोही कामों का त्याग करते हैं. सो महाव्रती (साधु) कहे जाते हैं. और इनों की अपेक्षा से जो देश-थोडा सा त्याग करते हैं सो देशवती (श्रावक) कहे जाते हैं. +

और दिशाक्त, पेशक्त, अनर्था दण्डक्त उपभोग परिभोग परिमाण सामायिक पौषय उपवास, और अतिथी संविभाग, इन ७ को शीलक्त कहते हैं. यों १२ व्रतों के धारक श्रावक कहे जाते हैं.

और "व्रत शीलेषु पञ्च पञ्च यथा क्रमम्" अर्थात् उपरोक्त पांचों व्रतों और

सातों शीलों के पांच २ x अतिचार हैं सो अनुक्रम से आगे कहते हैं:-

“तत्र और अतिचार”

१ “थूलाओ पाणाइ वायाओ वेरमणं” अर्थात्-वडेजीवों जो हलते चलते प्रस-
क्ष में दृष्टि गोचर आतेहैं ऐसे निरपराधीको जान कर देखकर दोकरण और तीन जो
ग कर घात करे नहीं. इस व्रतके ५ अतिचारों:-“वन्ध वध च्छेदा-तिभार रोपणा-न्नपा
ना निरोधा” अर्थात्-मनुष्य पशु पक्षी आदि किसी भी व्रस जीवों को-१. मजबूत व-
न्धन से बान्धे, २ चाबूकादि से मारे, ३ अवयव-या चर्मका छेदन करे, ४ शक्ति से
ज्यादा काम लेवे, और ५ खान पान का निरोध करे- तो इस व्रत में दोष लगता है.
ऐसा जान इन ५ कामोंको नहीं करे.

२ “थूलाओ मूसा-वाया ओ वेरमणं” अर्थात्-स्थूल बडा झूठ-जिस से राजा
का दण्डका और लोकों का निन्दाका पात्र बनें ऐसा झूठ दो करण और तीन
जोग से नहीं बोले, इस व्रत के ५ अतिचारों:-“मिथ्योप देश रहोभ्याख्यान कूट
लेख क्रिया-न्यासापहार-साकार मन्त्र भेदा:”—अर्थात्-१. खोटा-झूठा उपदेश देवे,
२ गुप्त कर्म प्रगट करे, ३ खोटा खत लिखे, ४ अन्यका द्रव्यादि छिपावे-दवावे, और
५ चुगली करे, तो इस व्रत में दोष लगे. ऐसा जान यह ५ काम त्यागे.

३ “थूलाओ अदिन्ना-दाणाओ वेरमणं” अर्थात्-वडी चोरी जिससे राजके दण्ड
का और लोकों के निन्दा-अविश्वास का पात्र बने ऐसी चोरीका दो करण और तीन
जोग से त्याग करे. इस व्रत के ५ अतिचार:-“स्तेन प्रयोग तदाहृतदान विरुद्ध
राज्याति क्रम, हिनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपकव्यवहारा:” अर्थात्-१. चोर को स-
हाय देवे, २ चोरका माल लेवे, ३ राजा की आज्ञा उल्लंघे, ४ तोले मापे कम
ज्यादा रखे, और ५ तत्प्रति रूप वस्तु (हलकी) मिलाकर देवे, तो इस व्रत में
दोष लगे, ऐसा जान इन ५ कामोंका त्याग करे.

x त्याग की वस्तु को—१.भोगने की अभिलाषा करे सो अतिकर्म, २ भोगवने केलिये
गमन करे सो व्याति कर्म, ३ भोगवने को गृहण करे सो अतिचार. और ४ भोगव लेवे सो
अनाचार. इन चारों प्रकार के दोषों में से पहिले के दोषप्रकार के दोषों तो गृहस्थ को सहज
लग जातेहैं और उनकी निवृत्ति पश्चाताप व प्रतिक्रमणादि से हो जातीहै. परन्तु. तीसरा दोष
तो विन प्रायःश्चित दूरन होता है. इसलिये यहां व्रतों के अतिचारोही दर्शाये गयेहैं.

४ “सदारा संतोस अवसेसं मेहूणाओ वेरमणं” अर्थात्—जिस स्त्रीका पाणी (हाथ) ग्रहण किया है, उसे संतोष उपजे उस उपरान्त सर्वथा मैथुन सेवन करने का एक करण तीन जोग से त्याग करे. इस व्रत के ५ अतिचारः—पर विवाह करणे त्वरिकापरि गृहीता—ऽपरिगृहीता गमना-नङ्ग क्रीडा काम तत्रिाभि निवेशा” अर्थात्—
१. दुसरे का विवाह करावे, २ पाणी गृहण की हुई छोटी उम्मर की स्त्री का सेवन करे, ३ स्वस्त्री बिना पाणी गृहण (लग्न) की हुई का सेवन करे, ४ योनी सिवाय दुसरे अंगो से क्रीडा करे, और ५ भोग में लुब्धता रखे तो इस व्रत में दोष लगे. ऐसा जान इन ५ कर्मों का त्याग करे.

५ “थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं”—अर्थात्—स्थूल बडी इच्छा से निवृत्ते धन धान्य आदि की मर्यादा करै कि इतने उपरान्त द्रव्य एक करण तीन जोग से नहीं रखेंगा. इस व्रत के ५ अतिचारः—“क्षेत्र वस्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाऽतिक्रमा” अर्थात्—१. खेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना दि धातु का, ३ धन (नाणा) धान्य (अनाज) आदि द्रव्यका, ४ दासी दास आदि मनुष्योंका, और ५ जो घरादि के अनेक कार्यों में वस्तु वापरने में आवे उसका प्रमाण एक करण तीन जोग कर (मर्यादा) किया है, उससे अधिक मस्तु रखने से इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान अधिक रखे नहीं.

६ “दिशी प्रमाणव्रत”—अर्थात्—पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और नीची ऊंची इन छेओं दिशा में गमन कर ने का (जानेका) प्रमाण एक करण तीन जोग करे इस व्रतके ५ अति चारः—“ऊर्ध्वाथास्तिर्ग व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्पृत्यान्तरा धानानि” अर्थात्—१-२-३-ऊंची नीची तिरछी (चारों) दिशी का जो प्रमाण किया है उसके आगे जावे. ४ एक दिशीके क्षेत्रका प्रमाण दुसरी दिशीमें मिलावे. और ५ याद दास्ति भूलने से याद न आवे वहां तक आगे जावे तो इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान ५ कामों का त्याग करे.

७ “उपभोग परिभोग परिमाण व्रत”—अर्थात्—आहार आदि जो वस्तु एकही वक्त भोगवणे में आवे सो उपभोग, और वस्त्रादि वारम्वार भोगवणों में आवे सो परिभोग इन दोनों प्रकार की वस्तु की जावत् जीव पर्यन्त भोगवणों का प्रमाण(मर्यादा) एक करण तीन जोग कर करे. इस व्रत के ५ अतिचारः—“सचित्त सम्बन्ध सम्मिश्रा भिपव दुःपकाहारा” अर्थात्—१. जिसका त्याग किया ऐसी सचित्त (सजीव) वस्तु

का, २ सचित्त मिली हुई अचित्त वस्तु का, ३ मिश्र वस्तु का, ४ नशेकी (केफी) वस्तु का, और ५ पूरी पकी न होवे एसी वस्तु का या पक कर विगड गड हो एसी वस्तु को भागवने से इस व्रत में दोष लगता है. ऐसा जान इन पांचों प्रकार की वस्तु का त्याग करे.

और भी इस व्रत के धारक १५ कर्मदान त्यागते हैं.

अङ्गार वन शकट भाटक स्फोट जीविका ।

दन्त लाक्ष रस केश विष त्राणिज्य का निच ॥

यन्त्र पीडा निलान्छन मसंयाति दोषणं तथा ।

द्व दान सरः शोप इति पञ्च दशत्यजेत् ॥

अर्थात्—अग्नि के आरंभ का, २ वन कटाने का, ३ गाडे आदि वाहन बेंचने का, ४ वाहन भाडेदेने का, ५ दांतोका, ६ लाखका, ७ पृथ्व्यादि फोडनेका, ८ रसक, ९ केश (पशु) का, १० जेहर का, ११ यन्त्र (मीलों) का, १२ अंग भंग करने का, १३, दासादि का, १४ वस्तु जलाने का, और १५ निवाणों से पाणी निकालने का. यह १५ प्रकार के व्यापारका भी त्याग करते हैं.

८ “अन्नत्य दण्ड विरमाण व्रत”—अर्थात्—जिस से अपना या दूसरे का कुछ भी मतलब निकलता न हो ऐसे अनर्थ दण्ड (पाप) कामों का एक करन एक जोग से त्याग करे, इस व्रत के ५ अति चारः—“कन्दर्प कौत्कुच्य मौख्य्या समीक्ष्याधि करणो - भोग परिभोगानर्थ क्यानि”—अर्थात् १ काम जागृत होवे ऐसी कथा करे, २ अंगकी कुचेष्टा करे, ३ व्यर्था प्रलाप करे (विना काम बोले) ४ पाप कारी वस्तु का संयोग मिलावे, और ५ भोगोप भोग में वृद्धि करे, तो इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान पांचों कामों का त्याग करे.

ऐसी तरह से दुसरी व्रत प्रतिमां में ऊपरोक्त आठों व्रतों को धारण कर, उन के जो जो अतिचारों कह हैं उनको सर्वथा प्रकारे टाल ते-त्यागते हुवे शुद्ध पालते हैं; सो व्रत धारी दुसरे पक्तिये पर प्रवर्तने वाले देशव्रति (श्रावक) कहे जाते हैं. *

* देखीये उपशक दशांग शास्त्र आणन्दजी आदि १० ही श्रावको ने भगवन्त की समिप्य आठेही व्रत धारण कियेहैं सो.

४ “सदारा संतोस अवसेसं मेहूणाओ वेरमणं” अर्थात्—जिस स्त्रीका पाणी (हाथ) ग्रहण किया है, उसे संतोप उपजे उस उपरान्त सर्वथा मैथुन सेवन करने का एक करण तीन जोग से त्याग करे. इस व्रत के ५ अतिचारः—पर विवाह करणे त्वरिकापरि गृहीता—ऽपरिगृहीता गमना-नङ्ग क्रीडा काम तत्राभि निवेशा” अर्थात्—
१. दुसरे का विवाह करावे, २ पाणी गृहण की हुई छोटी उम्पर की स्त्री का सेवन करे, ३ स्वस्त्री विना पाणी गृहण (लग्न) की हुई का सेवन करे, ४ योनी सिवाय दुसरे अंगो से क्रीडा करे, और ५ भोग में लुब्धता रखे तो इस व्रत में दोष लगे. ऐसा जान इन ५ कर्मों का त्याग करे.

५ “थूलओ परिगहाओ वेरमणं”—अर्थात्—स्थूल बड़ी इच्छा से निवृत्ते धन धान्य आदि की मर्यादा करै कि इतने उपरान्त द्रव्य एक करण तीन जोग से नहीं रखेगा. इस व्रत के ५ अतिचारः—“क्षेत्र वस्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाऽतिक्रमा” अर्थात्—१. खेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना दि धातु का, ३ धन (नाणा) धान्य (अनाज) आदि द्रव्यका, ४ दासी दास आदि मनुष्योंका, और ५ जो घरादि के अनेक कार्यों में वस्तु वापरने में आवे उसका प्रमाण एक करण तीन जोग कर (मर्यादा) किया है, उससे अधिक वस्तु रखने से इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान अधिक रखे नहीं.

६ “दिशी प्रमाणव्रत”—अर्थात्—पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और नीची ऊंची इन छेओ दिशा में गमन कर ने का (जानेका) प्रमाण एक करण तीन जोग करे इस व्रतके ५ अति चारः—“ऊर्ध्वायास्तिर्ग व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्पृत्यान्तरा धानानि” अर्थात्—१-२-३-ऊंची नीची तिरछी (चारों) दिशी का जो प्रमाण किया है उसके आगे जावे. ४ एक दिशीके क्षेत्रका प्रमाण दुसरी दिशीमें मिलावे. और ५ याद दास्ति भूलने से याद न आवे वहां तक आगे जावे तो इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान ५ कामों का त्याग करे.

७ “उपभोग परिभोग परिमाण व्रत”—अर्थात्—आहार आदि जो वस्तु एकही वक्त भोगवणे में आवे सो उपभोग, और वस्त्रादि वारम्बार भोगवणें में आवे सो परिभोग इन दोनों प्रकार की वस्तु की जावत् जीव पर्यन्त भोगवणें का प्रमाण (मर्यादा) एक करण तीन जोग कर करे. इस व्रत के ५ अतिचारः—“सचित्त सम्बन्ध सम्मिश्रा भिषव दुःपकाहारा” अर्थात्—१. जिसका त्याग किया ऐसी सचित्त (सजीव) वस्तु

का, २ सचित्त मिली हुई अचित्त वस्तु का, ३ मिश्र वस्तु का, ४ नशेकी (केफी) वस्तु का, और ५ पूरी पकी न होवे एसी वस्तु का या पक कर विगड गइ हो एसी वस्तु को भागवने से इस व्रत में दोष लगता है. ऐसा जान इन पांचों प्रकार की वस्तु का त्याग करे.

और भी इस व्रत के धारक १५ कर्मदान त्यागते हैं.

अङ्गार वन शकट भाटक स्फोट जीविका ।

दन्त लाक्ष रस केश विष त्राणिज्य का निच ॥

यन्त्र पीडा निलान्छन मसंयाति दोषणं तथा ।

द्व दान सरः शोष इति पञ्च दशत्यजेत् ॥

अर्थात्—अग्नि के आरंभ का, २ वन कटाने का, ३ गाडे आदि वाहन बेंचने का, ४ वाहन भाडेदेने का, ५ दांतोका, ६ लाखका, ७ पृथव्यादि फोडनेका, ८ रसक, ९ केश (पशु) का, १० जेहर का, ११ यन्त्र (धीलों) का, १२ अंग भंग कर ने का, १३, दासादि का, १४ वस्तु जलाने का, और १५ निवाणों से पाणी निकाल ने का. यह १५ प्रकार के व्यापारका भी त्याग कर ते हैं.

८ “अन्नत्य दण्ड विरमाण व्रत”—अर्थात्—जिस से अपना या दूसरे का कुछ भी मतलब निकलता न हो ऐसे अनर्थ दण्ड (पाप) कामों का एक करन एक जोग से त्याग करे, इस व्रत के ५ अति चारः—“कन्दर्प कौत्कुच्य मौख्य्या समीक्ष्याधि करणो - भोग परिभोगानर्थ क्यानि”—अर्थात् १ काम जागृत होवे ऐसी कथा करे, २ अंगकी कुचेष्टा करे, ३ व्यर्था प्रलाप करे, (विना काम बोले) ४ पाप कारी वस्तु का संयोग मिलावे, और ५ भोगोप भोग में वृद्धि करे, तो इस व्रत में दोष लगता है, ऐसा जान पांचों कामों का त्याग करे.

ऐसी तरह से दुसरी व्रत प्रतिमां में ऊपरोक्त आठों व्रतों को धारण कर, उन के जो जो अतिचारों कह हैं उनको सर्वथा प्रकारे टाल ते-त्यागते हुवे शुद्ध पालते हैं; सो व्रत धारी दुसरे पक्तिये पर प्रवर्त ने वाले देशव्रति (श्रावक) कहे जाते हैं. *

* देखीये उपशक दशांग शास्त्र आणन्दजी आदि १० ही श्रावको ने भगवन्त की समिष्प आठेंही व्रत धारन कियेहैं सो.

ऐसी तरह से व्रत प्रतिमा में प्रवर्तते जव व्रतों में निश्चलात्मक बन जाते हैं, और अधिक वैराग्य की वृद्धि होती है, तब सर्व व्रति (साधुपना) लेने को असमर्थ हवे. साधु पनेकी वानगी चखने के वास्ते, तीसरी सामायिक प्रतिमा धारन करते हैं.

चतुरावर्त वितय । श्रतुः प्रणाम स्थितो यथा जातः ।

सामायिको द्वि निपद्य । स्त्रियोग शुद्ध स्त्रिसन्ध्याममिवं॥५॥

अर्थात्-सम=समभाव, आय=आवे, इक=जिस वक्त. अर्थात्-जिस वक्त अपनी चित्त वृत्ति की सम भाव में प्रवृत्ती होवे सो सामायिक व्रत यह द्रव्य तो सावद्य (हिंसक) जोग (मन वचन काया) से और भाविक राग द्वेष से निवृत्ते, सम भाव में प्रवृत्तिका इस की आराधना करने के वास्ते कम से कम एक मुहुर्त (४८ मिनीट) काल तक का प्रमाण बन्धा है, और विशेष तो आपनी इच्छा होवे वहां तक इस व्रत की आराधना श्रावक जन कर सकते हैं. सामायिक व्रत आराधन करने की विधी इस मुजब हैकि:-जहां छेही कायका आरंभ विक्रम श्रवन दर्शन न होवे ऐसे एकान्त स्थान में, इर्या पन्थ मोधन पूर्वक जाकर यत्रा पूर्वक गृहस्थ का जो लिंग (भेष-कपडे) हैं, उसे छोडकर, साधु के जैसे पहर ने ओढने के वस्त्र की प्रति लेखना कर-धारन करे, पूंजनी-गुच्छक से जमीन पूंज, एक पट वस्त्र श्वेत रंग का एकही मनुष्य सुख से बैठ सके एमे आमन को विद्या-मुहपाति मुखपर बान्ध, देव गुरु को तिरखुंत्ता के पाठ से बंदना कर, इतनी धर्म क्रिया करते किसी प्रकार की विराधना हुइ हो उसकी निवृत्ति अर्थ-इर्यावही का सूत्र रूप पाठका उच्चारन कर, उस दोपकी विशुद्धि के लिये-तमुत्तरी का मूत्र पाठ कह, कायुत्सर्ग (कायाको एक स्थान स्थिर) कर, मन में इर्यावही मूत्र का अर्थ का चिन्तावन कर, लगे पापके पश्चताप पूर्वकका युत्सर्ग की समाप्ति कर, दोष निवृत्ति की खुशाली के लिये चौबीस्तव (लोगस्त का) मूत्र कहे. सामायिक व्रत धारन करे, फिर नीचे बैठ डावा घुटना ऊभा रख कमल छोडी वत दोनों हाथों को जोड गोडे पर स्थापन कर तीन आवर्तन युक्त - अर्हन्त को सिद्धको और गुरुको नमुत्थुणं मूत्र से स्तवन कर, ३२ दोष रहित + तीनों यो-

+ दशमने के दोष:-१. सामायिक कीविधी और फलका अजान होवे. २. सामायिक कर कीर्ती-यशःकी वांछकरे. ३. "करुंगा सामाइ तो होवेगा कमाइ" इत्यादि इसलोक के लाभ-की इच्छा करे, ४ में बड धमात्माहूं शुद्ध सामायिक करने वालाहूं इत्यादि गर्वकरे. ५ राजा

गों को रक्ख, शास्त्र श्रवण पठन मनन स्मरण स्तवन आदि धर्म ध्यान में रमण करे- जिसे सामायिक व्रत कहते हैं. "योग दुः प्रणि धानानादार स्मृत्य नुपस्थानानि"- अर्थात्-मन के वचन के और काया के योगों को दुप्रति ध्यान-खोटे कार्यों में पर-वृतावे. आदर रहित सामायिक करे, और सामायिक स्मृति-यददास्ति भूल जावे तो सामायिक में अतिचार लगता है-ऐसा जान इन पांचों दोषों से साफ दूर रहकर सामायिक करते हैं.

ऐसी तरह की शुद्ध सामायिक कमसे कम एक फजर एक दो पहर के और एक श्याम को यों तीन तो जरूर ही करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त मिलेतो लाभ को गमावे नहीं!

ऐसीतरह से तीसरी भूमीका में प्रवृत्त ते हुवे जब श्रावकजीको कुछ आत्मा-नु भवका अनन्द चख ने का एक पहर के अवकाश में जो मजह प्राप्त होता है, उस

शेट कुटम्ब आदिके डर से सामायिक करे. ६ सामायिक के फल का नियाणा करे. ७ सामायिक के फल का सन्देह करे (होगाकी नहीं!) ८ क्रोध मान माया लोभ के वश सामायिक करे. ९ गुरु महाराज का और धर्मोप करण का बहुमान नहीं करे. १० दूसरो का अपमान का चिन्तवतन करे.

दश वचन के दोष:-१ झूठ बोले, २ विनविचारा बोले, ३ श्रद्धाका भङ्ग होवे ऐसा वचन बोले, ४ असम्बन्ध-अन मिलता बोले. ५ नवकार मन्त्रादि सूत्रका पूरा पाठ उच्चारन नहीं करे. ६ क्लेश उत्पन्न होवे ऐसे मर्मिक वचन बोले. ७ दृष्ट-मस्कारी-हाँसी कितुहल करे. ८ स्त्रीकी भोजन की, देशकी. राजाकी. चोरकी, आरंभकी इत्यादि विकथा करे. ९ दूसरे की निन्दाकोर-अवरण वाद वाले-और १० सूत्र पाठ आदि गडबड कर जल्दी पूरा करदे.

वारह काया के दोष:-१ अयोग्य आसन से बैठे २ अस्थिर आसन से बैठे. ३ दृष्टिकी चपलता करे. ४ पापके-संसार के कामों करे. ५ भीतादि का टेका लेकर बैठे. ६ वारम्बार शरीर को सकोचे प्रसारे, ७ आलस्य-प्रमाद करे, ८ अंगमरोडे-करडका करे. ९ शरीर का मैल उतारे १० चिन्ताके आशनेसे बैठे-११ निद्रालेखे. और १२ वैयावच्च करावे-हाथ पांव दवावे.

• यों १० मनके, १० वचनके, ओर १२ काया के सवामिल ३२ दोषों रहित जो सामायिक करेसे शुद्ध सामायिक कही जाती है.

ही मजह के रसीले बने, वो मजह अधिक विलसने की उत्कृन्ठा जागृत होती है, उसे तृप्त करने अधिक काल परमार्थिक वृत्ति में गुजार नें चौथी भूमि का 'पौषध' नामक है, उस में यथा विधि से प्रवेश कर ते हैं सो- कहते हैं:-

पर्वादिषु चतुर्ष्वी । मासे २ स्वशक्ति मनी गुह्या ॥

प्रोषध नियम विधायी । प्रण धिपरः प्रोषधानशन ॥६॥

अर्थात्-जो स्वात्माको ज्ञानादि त्रिरत्नों की यथा विधि आराधना कर और छोही जीवों की काया को अभय दान देकर पोषते हैं-पाल ते हैं-तृप्त करते हैं, उसे पौषधवृत कहते हैं.

यह पौषध वृत सामायिक वृत की माफि कही यत्ना पूर्वक एकान्त स्थान में सुकुमल पूंजणी से पूंज चार हाथ लम्बा और एक हाथ चौडा विछोना प्रति लेखकर विछावै, मुहपाति मुखपर बान्ध कर, हाथ में रजुहरण ग्रहणकर-लघु नीती, बडी नीति, पित आदि के लिये भोजन और स्थान की प्रति लेख स्वासन पर सामायिक वृत में कही हुइ विधी मूजब प्रति लेखना के दोष की निवृत्ति के लिये 'इर्यावही सूत्र' कायुत्सर्ग आदि करे. फिर-"पौषध वृत" ग्रहण करने के लिये यही विधि कर पौषध ग्रहण करे. फिर थोडे से थोडे चार प्रहर विशेष यथेच्छा प्रमाणे १८ दोष रहित आत्मा + ध्यान में काल गजारे

इस व्रत के ५ अति चारः— “अप्रत्यवेक्षिता ऽप्रमार्जितो-त्सर्गादान संस्त रोप क्रमणा-दर स्मृत्यनुप्र स्थानानि” अर्थात्-बैठने सोने का स्थान वस्त्र लघुनीतिका भाजन भूमीका आदि जोजो वापर ने (उपयोग) में आवे, उन को-१. दृष्टि कर देखे नहीं, २ पूंजनी कर पूंजे नहीं. तैसे ही, ३ विना देखे विना पूंजे हाथ पग आदि शरीर विछोना संकोचे प्रसारे, पूंजणीयादि उपकरण ग्रहण करें, ४ अनादर से-वेगार टालने जैसा व्रतों में बहुमान-पूज्य दृष्टि रहित पौप करे, और ५ पौप करे के पौपाकी स्मृति-शुद्धि भूल जावे, जिस से पौपा के अयोग्य कृतव्यों को समाचरे तो पौपा में दोष लगे. ऐसा जान पांचों काम वर्जते हैं.

उत्सर्ग मार्ग में उपरोक्त विधि प्रमाणों कम से कम एक महीना में छे पौपेत्तो जरूर करे;—दोनो अष्टमी के दो आठ पेहरके और चउदश पूर्णीमां का दो तथा चउदश अमावास्या का दो बेला करे के शोलह पेहरका पौपा करे. और ज्यादा वन आवैतो बहुत अच्छा.

अथवाद् मार्ग में—जो चारों अहार का त्याग कर प्रति पूर्ण पौपा कर ने की शक्ति नहीं हो तो, देशावकाशिक व्रत, ऊपर कही पौपे की विधि माफ कही धारण कर, निरारंभ निर्ममत्व व्रति से प्रवर्ते, इस व्रत में जो तित्रीहार के पचखाण पूर्वक उपवास व्रत धारण करे तो-श्रासुक-भिर्जीव उष्ण आदि पार्णा ग्रहण करते हैं. और रोग या वृद्धावस्थादि प्रतङ्ग से इतनी शक्ति न होवे तो भिक्षा वृत्ति से निर्दोष आहार लाकर उपाश्रय (धर्म स्थान) में भोगव्रते हैं, या आहार निपजे वाद अचिन्त कि

सिगगार की राजाओं के शुद्ध आदि की ! भोजन आदि निपजाते वित्री तथा उनके स्वाद की, देश-देशान्तरों के रिती रिवाज की, विषय भोगकी निन्दा-कथनी, इत्यादि वीकथाओं करे ७ विना प्रयोजन, विना बोलाया दोवात करते होवे उसत्रीच में. निर्यक, चुगली, इत्यादि विन अवसर से वचन बोले. ८ लेने देने की हिंशाव व्यापार. तेज मन्दी, इत्यादि बातों करे. ९ संसारी सम्बन्ध नाते मिलावे-सगपण जोडे. १० अपना शरीर. या स्त्रीयादि का शरीर अनुराग दृष्टिसे निरखे तो. ११ जिसके पास सचित वस्तुहो या मुहढके विन बातों कारताहो उसके साथ बातों करे, और १२ हाँसी. मस्करी रुदन सोक करे, यों ६ पाहिले के और १२ पीछे के मिलके १८ दोषों होते हैं, जिनको टाल कर जो पौपा करतेहैं सो शुद्ध पौपा कहा जाताहै.

श्रीभी गृहस्थ के घर को जा प्रायुक्त आहार पाणी का, जोग बने वो, या हलवाइ आदि दुकान से सीधा निपजा हुवा मोल गृहण कर के भी भोगव लेते हैं. परन्तु इन ६ दिनों में संसारिक सर्व प्रकार के कामों से अलग रहते हैं.

यों चौथी भूमिका में प्रवृत्तते जब अडोल वृत्तिवन्त बनते हैं, और आधिक वैराग्य की वृद्धि होती है तब तप और धर्म की अधिक वृद्धि करने वासते पांचवी 'नियम' भूमि का में प्रवेश कर उपरोक्त नियमों युक्त नियमों में विशेषता करते हैं.

आर्य—अन्नं पानं खाद्यं । लेह्यं नाश्राति यो विभावर्या ॥

सचरात्रि भुक्ति विरतः । सत्वेष्वनु कम्पमान मनः ॥

अर्थात्—प्रथम उपरोक्त ६ दिनों से भी अधिक तप धर्म की वृद्धि करने के लिये विचार कर ते हैंकि-खाते २ अनन्तान्त काल व्यतीत हो गया जगद के सर्व पदार्थों अनन्तान्त वक्त भोगव आया, तो भी अभितक तृप्ति नहीं आइ, और एक दम सब खान पान छोड़ूं ऐसा अवसर तथा शक्ति भी नहीं, इसलिये महा अनर्थका हेतु अन्धा खाना-रात्रिको अन्न पाणी पकान मेवा तंबोल फलादि सर्व पदार्थों को भोगवने (खाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करै, जिस से चारह महीने में छे× महिने के तपका फल प्राप्त कर सकें! और शरीर की ममत्व घटाने-अज्ञाचि निवृत्ति उपरांत सर्व शरीर के स्नान का, हजामत करा ने का, इन्द्रियो निग्रहार्थ-दिन को अग्रम्ह (मैथुन)सेवनका, और धोती की दुसरी लांग लगानेका इन पांच कामोंका त्याग करे.

यों पांचवी भूमिका में तपकी वृद्धि और ममत्व की हानी करते २ जब विषयोंका निग्रह करने मन पर पूरा काबु पुगाने समर्थ बने, तब छठी ब्रम्हचर्य भूमिका में प्रवेश करते हैं.

आर्या—मल बीजं मलयोनि । गलन्मलं पूत गन्ध बीभत्सं ॥

पश्यनं गमनंगा । द्विरमति यो ब्रह्मचारिसः ॥

+ श्लोक—यः रात्रौ सर्वतः आहारं । वर्जयति सुमेधस्य ॥

तेषां पक्षोप वासेन । फल मांसेन जायते ॥

अर्थात्—जो एक महीने तक रात्री को सर्व आहार पाणी भोगवने का त्याग करता है उसे-एक महीने में १५ उपवास का फल प्राप्त होता है:—महा भारत.

अर्थात्-देखतेही घिनता-सूग की उत्पन्न कर ने वाली, पीरू रूद्र मूत्र कर पूरित, दुगन्धा ऐसी स्त्रीकी योनी का सेवन और नव तथा इग्यारे द्वारों से सदा अशुची का झरना ऐसे शरीर से आलिंगन में सुख का मानना यह प्रत्यक्ष अज्ञानताका दर्शक, और असंख्य असन्नी मनुष्य तथा नव लक्ष सन्नी मनुष्यों का घमसान कर ना यह महानिर्देयी--अधर्मी कृतव्य. ऐसा मैथुन को महा अधर्म--अनर्थ पाप का हेतु जान सर्वथा प्रकार से त्याग कर, + नव वाङ्, विशुद्ध ब्रम्हचर्यव्रत का स्वीकार करते हैं.

ऐसी तरह से से ब्रम्हचर्य भूमीका में प्रवर्ती करते बिना अन्न देखाते हुवे जीवों की हिंसा से निवृत्ते तो फिर देखाते हुवे स्थावर जीवों का भी भोग क्यों करना? ऐसा करुणा सिन्धु हृदय जब श्रावकजी का होता है. तब सातवी 'सचित्त त्याग भूमीका में प्रवेश करते है.

आर्या-मूल फल शाख शाखा । करीर कन्द प्रासुन बीजानी ॥

नामानि योनि सोयं । सचित्त विरतो दया मूर्ती ॥७॥

अर्थात्-दया मूर्ती श्रावकजी विषय वासना रहित हुवे पुनः उधर मनकी प्रवृत्ति न होवे और अनाथ स्थावर जीवों को अपने कर्मों कर पीडाते हुवे देख अन्तःकरण में 'रे' उत्पन्न होवे तब उन के भोगोंसे अपने शरीर को निवार ते हैं. अर्थात् विनापका अनाज भाजी फल फूल पत्र निमक मिरच या पाणी आदि सर्व सचित्त पदार्थ खाने का सोगन करते हैं. और अग्नि आदि शास्त्र से निर्जीव हुवा अन्न शाख पाणी आदि के भोगसे क्षुधा तृषा वेदनीको शान्त कर दया धर्मके आराधक बनते हैं.

ऐसी तरह जब अपना शरीर जो अपनी आत्मा को सुख के साधन रूप था उसके लिये ही आरंभ कर ने की वृत्ति करली तो फिर जो मतलबी-स्वजन परजन है. उन के लिये आरंभ कर व्यर्थ कर्म बन्धन क्यों करना? ऐसी दयालय वैराग्य पूर्ण उरमीयों उछल ने लगे, तब उनको शान्त करने आठवी 'आणारंभ' प्रतिमा स्वीकार करते हैं.

+ विकार उत्पन्न करे ऐसा-१ स्थान, २ दर्शन, ३ कथा, ४ आसन, ३ श्रवन, ६ चिन्तन, ७ अहार, ८ विशेषाहार, और ९ सिणंगार, इन ९ कामों को त्याग नेसेही शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत पलताहै:—

सीभी गृहस्थ के घर को जा फ्राथुक आहार पाणी का, जोग बने वो, या हलवाइ आदि दुकान से सीधा निपजा हुवा मोल गृहण कर के भी भोगव लेते हैं. परन्तु इन ६ दिनों में संसारिक सर्व प्रकार के कामों से अलग रहते हैं.

यों चौथी भूमिका में प्रवृत्ते जब अडोल वृत्तिवन्त बनते हैं, और आधिक वैराग्य की वृद्धि होती है तब तप और धर्म की अधिक वृद्धि करने वासते पांचवी 'नियम' भूमि का में प्रवेश कर उपरोक्त नियमों युक्त नियमों में विशेषता करते हैं.

आर्य-अन्नं पानं खाद्यं । लेह्यं नाश्राति यो विभावर्या ॥

सचरात्रि भुक्ति विरतः । सत्वेष्वनु कम्पमान मनः ॥

अर्थात्-प्रथम उपरोक्त ६ दिनों से भी अधिक तप धर्म की वृद्धि करने के लिये विचार कर ते हैंकि-खाते २ अनन्तान्त काल व्यतीत हो गया जगत के सर्व पदार्थों अनन्तान्त वक्त भोगव आया, तो भी अभितक तृप्ति नहीं आइ, और एक दम सब खान पान छोड़ूं ऐसा अवसर तथा शक्ति भी नहीं, इसलिये महा अनर्थका हेतु अन्धा खाना-रात्रिको अन्न पाणी पकान मेवा तंबोल फलादि सर्व पदार्थों को भोगवने (खाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करै, जिस से वारह महीने में छे× महिने के तपका फल प्राप्त कर सकें! और शरीर की ममत्व घटाने-अशाचि निवृत्ति उपरांत सर्व शरीर के स्नान का, हजामत करा ने का, इन्द्रियो निग्रहार्थ-दिन को अब्रम्ह (मैथुन)सेवनका, और धोती की दुसरी लांग लगानेका इन पांच कामोंका त्याग करे.

यों पांचवी भूमिका में तपकी वृद्धि और ममत्व की हानी करते २ जब विषयोंका निग्रह करने मन पर पूरा काबु पुगाने समर्थ बने, तब छद्दी ब्रम्हचर्य भूमिका में प्रवेश करते हैं.

आर्या-मल बीजं मलयोनि । गलन्मलं पूत गन्ध वीभत्सं ॥

पश्यनं गमनंगा । द्विरमति यो ब्रह्मचारिसः ॥

+ श्लोक-यः रात्रौ सर्वतः आहारं । वर्जयति सुमेधस्य ॥

तेषां पक्षोप दासेन । फल मांसेन जायते ॥

अर्थात्-जो एक महीने तक रात्री को सर्व आहार पाणी भोगवने का त्याग करता है उसे-एक महीने में १५ उपवास का फल प्राप्त होता है:-महा भारत.

रिता चरित रूप धर्म से आत्मा को पोषते हुवे - ज्ञान के ध्यान में सदा निर्मग्न रहते हैं. कोइ भी किसी प्रकार की आरंभिक सम्मति मांग ने आवे या अपर्न शरीरार्थ कदापि आरंभी काम करने का किनी को आदेश नहीं देते-हैकि तुम अमुक प्रकारसे यह कार्य करो, आरंभी कार्य में मौन धारण करते हैं. क्षुधा प्राप्त हुवे आपने स्वजन के घर में जो भोजन निपजा हो उसे भोगव आते हैं. सदा धर्म ध्यान में काल गुजारते हैं.

जो निजार्थ और परार्थ आरंभ करना और कराना इन पापों से निवृत्त ते हैं. उन की पाप कार्यों में सहज अरुची उत्पन्न होजाती है. अर्थात्— फिर उनको पा-पारंभी वो उत्पन्न हुवा काम अच्छा नहीं लगता है. तब अनुमोदन-अच्छा जानना और व्याख्यान करना इस से निवृत्ति करने दशवी 'उदिष्ट कृत प्रतिमा' धारण करते हैं:—

आर्या—अनुमती शरंभ । व परिग्रहे वैहिकेषु कर्म सुवा ॥

नास्ति खलु यश । समाधीर नुमति विरतः मन्तव्य ॥१०॥

अर्थात्—उपरोक्त भूमिका में दर्शाये मुझव आत्म साधन करते २ जब मनपर पूरा काबु जमाता हैं, तब मनकी सारंभी कार्य के अन्मोदन से सहज निवृत्ति होतीहै, वो - अर्थात्—घर के और परके, आरंभी और सपरिग्रही जो कामों सुनने में देखने में जानने में आइ हुइ बातों की, तथा आरंभ से निपजी हुइ वस्तु आहार व-स्त्रादि जो भोगव ने में आवे उन की-परसंस्या-गुणानु वाद करने से-मन कर उस कार्य को अच्छा जान ने से निवृत्तते हैं. आप हाथ से आरंभ करते नहीं, दुसरे के पास कराते नहीं, और उन के वास्ते किसी ने कुछ आरंभ कर कोइ वस्तु निप-जाइ होवे तो वो उसे ग्रहण करते नहीं-भोगवते नहीं. शुद्ध निर्दोष फ्रामुक वक्त सिर जो आहार पाणी वस्त्रादि मिल जावे, उसे ग्रहण कर धर्मार्थ शरीर का निर्वाह करे सदा आत्मानन्द में तल्लीन वने रहते हैं.

ऐसी तरह प्रवृत्ति करते जब मन पर पूरा कबू पहाँच गया, तब निश्चय हो-गया कि-अव में साधु वृत्ति - मुनि धर्म का सुख से निर्वाह कर पार पहाँचा सकूंगा ऐसा निश्चय होते प्रथम साधु धर्म को अजमाने इग्यारामी "समण भूए" प्रतिमा में-साधु तो नहीं परन्तु साधु जैसे (नकली साधु) बनते हैं.

आर्या-गृहतो भुनिवत् मित्वा । गुरूप कण्ठ व्रतानि परिग्रह्या ॥

भैक्ष्याशन स्तपस्य । नुत्कृष्ट श्रेल खण्ड घरः ॥११॥

अर्थात्-समण भूत बनने के लिये श्रावक गृह लिंग (गृहस्थका रूप दर्शक बख का) त्याग कर, चोल पट्ट पहन ते हैं, पछोवडी चदर ओडते हैं, मुखपर मुहपाति बन्धते हैं, उवाडी दन्डी का रजुहरण डाबी बगल में दवाते हैं, काष्ठपाव-झोली में स्थापन कर इर्या समिती पूर्वक स्वज्ञाती के घर में भिक्षार्थ जाते हैं. ४२ दोषों रहित शुद्ध-आहार ग्रहण कर उपाश्रय में आकर ममत्व-मूर्च्छा रहित फक्त धर्म वृद्धि अर्थ शरीर को सशक्त ठिका कर रखने धिल में सर्प प्रवेश करे त्यों स्वाद नहीं लेते भोगव ते हैं. इच्छा होतो ग्रामानुग्राम विहार करते हैं, क्षुधा तृपा-शीत-ताप-ताडन-मारन आदि सब परिसर्हों को सम भाव सहन करते हैं. शिरके दाडी मूजों के वालों का लोच करते हैं. यों आत्मा को निडर बनाते हैं. फक्त यह साधु नहीं है, ऐसी पहचान अन्य को होने के वास्ते शिरपर शिखा (चौटी) रखते हैं, इनको कोई साधु जान नयस्कार करे तो आप खुल्ला कह देते हैं कि में साधु नहीं हूं-में तो समण भूत प्राति माका वाहक श्रावक हूं. इस प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं.

श्रावक उपरोक्त ११ गुण श्रेणी की वृद्धि के कर्म से, आत्म शक्तिको अजमा ते ज्यों वैराग्य की वृद्धि और आत्म की शक्ति प्रबल होती जाती है त्यों त्यों बडते हुवे साधु भूत बन जाते हैं.

इन इग्यारे प्रतिमा में कहे हुवे स्थान के किसी भी मध्य के स्थान का नीचे के स्थान में रहा श्रावक आराधन करे तो कुछ हरकत नहीं. परन्तु ऊपर चडे हुवे श्रावक तो नीचे के स्थान के गुणों में पूक्त पणें काय रहते हैं. किसी भी गुण की दुन्यता कदापि नहीं करते हैं.

इन एकादश श्रावक की पडिमा में श्रावक के इग्यारे व्रतों को स्पर्शने का वरणन का समावेश हो गया है. और वारवा जो आतित्य सम विभाग व्रत है, अर्थात् तिथी (दिन) के नियम विन जो आचिन्त्य भिक्षार्थ साधु गृहस्थ के घर में प्रवेश कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख प्राप्त हुवे आहार का हिस्सा करना. अर्थात्-भोजन करती वक्त हमेशा विचार करे कि जो इस वक्त कोई साधु आजाय तो इस भोजन में का इतना हिस्सा उन के पाव में डाल कर्तार्थ

वनू! और उसवक्त साधु आवेतो उलट भावसे दान देवे, ऐसे दानार्थि श्रावकको इस व्रत के आराधन निमित्त ५ अतिचार वर्जने चाहीये:—“सचित्त निक्षेपा-पिधान पर-व्यपदेश मात्सर्या कालातिक्रमा:—अर्थात्-जो वस्तु फ्रासुक-निर्दोष-साधु को देने जैसी होवे उसे सचित्त वस्तुपर रखे, २ सचित्त वस्तु कर ढके, ३ आप देने योग्य हो दूसरे पास दान दिरावे, ४ दान दिये पहिले या बाद मत्सर भाव धारण करे, और ५ काल अतिक्रमे-उल्लंघे तो इस व्रत में दोष लगे. ऐसा जान सुपात्र दानार्थि इन पांचों कामों को वर्जते हैं.

यह वारवा व्रत सर्व स्थानों में जीवों के आदरनीय हैं. इस लिये प्रथम प्रति-मासे लगाकर इग्यारवी व्रतिमा के धारक भी अतिथी सप्त विभाग व्रत का अवसरसे आराधना करते हैं.

इन सिवाय और पांचवे गुणस्थान के लक्षणों का संक्षेपित अर्थ तो मूलपर से ही समझ दें आवे जैसा है, विशेषार्थ जानने के लिये जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों को देखीये.

छठे - प्रमत्त संयति गुणस्थान के लक्षण.

पांच महाव्रत—२५ भावना युक्त.

१ “ सव्वं पाणाइ वाया ओ वेरमणं”—अर्थात्—सर्व-सूक्ष्म-वादर, तप्त-स्थावर जीवों की हिंसा से त्रिकरण त्रिजोग से निवृत्ते-त्याग. इस व्रत की रक्षा के लिये ५ भावना:—“वाद्धानो गुप्ती र्यादान निक्षेपण समित्या लोकिंत पान भोजनानि पञ्च” अर्थात्—१-२ मनको और वचन को पापके कामों से गोपे (छिपा) कर रखे. ३-५ चलती वक्त उपकरण शरीर को धरते उठाते और आहार आदि भोगवतें यत्र सहित प्रवृत्तने से अहिंसा व्रत शुद्ध पलताहै.

(२) “ सव्वं मुसा वायाओ वेरमणं ” अर्थात्—किसी को अप्रिय कारी, और मृपा—झूठा वचन बोलने से त्रिकरण त्रियोगसे निवृत्ते. इस व्रत के रक्षणार्थ पांच भावना:—“क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य-नुवीचि भापणं पंच” अर्थात्—१-४ क्रोध का-लोभ का-भयका-हास्यका उदय होवे तत्र बोलना नहीं-मौन धारण करना. और ५ बोलते पहिले वचन का फल विचारना. यों पांचों यत्रा युक्त प्रवृत्तने से सप्त व्रत शुद्ध पलताहै.

(३) “ सव्वं अदिन्न दाणाओ वेरमणं ” अर्थात्—मालक के दिये विना या म-

न बिना छुपा के लेना जिसे चोरी कहते हैं, उस से निवृत्ते. इस व्रत के रक्षणार्थ ५ भावनाः—“शून्यगार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्माऽविसंवादाः पंच.” अर्थात्—१. सूने घर में मालक की रजा से रहे, २. पाहिले रहते को निकाल कर न रहे, ३. कोई मना करे वहां न रहे, ४. आहार आदि शुद्ध ग्रहण करे, और ५. धर्मात्मा से तो क्या परन्तु किसी के साथ भी विसंवाद (झूठ-झगडा) नहीं करे. यों प्रवृत्तने से दत्त व्रत शुद्ध फलता है.

४ “सर्वं मेहुणा ओ. वेरमणं” देवता मनुष्य और तिर्यच की स्त्रीके साथ या नपुंसकके साथ मैथुन करैने से निवृत्ते. इस व्रतके रक्षणार्थ ५ भावनाः—“स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहराङ्ग निरीक्षण पूर्वरत्नानुस्मरण वृष्पेष्टरस स्वशरीर संस्कार त्यागापंच” अर्थात्— १. विकार उत्पन्न होवे ऐसी कथा सुणे नहीं, २. गुप्त अंगोपांग निरखे नहीं, ३. पहिले की हुइ क्रिडाको याद नहीं करे, ४. कामो तेजक आहार करे नहीं. और ५. सिणगार सजे नहीं. यों रहने से ब्रह्मचर्यव्रत शुद्ध पलता है.

५ “सर्व परिग्रहाओ वेरमणं”—अर्थात्—सजीव निर्जीव किसीभी तरह का परिग्रह (द्रव्य) रक्खे नहीं, इसके रक्षणार्थ ५ भावना “मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्ज्जनानि पंच” अर्थात्—मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्पर्श पर राग करे नहीं. और खराव पर द्वेष करे नहीं. तोही निष्परिग्रह व्रत शुद्ध पलता है.

पांच समिति - तीन गुप्ति.

“इर्या भाषैपणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः”—अर्थात्—१. इर्यास मिति सो (१) द्रव्य से—३॥ हाथ आगे की जमीन देखकर चले, (२) क्षेत्र से—रस्ता छोड चले नहीं, (३) कालसे-दिनको प्रकाशिक स्थान में आँखो से देखकर, अप्रकाशिक स्थान में और रात को पूंज कर चले, (४) भाव से—पांचो इन्द्रिय की विषय का, और किसी भी बात का चिन्तवन रस्ते चलता करे नहीं.

२ भापास मितिसो—(१) द्रव्य से दुःख और राग द्वेष उत्पन्न होवे ऐसा वचन बोले नहीं. (२) क्षेत्रसे-रस्ते चलता विशेष वार्तालाप करे नहीं, (३) काल से-पहर रत्न गये वाद जोर से बोले नहीं, और (४) भाव से—बिना विचारा शब्द नहीं उच्चारें.

३ एपणा समितिसो—(१) द्रव्य से फ्रासुक निर्दोष आहार गृहण करे, (२) क्षेत्रसे-दो कोश से आगे आहार लेजाय नहीं, (३) कालसे-पाहिले पहरका लाया आ-

द्वार चौथे पहर में भोगवे नहीं. और, (४) भावसे-अच्छे बुरे आहार वस्त्र मकान पर रागद्वेष नहीं करे.

४ आदान-निक्षेपना सामिति सो-उपकरणो-(१)-द्रव्य से यत्ना से गृहण करे और रखे, (२) क्षेत्र से-ग्रहस्थ के घर रखकर अन्य ग्राम जाय नहीं, (३) कालसे दोनों वक्त प्राति लेखना करे, और (४) भाव से-ममत्व मूर्च्छा रहित उपयोग में लेवे.

५ परिटावणिया सामिति सो-लघुनीत वडीनीत अयोग्य आहार उपड्डी आदि-(१) द्रव्य-यत्रसे परिटावे (ढाले) (२) क्षेत्र से-ग्रहस्थ निन्दा करे ऐसे स्थान परिटावे नहीं, (३) कालसे-दिन को देखकर रात को दिने देखी भूमीकासे परिटावे, और (४) भाव से शास्त्रोक्त विधि से परिटावे.

“सम्यग्योग निग्र हो गुप्तिः”—अर्थात्—मन को वचन को और काया को संरम्भ सम्भारम्भ और आरम्भ से सम्यक प्रकार से रोक रखना—कु कर्मोंमें प्रवृत्ता ना नहीं सो तीनों गुप्ति हैं,

पांच आचार.

१ ज्ञाना चार सो-ज्ञान को-(१) अकालकी वक्त गृहण नहीं करे, (२) अविनय नहीं करे, (३) बहुत मान पूर्वक गृहण करे, (४) यथा विधि ग्रहण करे, (५) ज्ञान दाता का उपकार न छिपावे. (६) अशुद्ध उच्चारन न करे. (७) विपरीत अर्थ नहीं करे, और (८) पाठ और अर्थ को प्रमाण भूत जाणें.

२ दर्शनाचारः—(१) जिन वचनों में शंका नहीं लावे, (२) अन्य मत की वांच्छा नहीं करे, (३) करणीका फलका वैम नहीं लावे, (४) मूढ समान धर्माधर्मका अज्ञान न होवे, (५) स्वधर्मियों की भक्ति करे, (६) धर्म से डिगे को स्थिर करे, (७) चारों संघकी वत्सलता करे, और (८) जैन धर्म की उन्नति करे.

३ चारित्रा चारसो, सामिति ३ गुप्ति युक्त सदा प्रवृत्ते.

४ तपाचारसो - १२ प्रकार का विशुद्ध तप करे.

५ विर्याचार सो - धर्मार्थ आप उद्यम करे, दुसरे पासकरावे.

सत्तर प्रकारका-संयम.

पुट्वी दग अगाणि मरुय । वणसइ खिति चउ पणिन्दि अजीव ॥
पहुण्पेहा पमज्जणा । परिठवणा मणो वय काय संयमे ॥ १ ॥

न बिना छुपा के लेना जिसे चोरी कहते हैं, उस से निवृत्ते. इस व्रत के रक्षणार्थ ५ भावनाः—“शून्यगार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्म्माऽविसंवादाः पंच.” अर्थात्—१. सुने घर में मालक की रजा से रहे, २. पहिले रहते को निका ल कर न रहे, ३. कोई मना करे वहां न रहे, ४. आहार आदि शुद्ध ग्रहण करे, और ५. धर्मात्मा से तो क्या परन्तु किसी के साथ भी विसंवाद (झूठ-झगडा) नहीं करे. यों प्रवृत्तने से दत्त व्रत शुद्ध फलता है.

४ “सच्चं मेहुणा ओ. वेरमणं” देवता मनुष्य और तिर्यच की स्त्रीके साथ या नपुंसकके साथ मैथुन कर्मे से निवृत्ते. इस व्रतके रक्षणार्थ ५ भावनाः—“स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहराङ्ग निरीक्षण पूर्वरत्नानुस्मरण वृष्पेष्टरस स्वशरीर संस्कार त्यागा-पंच” अर्थात्— १. विकार उत्पन्न होवे ऐसी कथा सुणे नहीं, २. गुप्त अंगोपांग निरखे नहीं, ३. पहिले की हुइ क्रिडाको याद नहीं करे, ४. कामो तेजक आहार करे नहीं. और ५. सिणगार सजे नहीं. यों रहने से ब्रह्मचर्यव्रत शुद्ध पलता है.

५ “सच्च परिग्गहाओ वेरमणं”—अर्थात्—सजीव निर्जीव किसीभी तरह का परिग्रह (द्रव्य) रक्खे नहीं, इसके रक्षणार्थ ५ भावना “मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्ज्जनानि पंच” अर्थात्—मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्पर्श पर राग करे नहीं. और खराब पर द्वेष करे नहीं. तोही निष्परिग्रह व्रत शुद्ध पलता है.

पांच समिति - तीन गुप्ति.

“इय्या भाषैपणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः”—अर्थात्—१. इय्यास मिति सो (१) द्रव्य से—३॥ हाथ आगे की जमीन देखकर चले, (२) क्षेत्र से—रस्ता छोड चले नहीं, (३) कालसे-दिनको प्रकाशिक स्थान में आँखो से देखकर, अप्रकाशिक स्थान में और रात को पूज कर चले, (४) भाव से—पांचो इन्द्रिय की विषय का और कि-सी भी बात का चिन्तवन रस्ते चलता करे नहीं.

२ भाषास मितिसो—(१) द्रव्य से दुःख और राग द्वेष उत्पन्न होवे ऐसा वचन बोले नहीं. (२) क्षेत्रसे-रस्ते चलता विशेष वार्तालाप करे नहीं, (३) काल से-पहर रात्रि गये बाद जोर से बोले नहीं, और (४) भाव से—बिना विचारा शब्द नहीं उच्चारें.

३ एषणा समितिसो—(१) द्रव्य से फामुक निर्दोष आहार गृहण करे, (२) क्षेत्रसे-दो कोश से आगे आहार लेजाय नहीं, (३) कालसे-पहिले पहरका लाया आ-

न्य को पदाव धर्मोपदेश देवेसो. ११ ध्यान सो-चित्त वृत्ति का निगृह कर किसीभी शुद्ध विचार में रमन कराना सो, और १२ काउत्सर्ग-काया को एक स्थान कर स्थिर रहे. तथा इस तपका दुसरा 'व्युत्सर्ग' भी नाम है सो बाह्य अभ्यान्तर परि-गृह का त्याग करे.

सातवे अप्रमत्त गुणस्थान के लक्षण.

पांच - प्रमाद.

आर्या-मद विषय कषाय । निन्दा विकहा पंचम भणीया ॥

ए ए पंच पम्माया । जीवा पडन्ति संसारे ॥१॥

अर्थात्—१ मद, २ विषय, ३ कषाय ४ निन्दा और ५ विक्रया इन पांचों प्रमादों के वश में पडने से जीवों संसारे में पडते हैं.

१. मद ८ प्रकार से होता है:—(१) जाति-माताके पक्षका, (२) कुल पिता के पक्षका, (३) बल-पराक्रम (ताकद) का, (४) रूव-शरीर के तेज दमक पने का, (५) तव-तपश्चर्याका, (६) सुय-सूत्र-विद्या का, (७) लाभ-द्रव्यादि की प्राप्ति का, और (८) इस्सरी-इश्वरी-परिवारादि की मालकी का. इन आठों आभि मान कों जीते.

२ विषय २३ के विकार २४० होते हैं:—(१) श्रोतेन्द्रिय की (१) जीव शब्द, (२) अजीव शब्द, और, (३) मिश्र शब्द, यह तीनों विषय. इन को शुभ अ-शुभ से दुगने करने से ६ होते हैं, और इन ६को राग द्वेष से दुगने करने से श्रोतेन्द्रिय के १२ विकार होते हैं. (२) चक्षुरेन्द्रिय की-(१) कृष्ण, (२) हरित, (३) रक्त (४) पित और (५) शुक्ल, यह पांच रङ्ग रूप पांच विकार होते हैं. इनको सचित्त अचित्त मिश्र इन तीनों से ती गुणे करने से १५ होते हैं, इन १५ को शुभ अशुभ से दुगुणे करनेसे ३० होते हैं. और इन ३० को राग द्वेष से दुगने करने से चक्षु इन्द्रियके ६० विकार होते हैं, (३) घणेन्द्रिय की-(१) सुर्भागन्ध, और (२) दुर्भागन्ध, यह दो विषय. इनको सचित्त अचित्त और मिश्र इन तीनों से तिगुण करने से ६ होते हैं. और इन ६ को राग द्वेष से दुगुणे करने से घणेन्द्रिय के १२ विकार + होते हैं.

+ घणेन्द्रिय के १२ विकार को शुभ अशुभ से दुगुणे कर २४ भी कहते हैं.

अर्थात्-१९-मही-पाणी-अग्नि-हवा-वनस्पति-वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन ९ प्रकार के प्राणीयों कि-किंचित मात्र ही घात होना तो दूर रहा, परन्तु दुःख उपजे ऐसा काम करे नहीं करावे नहीं और करते होवे उन्हे अच्छा भी नहीं जाने. १०. अजीव काय संयम सो वस्त्र पात्र आदि निर्जीव वस्तु भी जितने काल तक चले वहां तक चलावे-फाड़े तोड़े नहीं ११ प्रेक्षनासो-सब वस्तु ओंको देख कर उपयोग में (काम में) लेवे. १२ प्रमार्जना सो-योग्यस्थान वस्त्र पात्र पूंज कर वा परे. १३ उपेक्षा सो-हितोपदेश से धर्मोन्नति करे, सर्व कार्य उपयोग पूर्वक करे. १४ 'परिठावणा सो' अयोग्य वस्तु को यत्ना से परिठावे. १५-१७ मन वाणी और शरीर को अधर्म मार्ग से निवार धर्म मार्ग में प्रवृत्तोवे सो संयम.

“वारह प्रकार का तप”

अनशनाव मौदय्यं वृत्तिपरि सङ्ख्यान रसपरित्याग ॥

विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यं तपः ॥

प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् ॥

अर्थात्-१. अनशन तपसो-दो घडी से लगाकर जावज्जीव पर्यन्त आहार का त्याग करे. २ उनौदरी तपसो-भूख होवे जिससे कम आहार करे, तथा वस्त्र पात्र कम रखे. ३ वृत्ति परिसंख्या तपसो-मिले उसीपर निर्वाह चलावे, इस तपका दुसरा नाम भिख्या चारी भी है सो-निर्वद्य भिक्षा वृत्ति से आहार आदि गृहण करे. ४ रसपरित्याग-दूध दही घी तेल मीठा खारा इन छेओमेंसे एक दोका या सबी का त्याग करे. ५ काया क्लेशसो. निर्जरा के लिये जान कर शक्ति ताप आदि सहन करे, लोच करे, विहार करे वगैरा. ६ प्रति सलीनता सो-इन्द्रियों कपायों जोगों का निग्रह करे. इसी तप का दुसरा नाम 'विविक्त शय्यासन' हैसो-स्त्री पशुनपुंसक रहते होवें उस स्थान में रहे नहीं, यह ६ बाह्य (प्रगट) तप हुवें. ७ प्रायश्चित्त लगे पाप को अलग कर ने तप आदि करे. ८ विनय सो-(१) ज्ञान दर्शन चारित्र-को आदर भाव से गृहण करे सो मुख्य विनय. और ज्ञानादि के आराधक आचार्यादि का सत्कार सन्मान वंदन नमन करे सो चार्कि विनय. ९ वैया वृत्य सो-(१) पाद पृष्ठादि दावना सो काया चेष्टा जनक वैयावच्च, और (२) वस्त्र पात्र आहार आदि इच्छित वस्तु देना सो परवस्तु जनक वैयावच्च, १९ सङ्ख्यानसो-सूत्रादि आप पढे अ

न्य को पढाव धर्मोपदेश देवेसो. ११. ध्यान सो-चित्त वृत्ति का निगृह कर किसीभी शुद्ध विचार में रमन कराना सो, और १२ काउत्सर्ग-काया को एक स्थान कर स्थिर रहे. तथा इस तपका दुसरा 'व्युत्सर्ग' भी नाम है सो बाह्य अभ्यान्तर परि-ग्रह का त्याग करे.

सातवे अप्रमत्त गुणस्थान के लक्षण.

पांच - प्रमाद.

आर्या-मद विषय कषाय । निन्दा विकहा पंचम भणीया ॥

ए ए पंच पम्माया । जीवा पडन्ति संसारे ॥१॥

अर्थात्—१ मद, २ विषय, ३ कषाय ४ निन्दा और ५ विकथा इन पांचों प्रमादों के वश में पडने से जीवों संसारे में पडते हैं.

१. मद ८ प्रकार से होता है;—(१) जाति-माताके पक्षका, (२) कुल पिता के पक्षका, (३) बल-पराक्रम (ताकद) का, (४) रूब-शरीर के तेज दमक पने का, (५) तव-तपश्चर्याका, (६) सुय-सूत्र-विद्या का, (७) लाभ-द्रव्यादि की प्राप्ति का, और (८) इस्सरी-इश्वरी-परिवारादि की मालकी का. इन आठों आभि मान को जीते.

२ विषय २३ के विकार २४० होते हैं;—(१) श्रोतेन्द्रिय की (१) जीव शब्द, (२) अजीव शब्द, और, (३) मिश्र शब्द, यह तीनों विषय. इन को शुभ अ-शुभ से दुगने करने से ६ होते हैं, और इन ६को राग द्वेष से दुगने करने से श्रोतेन्द्रि-के १२ विकार होते हैं. (२) चक्षुरेन्द्रिय की—(१) कृष्ण, (२) हरित, (३) रक्त (४) पित और (५) शुक्ल, यह पांच रङ्ग रूप पांच विकार होते हैं. इनको सचित्त अचित्त मिश्र इन तीनों से ती गुणे करने से १५ होते हैं, इन १५ को शुभ अशुभ से दुगुणे करनेसे ३० होते हैं. और इन ३० को राग द्वेष से दुगने करने से चक्षु इन्द्रियके ६० विकार होते हैं; (३) घणेन्द्रिय की—(१) सुर्भीगन्ध, और (२) दुर्भीगन्ध, यह दो विषय. इनको सचित्त अचित्त और मिश्र इन तीनों से तिगुण करने से ६ होते हैं. और इन ६ को राग द्वेष से दुगुणे करने से घणेन्द्रिय के १२ विकार + होते हैं.

+ घणेन्द्रिय के १२ विकार को शुभ अशुभ से दुगुणे कर २४ मि कहते हैं.

अर्थात्-१९-मन्त्री-पाणी-अग्नि-हवा-वनस्पति-वेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन ९ प्रकार के प्राणियों कि-किंचित मात्र ही घात होना तो दूर रहा, परन्तु दुःख उपजे ऐसा काम करे नहीं करावे नहीं और करते होवे उन्हें अच्छा भी न हीं जाने. १०. अजीव काय संयम सो वस्त्र पात्र आदि निर्जीव वस्तु भी जितने काल तक चले वहां तक चलावे-फाड़े तोड़े नहीं. ११ प्रेक्षनासो-सब वस्तु आँको देख कर उपयोग में (काम में) लेवे. १२ प्रमार्जना सो-योग्यस्थान वस्त्र पात्र पूंज कर वा परे. १३ उपेक्षा सो-हितोपदेश से धर्मोन्नति करे, सर्व कार्य उपयोग पूर्वक करे. १४ 'परिठावणा सो' अयोग्य वस्तु को यत्ना से परिठावे. १५-१७ मन वाणी और शरीर को अधर्म मार्ग से निवार धर्म मार्ग में प्रवृत्तवे सो संयम.

“वारह प्राकार का तप ”

अनशनाव मौदर्यं वृत्तिपरि सङ्ग्यान रसपरित्याग ॥

विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यं तपः ॥

प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् ॥

अर्थात्-१. अनशन तपसो-दो घडी से लगाकर जावज्जीव पर्यन्त आहार का त्याग करे. २ उनौदरी तपसो-भूख होवे जिससे कम आहार करे, तथा वस्त्र पात्र कम रखे. ३ वृत्ति परिसंख्या तपसो-मिले उसीपर निर्वाह चलावे, इस तपका दुसरा नाम भिख्या चारी भी है सो-निर्विघ्न भिक्षा वृत्ति से आहार आदि गृहण करे. ४ रसपरित्याग-दूध दही घी तेल मीठा खारा इन छेओमेंसे एक दोका या सबी का त्याग करे. ५ काया क्लेशसो. निर्जरा के लिये जान कर शक्ति ताप आदि सहन करे, लोच करे, विहार करे बगेरा. ६ प्रति सलीनता सो-इन्द्रियों कपायों जोगों का निग्रह करे. इसी तप का दुसरा नाम 'विविक्त शय्यासन' हैसो-स्त्री पशु नपुंसक रहते होवें उस स्थान में रहे नहीं, यह ६ बाह्य (प्रगट) तप हुवे. ७ प्रायश्चित्त लगे पाप को अलग कर नै तप आदि करे. ८ विनय सो-(१) ज्ञान दर्शन चारित्र-को आदर भाव से गृहण करे सो मुख्य विनय. और ज्ञानादि के आराधक आचार्यादि का सत्कार सन्मान वंदन नमन करे सो चार्कि विनय. ९ वैया वृत्य सो-(१) पाद पृष्ठादि दावना सो काया चेष्टा जनक वैयावच्च, और (२) वस्त्र पात्र आहार आदि इच्छित वस्तु देना सो परवस्तु जनक वैयावच्च, १० सज्जायसो-सूत्रादि आप पढे अ-

आदि सब कालाधीन है, प्रत्यक्ष देखीये! योग्य काल (वय) को प्राप्त होते स्त्री ऋतु प्राप्त होती है, उसे योग्य वय के पुरुष के संयोग सेही गर्व रहता है, और नियमित काल पूर्ण हुवे ही पूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति होती है. वो लडका योग्य काल जाते ही बोलता चलता खाता पढता द्रव्योत्पत्ति कुटुम्बोत्पत्ति कर वृद्ध हो मरजाता है. ऐसा काल का सम्राज ब्रह्म स्थावर सर्व प्राणीयों पर और जडोंपर अखण्ड प्रवृत्तता है.

२ स्वभाव वादी—कहता हैकि—जगतोत्पत्ति आदि सर्व काम स्वभावार्थीन है, काल से कुछ भी नहीं होता है. जो होता होता योग्य काल संयोग हुवेही बन्ध्या के पुत्र क्यों नहीं होता है? स्त्रीके दाढी मूछ क्यों नहीं आती हैं? इत्यादिसे प्रत्यक्ष जाना जाता है कि वो उनका स्वभाव नहीं है. हँसमें शरलता, बुगले में बक्रता, कोकीलाका मधुर स्वर, कागका कटुक स्वर, सर्प के मुख मे जहर मणी में अमृत, पृथ्वी-कठीण, पाणी प्रवाही, अग्नि उष्ण, वायु चलन, इत्यादि सर्व श्रेष्ठी के पदार्थों स्वभाव सेही प्रवृत्त रहे प्रत्यक्ष दिखते हैं!

३ नियत (होनार) वादी—कहता हैकि—जगत का सब कार्य होनार मुझव ही होता है, जो काल और स्वभाव से होता होतो-अम्ब वृक्ष का काल पके स्वभाव से मोर (फूल) तो बहुत आते हैं, परातु फल तो होनहार जितने ही लगेंगे! देखीये! नियत कैसा प्रबल हैकि-रावण को भविष्यण ने मन्दोदरी ने बहूत ही समझाया, परन्तु होनहार के सबब से किसी काभी नहीं माना, और मारा गया! इत्यादि अनेक दाखलेसे जाना जाता हैकि-सब होनहार मुझवही होता है.

४ कर्म वादी—कहते हैकि—जगत् के सब कामों कृत कर्मानुसारही होते हैं. जो काल स्वभाव और नियत प्रमाणें होते होवेंतो- काल स्वभाव नियत एकसा मिले पुत्रोत्पत्ति होती है, फिर वो अच्छा बुरा, सुखी दुःखी तो कर्मों प्रमाणे ही होता है. प्रत्यक्ष ही देखीये-घनाढ्य, दरिद्री मूर्ख पाण्डित इत्यादि विचित्र ता पशु मनुष्य और देवों मे भी देखी जाती है सो सब कर्मों जनित ही है!

५ उद्यमवादी—कहता हैकि—जगत् के सब कार्यों उद्यम प्रयास कियेसेही निपजते हैं. जो काल स्वभाव नियत और कर्मों से होताहो तो-तोता अश्व आदि एकही कालादि प्रमाणें उत्पन्न हो उद्यम करने से गायन नृत्य आदि अनेक कला में प्रवीन हो बडे २ इन्द्र नरेन्द्रों के मन हरण करते हैं, और प्रत्यक्ष ही दिखता हैकि- आहार वस्त्र भूषण मकान आदि कुल उपयोग में आते हुवे पदार्थों विना उद्यम के नहीं ही

(४) रसेन्द्रियके १ कटु, २ मधु, ३ क्षारा, ४ तीखा और ५ कपायला, यह ५ विषय. इन को सचित्त अचित्त और मित्रसे तीगुने करनेसे १५ होते हैं. इन १५ को शुभ अशुभसे दुगुने करनेसे ३० होते हैं. और ३० को राग द्वेषसे दुगुने करनेसे रसेन्द्रियके ६० विकार होते हैं.

(५) स्पर्शेन्द्रिय १ गुरु, २ लहू, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ रुक्ष, ६ चिकित्त, ७ सुकुमाल, ८ खर दर. यह ८ विषय. इन ८ को सचित्त, अचित्त और मिश्र से तीगुने करने से २४ होते हैं. इन २४ को शुभ अशुभ से दुगुने करने से ४८ होते हैं, और इव ४८ को राग द्वेष से दुगुने करने से स्पर्श इन्द्रिय की १६ विकार होते हैं. यों पांचों इन्द्रियों के ३३ विषय और २४० विकारों का निग्रह करे.

३ कपाय प्रमादसो १ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ, इन चारों कपायों को बहु ही पतली संज्वल नमात्र उपशान्त रक्खे.

४ निन्दा के दो अर्थ होते हैं:—(१) जो दर्शनावरणीय कर्मों दय कर आत्मा के धेतना लक्षण गुण हैं उस पर आवरण आकर प्रवश्य-मृत्यु तुल्य वत्ता दे-वे सो निन्दा कही जाती है. इस जेहर को निकालते-कमी करते हैं. और (२) निन्दा सो अवगुणों को अवर्ण वाद बोलकर प्रकट करना उसे निन्दा कहते हैं, आत्म सु-खार्थी जन अपनी आत्मामें दुर्गुण होवे उने जान-प्रकट कर निकालनेका पर्यन्त करते हैं. दुसरा कोइ अपने दुर्गुण बतावे निन्दा करे तो आप सम भाव से श्रवण कर उप-कार सहित स्वीकार अन्तर दृष्टि कर आत्मा में अवलोकन करते हैं; जो वो दुर्गुण आत्मा में पाजावे तो उसे निकाल ने का उपात्र करते हैं. और नहीं पावे तोभी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उस ने तो उस अवगुणी की निन्दा करी है-मेरी नहीं करी, ऐसा विचारते हैं. और अपने मुख से दूसरे की निन्दा कदापि नहीं करते हैं. अर्थात् पाप की निन्दा करते हैं परन्तु पापीकी निन्दा कदापि नहीं करें. क्योंकि शास्त्रों में निन्दा का नाम "मांस शक्यी" कहा है. अर्थात्-दुसरे की निन्दा करनी सो मांस भक्षण करने जैसी अपवित्र है. ऐसा जान मुनि मौन रक्खते हैं.

आगे आठवे गुणस्थान से लगाकर चौदवे गुणस्थान का अर्थ सब मूल में कहे मुझवही समझना चाहिये.

छटा - दृष्टान्त द्वार का खुलासा.

३६३ पाखाण्डियोंका स्वरूप समझाने प्रथम ५ समवाय कहते हैं:—

१. कालवादी-कहता हैकि-इस जगत का कर्ता काल ही है. उत्पात्ति प्रलय

आदि सब कालाधीन है, प्रत्यक्ष देखीये! योग्य काल (वय) को प्राप्त होते स्त्री कहु प्राप्त होती है, उसे योग्य वय के पुरुष के संयोग सेही गर्व रहता है, और नियमित काल पूर्ण हुवे ही पूर्ण पूत्र की प्राप्ति होती है. वो लडका योग्य काल जाते ही बोलता चलता खाता पढता द्रव्योत्पत्ति कुटुम्बोत्पत्ति कर वृद्ध हो मरजाता है. ऐसा काल का सम्राज ब्रह्म स्थावर सर्व प्राणीयों पर और जदोंपर अखण्ड प्रवृत्तता है.

२ स्वभाव वादी—कहता हैकि—जगतोत्पत्ति आदि सर्व काम स्वभावाधीन है, काल से कुछ भी नहीं होता है. जो होता होतो योग्य काल संयोग हुवेही वन्ध्या के पुत्र क्यों नहीं होता है? स्त्रीके दाही मूछ क्यों नहीं आती हैं? इत्यादिसे प्रत्यक्ष जाना जाता है कि वो उनका स्वभाव नहीं है. हँसमें शरलता, दुगले में वक्रता, कोकीलाकृ मधुर स्वर, कागका कटुक स्वर, सर्प के मुख में जहर मणी में अमृत, पृथ्वी-कटीण, पाणी प्रवाही, अग्नि उष्ण, वायु चलन, इत्यादि सर्व श्रेष्ठी के पदार्थों स्वभाव सेही प्रवृत्त रहे प्रत्यक्ष दिखते हैं!

३ नियत (होनार) वादी—कहता हैकि—जगत का सब कार्य होनार मुझव ही होता है, जो काल और स्वभाव से होता होतो-अम्ब दूध का काल पके स्वभाव से मोर (फल) तो बहुत आते हैं, परंतु फल तो होनहार जितने ही लगेंगे! देखीये! नियत कैसा प्रबल हैकि-रावण को भविष्यण ने मन्दोदरी ने बहुत ही समझाया, परन्तु होनहार के सबबसे किसी काभी नहीं माना, और मारा गया! इत्यादि अनेक दाखलेसे जाना जाता हैकि-सब होनहार मुझवही होता है.

४ कर्म वादी—कहते हैकि—जगत के सब कामों कृत कर्मानुसारही होते हैं. जो काल स्वभाव और नियत प्रमाणें होतें होवेंतो- काल स्वभाव नियत एकसा मिले पुत्रोत्पत्ति होती है, फिर वो अच्छा बुरा, सुखी दुःखी तो कर्मों प्रमाणे ही होता है. प्रत्यक्ष ही देखीये-घनाढ्य, दरिद्री मूर्ख पाण्डित इसादि विचित्र ता पशु मनुष्य और देवों में भी देखी जाती है सो सब कर्मों जनित ही है!

५ उद्यमवादी—कहता हैकि—जगत के सब कार्यों उद्यम प्रयास कियेसेही निपजते हैं. जो काल स्वभाव नियत और कर्मों से होताहो तो-तोता अश्व आदि एकही कालादि प्रमाणें उत्पन्न हो उद्यम करने से गायन नृत्य आदि अनेक कला में प्रवीण हो बडे २ इन्द्र नरेन्द्रों के मन हरण करते हैं, और प्रत्यक्ष ही दिखता हैकि- आहार वस्त्र भूषण मकान आदि कुल उपयोग में आते हुवे पदार्थों विना उद्यम के नहीं ही

होते हैं, पत्थरोंमेंसे रत्नों मट्टी में से सुवर्ण आदि निर्माल्य वस्तु में से अमूल्य पदार्थों उद्यम से ही प्राप्त होते हैं, किंवहुना सर्व दुःखों का नाश कर निरामय मोक्ष स्थानके अनन्त सुख का देने वाला एक उद्यम ही है !!

ऐसी तरह से इन पांचों वादीयों का विवाद अनादि से चल रहा है, यह पांचों ही एक एक बात को गृहण कर अपने २ पक्ष को तान ते हैं इसलिये मिथ्या त्वी कहे जाते हैं.

इन पांचों से ३६३ पाखण्ड हुवे सो कहते हैं:-

१. क्रिया वादी के १८० भेद:-ऊपर पांच समवाय कहे, उन्हे स्वात्मा और परात्मा से दुगुने करने से १० भेद हुवे, इन को नित्य और अनित्य से दुगुन कर ने से २० भेद हुवे. इने (१) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (५) आश्रव, (६) संवर, (७) निर्जरा, (८)वन्य, और (९)मोक्ष, इन ९से९ गुने करने से $२० \times ९ = १८०$ हुवे. यह क्रियावादि-आत्मा का और क्रिया का अनादि अनन्त सम्बन्ध मानते हैं, क्रियासे ही गतागति कर पुण्य पाप के फल भोगवना मानते हैं, इन को मिथ्यात्व में लेने का सबव यह हैकि-आत्मा को अनादि अनन्त सक्रिया मानने से मोक्षकी नास्ति होती है. और यह फक्त क्रियासे ही मोक्ष मानते हुवे ज्ञान की उत्थापना करते हैं. +

२. अक्रिया वादिके ८४ भेद:-ऊपर कहे सो पांच समवाय और छद्वा-यद-च्छवादी ÷ यह ६ स्वात्मा से और परमात्मा से दुगुने करने से १२ होते हैं, इनको ऊपरोक्त ९ तत्व में से पुण्य पाप * कमी कर ७ तत्व में ७ गुणे करने से १२×७

+ श्रीभगवति सूत्र के ३० वे समव्र सरण शतक के पहिसे उदेशे में क्रिया वादिको १४ वे गुणस्थान तक वता कर बहूत उत्तम दर्शाया है. सो वो क्रिया करतूत को मान ने वाले जान ने. परन्तु मिथ्यात्वी नहीं हैं.

÷ यह इच्छावादी कहते हैं कि-कार्यो कारण भावका कुछ नियम नहीं है, क्यों कि-जैसे मरे मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होते हैं, और गोबर से भी मेंडक होते हैं. अग्नि से भी अग्नि उत्पन्न होती है, और अरणीकी लकड़ी से भी अग्नी होती हैं, ऐसे अनेक वस्तु होने से कार्य कारण नियम मान ना उचित नहीं है, जो होता है सो सब यद्इच्छा से होता है.

* यह पर लोक की नास्ति कर्त्त होने से पुण्य पाप की नास्ति करते हैं.

=८४ भेद होते हैं. यह कि कहते हैंकि-जगत् के सर्व पदार्थों क्षीण २ में परावृत्त पाते दृष्टि आते हैं. पदार्थों की अस्थिरता के सबव से उनको क्रिया नहीं लगतीहै- न कर्म वन्ध होता है और न उन के फल भुक्तना पडता है.

अज्ञानवादीके ६७ भेदः—(१) सत्त्वं-क्या जीव सत्य है? (२) असत्त्वं क्या असत्य है? (३) सदसत्त्वं क्या सत्यासत्यहै? (४) अवाच्यत्वं-जीवको सत्य कैसे कहना? (५) सदवाच्यत्वं-असत्य कैसे कहना? (६) 'असदवाच्यत्वं'-सत्यासत्यभी कैसे कहना? और (७) सदा सदा वाच्यत्वं-सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं. यह विकल्पों जीव के क्रिये, तैसे नव पदार्थ के करने से $७ \times २ = ६२$ भेद हुवे, और सत्त्व, २ असत्त्व, ३ सदत्त्वं, ४ अवाच्यत्वं यह \times मिलाने से ६७ भेद होते हैं. यह कहते हैंकि-“जानेसो ताने” यह अच्छा, यह बुरा, ऐसे राग द्वेष में ज्ञानी फस मरते हैं. अपन अज्ञानी अच्छे हैं जो किसीकी के झगडे में न फसे, न पाप को जानें, और न पाप लगे.

४ विनयवादी के ३२ भेदः—(१) सूर्य, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (४) ज्ञाति, (५) स्यविर, (६) धर्मी, (७) मावित्र, और (८) गुरु, इन आठोंको—(१) अच्छे जान ना, (२) गुणानुवाद करना, (३) नमस्कार करना, और (४) उचित दान देना. इन ४से चौगुन करने से $८ \times ४ = ३२$ भेद होते हैं, यह कहते हैंकि-सब को अपने से अच्छे जान वंदन नमन आदि विनय करने से ही सब सुख की प्राप्ति होती है.

यों चारों वादीयों के मिलकर ३६३ मत भेद होते हैं.

कृष्ण वासुदेव श्रेणिक महाराज.

सोरठ देश में देवताकी बसाइ हुइ देव लोक भूत द्वारका नगरी में वीन खन्ड राज के भुक्ता ४२०००, हाथी, ४२००० अश्व, ४२००० रथ ४८०००००००, पायदल, श्री समुद्रविजय आदि १० दशराममहाराज, बलभद्रजी प्रमुख ५०० महावीर, पद्ममन प्रमुख ३५००००००० कुमर, संव प्रमुख ६००००० दुर्दन्त, महासेन प्रमुख ३६००० बलवन्त, वीरसेन प्रमुख २१००० वीर, उग्रसेन प्रमुख १६००० सुकट वन्ध राज चाकर, ऋकमणी प्रमुख १६००० राणीयों, अनंगसेना प्रमुख अनेक हजारों गणीका, ५६०००००० जादव का परिवार, और भी महा ऋद्धि सिद्धि के

धारक बावीस वे तीर्थंकर श्रीरिठनेमी भगवन्त के शिष्य 'श्री कृष्ण वासुदेव' नामक महाराजा थे.

और मगधदेश की राजगृही नगरी में १७१००००० ग्राम, के ३३००० हाथी, ३३००० अश्व, ३३००० रथ, ३३०००००० पायदल, चेलानजी प्रमुफ ५०० राणीयों, अभय कुमार प्रमुख २३ कुमर, मगध और अंग दोनों देशका मालक चौबीसवे तीर्थंकर श्री महावीर भगवन्त के शिष्य श्रेणीक नामें महा मंडलीक राजा थे.

इन दोनों महाराजाओंकी सम्यक्त्व की द्रढता विषय शक्रेन्द्र देविन्द्र ने पर संस्था करी, जिसे सहन न करते मिथ्यात्वी देवने व्यभीचारी साधु साध्वी का रूप बनाकर धर्म को ढांग बताने के वास्ते व और भी सब १०८ तरह से परिक्षा करी. परन्तु इन के परिणाम लवलेश भी चालित न हुवे. और इनों ने अपने राजमें जाहिर किया था कि जो दिक्षा ग्रहण करेगा उनका महोत्सव और कुटुम्ब का पालन हम करेंगे. ऐसा सुन कर इन की प्राणप्रिय पटराणीयों और पाटवी पुत्रों वगैरा जो जो दीक्षा लेने तैयार हुवे उनको सहर्ष आज्ञा दे स्वतः बडे आडम्बर से उत्सव कर दीक्षा दिलाइ. अपने राज में अमरी पडह बजवाया, जैन धर्मीयों का दाण-हांसल माफ किया, और हरेक तरह से धर्मोन्नति कर धर्म को विश्व व्यापी-सर्व मान्य बना दिया था. मानो इनोंने अपने तन मन धन जन आदि सर्व स्वय धर्मापण कर विदेही बत - दृष्टाभूत हो राज्य करते थे. इसादि इनों के सद्गुणों समोह से आकर्षा कर खुद परमात्मा श्री तीर्थंकर भगवन्त वरम्बार इन के ग्राम को पावन करते थे, और धर्म वृद्धि ज्ञान वृद्धि संघ वृद्धि कराते थे. ऐसा महान् पुण्य की प्रवलता रूप वृद्धि कर इन दोनों महाराजाओं ने श्री तीर्थंकर गौत्र की उपार्जना की है, अर्थात् यह दोनों पूर्वो पमर्जित पाप का बदला भुक्त ने फक्त एकही खुलक (छोटा-थोडे आयुका) भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव में खुद तीर्थंकर-परमात्म पद को प्राप्त कर सर्व जगत्के परम माननिय परम पूज्यनीय हो महान् धर्मकी वृद्धि कर, आयु अन्त अनन्त अक्षय मोक्षके सुखके भुक्ता बनेंगे!

❀ दश श्रावको का वरणन. ❀

संख्या	श्रावकों के नाम	इनकी स्त्री के नाम	रहने का ग्राम	पास द्रव्य	पास गौसंख्य.
१	आणन्दजी	शिवानन्दा	वाणीया ग्राम	१२ क्रोड	४००००
२	काम देवजी	भद्रा भार्या	चम्पा नगरी	१८ क्रोड	६००००
३	चूलणी प्रिये	सोमा भार्या	वनारसपुर	२४ क्रोड	८००००
४	सूरदेव	धन्ना भार्या	वनारसपुर	१८ क्रोड	६००००
५	चूल शकत	बहुला भार्या	आलंभीया	१८ क्रोड	६००००
६	कुंडको लीया	पुंस्ता भार्या	कपिल पुर	१८ क्रोड	६००००
७	सकडाल पुत्र	अग्नि मित्रा	पोलास पुर	३ क्रोड	१००००
८	महा शकत	रेवंती आदि १३	राज ग्रही	२४ क्रोड	८००००
९	नन्दन प्रिय	अश्वनी भार्या	सावत्थी	१२ क्रोड	४००००
१०	तेतली प्रिय	फाल्गुनि भार्या	सावत्थी	१२ क्रोड	४००००

यह दशोंही श्रावकों चौबीसवे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीजीके शिष्यों थे. इन्होंने पहिली कही हुई श्रावक धर्म में प्रवेश करने की इग्यारेही भूमिका- गुण श्रेणी का अनुक्रम से यथा विधि शुद्ध सम्पूर्ण आराधन किया है. त्रतों की मर्यादा में जितनी अपने पास ऋद्धि थी उस उपरान्त सर्वथा इच्छा का निरुंधन किया है. इन १० हीने कुल २० वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया, जिस में अन्तिम आयुष्य के ५॥ वर्ष पर्यन्त तो घर धन परिवारका त्याग कर, एकान्त धर्म स्थान में रहकर, एक महीने तक एकान्तर उपवास, फिर दो महीने तक बेले २ पारणे, फिर तीन महीने तक तेले २ पारणे, यों चढते २ जावत इग्यारे महीने तक इग्यारे २ उपावास के पा-

रण ने कर श्रावक की इग्यारेही प्रतिमा का अधिकाधिक विद्युद्धी से आराधन किया और आयु का अन्त नजीक आया जान सलेपण युक्त संथारा किया-मरे वहांतक चारों अहार के त्याग कर एकस्थान स्थिर रह धर्म ध्यान में निर्मग्न हुवे, जिस से ज्ञानावरणीय कर्मदल पतले पडने से ऊपर प्रथम स्वर्ग नीचे प्रथम नरक और चारों दिशीयों पांचसो २ योजन तक देखें ऐसा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआहै. शक्रेन्द्र महाराजने इन की परसंस्था करी तब देवताओं इनको डिगोने आये महा विकराल रूप बनाकर महा दुःख दिया, तीव्र भयंकर वेदना उपजाइ, कितनक श्रावकों के पुत्रों का रूप बना कर उनके सन्मुख लाकर मारे, घरका धन हरण किया, वगैरा अनेक परिसह उपजाये, परन्तु यह धर्म से किञ्चित मात्रही चलित नहीं हुवेहै. ऐसी तरह से द्रुढ श्रावक व्रतों की आराधना कर दशोही प्रथम स्वर्ग के अरुण नामे विमाण में चार यल्योपम के आयुष्य वाले देवों हुवे. वहां से चक्कर दशोर्हां महाविदेह क्षेत्रमें उत्तम सुखस्थान में जन्म लेकर संममले करणीकर कर्मखपा मोक्ष पावेंगे.

धन्नावा सारथवाही का दृष्टान्त.

राजग्रही नगरी के प्रभूत धनी धन्नावा सारथ वाही की भद्रा भार्या के नागदेव की मान्यता लिये वाद एक पुत्र हुवा जिसका " देवदत्त " नाम रक्खा. उसे शेठ का विश्वासू पंथक दास शिणगार सजा क्रिडाके लिये बाजार में लेगया, बहुत बच्चों में खेलता छोड आप सोगया. वहां तस्कर कला में कौशल्य " विजय " चोर उसदेवदत्त को निर्वास देख उठलेंगया- उसके भूषण लेकर उसेमरकर अन्धारे कूवेमें डाल आप वृक्षोंकी कच्छा में छिप गया, पीछे दास जागृत हुवा बच्चा नहीं मिलने से रुदन करता शेठ से कहा, शेठने राज में इत्तलादी, राज भटों मृत्युक पुत्र को और चोर को हुंढलाये. शेठ सपरिवार अत्यन्त शोकसे पीडित हो पुत्र का मृत्यु कार्य किया; और चोर को शिरकार ने काष्ठके खोड में केद किया. कितनेक दिन बाद शेठ जी दाण की चोरी कर राजा के गुन्हेगार हुवे., उनको राज भटने जिस खोडे में विजय चोर का पांव फसाया या उसी खोडे के एक छिद्र में शेठ के पग को फसाया भोजनकी वक्त शेठाणी ने पंथक दास के हाथ शेठ के लिये तस्कर शाळा में भोजन पठाया, उसे शेठ भोगवने लगे तब वो चोर बोला की इस भोजन का कुछ हिस्सा मुझे भी दीजिये. परन्तु शेठने उसे अपने प्यारे पुत्र का घातिक जान भोजन नहीं

दिया. कुछ डेर बाद शेट को दिशा मात्र (मल मूत्र) की हाजत हुई, तब चोर से बोले चलो बाहिर में कारण से निवृत्त होआहुं. चोर बोला तुम ने खायासो तुमही जावो. परन्तु दोनों का एकही छोड़े में पाय होने के सबब से एकले शेट जा सके नहीं, नम्र हो बोले कि अब भोजन का हिस्सा तुझे देदुंगा चल बाहिर चल. भोजन के रस के लालच से चोर शेट के साथ बाहिर आया कारण निवेडा, दुसरी वक्त दास भोजन लाया तब उसमें से हिस्सा चोर को भी दिया, यह देख दास ने शेटा पी से कहा, शेटाणी को बहुत बुरा लगा, जब शेट छूट कर घर आये तब शेटाणी के पूछने से शेटने खुलासा किया कि-मैंने कुछ प्रेम भाव से चोर को भोजन न दिया, परन्तु क्या करूं एक खोड में होनेसे कारण से निवृत्त उस के सङ्ग विना न हो सका तब लाचार हो उसे भोजन न देना पडा! यों सुन सब संतोष पाये.

विजय चोर मरकर नरक में गया. धन्ना सार्थ वाही-धर्म घोष ऋषि के पास दिक्षा धारण कर प्रथम देव लोक में गये. आगे महा विदेह क्षेत्र में अवतार ले संयम धारण कर मोक्ष पावेंगे.

गाथा—सिव सुहा साहेणेसु । आहार विहिओरिओ जनवट्टएदोए ॥

तमा धणोव्व विजयं । साहुणं तेण पोसिज्जं॥ ज्ञाता सूत्र अ०२

अर्थात्—राजग्रही नगरी समान-मनुष्य लोक, धन्ना शेट समान साधु, विजय चोर समान-शरीर, भद्रास्त्री समान आचार्य, देव दत्त कुमर समान संयम, पंथक दास समान-सहचारी साधु, राज समान-कर्म, राज भयों समान-कर्म प्रकृति. यों मोक्ष सुख साथ ने साधु शरीर पोषते हैं.

आचार्य धर्म घोष ऋषि जीका दृष्टान्त.

चम्पा नगरी में नागश्री नामक ब्राह्मण की स्त्रीने भूल कर कडुवा तुम्बा का शाख बनाये बाद मालुम पडने से जेटाणीयों से डर छिपाकर रक्ख दिया. उसवक्त धर्मघोष आचार्य के शिष्यवर्य धर्म रुचि नामे साधु मांसोपवासी पारणे निमित्त उस के घर आये, नग श्री साधु को देख खुशी हुई कि-सहजही उकरडी घर आगइ, तुर्त उठ मुनि के पाव में सब शाख डालदिया, मुनि पूर्ण आहारकी प्राप्ति हुई जान तुर्त गुरुजी के पास आकर बताया. बहुत शाख देख गुरुजी को वैम आने से पूछा करते

मुनि ने नाम बता कर कहा कि नाना करते एकही दम सब शाख डाल दिया. गुरु-जीने किंचित शाख जवान पर रक्खा तो हलाहल जेहर सा कटुक लगा, तब हुकुम दिया कि ऐसे आहार से तुम प्राणमुक्त हो जावोगे इसलिये इसे निर्वद्य स्थान परिठा आओ. हुकुम प्रमाणकर कुम्भार के निभाडे में आ परिक्षा निमित्त एक विन्दु डालकर देखा तो तुर्त अनेक कीडीयों उसे खाते ही मरगइ! मुनिने विचारा कि-किंचित आहार से इतनी हिंसा तो सब डालने से तो महा जुलम हो जायगा. और गुरु जी का हुकम तो निर्वद्य स्थान परिठाने का है. इसलिये निर्वद्य स्थान तो मेरा पेट है, कदापि इस से मैं मरभी गयातो कुछ फिकर नहीं. क्योंकि मेने संयम दया निमंतही लिया है, लेखे लगेगा! यों सोच तुर्त खीर सक्कर की माफिक उस शाख को खा गये!! कि तुर्तही अति दारुण व्याधि उत्पन्न हुई, गुरुजी के पास आने अशक्त हो और आयु अन्त समिप्य जान पदोप गमन संथारा कर सर्वार्थ सिद्ध नामें महा विमान में ३३ सागरोपम के आयु वाले उत्कृष्ट सुख के भुक्ता एकावतारी देव हुवे!

आचार्यजी ने धर्म रूची को गये बहुत देर हुई जान चौकस करने दुसरे साधु को भेजे, वो देख आये और अकाल मृत्यु के हाल दर्शाये. सुन कर गुरुजी कोपायमान हुवे और साधुओं को हुकम दिया कि बीच बजार में खडे हो पुकार कर कहो कि-हमारे तवश्वी साधु को नागश्री ब्राम्हणी ने जेहर देकर मारडाले हैं! साधुओंने वैसाही किया. नाग श्रीके कुटुम्ब ने यह बात सुन उसको घरमें से निकल दी. उसके भी शरीर में कुछ रोग प्रगटा और महा निन्दा महा विटम्बना सह कर नरकमें गइ!

मतलब—साधु को किसी के मर्म प्रकाश ने नहीं यह उत्सर्ग मार्ग है, परन्तु अन्य लोक जानेंगे कि साधुओं में लडाइ हूइ जिस से एक साधु को जेहर दे मार डाले-या जेहर खा मरगया-इत्यादि धर्म का कलंक दूर करने धर्म घोषाचार्य ने अपवाद मार्ग का आचीर्ण कर नाग श्री की फजीती कराइ. यों छटे गुणस्थानी उत्सर्ग और अपवाद दोनों मार्ग में यथा अवसर प्रवृत्ति करते हैं.

धन्ना अणगार का दृष्टान्त.

काकन्दी नगरी के धन्ना श्रेष्ठ ने ३२ क्रोड सोनैयें (मोहरों) का द्रव्य और ३२ सुन्दर स्त्रीयोंका त्याग कर दिक्षा ले निरन्तर छट २ (बेले २) रूप और पार ने मे लूखा सुका आहार कि-जिसे भिखारी भी गृहण न करे ऐसा भोगवा. ऐसे दुक्कर

पत से ८ महीने में जिनका शरीर सूककर रक्त मांस रहित फक्त हड्डियों का पिंजरा रह गया. जिनके-पांव-मुके वृक्ष की छाल जैसे, पांव की अङ्गुलीयों-सूकी मूंगकी फली जैसी, पीन्दी-कागले की जंघा जैसी, ढींचण-काग जंघा वनस्पति की गांठ जैसी, कम्मर बुढे बेल के पांव जैसी, पेट चमड़े की सूकी मशक जैसा, पांसलियों-कांच के ढग जैसी अलग २ दिखें, छाती पत्ते के पंखे जैसी, बाहां-अगथीये की फली जैसी, हथेली-ब्रड के सूके पत्ते जैसी, हस्तांगुली मूंगकी सूकी फली जैसी, गरदन-कमण्डल के गरदन जैसी, जिन्हा-पलासके सूके पत्ते जैसी, होट-सूकी इमली जैसे, नाशिका अम्ब की सूकी गुटली जैसी, आंख वीणाके छिद्र जैसी, कान्ण प्याज के पत्ते जैसे, मस्त्रक-सूके तुम्ब फल जैसा. ऐसी तरह सर्व शरीर सूक गयाथा ! तोभी-सज्जाय ध्यान भिक्षा प्रति लेखना आदि साधु की सर्व क्रिया ओंका यथा विधि वक्तोवक्त आराधन-पालन करते थें, तब ही खुद श्री महावीर परमात्मा ने श्रेणिक राजा के सन्मुख १४००० साधुओं में उत्कृष्ट करणी के कर्ता थन्ना! अणगार कोही बताये हैं. ग्रह एक मास का संथारा कर कुल नव महीने की करणी से सर्वार्थ सिद्ध विमान में एकावतारी देव हुवे हैं.

मेघ कुमारका दृष्टान्त.

राजग्रही नगरी के श्रेणिक राजा की धारणी नामक राणी के अङ्ग से उत्पन्न हुवे मेघ कुमार आसुन्दर स्त्रीयों और बहुत ऋद्धि का त्याग कर श्री महावीर था मिके समिष्य दीक्षा ली, सब से छोटे हीने के सबव से अन्तिम विछाना कर सूते, रात्रि के स्वध्याय ध्यान परिठावणीया आदि क्रिया के लिये मुनियों के अवागवनसे और पतले विछोने से जमीन चुबनेसे निद्रा नहीं आइ, तब पीछा घर जानेका विचार कर भगवन्त सन्मुख आकर रजा लेते, शरमागये. तब भगवन्त ने फरमाया कि-अहो मेघ मुनि! इससे पहिले तीसरे भव में तुम वेताड प्रवर्त के नजीक एक हजार हाथणीयों के मालक श्वेतरंगवाले सुमेरु नामें गजराज थे. एकदा उष्ण ऋतु में पाणी पीने को तलाव में प्रवेश करते कचिड में फस गये, तब दुसरा बैरी हाथीने आकर तुम्हारे को दाँतों से बहुत मारा, जिस से सात दिनों में तुम मरकर विद्याचल पर्वत के नजीक पुनः सातसो हथणीयों के मालक लालरंगवाले गजराज हुवे. वहा तुम ने अग्नि के उपद्रव से बचने एक चार कोश भूमी में वण वृक्ष रहित मण्डल बनाया था, जब उ-

एक काल में वन में देव, (अग्नि) लगी तब तुम सपरिवार उस मण्डल में आ खड़े रहे, उसवक्त और भी अनेक वनवासी पशुओं वहां खींचो खींच भरा गये. उसवक्त तुमने खान्ज कुचर ने पांव उठाया, उस पांव की जगह एक सुसलीया आगया, पांव रखते कौमल स्पर्श लगने से नीचे सुसलीये को देख तुमने विचार किया कि-वेचार लायसे वचने मेरे शरण आया और जो मैं पांव रखदूँ तो इसकी तो यहांही लाय हो जाय! यों करुणा भाव लाकर तीन दिन पांव ऊंचा रक्खा, जब अग्नि शान्त पडने से सब जीवों भाग गये तब पांव वादी में अकडा हुवा नीचे रखते तुम गिर पडे, और मरकर दया प्रभावे श्रेणिक राजा के पूत्र हुवे.

सोचीये! तीसरे भद्र में निर्यक महा कष्ट सहा जिसका कुछ भी फल न हुवा और दुसरे भद्र में दया निमित्त थोडा भी कष्ट सहा तो यह ऋद्धि और संयम तक प्राप्त कर सके! तो अब यहां कितनाक कष्ट सहना है! सम भाव से प्राप्त वक्त का लाभ लेवोगे तो आत्माका कल्याण हो जायगा.

ऐसा जिनेंद्र का सद्बोध श्रवण कर भेष मुनि ने फक्त दया निमित्त दोनों आँखों की संभाल करने का आगार रक्खा, बाकी सब शरीर मुनिराजों की सेवा में समर्पण कर-तहामन से खूब विनय वैयावच्च ज्ञान ध्यान तप कर विजय विमान में ३२ सागर के आयुवाले एकावतारी देव हुवे.

प्रसन्न चन्द्र राज ऋषि का दृष्टान्त.

राजग्रही नगरी के श्रेणिक राजा गुणशील वाग में विराजे श्री महावीर भगवन्त के दर्शन करने जाते, रस्ते में-प्रसन्न चन्द्र ऋषि को सूर्य के तापमें अडोल ध्यानारूढ देख आश्चर्य चकित हो भगवन्त को नमस्कार कर पूछा कि-महाराज! दुष्कर ध्यानी मुनि घरकर कहां जायगे? भगवन्ते फरमाया कि-जो अभी मरेतो पहिली नरक में जाय. श्रेणिक-हैं, पहिले नरक! भगवन्त-नहीं दूसरी नरकमें, श्रेणिक-है दुसरी!! भगवन्त-नहीं तीसरी. यों श्रेणिक आश्चर्य चकित हो प्रश्न करता गया, और भगवन्त चौथी पांचवी छठी जावत सातवी नरक में जानेतक का फरमादिया. श्रेणिक ने फिर भी पूछा कि-ऐसे महा मुनि सातवी नरक में जाय? तब भगवन्त ने फरमाया कि-नहीं छठी में यों, फिर भी श्रेणिक आश्चर्य चकित हो पूछता गया और भगवन्त-पांचवी चौथी तीसरी दूसरी पहिली भवन्पाति वाणव्यातर जोतिषी देवलोक त्रीवेक

र अनुत्तर विमान का नाम फरमाते ही देव दुंदभी का नाद सुणाया, तब श्रेणि-पूजा कि-यह दुंदभी क्यों बजी? भगवन्त ने फरमाया कि प्रसन्न चन्द्र ऋषि केवल नी हुवे हैं. यों मुण श्रेणिक बडाही आश्चर्य चकित हो पूजा कि-वडी ताजुव की त है, अत्री सातवी नरक और अपी केवल ज्ञान, इसका सबब क्या? तब भगवन्त फरमाया कि-तुमारे साथ के एक भटने उन मुनि को देखकर कहा कि-यह साधु न निर्दयी है. बेचारे नादान बच्चे पर सब राज भार डाल साधु बन गया, उसे पर-की सता रहे हैं. इतना सुनतेही राज ऋषि कोपित हो परचकी के साथ मनोमय सं-य सुरू किया (उसवक्त तुमारा प्रश्न करना हुआ) अनेक नरों का संहार कर शत्रु मारने चक्र लेने जब शिरपे हाथ डाला (उसवक्त सातवीं नरक के दलिये भेले लिये) तो रुंड मुंड एकटक पाया, उस वक्त चौंक गये, और भान आया कि-मैंने सा- होकर यह क्या जुलुब किया! यों विचार करने लगे (उसवक्त संचित कर्मों के द-ष्टये स्वप्ने लगे) त्यों त्यों ऊंचे चडते गये और शुद्ध ध्यान में एकाग्रता लगने से विघातिक कर्म नष्ट कर केवल ज्ञान पाये! यों मुण श्रेणिक राज बडे खुशी हुवे, और भगवन्त को तथा राज ऋषि को नमस्कार कर स्वस्थान गये.

यों परिणामों की धाराओंके उतर चड पणे श्रेणी में उत्तर चड होती हैं.

हरकेशीवल ऋषिका दृष्टान्त.

पूर्व भव में जाति का और रूप का अभिमान करने से चण्डाल की जाति में लपक हुवे, हरा काला रंग का बलिष्ठ विद्रूप शरीर होने से 'हरकेशी वल' नाम पाये, रूप के अपमान से घबराकर पहाड से पडकर भरती वक्त मुनि के दर्शन होते ही मुनि ने उनको अकाम मरण से बचा कर सकाम मरण मरने का बोध किया, जिसे उन वैराग्य प्राप्त हो दीक्षा धारण करी, और निरन्तर यांस २ तप करने का अभिग्रह धारण कर बनारसी नगरी के बाहिर यज्ञ के मन्दिर में ध्यान धारण कर रहे उन के उग्र तप के प्रभाव से तिटुक (टिक्क) वृक्ष का वासी देव मुनि का भक्त हुआ. उसवक्त बनारसी पुरीके राजाकी भद्रानाथ महा दिव्य रूप की धारक कन्या सहेली-यों के सङ्ग उस यज्ञ के अन्यरे देवालय में क्रीडा करने आइ, और मुनि को विद्रूप देख मुह फिराकर थूक दिया, उसी वक्त यज्ञने उसका मुह बाँका करदिया. पुत्रीका दुःख मुन राजा देवालय में आया तब यज्ञ मुनि के शरीरमें प्रवेश का बोला कि-यह

कन्या मुझे देवोंगे तोही आराम पावेगे मुनिके शापसे राज डरकर मुनिके साथ उस भद्राका पाणी ग्रहण कराया कि-उसीवक्त वो यक्ष-मूनिके शरीरमेंसे निकल गया. तब मूनिके भद्रासे कहा वाइ! साधुसे दूर रहे-छीना नहीं. भद्र बोली-अभी आपने मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे दासी बनाइ, और अब यह क्या फरमाते हो! साधु बोले-में यह न जानताहूं. में तो कन्क कन्ता का त्यागी साधु हूं यों कहते चलपडे. कन्या रुदन कर ने लगी. राजा आदि बहुत से लोकों मुनि के आडे फिर बहूतही समझाए, परन्तु मुनि मेरु की माफिक अडोहो वहां से दूर जा अन्य एकान्त स्थान में ध्यान धरा.

कन्याकी यह दिशा देख राजा खेदित हो पुरोहितजी से पूछा कि अब इस कन्या का क्या करना! लोभी पुरोहित जी बोले कि ऋषि पात्रि ब्रह्म पात्रि हो शक्ति है, भोले राजा ने उस भद्रा को पुरोहित जी को देदी. पुरोहित सहर्ष लग्न करने यज्ञा का आरंभ किया.

उसवक्त मुनि यज्ञस्थान की तरफ पारणा (आहार) लेने पधारे, वहां एक अध्यापक वच्चोंको पढा रहाथा, व बोला कि-रे विकराल रूप और मलीन वस्त्रके धारक भिक्षु! इधर से चलाजा.

यों सुनकर मुनि फिरने लगे. तब वो तिन्दुक यक्ष मुनि के शरीरमें प्रवेश कर कहने लगा कि-में परार्थ किया हुआ विर्वच-निर्दोष भोजन का ग्रहण करने वाला साधु हूं, यहां बहुतसा आहार निपजा देख लेने आया हूं.

ब्राह्मण बोला-वेदों के जानने वाले विप्रों सिवाय यह यज्ञा में निपजा हुआ भोजन दुसरे को कदापि नहीं दिया जाता है,

यक्ष बोला-जैसे कृषी ऊंच नीच दोनों प्रकार के क्षेत्र में बीज डाल कर लाभ प्राप्त करता है. तैसे ही कैसीभी श्रद्धा से मुझे दीजिये.

ब्राह्मण बोला-उत्तम क्षेत्र ब्राह्मणोंकाही है, उन सिवाय दुसरेकोभी नहीं दिया जायगा. क्यों बकवाद करता है. चलाजा.

यक्ष बोला-विषय कपाय युक्त विप्रों का क्षेत्र अलाभ करी है, में ब्रह्मचारी निष्परिग्रही हूं जो मुझे न दोगे तो यज्ञ का फल कैसे प्राप्त करसकोगे?

इतना सुनतेही अध्यापक क्रोध में आ छत्रों को हुकुम दिया कि ब्राह्मणोंके निन्दक अभिमानी इस भिक्षुको मारकर निकाल दो-कि एक दम छत्रों मुनिको मार ने खडे हुवे. उनका कोलाहल सुन भद्रा देख कर बोली-अरे यह क्या जुलम करते

हो! मेरा वमन आहारकी तरह त्याग कर जाने वाले, देविन्द्र नरिन्द्रके पूज्य, इन महा ह्यु भाग को सत्ताकर क्यों दुःखी होते हो, यह कोपेंगे तो सब को जलाकर भस्मकर देंगे, ऐसे भद्रा के वचन को जब उन कुमारों न नहीं माना. तब यक्ष ने उनको जमीन पर पछाड रुद्र वमन करते हुवे मुला दिये! और मुनि के शरीर में से निकल आकाश में खडा तमाशा देखने लगा.

यह अनर्थ निपजा देख यज्ञ कर्ता ब्राम्हणों द्रोड आये, और मुनिको नमस्कार कर कहने लगे. अहो क्षमा समण मुढ बालकों पर इतना कोप करना उचित नहीं हैं. अपराध माफ करो. और इस यज्ञ शाला में से इच्छित आहार ग्रहण कर हमे कृतार्थ करो.

मुनि बोले—मेरे मन में किञ्चित ही क्रोध नहीं है, परन्तु मेरी वेयावच्च के लिये यक्ष ने यह किया दिखता है. फिर मुनि शुद्ध आहार ग्रहण किया वहां देवों ने पंच द्रव्य की वृष्टि करी, देव दुंदभी वजाड, और अहो दान महा दान ऐसा शब्दोचार करते अकाश में नृत्य करने लगे.

आश्चर्य चकित हो ब्राम्हणों आपस में कहने लगे कि--तप का फल तो यह प्रत्यक्ष ही दिखता हैकि-चाण्डाल जाति में उत्पन्न हुवे मुनि देवों से पूजित हो रहे हैं. और यज्ञका फलतो कुछ भी वृष्टि नहीं आता हैं.

तब मुनि बोले कि-अहो ब्राम्हणों ब्राह्म शुद्धि से और हिंसक ज्ञय से किसीभी प्रकार का कल्याण होणे वाला नहीं है. जो आत्म कल्याण चाहते होवो तो धर्मतीर्थ के ब्रम्हचर्य रूप द्रह में स्नान कर, जीव रूप कुंड में तप रूप अग्नि प्रज्वलित कर कर्म रूप इन्धन को जलावो, सर्व जीवों शान्ति रूप मन्त्र का पठन कर पवित्र बनो!

ब्राम्हणों ने यह बोध सहर्ष धारण किया, मुनि बहुत वर्ष संयम पाल बहुत जीवोंका उद्धार कर मोक्ष प्राप्त किया.

सारांश यह हैकि-जीव कुल, कुरूप, बलवन्त, सुख की प्राप्ति के लिये मरण सम्मुख हुवे, ऐसों को अत्युत्तम कुली दिव्य सुन्दराङ्गी राज ऋद्धि आदि सम्पूर्ण जीवित तक के सर्व द्रव्य सुखोंको प्राप्ति बलत्कार (अग्रह) से होते ही, उसका विष्टाकी माफिक त्याग कर निजात्म सुख में रमण किया!! ऐसे निर्विषयी निर्वाछिक होवे सो निवृत्ति करणी जानना.

श्री गौतम गणधर का दृष्टान्त.

गोवरधन ग्राम के गौतम गोत्री वसु भूति विप्र की पृथ्वी नामे स्त्रीने इन्द्र म-
वन का स्वामा देख, सुवर्ण वरण वलिष्ट शरीर धारक पुत्र प्रसवा, जिसका इन्द्रि भू-
ति नाम रक्खा, वो योग्य वय प्राप्त होते चार वेद छे शास्त्र चउदह विद्या आदि
व्यवहारिक विद्या में महा प्रवीन पांचसो छत्रों के मालिक होने से जगत् में जवर प्र-
तिष्ठथा पाये. वो मध्य पापापुरी नगरी के सोमल ब्राम्हण के यज्ञ मण्ड में बहुत स-
न्मान से आकर यज्ञ क्रिया के अग्रभागी कर्ता बने. उसवक्त ऋजु वालका नदी के
कण्ठ पर गोदु आसनस्थ श्री महावीर भगवन्त को केवल ज्ञानी की प्राप्ति हुई जिनके
समवशरण की रचना मध्यपापपुरी के बाहिर देवताओंने रची. वहां क्रोड़ों गम देव
यज्ञशाल ऊपर हो समव शरण में जाने लगे, यह देख इन्द्र भूति वाले कि-देवों भरम
में पड यज्ञ स्थान उल्लंघन कर कहां जाते हैं? तब किसीने कहा कि-ग्राम बाहिर ती-
र्थकर समवसरे हैं, उन के दर्शनार्थ देव जाते हैं. यह सुन अभिमान में उन्मत हो वि-
वाद कर तीर्थकर का परांजय करने पांचसो छत्रों के परिवार से समवशरण में आ-
ते ही जिनेन्द्र की विभूति पेख दिग मुढ बन गये. और विचार ने लगे कि जो मेरा
सन्देह निवारे तोही यह सर्वज्ञ. तब भगवन्त ने फरमाया कि अहो इन्द्र भूति वेद में
तीन दकार हैं. जिसका क्या अर्थ होता है? यह तुम्हारे मन सन्देह है, जिसका अर्थ
दया दान और दम होता है. इतना सुनते ही संवेग प्राप्त हुवा, पांच से छत्रों सहित
दीक्षा धारण कर एक मुहूर्त मात्र में १४ पूर्व के पाठी हुवे. जाव जीव बेले २ पार-
णा का तप धारण किया, चार ज्ञान के धारक हुवे. सदा प्रभूकी समिप्य रहकर अ-
नेक गम प्रश्नोत्तर किये. एक वक्त विचार हुवा कि-मेरे पीछे से दीक्षा लेने वाले अ-
नेक केवली होगये, और मुझे अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त न हुवा, सो करण क्या?
यह भाव जान भगवन्त गौतम + को अपने पास बुलाकर कहने लगेकि-अपन गये
भव में साथ रहे हैं. और आगे भी वरोवर होंगे, छोटे बडे होतेही रहते हैं. परन्तु तु-
म्हारा मेरे पर प्रेम है, यह मोह आभरणही केवल ज्ञान को को रोक रहा है. यों सुण
गौतम खुशी हुवे, और तप संयम से अपनी आत्माको भावते विचरने लगे.

+ नाम तो इनका इन्द्र भूती था, परन्तु गौतम गोत्र होनेके सबब से भगवन्त इनको
'गौतम' नाम से ही बोलतेथे.

भगवन्त महावीर श्वामी अपने आयुष्य का अन्तिम अवसर जान गीतश्वामी को देव समन ब्राम्हण को प्रति बोधने भेजे, और फिर आधी रात्री को भोक्ष पधार गये. देवगमके आवागमन से भगवन्त निर्वाण प्राप्त हुवे यह समाचार गोतम श्वामी को मालुम होतेही मूरछा खाधरती पर पड गये, और सावध हो कहने लगे कि-हे भगवन् ! मुझे अन्तिम अवसर में दूर किया क्या में-आपका पल्ला पकड रोकता कि ज्ञानका हिस्सा मांगता. वगैरे शोक करते २ भान में आ विचारने लगे कि-वो वीतराग सर्वज्ञने जैसा देखा वैसा किया. रे आत्मान् ! तूं रागीद्विषी बन क्यों कर्म बन्ध करता है. वगैरा शुभ ध्यान ध्याते चारों घन घातिक कर्मोंका क्षय कर केवल ज्ञान पाये, और १२ वर्ष बाद मोक्ष पधारे.

सारांश-श्री भगवन्त समान परम विशुद्ध पदार्थपरही धर्म प्रेम भी केवल ज्ञान को आवरण भूत होता है!!

कुंडरिक पुंडरीक का दृष्टान्त.

जम्बु द्वीप की पूर्व महा विदेह की पुष्कलावती विजयकी पुण्डरीकणी राज्य ध्यानी के पद्मनाभ राजा के कुंडरीक कुंवर ने परम सम्वेगी बन दीक्षा धारण कर अत्यन्त दुक्कर तप क्रिया के आचारण से शरीर को कष्ट-शुष्क करडाला. एकदा अप ने छोटे भाइ पुण्डरिक को राज्य मुख भोगवता देख मन ललचाया-संयम से परिणाम पडित हुवे, और गुप्त गुरुजी का संग छोड मेहल के पीछे की आशोक वाडी में आकर बैठे. पुंडरीक राजा यह खबर पातेही तुरंत मुनिके पास आये और मन विग्रह देख प्रश्न करने से मुनिने राज्य वैभवकी परसंस्या करी. जिस से भाइ मुनि का मन पडित देख, अपना राज्य भेष (पोशाक) मुनिको दिया. और मुनिका-उतारा हुवा भेष आप धारण कर तीन दिन के उपवास से गुरुजी के दर्शन कर फ्रामुख लुक्खम मुक्खम शुद्ध आहार मिला सो खाने से एकदम शरीर में महावेदन प्रगटी और आयुष्य पूर्ण कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव हुवे.

पीछे कुण्डरीक राज्य भोग में लुब्ध हो ताकत बढने मदिरा मांस का सेवन किया, जिस से अत्यन्त असाद्य वेदना उत्पन्न हुइ; सोभी तीन दिन में मरकर सातवी नरक में गये !!

सारांश-शुद्धाचार पाल पडवाइ होने से भी मिथ्यात्वी होजाते हैं.

खन्धक मुनिका दृष्टान्त.

सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा की मलया राणी के अङ्ग से उत्पन्न हुए खन्धक कुमर विजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एकल विहारी हो मास २ खमण तप करते कुंतिनगरी में गौचरी के लिये पधारे. यहां इन के वेनोइ पुरिषवेण राजा गोत्र में मुनन्दाराणी के सङ्ग चोपड खेल रहे थे, उसवक्त राणी ने मुनि को रस्ते से जाते देख अपने प्यारे भ्रात का स्मरण होते ही आँसो से आश्रु टपकने लगे. यह हाल राणी के देख निघापर से राणी के चित्त का चोर मुनी को जाण, एक दम क्रोध तुर हो नीचे आ भटों को हुकम दिया कि-इस मोडीये को मशाण में लेजा इस के शरीर की तमाम चमडी निकाल डालो! सुभटों दौड कर मुनि को थक्के लगाने लगे; तब क्षमा सागर मुनि ने सबव पूछा, भटोंने राजा का हुकम सुणाया. जिससे मुनिराज विलकूल ही नहीं घबराते भटों साथ मशाण में आ आलो यणा निन्दणा कर सुमेर ज्यों अडोल ध्यानस्थ खडे हुवे. ज्यों सूतार काष्ट को छोल ता है, त्यों भटोंने मुनि के सब शरीर का चर्म तीक्षण पासणे से निकाल कर अलग किया! मुनि राज नरक निगोद की वेदना का विचार करते और अपूर्व मुक्ति प्राप्ती का सहज अवसर प्राप्त हुवा जान किंचितही द्वेष भाव धारण नहीं करते. सहर्ष सर्व वैर बदला चुका मुक्ति गये.

जिस वक्त खन्धक कुमर दीक्षाले एकल विहारी हुवे थे, उसवक्त इन के पिता ने गुप्त रीति ९२० सुभटों रक्षा निमित्त इन के साथ रक्खे थे. वो यह वनोइ का गाम जान वेफिकर हो हजामत स्नान भोजनादि कर्यमें लगे. और थोडा दिन रहतेही मुनि को पलट कर नहीं आये देख सब गाम में चौकस करते फिरते थे, उन को राजा की एक दासीने पैछान कर पूछने से उनने मुनि का हाल कहा, दासीने राणी से कहा, राणी ने राजासे कहा. सुनतेही राजाके आँखमें से आँश्रु टपकने लगे. तब राणी अत्यन्त अग्रह से पूछने से होनहार कह दिया. सुनते ही राणी झूछित हो पडगइ, हवा के साथ वात नगर में पसर गइ, ९२० सुभटों सुन अत्यन्त क्रोधातुर हो राजा को मारने महल घेर लिया. घर हानी जन हाँसी देख राजा बडा ही घबराया. दाने शाने मनुष्यों ने युक्ति से सबकों समझा कर सुस्त किये.

उसवक्त वहां केवली भगवान पधारे, राजा राणी ९२० सुभट वगैरा बहुत प-

रिपद के मध्य भगवन् ने फरमाया कि-अहो द्वितार्थियों! “ कङ्काण कम्मा न मोक्ख अत्थि” अर्थात्-कृत कर्म का फल भोगवे विन छूटका नहीं! सो प्रत्यक्षही देखीये कि सन्धक मुनिके जीवने तेरह १३ क्रोड भवके पाहिले एक काचरे फलकी त्व(छाल)चा उतारी थी बोधी काचरा यहां पुरिष सेण राजा होकर मुनि की खाल उतारी!! ऐसा जान कर्म बन्ध से डरो! इत्यादि बोध श्रवण कर राजा राणी और ५०० सुभटोंडे दीक्षा धारण करी. करणी कर स्वर्ग प्राप्त किया.

सारांश-सब शरीरकी खाल उतार डाली तोभी नाक में शल्य और मनमें द्वेष किंचित मात्र ही नहीं लाये. ऐसी तरह जो कषाय ज्वाला को बुझाकर शान्त करतेहैं सो क्षीण कषायी कहे जाते हैं.

श्री महावीर श्वाभीका दृष्टान्त.

क्षत्री कुण्ड ग्राम के सिद्धार्थ महाराजाकी मुलक्षणी बसला देवी को १४ महा स्वप्न को दे, दशवे स्वर्गसे चक्कर अवतरे, अत्युत्तम ऊंच ग्रहोके संयोगसे जन्मे, छ-पन्नदिग् कुमारि का और चौसठ इन्द्र आदि देवों ने जन्म उत्सव किया, पग के अ-गुंटे के दवाने से लक्ष योजनका मेरू पर्वत हलाने से 'महावीर' नाम पाये, जन्मसेही तीन ज्ञान युक्त होने से विद्याभ्यास की कुछ जरूर नहीं. युवावस्थान में यशोदाजी नामक स्त्रीके साथ पाणी ग्रहण किया, जिससे एक पुत्रीकी प्राप्ति हुई; मात पिता स्व-र्गस्थ हुवे बाद नंदीवृद्धन भाइ को संतोष ने ब्रह्मचर्यादि नियम युक्त घर में रहे, फिर वारह महिने तक-३,८८,८०,००,००० इतने सोनैये का दान दे संयमलिया, उसी-वक्त मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हुई. फिर कर्मों का क्षय करने साढी वारा वर्ष और १५ दिन तक अति दुक्कर तप किया, इतने दिन में फक्त इग्यारे महीने उन्नीस दिन आहार लिया और फक्त दो घडी ही निद्राली. देव मनुष्य तिर्यच सम्बन्धि अति दुःख अंतुकुल प्रतिकूल परिसह सहे. जहां २ परिसह उत्पन्न होने का जाना वहां २ सम्मुख होगये. और परिसह दाताओंपर पुनः उपकार कर स्वल्प बोध से स्वर्ग गामी बनाये. ऐसे क्षमा शूर अर्हत भगवन्त चारों वन घातिक कर्मोंका समूल नाश कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, चौंतीस अतिशय, आदि महान ऋद्धि को प्राप्त हो द्वादश जाति की परिपद में पैंतीस गुणयुक्त दिव्य द्रानीका प्रकाश किया, जिस के महान् प्रताप से अभीतक धर्मप्रदीप्त होरहा है. और अन्तिम आठों कर्म क्षय कर मोक्ष पधारे.

गजसुकुमाल मुनीजीका दृष्टान्त.

सोरठ देश द्वार का नगरी के वसुदेव महाराजकी देवकी राणी के अंगसे उत्पन्न हुवे, हाथी के तालुवे जैसे रक्त और सुकुमाल शरीर के धारक गज सुकुमाल कुमर कृष्ण वासुदेव के साथ नेमीनाथ भगवान् के दर्शनार्थ जाते, रस्ते में महा दिव्य रूप वति सोमल ब्राह्मण की सोमा नामक पुत्री को कृष्णजी देख कर गजसुकुमालजी के पाणी गृहणार्थ कुंवारे अन्तेवर में पहुँचा कर, भगवान् के पास आये-सविधी वन्दन कर व्याख्यान श्रवण कर गज सुकुमाल जी वैरागी बने. अत्यन्त अग्रह से माता पितादि की आज्ञाले दीक्षा धारण करी. और भगवन्त से पूछा की जलदी मुक्ति मिले ऐसा रस्ता मुझे बताइये. सर्वज्ञ प्रभु वैसाही होतव्र जान हुकम किया कि-महाकाल मशाण में १२वीं भिक्षुक प्रतिमा का आराधन करने से शीघ्र मुक्ति मिलेगी. उसी वक्त भगवन्त को नमस्कार कर महाकाल मशाण में एकही पुद्गलपर अनिमेष-एकाग्रदृष्टि रख ध्यानस्थ खडे रहे. उसवक्त लग्न सामग्री लेकर पीछा आता सोमल ब्राह्मण मशाण में गज सुकुमाल मुनि को ध्यानस्थ देख कोपातुर हुवा. रे पापी! बिना कारण मेरी पुत्री को बाल विद्रापना दे साधु हुवा, तो अब देख मझा. ऐसा कह तलाव के किनारे की चिक्कनी मडी की मुनिराज के शिरपर चौगिरदा पाल बान्ध जलते सुरदे की चिता में से खेरके झग २ ते अझारके खारे ठीकरी में ले मुनि राज के शिरपे भर दिये. और अपने घरको चले गया. उस वक्त मुनिराजकी खोपरी जलने लगी, शरीर की नशों तड २ टूट ने लगी, इत्यादि अत्यन्त तीव्र महादारुण प्रबल वेदना उत्पन्न हुइ. मुनि ने शिर हिलाना तो दूर रहा! परन्तु नाक में शल्य भी नहीं डाला विचारा कि-मेरे खुसरेने मेरे शिरपर मुक्ति गमन रूप पाघ बन्धि है. इसे नीचे डाला अनेक जीवों के घात के साथ संयम और प्राप्त होते मुक्ति सुख का गमाने वाला कदापि नहीं बनूंगा! यह अलभ्य महा लाभ कदापि नहीं गमावूंगा. इत्यादि निश्चय से राग द्वेष रहित शुद्ध भावना भावते सुमेरे गिरी की माफिक त्तिनो योगों के अडोल स्थिर रख महा परिसह सम भाव सहन करते आठोंही कर्मोंका समूल नाश कर मोक्ष पधारे. वाद शरीर ने धरणीशरण धारन किया!!

सारांश—यों योगों की स्थिरी भूतता होने से मोक्ष मिलती है.

७ सातवा गुणद्वारका अर्थ.

पुद्गल परावर्तन का स्वरूप.

१ द्रव्य से, २ क्षेत्रसे, ३ काल से, और ४ भाव से में यह ४ सूक्ष्म, ४ वादर, यों ८ तरह से पुद्गलों का परावर्तन होता है और कितनेक स्थान भावसे के स्थान भव से पुद्गल परावर्तन के दो भेदरक्खे है, और कितनेक स्थान उन ८ में भवसे के दोभेद मिलाकर १० भेद पुद्गल परावर्तन के किये हैं. सो अलग २ यहां कहते हैं :—

१ द्रव्य से वादर पुद्गल परावर्तन सो-(१) औदारिक, (२) वैक्रिय (३) तेज-स, (४) मन, (५) भाषा, (६) कार्मण, और (७) श्वाशोश्वास, इन ७ प्रकार के पुद्गलोंके सर्वलोक व्यापी प्रमाणुओं को भेद संघात तथा वादर सूक्ष्म परिणमन कर स्व-स्व वर्गणा योग्य परिणत स्कन्ध औदारिकादि नो कर्म पणे जितने काल में एकजीव अनन्त भव भ्रमण करता परिणमाकर-ग्रहणकर स्पर्श कर-छोडे, उसे वादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन कहना. इस में जो एक वक्त ग्रहण किये हुवे पुद्गलों को दूसरी वक्त ग्रहण करे उसे ग्रहीत ग्रहणी द्वार कहना. तथा पहिले कितनेक ग्रहण किये और कितनेक बिना ग्रहण किये ऐसे दोनों तरह के भिले पुद्गलों ग्रहण कर उसे मिश्र ग्रहण द्वार कहना. और पहिले ग्रहण नहीं किये ऐसे पुद्गलों को जो ग्रहण करे सो अग्रहीत ग्रहण द्वार कहना. इन तीनों में से ग्रहीत ग्रहणद्वार और मिश्र ग्रहण द्वार इन दोनों तरह के पुद्गलोंको छोड कर, अग्रही ग्रहणाद्वार जो पुद्गलों ग्रहण करे, वो पुद्गलों ही यहां गिनती में आते हैं, बाकी के गिनती में नहीं लेना. यों एक औदारिक पणे, दुसरे वैक्रिय पणे, जावत सातवे श्वाशोश्वास पणे सात परिणाम एकेक अणु के होते हैं. यों सर्व वर्ती द्रव्य के सात परिणमत् एक जीव पूर्ण करे तब वादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है. +

२ द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-सर्व लोक, वर्ती अणुको औदारिकादि पणे परिणमावे. परन्तु इतना विशेष, जो औदारिक पणे परिणमावते बीचके भवों में जो जो वैक्रियादि पणे पुद्गल ग्रहण करे वो यहां गिनती में नहीं लेना. यों अनन्त

+ इस में आहारिक शरीर ग्रहण नहीं किया, इस का यह सत्रव हैकि-एक जीव आहारक शरीर चार वक्त से अधिक नहीं करता है, इसलिये इसके सब पुद्गलों के साथ परावर्तन होता नहीं है. इसलिये गिना नहीं.

भवों कर सर्व लोकके अणु औदारिक पणे परिणमा कर-ग्रहण कर स्पर्श कर-छोडे, उस वक्त प्रथम औदारिक सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन होवे. फिर ऐसीही तरह लोक के सर्व अणु के वैक्रिय पणे परिणामावे. ग्रहण कर छोडे तब दुसरा वैक्रिय सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन होवे. ऐसे ही तेजस शरीर पणे जावत सातवा श्वाशोश्वास पर्यंत पणे तक सब पुद्गलों ग्रहण कर स्पर्श कर छोडे, इस में सब से कार्मण पुद्गल परावर्तन का काल अनन्त है, परन्तु दुसरे की अपेक्षासे स्तोक (थोडा) जाणना. उस से तेजस पुद्गल परावर्त काल अनन्त गुणा, उस से औदारिक पुद्गल परावर्तन काल, अनन्त गुणा, उस से श्वाशोश्वाल पुद्गल परावर्तन काल अनन्त गुणा, उस से मन पुद्गल परावर्तन काल अनन्त गुणा, उस से भाषा पुद्गल परावर्तन काल अनन्त गुणा, उस से वैक्रिय पुद्गल परावर्तन काल अनन्त गुणा. अब इस अल्प बहुत का सबव कृ होते हैं:-कार्मण पुद्गल परावर्तन सब भवों में ग्रहण करता है, जिससे जलदी भरा जाता है. उस कार्मण से तेजस अनन्त गुण हीन है, क्योंकि उस से अनन्त गुण अधिक काल में भरावे, यों सर्वोंकि अल्प बहुतता अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिये. गये काल में एक जीव के अनन्त वैक्रिय पुद्गल परावर्तन हुवे. उस से अनन्त, अधिक भाषा पुद्गल के परावर्तन हुवे. उस से अनन्त गुण मन पुद्गल के परावर्तन हुवे, उस से अनन्त गुण श्वाशोश्वास पुद्गल के परावर्तन हुवे, उस से अनन्त गुण औदारिक शरीर के पुद्गल परावर्तन हुवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्गल के परावर्तन हुवे और उस से अनन्तगुण कार्मण पुद्गल के परावर्तन हुवे. ऐसे सब पुद्गल परावर्तनों एक जीवने अतीत (गये) काल में कर के छोडे हैं. *

३ क्षेत्र से वादर पुद्गल परावर्तन सो-सर्व लोक के आकाश प्रदेशों जो घनां-

* कितनेक आचार्योंका यह मत है कि-औदारिक वैक्रिय तेजस और कार्मण इन चारों शरीर पणे सर्व लोक वर्ती प्रमाणुओं जो ग्रहण करता है वो गिनती में आते हैं. यों कर के सर्व प्रमाणुओं चारों शरीर पणे परिणमा कर छोडे सो वाद द्रव्य पुद्गल परावर्तन. और अनुक्रम से एकेक शरीर पणे परिणामावे, ऐसी तरह सर्व अणुक एक शरीर पणे परिणमा रहे, फिर दूसरे शरीर पणे परिणामावे, परन्तु औदारिक परावर्त में वैक्रियादि पुद्गल ग्रहण करे वो गिनती में नहीं आवे. यों अनुक्रम से चारों ही प्रकारकी सर्व अणुक परिणमाने से सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन होता है.

गुल आकाश खण्डके प्रदेशों का समय २ प्रते हरण करते असंख्यात काल चक्र वीत जावे, ऐसे सूक्ष्म आकाश के प्रदेश हैं. उन सर्व लोक के आकाश के प्रदेशों को जिस वक्त एक जीव अनेक भवकर स्पर्शे अर्थात्-सर्व आकाश प्रदेशों पर मृत्यु पावे, उस में जिस आकाश प्रदेश पर एक वक्त मृत्यु पाया, उसही आकाश प्रदेश पर दुसरी वक्त मरण पावे, वो गिनती में नहीं. यों सर्वाकाश प्रदेश को मरण कर स्पर्शे × जिसे वादर क्षेव पुद्गल परावर्तन कहना.

४ क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-अनुक्रम से अर्थात्-जिस आकाश प्रदेश की श्रेणीपर एक वक्त मृत्यु पाया, उस ही आकाश प्रदेशपर किंचित ही अन्तर नहीं छोडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु पावे, यों मरण कर एक आकाश श्रेणी पूर्ण स्पर्शे, फिर दूसरी आकाश श्रेणी इसही तरह से मरण कर सम्पूर्ण स्पर्शे, इस में प्रथम मरण किये स्थान में दूसरी वक्त मरण करे सो गिनती में नहीं, यों अनुक्रम से श्रेणि बन्ध प्रतर बन्ध प्रदेशों मरणकर स्पर्शता हुवा सर्व लोकके सर्व (असंख्यात) आकाश प्रदेश स्पर्शे सो क्षेत्रसे सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन.

९ काल से वादर पुद्गल परावर्तन सो-बीस क्रोडा क्रोडी सागरोपम प्रमाण काल चक्रहै, उसके सब समय मरण कर जीव स्पर्शे, अर्थात्-जब काल चक्र शुरू होवे उस के आदि समय से लगाकर अन्तिम समय तक के सब समयों में मरण करे, जिस समय एक काल चक्र में मरण पाया उसी समय बहुते काल जक्रों में मरण पाया वो गिनती में नहीं आते हैं, परन्तु अन्य दूसरे तीसरे चौथे आदि अन्तिम समयतक मरे सो ही गिनती में गिने जाते हैं. यों सब काल चक्रे के समयों को मरण कर स्पर्शे सो काल से वादर पुद्गल परावर्तन.

६ काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-एक काल चक्र के प्रथम समय में मरण कर फिर दूसरे चक्र के दूसरे समय में मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीसरे समय में मरण करे, यों एकेक काल चक्रका एकेक समय ही गिनती में आता है, परन्तु बीच के संख्यात असंख्यात जावत अनन्त काल चक्र तक मरण करे सो गिनती में नहीं आता है, यों असंख्यात मरण में भी अनन्त चक्र वीत जाते हैं. क्योंकि पहिला

× यद्यपि जीवात्म असंख्यात प्रदेशी है सो असंख्याकाश प्रदेश अवगहा रहा है. तद्यपि कार्य की मुख्यताकर एक प्रदेश ही लिया है.

दूसरा तीसरा यों अनुक्रम से समयों में मरण करे सोही गिनती में लिये जाते हैं. ऐ से काल चक्र के अन्तिम समय तक मरण कर स्पर्श सो काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्त न जानना.

७ भाव से वादर पुद्गल परावर्तन सो-रस बन्ध हेतु कषायादि अध्यवसाय स्थानक मन्द मन्दतर मन्दतम इन के भेद असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है, जिस वास्ते सीत्तर (७०) कोडा क्रोड सागरोपम के समय प्रमाण स्थिति स्थानक में असंख्यात रस बन्ध हेतु अध्यवसाय स्थानक हैं, वो सब अध्यवसाय स्थानक अनुक्रम से मरण कर स्पर्श, अर्थात्-इन रसबन्ध के स्थानक किसी वक्त मंद मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम. ऐसे स्थानक में मरण करे, जिस वक्त एक जीव सर्व स्थानक स्पर्श कर पूर्ण करे सो भाव से वादर पुद्गल परावर्तन.

८ भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-पहिले जघन्य अध्यवसाय में मरण पाकर, फिर किसी कालान्तर में उस चढते दुसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पावे फिर उस से चाढते तीसरे अध्यवसाय स्थानक में मरण पावे यों एकेक चढते स्थानक में मरण पावे सो ही गिनती में आते हैं, परन्तु बीच में ज्यादा कम अध्यवसाय स्थानक में घरे सो गिनती में नहीं. यों अनुक्रम से निरन्तर पने जघन्य से लगाकर उत्कृष्ट अध्यवसाय के स्थानक मरण कर स्पर्श उस के बीचमें बोही अध्यवसाय तथा सान्तर अध्यवसाय स्थानक में मरण करे. वो भी गिनती में नहीं आते हैं. पहिले के अध्यवसाय से चढता स्थानक ही गिनती में आता है. सोभाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन.

(७-८ प्रकारान्तर से कितनेक आचार्य-५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और २ अगुरु लघु इन २२ बोलों के एक गुण से लगा कर जावत अनन्त गुणतक जितने पुद्गल लोक में हैं उन सबोंको मरण कर स्पर्श कर छोडे सो भाव से वादर पुद्गल परावर्तन, और प्रथम एक गुण काला फिर दो गुण काला यों अनुक्रम से जावत अनन्त गुण काला जितने प्रमाणुओं हैं उने स्पर्श. फिर एक गुण हरा दोगुण हरा जावत अनन्त गुण हरे प्रमाणुओं को अनुक्रम से स्पर्श. ऐसे ही फिर लालके, फिर पीलेके, फिर श्वेतके, योंही २ गंध के, ५ रस के, ८ स्पर्श के, और अगुरु लघु के सर्व प्रमाणुओं प्रथम एक गुण से लगाकर अनुक्रम से अनन्त गुण तक घरण कर स्पर्श कर छोडे. (इन के बीच में कमी ज्यादा गुण के वर्णादि के प्रमाणुओंको स्पर्श

सो गिनती में नहीं.) ऐसे २२ प्रकारके पुद्गलो स्पर्शो सो भव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन) जो आचार्य भव के स्थान भव को कहकर ८ बोल पूरे, करते हैं, अथवा भव के दो बोल अधिक कर १० बोल कर ते हैं सो कहते हैं:—

१ भवसे वादर पुद्गल परावर्तन—कोइ जीव नरक गति में जघन्य १० हजार वर्ष आयुष्य से लगाकर एक समय अधिक दो समय अधिक यों एकेक समय बढ़ाता ३३ सागरोपम के आयुष्य तक, और ऐसे दश हजार वर्ष से एकेक समय अधिक २ करता ३१ सागरोपम देवता का आयुष्य तक. तथा जघन्य २५६ आंवलीके एक क्षुलक भव से एकेक समय अधिक लगाकर ३ पल्योपम तिर्यच के आयुष्य को, और जघन्य अन्तर मूर्द्धत से लगाकर एकेक समय अधिक करता ३ पल्योपम पर्यन्त मनुष्य के आयुष्य को. यों चारों गति के आयुष्य को घरण कर स्पर्शो सो भव से वादर पुद्गल परावर्तन.

१० भव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन सो-प्रथम नरक में दश हजार वर्षायु भोग मरे, फिर एक समय अधिक दश हजार वर्ष आयुष्य भोग मरे, फिर दो समय अधिक यों अनुक्रम से एकेक समय अधिकरता नरक का ३३ सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करे, बीच में अन्य गति का तथा नरक काही ज्यादा कमी आयुष्य भोगवे सो गिनती में नहीं. फिर ऐसेही तिर्यचका, फिर ऐसेही मनुष्य का और फिर ऐसेही देवता का जघन्य आयुष्य से समय २ अधिक आयुष्य पाकर घरण कर स्पर्शो सो भव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन.

यह ऊपरोक्त ८ प्रकार का या १० प्रकार कर के जो पुद्गलों का परावर्तन होने का घरणन् किया सो विशेषत्व जाणना. परन्तु सामान्य प्रकार से तो सब मिलकर एक ही पुद्गल परावर्तन गिना जाता है. ऐसे अनन्तानन्त पुद्गल परावर्तन संसार निवासी सब जीवोंने इस संसार में किये हैं. जो जीवों मिथ्यात्व गुणस्थान का एकही वक्त त्याग कर देते हैं. वो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं. इतने काल बाद तो जरूरही मोक्ष पाते हैं.

८-१२ अवघेणा, उत्पति—पावति—और क्षपति, द्रव्य परिमाण इन चारों द्वारों का अर्थ बताने प्रमाण—बोध कहते हैं.

प्रमाण दो तरह के हैं-१. लौकिक. और २. लोकोत्तर. इस में प्रथम लौकिक

प्रमाण सो तो जो जगत में-एक, दश, सो, हजार, जावत-परार्द्ध, तक अठारा अंककी संख्या जो अभी प्रचलित है सो, इस सिवाय और भी ४३२००००००० इतने सो र्य वर्ष (३६५ दिन, १५ घडी ३१ पल, ३१ विपल) का एक ब्रह्मका दिक (कल्प) गिन ते हैं. इनत में १४ मनु और १००० महा युग होने का बताते हैं, वगैरा लौकिक प्रमाण कहा जात है.

और लोकोत्तर गणित का स्वरूप लौकिक गणित से कुछ विलक्षण ही है, क्योंकि लौकिक गणित से स्थूल और स्वल्प (थोड़े) पदार्थों का प्रमाण किया जाता है. और लौकोत्तर गणित से तो सूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनता अधि-कता का प्रमाण का बोध कराया जाता है,

लोकोत्तर गणितके दो भेद हैं:—१. संख्यामान, और उपमामान, इसमें सं-ख्यमानके मूल ३ भेद हैं:—१. संख्यात, २. असंख्यात, और ३ अनन्त, इस में-सं-ख्यात का एकही भेद, और असंख्यात ३ भेद हैं:—१. परितासंख्यात, युक्तासं-ख्यात, और ३ संख्यातसंख्यात, ऐसे ही अनन्त के भी ३ भेद होते हैं:—१. परि-तानन्त, २ युक्तानन्त, और ३ अनन्तानन्त. यों सब मिल संख्यमान के ७ भेद हुवे. इन सातों को, १. जघन्य (छोटा) २ मध्यम (बीचका) और ३ उतकृष्ट (बड़ा) यों तीगुने कर ने से संख्यमान प्रमान के २१ भेद होते हैं. इनका खुला से वार स्वरूप समझाने लिये आगे कल्पित उपाय उपमामात्र शास्त्रानुसार लिखते हैं:—

१. अनव स्थित, * २ शालका, ३ प्रतिशालका, और ४ महा शालका. इन चारों नामके चार टोपले. जम्बुद्वीप प्रमाणे एक लक्ष योजनके लम्बे चौड़े (गोल) और एक हजार आठ योजनके ऊँडे, इनमेंसे पहिले अनवस्थित टोपलेमें शरशोंके दाणे शिखाऊ (जमीन पर किये हुवे अनाज के ढंग की तरह) भरे. उस में सब १२२७११२२३८ ४५१३ १६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ इतने दाणे का समावेश होता है, फिर एक भरा और तीनों खाली ऐसे चारों टोपलों को कोई देवता उठाकर, उस भरे टोपाले मेंसे-एक दाणा जम्बुद्वीप में दुसरा

* अनवस्थित उसे कहते हैं. जो सदा एकसा न रहे, अर्थात् पीछेके तीनों टोपले तो एक से लक्ष योजनके सदा बने रहते हैं. और अवस्थित तो जहां खाली होता है उसी स्थानकी सूची प्रमाणे (जितना बड़ा द्वीप व समुद्र होवे उतना) बड़ा बनाते हैं.

दाणा लवण समुद्र में, तीसरा दाणा घातकी खण्ड में, यों एकेक दाणा अनुक्रम से आगे के द्वीप समुद्रों में रखता हुआ चला जावे. जब उस अनव स्थित टोपले में एक दाणा बाकी रह जावे तब उस दाणे को दूसरे शाल का नामक टोपले में रखे, और जिस स्थान वो प्रथम टोपला खाली हुआथा उस स्थान (द्वीप व समुद्र+की सूची प्रमाणे लम्बा चौड़ा (गोल) और एक हजार आठ योजन का ऊँड उस अनव स्थित टोपल को बनाके. सरशों के दाणों से शिखाऊ भरे, और फिर आगेके द्वीप समुद्र में एकेक दाणा रखता जावे. जब उस अनवस्थित टोपल में दूसरी वक्त एक दाणा बाकी रहजावे, वो दाणा बाकी रहा जावे, वो दाणा उठा कर प्रथम प्रमाणे उस दूसरे शालाका टोपले में रखे, शाला का मे दो दाणे हुवे. और जिस स्थान वो अनवस्थित टोपला खाली हुआ. उस स्थान की सूची प्रमाणे तीसरी वक्त उस अनवस्थित टोपले को बनाकर सरशों के दाणों से शिखाऊ भर कर फिर एकेक दाणा आगे के द्वीप समुद्रों में रखता हुआ जावे. उस में एक दाणा बाकी रह जावे तब वो दाणा लेकर फिर दूसरे शालाका टोपल में रखे; यों शाला का में तीन दाणे हुवे. एसीह तर अनवस्थित टोपल में बाकी रहे एकेक दाण कर काल का नामक टोपले को सम्पूर्ण शिखाऊ भरे. और फिर उस शालका नामक पाले (टोपले) को उठाकर पूर्वोक्त रीति प्रमाणें ही एकेक दाणा आगे के द्वीप समुद्रों में रखता जावे, जब उस शाला का में एक दाणा बाकी रहजावे, तब वो दाणा लेकर तीसरे 'प्रतिशालका' नामक टोपले में रखे. और शालका को बाजू रखकर. फिर उसही स्थान की सूची प्रमाणे अनवस्थित टोपला पहिला बनावे. और सरशों के दाणों से शिखाऊ भर, आगेके द्वीप समुद्रों में एके क दाणा रखता जावे. जब के उसमें एक दाणा बाकी रह जावे तब उस दाणों को लेकर दूसरे शालाका नामक टोपले में रखे. ऐमेही पूर्वोक्त रीतिसे अवस्थित टोपले के एकेक दाणों कर शालाका को प्रतिपूर्ण शिखाऊ भरे. और फिर दूसरी वक्त शालाका को उठाकर आगेके द्वीप समुद्रों में एकेक दाणा रखते आगे जावे वो 'शालाका' में एक दाणा रह जावे तब, उस दाणे को 'प्र-

+ द्वीप व समुद्र की गोलाइ के एक तट से दूसरे सामें के तटकी लम्बाइ के प्रमाण प्रमाण को सूची कहते हैं. जैसे लवण समुद्र की सूची ९ लक्ष योजन की. और घात की खण्ड द्वीप की सूची २९ लाख योजन की.

तिशलाका' नामक तीसरे टोपल में रखे. और फिर जिस्थान में शलाका खाली हु-
 वा उसी स्थान की मूची प्रमाणे 'अनवस्थित' प्रथम पाला बना, शिखाऊ दाणे से भ-
 र, एकेक दाणा आगेके द्वीप समुद्रों में रखता जावे. जहां वो अनवस्थित में एक दा-
 ना रह जावे उसे दूसरे 'शलाका में' रखे. यों अनवस्थित कर फिर शलाका को
 भरे. और फिर शलाका को उठा एकेक दाणा आगेके द्वीप समुद्रों में रखते एक दा-
 णा रहजावे, उसे तीसरे प्रतिशलाका में रखे. और फिर अनवस्थित 'कर' 'शलाका'
 को भरे. और यों वचते हुवे एकेक दाणे कर प्रतिशलाका को भरे. प्रतिशलाका शि-
 खाउ भराये बाद, उसे उठा कर उसमें का एकेक दाणा आगेके द्वीपमें रखते २ जब
 एक दाणा उसमें रह जाय, तब वो दाणा चौथे 'महा शलाका' नामें डाले में रखे.
 और फिर अनवस्थित के वचेहुवे एकेक दाणें कर 'शलाका' को भरे, और 'शलाका
 के वचे हुवे एकेक दाणेकर 'प्रतिशलाका' को भरे. और योंही 'प्रतिशलाका' के व-
 चे हुवे एकेक दाणें कर 'महा शलाका' नामक चौथे डाले को भरे. जब महा श-
 लाका भरा जावे, तब उसे उठा नेकि कुछ जुरूरत नहीं, क्यों कि उसमें वचा हुवा
 दाणा रखने कोइ पांचवा पाला नहीं है. इसलिये उस भरे हुवे 'महा शलाका' ना-
 मे चौथे पाले को एक तरफ रख कर. फिर अनवस्थित कर पूर्वोक्त रीतिसे वचे हुवे
 एकेक दाणें कर, 'शलाका' नामक दूसरे टोपलेको भरे. और शलाका के वचे हुवे ए-
 केक दाणे कर प्रतिशलाका को भरे, वो प्रतिशलाका तीसरा पालभी भरा जावे तब
 उसे उठा करभी उस महाशलाका नामक चौथे डालेके पास रख देवे. और फिर अ-
 नवस्थित के वचे हुवे एकेक दाण से 'शलाका' को भरे, यों वो दूसरा टोपला शला-
 का भी भरा जावे, तब उसेभी उठा कर उस प्रतिशलाका पाले के पास रखदेवे. औ-
 र जिसस्थान वो शलाका भरायाथा उसस्थान प्रमाणे उस अनवस्थित नामक प्रथम
 टोपले को बना कर, शिखाऊ सरशों के दाणे से भर कर. उस शलाका नामक दूसरे
 टोपलेके पास रखे. क्यों कि अब इसमें के वचे हुवे दाणे को भी रखने स्थान नहीं.
 रहा. यों चारोंही टोपले डाले पाले भरा जावे. तब चारों टोपले के दाणों को ऊंदाक-
 र एकस्थान ढगला करे, और जो प्रथम द्वीप समुद्रोंमें दाणे डाले हैं उन सब को चु-
 न कर भेले करे, इन दाणों की रासी (ढाग) में मिलावै, और फिर उस सरशों के
 ढग में से एक सरशों कभी करने से उस ढग में—७५८२६२२५३०७३०१
 ०२४११५७९७३५६९९७५६९६४०६२१८९६६८४८०८०१८

मिलकर जो राशी (द्वग) करी थी, और उस में से एक दाणा निकाल लियाया, वो दाणा पीछा उस राशी में डाल देने से-(१) जघन्य परिता असंख्याते होते हैं. और इस जघन्य परिता असंख्याते की राशी को रास गुणाकरे. × फिर उसमें से एक दाणा निकाले कम करे सो-(२) उत्कृष्ट परिता असंख्याता. और जघन्य परिता असंख्याता से एक अधिक, तथा उत्कृष्ट परिता असंख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यम परिता असंख्याता कहा जाता है. फिर उस उत्कृष्ट परिता असंख्याते की राशीमें से वो निकाला हुआ-कम करा हुआ दाणा पीछा उस राशी में डाल देवे सो (४) जघन्य युक्ता असंख्याता. (इतने एक आवली का के समय होते हैं) फिर इस जघन्य युक्ता की राशी को राशगुणा करे, और उसमें से एक दाणा कम करे-निकाल लेवे सो (६) उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता, और जघन्य युक्ता असंख्याता से एक अधिक उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता से-एक कमी सो(५) मध्यम युक्ता असंख्याता. फिर उत्कृष्ट युक्ता की राशी मेंसे निकाला हुआ दाणा डाल देवेसो-(७) जघन्य असंख्यात असंख्याता. और इस जघन्य असंख्यात असंख्याते की राशी को राश गुणा कर, एक दाणा कम करे सो-(९) उत्कृष्ट असंख्याता, (इतने धर्मास्ति, अधर्मास्ति, लोकाकास्ति. और जीवास्ति के प्रदेश हैं.) और जघन्य असंख्यात असंख्याते से एक अधिक उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते से एक कमी सो-(८) मध्यम असंख्यात असंख्याते. यह असंख्याते के ९ भेद हुवे.

अब अनन्त के ९ भेद कहते हैं:-फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते की राशी में से निकाला हुआ दाणा पीछा उस में मिला देवे सो (१) जघन्य परिता अनन्ता (इतने अभव्य जीवों है) फिर इस जघन्य परिता अनन्ते की राशी को रास गुणाकर, उस में से एक दाणा निकालने से, जो रहे सो-(३) उत्कृष्ट परिता अनन्ता, और जघन्य परिता अनन्ता से एक अधिक, उत्कृष्ट परिता अनन्त से एक कम सो, (२) मध्यम परिता अनन्ता. फिर उत्कृष्ट परिता अनन्ता की राशी में से निकाला हुआ

× जैसे ४ को ४ गुणा करने से १६ होते हैं. तैसेही जितने दाणों की वो राशी है उन सब दाणों को अलग २ एकेक बिखेर कर, उस एकेक दाणे के ऊपर पहिलेकी राशी जितना एकेक टगला करे, उने दाणे जितने सब टगले को भेले करे उसे राशगुणा कहा जाता है.

वा दाणा पीछा उस में डाल देवे सो-(४) जघन्य युक्ता अनन्ता, और जघन्य युक्ता अनन्ता की राशी को राश गुणा कर उस में से एक दाणा निकाल लेवे सो (६) उत्कृष्ट युक्ता अनन्ता, और जघन्य युक्ता अनन्ता से एक अधिक, उत्कृष्ट युक्त अनन्ता से एक कमी सो (५) मध्यम युक्ता अनन्ता जाणना, फिर उत्कृष्ट युक्ता अनन्ता की राशी में से निकाला हुआ दाणा उस राशी में पीछा मिलावे सो (७) जघन्य अनन्त अनन्ता कहते हैं.

अब आगे केवल ज्ञान के आविभाग परिच्छेदों के प्रमाण स्वरूप बताने उत्कृष्ट अनन्ता न्तका स्वरूप कहते हैं:-जघन्य अनन्ता अनन्त राशी को राश गुणा करने से जो राशी उत्पन्न होवे वहा अनन्तान्त का+मध्य भेद है, इस राशीमें-जीव राशीके अनन्तवे भाग सिद्ध राशी, सिद्ध राशीसे अनन्त गुणी निगोद राशी-वनस्पति काय राशी, जीव राशी से अनन्त गुणी पुद्गल राशी, पुद्गल सेभी अनन्त गुणे तीन काल के समय, और अलोका काश के प्रदेश, यह ६ राशी मिलाना और इस में धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुणके अनन्तान्त आविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर जो राशी होवे सो (८) मध्यम अनन्ता अनन्त. इस राशी को केवल ज्ञान के आविभाग प्रतिच्छेदों के समोह रूप राशी में से घटना, और जो शेष बचे उस में पुनः वही महा राशी मिलाने से केवल ज्ञान के आविभाग प्रति छेदों का प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है. उक्त महाराशी को केवल ज्ञान में से घटाकर फिर मिलाने का सबब यह है कि-दूसरी राशी से गुणाकार कर ले पर भी केवल ज्ञान के प्रमाण से बहुत कमती रहता है. इस लिये केवल ज्ञान के आविभाग परिच्छेदों का प्रमाण का महत्व दिखलाने ऊपर युक्त विधान किया है.

इस प्रकार से संख्यामान के २१ भेदोंका कथन समाप्त हुआ.

अब उपमा प्रमाण के ९ भेद कहते हैं:—१. पल्य, २ सागर, ३ सूच्यांगुल,

+अनन्त के दूसरे दो भेद होते हैं:-१ साक्षय अनन्त, और अक्षय अनन्त. यहां तक जो संख्या हुई सो साक्षय अनन्त की हुई. अब इसके आगे जो भेद कहते हैं सो अक्षय अनन्त के जानना. क्योंकि इस ऊपरोक्त महाराशी में आगे छे राशी अक्षय अनन्त की मिलाइ जाती है. नवीन वृद्धि न होने पर भी खर्च करते २ जिस राशीका अन्त पार नहीं आवे उसको अक्षय अनन्त कहते हैं.

४ प्रतरांगुल, ५ घनांगुल, ६ राज्जू, ७ जगच्छेणी, ८ जगत्परत्तर, और ९ लोक. इन नवोंका अलग २ स्वरूप कहते हैं:—

१ पल्य—पाला, किसी भी वस्तु भरने का स्थान (पियु-खो-कोठार - प्रमुख) या ठाम (पायली-कोठी) होवे उसे पल्य कहते हैं. उस के मपतीसे किसी का प्रमाण समझाया जाय सो-पल्योपम प्रमाण. इसके ३ भेदः—(१) व्यरहार पल्य, (२) उद्धार पल्य, और (३) अद्धापल्य-

(१) व्यवहार पल्य का स्वरूपः—परमाणु=परम=उत्कृष्ट+अणु=पतला, जो सब से वारीक होवे, जिसके दो विभागकी केवल ज्ञानी भी कल्पना नहीं कर सकें, उसे परमाणु कहते हैं. ऐसे अनन्त सूक्ष्म परमाणु का स्कन्ध (पिण्ड) का १ वादर(व्यवहारिक) परमाणु होता है. उसे देवता भी अति तीक्ष्ण शास्त्र कर छेद सके नहीं, अग्नि में जले नहीं, पाणी में भीजे नहीं. ऐसे अनन्त वादर परमाणु के स्कन्ध का-एक उष्ण श्रेणिया (गरभीका) पुद्गल होता है, ८ उष्ण श्रेणियाका-१ शीत श्रेणीया (शरदी-ठण्डका) पुद्गल. ८ शीत श्रेणियाकी-१ उर्द्धरेणु (तरवर में उडे सो रज) ८ उर्द्धरेणुकी-१ त्रसररेणु (त्रस कायका शरीर) ८ त्रस रेणुकी-१ रथरेणु, (रथ चलते उडे सो रज) ८ रथरेणु जितना जाडा-१. देवकुरु उत्तरकुरु क्षेत्रके मनुष्य के वालाग्र. ८ देवकुरु उत्तरकुरु मनुष्य के वालाग्र जितना-१. हरीवास रम्यक वास क्षेत्रके मनुष्यका वालाग्र. ८ हरीवास रम्यकवास के मनुष्य के वालाग्र जितना-१. हेमवय हिरणवय क्षेत्र के मनुष्य का वालाग्र, ८ हेमवय हिरणवय मनुष्य के वालाग्र जितना-१. पूर्ण महा विदेह पश्चिम महाविदेह क्षेत्रके मनुष्य का वालाग्र. ८ महाविदेह क्षेत्रके मनुष्य का वालाग्र जितना-१. लीख, ८ लीखकी-१ सरसों, ८ सरसों का-१. जौ, और, ८ जौका-१ उत्सेद अंगुल. (चारों गति के जीवों का शरीर का घाप इस अंगुल से किया जाता है.) ५०० उत्सेध अंगुल का-१. प्रमाण अंगुल (अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थकर का अंगुल) कहा जाता है. (इस से नरकावासे-भवन-देवनगर-विमाण-द्वीप-समुद्र-पर्वत-नदी इत्यादि का प्रमाण बताया जाता है) और भरत एरावत क्षेत्र में जो मनुष्यों होते हैं, उस वर्तमान काल में जितना बडा अंगुल होवे, उसे आत्प अंगुल कहते हैं. (इस से चक्रवर्ति राजा के १४ रत्नादि ऋद्धि का, तथा झारी थाल कटोरे आदि संसार में काम आती वस्तुओं का प्रमाण बताया जाता है) ६ प्रमाण अंगुलका-१. पड (मुद्दी), २ पडका-१. विलस्त, २ विलस्तका-१. हाथ, २ हाथकी-१. कुच्छ, २ कुच्छका-१.

(३) उद्धार पल्य के वर्षों को असंख्यात कोटी वर्षोंके समयों से गुणाकार करने से-१ अद्धा पल्य के वर्षों का प्रमाण होता है, (इस अद्धा पल्योपम से कर्मोंकी स्थिति का प्रमाण क्रिया जाता है!!) ÷

दशक्रोडा क्रोड व्यवहार पल्योपम का-१. व्यवहार सागरोपम, दशक्रोडा को उद्धार पल्योपम का-१. उद्धार सागरोपम और दश क्रोडा क्रोड अद्धा पल्योपम का १. अद्धा सागरोपम होता है.

३ अद्धा पल्य की अर्द्धच्छेद राशी को रास गुणा करने से जो संख्या आवे उसे सूच्यंगुल कहते हैं (एक प्रमाणंगुल लम्बे और एक प्रदेश चौड़े- ऊंचे आकाशमें इतने प्रदेश हैं.)

४ सूच्यंगुल के (सूच्यंगुल को सूच्यंगुलसे गुणें.) वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं.

५ सूच्यंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं.

६ पल्यकी अर्द्धच्छेद राशाक असंख्यातवे भागको घनांगुल से रास गुणा कर नेसे-१ राजूका प्रमाण होता है. +

७ सात राजूकी एक जगच्छेणी (आधी वसनाल) होती है.

८ जगत्च्छेणी के वर्गको जगत्परतर कहते हैं. और

९ जगत्च्छेणी के घनको लोक कहते हैं. (यही तीनों लोक के आकाश प्रदेशों की संख्या है.)

यह उपमान प्रमाण के ९ भेदों का कथन हुआ.

इतना जरूर ध्यान में रखना कि-१ जहां द्रव्य का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने अलग २ पदार्थ जानना. जहां क्षेत्र का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने प्रदेश

÷पाठको! जरा ध्यान दीजिये, कर्मोंकी स्थिति के लिये कितना जबर प्रमाण दिया गया है!! कर्म बन्ध करना सहज है, परन्तु भोगवते बहुत ही मुशीबत भोगवनी पडतीहै! जरा लक्ष में लीजिये !!!

+ ३११२७२७ इतने मणका-१ लोहेका गोला, ऐसे १००० गोले को भेले करने से १ भार वजन कहते हैं. ऐसा १ भारका गोला कोइ देवता ऊपर से डाले, वो ६ महिने, ६दिन, ६पहर, ६वडीमें जितना क्षेत्र उलंघकर नीचा आवे, उतने क्षेत्रको एक राजू आया कहना.

घनाकार विस्तारमें है। जिसके मध्यमें-१ लक्ष १६००० योजन जाड़ा, और १ राजू लम्बा चौड़ा पृथ्वी पिण्ड है, जिस में एक हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड़ कर बीच में १ लक्ष १४ हजार योजनकी पोलारहे, जिसमें ३ पाथडे, २ आन्तरे, १ कम १ लक्ष नरकावासे में असंख्यात नेरीये हैं-जिनका ३५० धनुष्य शरीर और २२ सागर का आयुष्य है।

जिसपर पांचवी रिष्ठा नरक—पांच राजूकी लम्बी चौड़ी, एक राजू की जाड़ी ३४ राजू घनाकार में है। जिसके मध्य-१ लक्ष १८ हजार योजनका पृथ्वी पिण्ड है, जिस के एक हजार योजन ऊपर एक हजार योजन नीचे छोड़ बीच में १ लक्ष १६ हजार योजन की पोला रहे, जिस में पांच पाथडे, ४ आन्तरे, ३ लक्ष नरकावासे में असंख्यात नेरीये रहते हैं, जिनका १२५ धनुष्य का शरीर, और १८ सागर का आयुष्य है।

जिसपर चौथी अजंना नरक-चार राजू की लम्बी चौड़ी, एक राजूकी उंची-२८ राजू के विस्तार में है। जिसके मध्य में १ लक्ष २० हजार योजनका पिण्ड है, जिसके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड़ के बीच में १० लक्ष १८ हजार योजन की पोलार है, जिसमें ७ पाथडे, ६ आतरे, १० लक्ष नरकावासे असंख्यात नेरीये हैं। जिनोंका ६२॥ धनुष्यका शरीर, और १० सागरोपम का आयुष्य है।

जिसपर तीसरी सीला नरक तीन राजूकी लम्बी चौड़ी एक राजूकी उंची २२ राजू के विस्तार में है। जिसके मध्य में १ लक्ष २८ हजार योजनका पृथ्वी पिण्ड है, एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड़ बीच में १ लक्ष २६ हजार योजनकी पोलार है, जिस में ९ पाथडे ८ आंतरे, १५ लक्ष नरकावासे में असंख्यात नेरीये हैं, जिनके ३१ धनुष्य का शरीर और ७ सागरका आयुष्य है।

जिसपर दूसरी वंसा नरक-दो राजूकी लम्बी चौड़ी, एक राजू की उंची, १६ राजू घनाकार में हैं। जिसके मध्य १ लक्ष, ३२ हजार योजन का पृथ्वी पिण्ड है, जिसके एकेक हजार योजन उपर नीचे छोड़ बीच में-१ लक्ष ३० हजार योजनकी पोलार है, जिसमें-११ पाथडे, १० आन्तरे, २५ लक्ष नरकावासे है में असंख्याते नेरीये हैं। जिनका १५॥ धनुष्य १२ अंगुल का देहमान और ३ सागर का आयुष्य है।

जिसपर पहिली घम्मा नरक-एक राजूकी लम्बी चौड़ी, और १ राजूका उंची, १० राजू घनाकार में है, इसके मध्य १ लक्ष ८० हजार योजन का पृथ्वी पि-

पड है, जिसमे से एकेक हजार योजन ऊपर नीचेका छोडा बीच में १ लक्ष ७८ हजार योजन की पोलाड है, जिसमें १३ पांथडे, १२ आन्तरे ३० लक्ष नरक, वासेमें असंख्यात नेरीये हैं. जिनकी ७॥॥ धनुष्य ६ अंगुल का शरीर, और उत्कृष्ट १ सागर का आयुष्य है.

सातों नरक के-४२ आन्तरमें से प्रथम नरक के १० अन्तर छोड वाकीके सव खाली पडे हैं. और ४१ पांथडे हैं सो सव पोले हैं. जिन में ८४ लक्ष नरकावासे हैं उन में नेरीये रहते हैं.

पहिली नरक के दश अन्तरमें ११ हजार ५ सो ८३ योजन कुछ झाजेरी जगह है. जिसमें १ क्रोड ७१ लक्ष भवन हैं. उन में असंख्यात, भवन पति देवों १० जाति के रहते हैं. जिनका ७ हाथ का शरीर और एक सागरका आयुष्य है.

२ तिरछा लोकका वरणन-एक राजू का लम्बा चौडा गोळ. १८०० योजन का ऊंच १० राजू घनाकार में तिरछा लोक है.

पहिली नरकके उपर जो १००० योजनका पृथ्वी पिणु छोडाहै, उसमें १०० तो योजन नीचे छोडना, जो नीचे लोककी हद्दीमेंही हैं, और १०० योजन उपर छोडना, बीचमें ८०० योजनकी पोलाडमें आठ जातिके व्यन्तर देवोंके असंख्यात नगरेहैं. और उपर १०० योजन छोडे उसमेंके १० योजन उपर छोडना, और १० योजन नीचे छोडना, बीच में ८० योजनकी पोलाड रहे; जिसमे ८ जातिके वाण व्यन्तरके असंख्याते नगरे हैं. नइ दोनों स्थान में रहने वाले देवोंका ७ हाथका शरीर और एक पल्योपमका आयुष्य है.

१० योजनके छोडे हुवे पिण्ड पर समभूमी है, सो एक राजू की लम्बी चौडी गोळ है, इस के बहूतही मध्य भाग में सुदर्शन मेरु पर्वत मलस्थंभ जैसा गोळ नीचे १० हजार योजन चौडा, और कम होता २ उपर शिखरपर १ हजार योजन चौडा रह गया है. और मूल में से शिखरतक १ लक्ष योजन का उंचा है, इस के मूल में समभूमी पर तो-१ भद्रशालवन है, २५०० योजन उपर नंदनवन है, ६२५० योजन उपर सोमानस वन है, और ३६००० योजन उपर पडंग वन है, (यहां तीर्थक-रोंका जन्माभिषेक इन्द्रादि देव करते हैं) इस वनके मध्यमें ४० योजन की उंची चूली का (चोटी जैसी डोंगरी) है.

इस मेरु पर्वत के चारों तरफ चूडीके आकार फिरता हुवा १ लक्ष योजनका लम्बा चौडा गोळ जम्बुद्वीप है. मेरु पर्वत पास पूर्व पश्चिममें महा विदेह क्षेत्र है, जि-

सके १६ विजय पूर्व में, और १६ विजय पश्चिम में मिलके ३२ विजयों है-एकेक विजय २२ सो १२ योजन झाझेरी लम्बी है, ११ हजार ८ सो ४२ योजनकी चौड़ी है, एक महा विदेह के पास बखारापर्व और एक के पास अन्तर नदी होनेसे १६ बखारा पर्वत ५०० योजन चौड़े, और १२ नदी १२५ योजन चौड़ी दोनों विजय प्रमाणों ही लम्बे हैं.

महाविदेह क्षेत्र में २४ वी नलीनावति विजय १००० योजन जमीनमें उतरती हुई उंडी चलीगइ है, इसे अधोगामिनी विजय भी कहते हैं. इस के १०० योजन नीचेके नीचे लोकमें गिन जाते हैं.

महा विदेह के मध्य भाग में पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोदा नामे महानदी है सो १० लक्ष १४ हजार नदीयोंके परिवार समुद्र गइ हैं.

महा विदेह क्षेत्र के मनुष्यों का ५०० धनुष्य का शरीर, और क्रोड पूर्वका आयुष्य सदा चौथा आरा (सत्ययुग) प्रवर्तता है.

मेरु पर्वत के पास दक्षिण में देवकुरु क्षेत्र + और उत्तर में उत्तर कुरु क्षेत्र ११ हजार ८ सो ४२ योजन झाजेरा है, इसमें सदा पहिले आरे जैसी रचना है, युगल मनुष्य होते हैं, तीन गाउ का शरीर तीन पल्योपम का आयुष्य होता है.

देव कुरु क्षेत्र के पास दक्षिण में नीपथ पर्वत और उत्तर कुरु के पास उत्तर में नीलवन्त पर्वत ४०० योजन उँचे, ९४१५६ योजन पूर्व पश्चिम में लम्बे, १६८४२ योजन २ कला ÷ उत्तर दक्षिण में चौड़े हैं.

निपेथ पर्वत के पास दक्षिण में हरीवास क्षेत्र और नीलवन्त पर्वत के पास उत्तर में रम्यक वास क्षेत्र ७२९०१ योजन १७ कला लम्ब, और ८४२१ योजन १ कला चौड़े है. इन में सदा दुसरे आरे जैसी रचना रहती है. यहां के युगलमनुष्यों का दो गाउ का शरीर और दो पल्योपम का आयुष्य होता है.

हरि वास क्षेत्र के पास दक्षिण में महा हेमवन्त पर्वत और रम्यकवास क्षेत्र के

+ देवकुरु क्षेत्र में रत्नोका जम्बु नामक वृक्ष १२ योजन का उंचा है. उसपर अणाढी नाम जम्बु द्वीप का मालक देवता के रहने के भवन है, वहां देवता रहने से इस द्वीप का नाम जम्बुद्वीप कहा जाता है.

÷ १ योजन १२ के भाग करने उसमें के १ भाग को १ कला कहते हैं.

पास उत्तर में रूपी पर्वत-२०० योजन उंचा, ५४१२९ योजन १६ कला लम्बा, ४२१० योजन १० कला चौड़ा है.

महा हेमवन्त पर्वत के पास दक्षिण में हेमवय क्षेत्र और रूपी पर्वतके पास दक्षिण में एरणवय क्षेत्र ३७६७७४ योजन १६ कला लम्बा, और २१५५ योजन ५ कला चौड़ा है. इसमें तीसरे आरेकी रचना सदा रहती है, यहांके युगल मनुष्योंका १ गाड़का शरीर, और १ पल्योपम का आयुष्य होता है.

हेमवय क्षेत्र के पास दक्षिण में चूल हेम पर्वत और एरणवय क्षेत्रके पास उत्तर में शिखरी पर्वत-१०० योजन उंचा, २४९२५ योजन लम्बा, और ११५२ योजन १२ कला चौड़ा है.

चूल हेम पर्वत के पास दक्षिणमें भरत क्षेत्र और शिखरी पर्वत के पास उत्तरमें एरावत क्षेत्र-१४४७१ योजन लम्बा, ५२६ योजन ६ कला चौड़ा है, इसमें ६ आरे सर्पिणी कालके मुलटे और ६ आरे उत्सर्पिणी काल के उलटे सदा वारे सिर पर्वत ते हैं. जिस में शरीर और आयुष्य आरा प्रमाणें होता है.

इन भरत एरावत क्षेत्र के मध्य बीच में वेताड पर्वत १०७२० योजन १२ कला लम्बा, ५० योजन चौड़ा, और २५ योजनका उंचा है, इस पर्वतपर १० योजन जावे वहां १० योजन चौड़ी पर्वत जितनी लम्बी दो श्रेणियो (बरोबर जगह) है. वहां दक्षिण में ५० और उत्तर में ६० नगर है, जिसमें विद्याधर मनुष्य रहते हैं; इसके उपर और भी दश योजन जावे वहां दो श्रेणियों है. उस में १० जाति के विष्णु-मक देवता रहते हैं. इस पर्वत में नीचे जमीनपर तमस और खन्ड प्राप्त नामक दो गुफा १२ योजन चौड़ी और पर्वत जितनी लम्बी है, (इस में सचक्रवर्ति राजा खन्ड साधने को आते जाते हैं-

जम्बु द्वीपके चौगिरदा जगति (कोट) ३१६२२७ योजन ३ गाड १२८ धनुष्य १३॥ अंगुल झाजेरा घेराव लिये हैं.

इस जगति के पास बाहिर चौगिरदा फिरता गोल चूडी जैसा २ लक्ष योजन का चौड़ा लवण समुद्र है. यह किनोरपर बालाग्र जितना उंडा है, और बढते २ मध्य ९५ हजार योजन जावे वहां १ हजार योजन उंडा है.

जम्बु द्वीप में रहे चूलहेम शिखरी पर्वत के चारों छेडों से आठ दाडों (डोंगरी यों) निकल कर लवण समुद्र में ८४००० योजन लम्बी गड़ है, उन एकेक दाडों पर

५६ द्वीपे हैं। इनपर युगल मनुष्य रहते हैं, उनका ८०० मनुष्यका शरीर ऊंचा, और पल्यके असंख्यातवे भाग आयुष्य है।

लवण समुद्र के मध्य में चारों दिशा में बडवा, युग, केतु और इश्वर नाम के चार पातल कळशे १ लक्ष होजन उंडे, बीच में ५० हजार योजन चौड़े, मुख और तला १ हजार योजनका चौड़ा, वायुका, पाणी वायु मिश्रित, और पाणी का, ऐसे ३ कान्ड युक्त, दूसरे ७८८४ छोटे कळशके परिवारसे है।

लवण समुद्र के मध्य में १६ हजार योजन उंचा और १० हजार योजन चौड़ा चारों तरफ फिरता पाणी का डगमाला (दग) है। गौतम द्वीपा, वेलन्धरके द्वीपा याद्र सूर्यक द्वीप आदि हैं।

लवण समुद्र के चारों तरफ फिरता बलियाकार धातकी खण्ड द्वीप चार लक्ष योजनका चौड़ा है। इसके मध्य दक्षिण और उत्तर में दो इषुकार पर्वत ५०० योजन उंचे, और धातकी खण्ड जितने लम्बे पडने से पूर्व धात की खण्ड और पश्चिम धात की खण्ड ऐसे दो विभाग होगये हैं। एकेक धातकी खण्ड में जबुद्वीप में कहे मुद्गव सब पदार्थ—क्षेत्रों पर्वतों नदियों वगैरा है। दोनो धातकी खण्ड में दो मेरु पर्वत और सब जबुद्वीप से दुगने पदार्थ हैं।

धातकी खण्ड के चारों तरफ बलिया कार ८ लक्ष योजन का कालोदधी समुद्र है, यह इस किनारे से उस किनारे तक एकसा हजार योजन का ऊंडा है।

कालोदधीसमुद्र के चारों तरफ बलियाकार पुष्करार्थ द्वीप १६ लक्ष योजन का चौड़ा है, इसके मध्यबीच में बलिया कार चौतरफ फिरता मनुषोत्तर पर्वत १९२१ योजनका उंचा है, इसके अन्दरही मनुष्यों की बस्ती है, धात की खण्डद्वीप की तरह इस में भी दो मेरु पर्वत और क्षेत्र पर्वत नदी वगैरा सर्व वस्तु है। इस अडाइ द्वीप मनुषोत्तर पर्वत के बाहिर के पुष्करार्थ द्वीप में व आगे मनुष्यों की उत्पत्ति बस्ती, वादर अग्नि, नदी, द्रह, बदल, विजली, गर्जारव, बर्षादि, खड्डे, दुष्कालादि नहीं हैं। फक्त देवता और तिर्यचो रहते हैं।

पुष्कर द्वीपे के चौतरफ बलियाकार पुष्कर समुद्र ३२ लक्ष योजन का है, जिसके चौफेर वारुणी द्वीप ६४ लक्ष योजनका, जिसके चौफेर वारुणी समुद्र (मदीरा जैसा पाणी वाला) १२८ योजन. यों आगे एकेक से दुगुणे-क्षीर द्वीप, क्षीर समुद्र, घृत द्वीप, घृत समुद्र, इक्षु द्वीप, इक्षु समुद्र, नदीश्वर द्वीप, नदीश्वर समुद्र, आदि अ-

संख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, अन्तिम सयंभु रमण समुद्र एकही अर्ध राजू प्रमाण चौड़ा है, उस के आगे १२ योजन अलोक है।

मेरु पर्वत के पास सम भूमी से ऊपर ७९० योजन तारा मंडल है उसपर १० योजन सूर्य है, उसपर ८० योजन चंद्रमा है. उपर ४ योजन नक्षत्र माला, उपर ४ योजन ग्रह माला, उपर ४ योजन बुद्ध, उपर तीन योजन शुक, उपर तीन योजन वृ-हस्पति, उपर तीन योजन मंगल, उपर तीन योजन शनी, यों १.१० योजन में जो-तिपी चक्र हैं.

उंचा लोकका वरणनः—शनिश्वर के विमान से १॥ राजू उपर, १.२॥ राजू के विस्तार में जम्बु द्वीप के मेरु से दक्षिण की तरफ तो पहिला सुधर्मा देवलोक १.३ प्रतर ३२ लक्ष विमानों असंख्यात देव युक्त है. और उत्तर में ईशाण देवलोक १.३ प्रतर २८ लक्ष विमान, असंख्यात देव युक्त है. दोनों देवलोक के देवताओंका ७ हाथ का शरीर, और २ सागरोपम का आयुष्य है.

इन दोनों देवलोक की हृद के उपर-१ राजू उंचास में और १.६॥ राजू घना-कार में मेरु से दक्षिण में तीसरा 'सनत्कुमार' देवलोक चार प्रतर, और १२ लक्ष विमान, उत्तर में चौथा महेंद्र देवलोक १.२ प्रतर, ८ लक्ष विमान, असंख्यात देव युक्त है. दोनों देवलोकोंके देवका ६ हाथका शरीर, और सागरोपम का आयुष्य है.

इन दोनों देव लोककी हृद से आधा राजू उपर, २० राजू घनाकार में मेरु-पर बरोबर पांचवा देवलोक ६ प्रतर, और ४ लक्ष विमान में असंख्यात देवों ५ हाथ का शरीर और १० सागर के आयु वाले रहते हैं.

पांचवे देवलोक की तीसरी अरिष्ट प्रतर के पास, दक्षिण दिशा में आठ कु-प्प राजी पृथ्वी परिणाम रूप ग्याम वर्ण की है, जिस में आठ विधान आठों दिशी में और एक विमान मध्य में यों ९ विमानों में, ९ लोकान्तिक देव २०७०० देवोंके परिवार से, ५ हाथका शरीर और "लोकान्तिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्" इस सूत्रानुसार-सर्व देवोंका आठ सागरोपम का आयुष्य है. (यह सथिकरोंको दिक्षा के अवसर में चेताते हैं.)

पांचवे देवलोक के उपर बरोबर अद्रा राजू उंचा, और १.८॥ राजू के विस्ता-

+ घर में मजल होती है. तैसे-देवलोकों में मजलों है उसे प्रतर कहते हैं:

र में छद्दा 'लान्तक देव लोक' ५ प्रतर और १० हजार विमान में असंख्यात देवों ५ हाथ शरीर और १४ सागर आयुवाले रहते हैं.

छठे देवलोक के पाव राजू उपर वरोवर सातवा महा शुक्र देवलोक ७ राजू घनाकार में ४ प्रतर ४० हजार विमान असंख्यात देवों ४ हाथका शरीर, और १७ सागर आयुवाले रहते हैं.

सातवे देवलोक के पाव राजू उपर वरोवर आठवा सहसार देवलोक ७ राजू घनाकार में चार प्रतर और ६ हजार विमान में असंख्यात देवों चार हाथ का शरीर और १८ सागर आयुवाले रहते हैं.

आठवे देवलोक के उपर पाव राजू दक्षिण में नववा आण देवलोक, और उत्तर में दशवा पाण देवलोक १२॥ राजू घनाकार में दोनों के चार प्रतरों और चारसो २ विमाणों में असंख्यात देवताओं तीन हाथ का शरीर, और नववे में १९ सागर, दशवे में २० सागर आयुवाले रहते हैं.

इन दोनों देवलोक के उपर आधा राजू दक्षिण में इग्यारवा अरण देवलोक और उत्तर में बारवा अचुत देवलोक १०॥ राजू घनाकार में चार २ प्रतरों के तीनसो २ विमाणों में असंख्यात देवों ३ हाथ का शरीर और २२ सागरोपम का आयुष्य वाले रहते हैं.

यहांतक के देवलोकों को कल्प कहते हैं, इन्हीं में-इन्द्र सामानीक, लोकपाल, वायुनिशक, आत्मरक्ष, परिपद, अनिका, आदि अनेक प्रकारके देवों हैं. वो इन्द्रकी आज्ञा प्रमाणे चलते हैं. और आगे सब कल्पातीत-अहमेन्द्र देव हैं.

इन दोनों देवलोकोंके उपर १ राजू एकके उपर एक-भदे, मुभदे सृजाय, सुमान से, सुदंशण, पियदंशण, अमोए, पडीभद और जसोधर, यह नवग्रीविक के ३१८ विमाण आठ राजू घनाकारमें हैं, इनमें देवोंका २ हाथका शरीर पहिली ग्रीविक में २३ सागर आगे एकेक सागर बढ़ता २ नववी ग्रीविक में ३१ सागर का आयुष्य है.

नवग्रीविक से एक राजू उपर विजय विजयन्त जयन्त अपराजित यह चारों विमान तो चारों दिशा में हैं, और सर्वार्थ सिद्ध विमान इन चारों के मध्य में, यों पांचों अनुत्तर विमान ६॥ राजू घनाकार में हैं. इन में देवों का एक हाथ का शरीर, और ३३ सागर का आयुष्य है.

सर्वार्थ सिद्ध से १२ योजन उपर सिद्ध शीला सीधे छवकों संस्थान में श्वेत सु

वर्ण की ४५ लक्ष योजन की लम्बी चौड़ी गोळ है.

सिद्ध शिळा के उपर सिद्ध क्षेत्र एक योजन उपर और सब ११ राजू के विस्तार में है. यहां उपर के ३३३ धनुष्य ३२ अंगुल जितने जाडे और ४५ लक्ष योजन जितने लम्बे चौडे स्थान में अनन्त सिद्ध भगवन्व परमात्म हैं. उन सर्वों का सिर आलोक से लगा है. यह संक्षेप में लोकालोक का वर्णन समाप्त हुवा.

काल प्रमाण द्वारका खुलासातो पीछे कहे प्रमाण बोधसे जाणना. बाकी के आगे कहे सब द्वारोंका खुलासा मूल मुद्गवही जाणना. तथा उपरोक्त द्वारोंके खुलासे से जाणना.


परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के बालब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज रचित मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अष्टाशतद्वारी प्रथम अर्थ काण्ड का मूल द्वारा रोहण का अर्थ नामक





ॐ नमः

* द्वितीय-कर्म द्वारा रोहण खण्ड. *



प्रथम मूल द्वारा रोहण खंडमें गुणस्थाना रोहणकी विधी विविध द्वारों कर बता-इ, सो गुणस्थानारोहण तो कर्मों की हीनता से होता है. अर्थात् ज्यों ज्यों कर्मदल आत्म प्रदेशसे पतले पडते जातेहैं-झडते जातेहैं, त्यों त्यों आत्म लाघवत्व (हलके पने) को प्राप्त हो उंचते उंच दिशाको प्राप्त करतीहै, सोही गुणस्थानारोहण जाणना. इसलिये गुणस्थानारोहण-गुण वृद्धि के इच्छकों को कर्मोंको पतले करने उनके स्वरूप का जान जरूरही होना चाहिये. और इसलिये ही कर्मा रोहण खण्ड कहते हैं.

जैसे मट्टीका सुवर्ण का अनादि सान्त सम्बन्ध है, तैसे ही जीवका और कर्म का अनादि सान्त सम्बन्ध है, वो कर्म सामान्य प्रकार से तो एकही ओर विशेष पनेसे (१) जो कर्म पुद्गलोंका पिण्ड सो द्रव्य कर्म, और (२) कार्य में कारण का व्यवहार होने से उन पुद्गलोंके द्रव्य में फल देने की शक्ति उस से उत्पन्न हुवा अनादि परिणात्र सो भाव कर्म, तथा-(१) ज्ञानादि आत्मा के गुणों का घात करे सो घातिक कर्म, और (२) जो पुद्गल प्रणति रूप आत्मा के साथ परिण में परन्तु गुणों की घात नहीं करे सो अघातिक कर्म. ऐसे दो भेद भी होते हैं. और घातिक कर्म के ४ भेद, तथा अघातिके भी चार भेद, दोनों मिलकर ८ भेद भी होते हैं. इन की १४८ प्रकृतियों हैं, इसलिये १४८ भेदभी होते हैं. असंख्यात लोक व्यापि कर्म पुद्गलों होने से असंख्यात भेद, कर्म पुद्गलोंके स्कन्ध अनन्त होनेसे अनन्त भेद, और

जगत में अनन्त जीवों हैं, एकेक जीव अनन्त कर्म पुद्गल की वर्गणा कर घेरा हुवा है इसलिये अनन्तानन्त भी कर्मोंके भेद होते हैं.

यहां मुख्यत्व ८ कर्मोंकी १४८ प्रकृतियों कहते हैं.

इह नाण दंसण वरण । वेअ मोहाउ नाम गोआणी ।

विग्घं च पण नव दु। अठवीस चउ तिसय पण विहं। गोमठसार

अर्थ—१. ज्ञानावरणीय कर्म की ५ प्रकृति, २ दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रकृति, ३ वेदनीय कर्म की २ प्रकृति, ४ मोहनीय कर्म की २८ प्रकृति, ५ आयुष्व कर्म की ४ प्रकृति, ६ नाम कर्म की १३ प्रकृति, ७ गौत्र कर्म की २ प्रकृति, और ८ अन्तराय कर्म की ५ प्रकृति. यों ८ कर्मों की १४८ प्रकृतियों होती है. इन सबोंका खुलासे वार आगे वरण करतें हैं:—

ज्ञानावरणीय कर्म.

जिसमें वस्तु का स्वरूप जाना जावे सो 'ज्ञान' यह आत्मा का निजगुण है, सब गुणोंमें अन्वल दर्जे का गुण है, इसलिये यह पूज्य होनेसे प्रथम ग्रहण किया है, जीव रूप लोकालोक प्रकाशी सूर्य को केवल ज्ञानावरणीय रूप बढ़लोंने ढका है, तो भी अक्षर का अनन्तवा भाग सब जीवों के उघाडा रहता है; + वो बढ़लों पतले पढते हैं त्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तैसेही ज्ञानाभरण कम होने से मति श्रुति आदि ज्ञान प्रगटता है, और बढ़लों जाडे होनेसे सूर्यका तेज आवरता-कमी षडता है, तैसे ही ज्ञानाभरण से पंचज्ञान की मन्दता होती है. सोही ज्ञानावरणीय की ५ प्रकृति.

१. 'मति ज्ञानावरणीय'—पांचों इन्द्रिय और मन कर जो भाव जानने में आवे सो मति ज्ञान. इसके दो भेद:—(१) व्यंजनावग्रह और (२) अर्थाव ग्रह. व्यंजे=प्र-

+ यहां श्रुत केवल ज्ञान साधारण पर्यावाक्षर लेना. जिसलिये अभिधेय वस्तु धर्म सो स्वपर्याय है, और अनाभिधेय वस्तु धर्म सो पर पर्याय है, और केवल ज्ञानकातो अनाभिधेय-अभिधेय दोनों पर्याय हैं, यों दोनों ज्ञान के पर्याय एक से होते हैं, सो पर्यावाक्षर, उस का अनन्तवा भाग उच्छ्रुत तो श्रुत केवली के होता है, और जवन्य भाग निगोद में जीवोंके आहार सजादि चेतना रूप होता है. जो कमी इतना ढक जाय तो जीव चैतन्य पणाके अभाव से अर्जाव कहवाने लगनाता परन्तु ऐसा होताही नहीं है.

काशे+अवग्रह-मिलकर. अर्थात्-जिन इन्द्रियों का ज्ञान दूसरे पदार्थ को मिलकर, आप में उसे प्रणमा कर फिर उसका स्वरूप ग्रह-जाने उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं. यह अवग्रह-श्रोत, घ्राण, रस और स्पर्श, इन चारों इन्द्रिय से होता है, क्योंकि इन चारों इन्द्रियोंके विषय पदार्थ शब्द गन्ध रस और स्पर्श, आकर इन्द्रियों को लगते हैं, तबही वो उनके गुणको समझती है. और चक्षु इन्द्रिय तथा मन इन से यह अवग्रह नहीं होता है, क्योंकि-यह दोनोंही अपने से दूर रहे हुवे विषय रूप-रंग को और अन्य के भाव को ग्रहण करते हैं. जो कभी यह विषय को स्पर्श के ग्रहण करतो अग्नि देख मस्म होजावे, और काँचकी सीसीमें छिद्र होजावे, वगैरा-इसलिये दोनोंके व्यंजनावग्रह नहीं है, बाकी की चारों इन्द्रियोंकेही है. सोही व्यंजनावग्रह के चार भेद कहे जाते हैं. इसकी स्थिति-जवन्व्य आवलिका के असंख्यातवै भाग की, उत्कृष्ट पृथक्त्व श्वास प्रमाणें-तीसरे मिश्र गुणस्थान जितनी जाणना. (२) 'अर्थावग्रह' जो पदार्थोंका अर्थ=मतलब का अवग्रह-ग्रहण करेसो, इस के ४ प्रकार हैं:- (१) पाँचों इन्द्रिय और मन के विषय! जव अपने २ स्थान को प्राप्त होते वो उन्हे ग्रहण करे अव्यक्त ज्ञान से सो-'अवग्रह' इसकी स्थिति-एक समयकी, (२) अव्यक्त पने ग्रहण किये छेही विषयों का निर्णय करने विचार करे कि यह क्या है? सो 'ईहा', इसकी स्थिति अन्तर मुहूर्त की, (३) विचार ते पूर्ण निश्चयात्म बनजावे कि-यह येही है, ÷ सो 'अपाय.' इसकी स्थिति अन्तर मूहूर्त की, (४) और उस निश्चय किये अर्थ को, वासना संस्कार पूर्वक बहुत कालन्तर तक धार रक्खे, दुसरी उसके जैसी वस्तु देखने से सुनने से उसका ज्ञान हो आवेसो 'धारणा.' इसकी स्थिति असंख्याते कालकी, क्योंकि-जाति स्मरण ज्ञान भी इस धारणाके पेटेमें है. × यों इन अर्थाव ग्रहे के चारों भेदोंको पाँचों इन्द्रिय और छद्म मन से ६ गुना करने से २४ भेद होते हैं, और उपरोक्त व्यंजनावग्रहके ४ भेद इस में मिलाने से २८ भेद मति ज्ञान के होते हैं:-

२ श्रुति ज्ञान-से अक्षर जाने इसके १४ भेद:

÷ यह निर्णय-निश्चय छत्ते धर्म से सो सन्यग ज्ञान, और अच्छे धर्म का करे सो मिध्या ज्ञान है.

× जाति स्मरण ज्ञान से पिछले ९०० भव जो सन्नी के लगोलग किये होवैतो देख सकता है, बीच में असात्रिका भव हुवा हो वहांसेही आगे दिखना बन्ध होजाताहै.

(१) अक्षरश्रुत-पत्रादि पर लिखे सो-‘सज्ञाक्षर,’ मुखसे उच्चारन करेसो ‘व्य-जनाक्षर,’ यह दोनों द्रव्य श्रुत. और इन से अर्थात् पढकर-देखकर, या सुनकर इन्द्रियावरण की क्षयोपशम लब्धिद्वारा अनाभिदेय पदार्थ के अनन्तवे भाग अभिधेय पदार्थ को जाने सो-‘लब्धाक्षर,’ यह भाव श्रुत. इन तीनों प्रकारके अक्षरों को जाने सो अक्षर श्रुत.

(२) ‘अनक्षर श्रुत’-अक्षर के उच्चार विना खँसी छींक डकार वगाधी आदि किसी भी चेष्टासे मतलब समझे सो अनक्षर श्रुत.

(३) ‘सज्ञीश्रुत’-विचारे, निर्णय करे, समुचय अर्थ करे, विशेष अर्थ, चिन्तवे और निश्चय करे, यहद्वोल सज्ञी में पातेहैं, इनद्वोल सहित सूत्र धारेसो सज्ञीश्रुत

(४) ‘असज्ञी श्रुत’ ऊपरोक्त द्वाोल विना पूर्वापर अलोचविना पढे पढावे सुने सुनावे सो असज्ञी श्रुत.

(५) ‘सम्यग श्रुत’—सर्वज्ञ या दश पूर्वतक पाढे हुवेके वचनोको या कथित सूत्र ग्रन्थोंको यथा तथ्य श्रद्धे सो सम्यग श्रुत ÷

(६) ‘मिथ्याश्रुत’-अज्ञानता से मन कल्पित कथनया करे रचे हुवे काम शास्त्रा जोतिष वेदके आदि पाप शास्त्र हैं सो मिथ्याश्रुत.

(७-१०) सादि, अनादि, शान्त, और अनन्त, इनो चारों श्रुतका अर्थ, द्रव्य क्षेत्र, काल, और भाव कर बताते हैं:- (१) द्रव्य से कोई जीव मिथ्यात्व को छोड सम्यक्त्व में आया तब श्रुत ज्ञान की आदि हुइ, और पडवाइ हो पीछा मिथ्यात्व में गया तब अन्त हुवा, तथा केवल ज्ञान पाया तब अन्त हुवा. और बहुत जीवों आश्रिय अनादि अनन्त है, क्योंकि ऐसा वक्त कदापि नहीं था और न होगा कि जब श्रुत ज्ञान तथा और न रहेगा. (२) क्षेत्रसे-भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थ की प्रवृत्ति होवे तब श्रुत की आदि होवे, और तीर्थ का व्यच्छेद होवे तब श्रुतका अन्त होवे. और महा विदेह आश्रिय अनादि अनन्त है. (३) कालसे-उत्सर्पिणी अवसर्पिण काल से तीसरे आरे के अन्त तथा आदि में श्रुतकी आदि होती है, और छेड़ आरे की आदि में

÷ यथार्थ जानने के सत्र से सम्यग दृष्टि को मिथ्याश्रुत भी सम्यगश्रुत हो परगम जाता है. और कदाप्रही होनेके सत्र से मिथ्यादृष्टि को सम्यगश्रुत भी मिथ्याश्रुत हो परणम जाता है.

श्रुतका व्यच्छेद होता है. और (४) भाव से भव्य जीवों श्रुतकी प्राप्ति करे तब आदि होवे, और केवल ज्ञान पावे तब अन्त होवे. और अभव्य के श्रुति अज्ञान हैसो अनादि अनंत है.

- (१.१) 'गमीश्रुत' द्रष्टी ऋद की माफिक लड बंध पाठ होवे सो गमी श्रुत.
- (१.२) 'अगमी श्रुत'—एकादशांगी तरह आगे पीछे पाठ होवे सो अगमी श्रुत.
- (१.३) अंगपविठ श्रुत सो-आचाराङ्ग आदि शास्त्र.
- (१.४) अंगघाहिर श्रुतसो-दक्षवैकालिकादि शास्त्र.

मतिज्ञान से श्रुतिज्ञान भिन्न होने के कारणः—(१) मतिज्ञान श्रुतिज्ञान का कारण है. और भाव श्रुतज्ञान कार्य है. (२) मतिज्ञान निरक्षर है श्रुतिज्ञा साक्षर है.(३) मति ज्ञान—अभापक मुक्काहै. श्रुतिज्ञान भापक है. (४)और "श्रुति मति पूर्वक" इसतत्त्वार्थसूत्रानुसार-मतिज्ञान हुवे बादही श्रुतिज्ञान होताहै. इसालिये श्वामि, विषय, प्रमाण परोक्षता, और सधर्म के वास्ते पहिले मतिज्ञान कह कर फिर श्रुतज्ञान कहाहै.

मति श्रुतिज्ञान का सम्बन्धः—(१) मति और श्रुति इन दोनों ज्ञान का क्षीर नीर की तरह सम्बन्ध है. (२) मति श्रुतिज्ञान विना कोइ भी जीव नहीं है. सम्यग दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान कहते है, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं. उत्कृष्ट मति श्रुति ज्ञानी सर्व-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का जानने से श्रुतकेवली कहातेहैं. ऐसे जो श्रुतज्ञान है उस ढके प्रकाशने नहीं देसो श्रुताज्ञाना वरणीय.

(३) अवाधि ज्ञान-मर्याद युक्त रूपी पदार्थ जाने इसके ८ भेदः—

(१) भेदः—अवाधि ज्ञान दो तरह से होवे, (१) नरक स्वर्ग में और तीर्थ करों को स्वभावसे जन्म से ही होता है, (२) न्यय मनुष्य या तिर्यचके क्षयोपशम करणी करने से होता है,

(२) 'विषय'—नरकके जीवो जघन्य आधाकोश उत्कृष्ट ४ कोश अवाधि ज्ञान से देखे. देवताओं संख्यात वर्षाद्युवाले २५ योजन, पल्योपम के आयुष्य वाले-संख्या त द्वीप समुद्र, और सागरोपम आयुष्यवाले-असंख्यात द्वीप समुद्र देखे-तिर्यच जघन्य अंगुलके असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट असंख्यात द्वीप समुद्र देखे, मनुष्य जघन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट सम्पूर्ण लोक और लोक जैसे अलोक में असंख्यात खण्ड देखे *

* अलोक में अवधी ज्ञान से देखने जैसा पदार्थ तो हेही नही फक्त सत्ता बताइ है.

(३) 'संठाण'—नरक-त्रिपाई के, भवनपति-पाला के, व्यन्तर-पडह के, जोति-पी-झालरके, देवलोकके देव-मृदंग के, ग्रीवकेके देव-फूलचंगेरीके, अनुत्तर विमान के देव-कंचुकीके, और मनुष्य तिर्यंच जालीके आकार से नानाप्रकारसे देखते हैं.

(४) 'वाह्यभ्यन्तर'—नरक देव के अभ्यन्तर अवधी ज्ञान, तिर्यंच के बाह्य अ-वाधि ज्ञान, मनुष्यके-वाह्य अभ्यन्तर दोनों तरह का अवाधि ज्ञान.

(५) 'अणुगामी-अणुगामी'—जो आँखों की तरह जहां जावे वहां साथ रहे, और चारों तरफ देखे सो अणुगामी अवाधि ज्ञान. यह चारों ही गति के जीवों को होता है. और जो स्थापित-दीनेके जैसा उत्पन्न होवे उसी स्थान से या हरेक एक दे दिशीमें विक्रम से देखे सो अणुगामी अवाधिज्ञान, यह मनुष्य तिर्यंच दोनों गति में होता है.

(६) 'देशसे सर्वसे'—जो मर्याद सहित देखे सो देशसे. और सर्वलोक तथा कु-छ अलोक देखे सो सर्वसे. नरक देव तिर्यंच के देशसे अवाधिज्ञान. मनुष्य के देशसे सर्व से दोनों तरहका अवाधिज्ञान.

(७) हायमान वृद्धमान अवस्थितः—परिणामोंकी संक्षेपता कर घटता जाय सो 'हायमान,' विशुद्धता कर बढ़ता जाय सो वृद्धमान, मध्यस्ताकर उपजे उतनाही बना रहे सो 'अवस्थित,' नरक देव के अवस्थित अवाधिज्ञान, और मनुष्य तिर्यंचके दोनों तरहका.

(८) 'पडवाइ अपडवाइ'—जो उपजकर चलाजावे सो पडवाइ, और जन्मान्ततक या आगेके भवों तक बना रहे सो अपडवाइ, नरक देव के अपडवाइ, मनुष्य तिर्यंच के पडवाइ अपडवाइ दोनों तरहका.

अवाधि ज्ञानी—(१) द्रव्य से जघन्य अनन्त में भाग रूपी द्रव्यको जाने-देखे, उत्कृष्ट-सर्व रूप द्रव्य जाने. एकेक प्रमाणुओं चडते अनन्त द्रव्यों हैं, यों द्रव्यविधि के अनन्त भेद होते हैं. (२) क्षेत्र से जघन्य अंगुलके असंख्यातवे भाग क्षेत्र से लगा कर प्रदेशाधिक होते उत्कृष्ट संपूर्ण लोक और लोक जैसे अलोक में असंख्यात खंड वे देखे-यों क्षेत्रसे असंख्यात भेद होते हैं. (३) कालसे-जघन्य आंवलीका के, असं-ख्यातवे भाग से समयाधिक होकर उत्कृष्ट अतीत अनागत असंख्यात काल चक्रतक जाने यों, कालसे भी असंख्यात भेद होते हैं. और (४) भाव से-जघन्य अनन्त भाव उत्कृष्ट अनंत भावोंको जाने, यों भाव से अनंत भेद ऐसे अवाधि ज्ञान का आवरण—

ढक्कन करे सो अवधि ज्ञानावरणी.

४ मनः पर्यव ज्ञानावरणीय के दो भेद-१. ऋजुमति और विपुलमति (१) ऋजुमति सो-सामान्य पणे, स्थूल पणे इसने घटलाने का चिन्तवन किया ऐसा मनोगत भाव जाने, (२) विपुलमति-विस्तीर्ण पने बहुत पर्याय सहित जाने, जैसे इसने घटलाने का तो चिंत वन किया है, परंतु-अमुक धातुका अमुक-वर्णका आकारका परिमाणका वगैरा सब विस्तार से जाने.

मनः पर्यव ज्ञानी-(१) द्रव्यसे-ऋजुमति मनो वर्गणा के अनंत द्रव्य को जाने. उस से विपुलमति बहुत प्रदेश के अति सूक्ष्म मनो द्रव्य को जाने. (२) क्षेत्र से-तिरछा अढाइ द्विपतक, उंचा जोतिषीके उपर के तले तक, नीचे उंडी विजय- रत्न प्रभा पृथ्वी के खुलक प्रतर तक, यों १८०० योजन में रहे सन्नि पचेन्द्रिय के मनोगत भाव को जाणे, विपुलमति-इस से अढाइ अंगुल क्षेत्र अधिक और विशुद्ध पणे जाणे. (३) कालसे-ऋजुमति वाला पल्योपम के असंख्यातवे भाग अतीत अनागत में चिन्तवन किये व करेगा उले जाने. विपुलमति वाला कुछ अधिक जाने. और (४) भावसे ऋजुमति चिन्तवन किये हुवे असंख्यात पर्याय को जाने, विपुलमति कुछ विशेष जाने. ऐसे मनः पर्यव ज्ञान का जो आवरण करे सो मन पर्यव ज्ञानावरणी.

५ केवल ज्ञान-इसका एकही भेद है. केवल ज्ञानी-(१) द्रव्य से रूपी अरूपी सर्व द्रव्य को जाने, (२) क्षेत्र से-लोकालोक का सब क्षेत्र जाने. (३) कालसे-सर्वाद्वा विषय जाने. और (४) भाव से-सब गुण पर्याय विषय है. एक रूप-शुद्ध-निरुपाधी-अप्रतिपाति-शुद्धात्म सम्पूर्ण गुण-सर्व विशेष प्रकाश रूप सो केवल ज्ञान. इसका आवरण-ढक्कन करे सो केवल ज्ञानावरणीय.

यों पांचों ज्ञान को आवरण करने वाली ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृति.

२ दर्शनावरणायि कर्म.

अवल ज्ञान हुवे से तुर्त ही दर्शन होता है, अर्थात्-ज्ञानको साकर उपयोग क इ है सो पदार्थों का आकर जानने वाला विशेष रूप सो ज्ञान, और जो सामान्य निराकारोपयोग रूप वस्तुका अवबोध जाति गुण क्रियादि विशेषण रहित धर्मीमात्र विषय करे, सो निर्विकल्प रूप अवबोध उसे दर्शन कहते हैं. जैसे आँखपर पट्टा बान्धने

से किसीभी वस्तुको देख सकता नहीं है और उस पट्टे में छिद्र होने से कुछ प्रतिभा-
प होता है, और सर्वथा पट्टा दूर होनेसे पुर्ण प्रकाश होता है, त्यों दर्शनके भी चार
प्रकार होते हैं.—(१) आँखों से पटादि पदार्थ का सामान्य रूप देखा जावे सो चक्षु
दर्शन, उसे नहीं देखने देवेसो चक्षु दर्शनावरणीय. (२) आँखोविना चारों इन्द्रियों से
तथा मन से जो शब्दादि अर्थ का सामान्य बोध होता है. तथा परभव से आते हुवे
रस्ते में द्रव्येन्द्रिय की सहायता विना जो बोध होवेसो अचक्षु दर्शन. इसका जो आ-
वरण-ढक्कन करे सो अचक्षु दर्शनावरणीय, (३) द्रव्यादि की मर्याद सहित जो रूपी
पदार्थों हैं, उनको देखे सो अवधि दर्शन. इसका आवरण करे सो अवधि दर्शनावरणी
य, (४) सर्व द्रव्योंका सामान्यंश का बोध होवेसो केवल दर्शन-इसका-निरुध्दन-आव-
रण करे सो केवल दर्शनावरणीय.+

और निद्रासे सर्व दर्शनोंका घात होनेके सबवसे निद्राको भी दर्शनावरणीयका
उदय कहा जाता है, और कर्मों की मन्दता कर शब्दादि से जाग्रत होता है. प्रवल्-
ता कर मुर्छित होता है इस कारण से निद्राके पांच भेद कहे हैं. (१) जो यद स्रेद
आदि दूर करने सोचना. सोवतेही तुर्त निद्राका आना, शब्द मात्र से तुर्त जाग जाना,
उंसे 'निद्रा' कहते हैं. (२) जो लोट पलोट आदि अनेक दुःख से आवे, बुलन्द आ-
वाज शरीर घुणघुणादि अनेक दुःख से जागावे तो भी मुशकिल से आँख उघडे,
सो 'निद्रा निद्रा' (३) उभे २ बैठे २ निद्रासे झोके, खावे कुत्ते की
तरह निद्रा में अंगका वचन का चलन होवे सो 'प्रचला ;—(४) अत्यन्त
चिन्तासे नशे से निद्रा के वश विलकूल वे सावधानी रहे, अंगपछाडे या घोडे
की तरह रस्ते चलता उंवे x सो प्रचला प्रचला, ५ जो—(१) निद्राके अ-
व्वल चिन्तवन किया कार्य निद्रायें करे सो 'धीनद्वी' निद्रा. (२) स्त्यान=एकस्थान+
गृह्ण=लुब्ध होना, अर्थात्—आत्माकी ऋद्धिको एक स्थान रोक अचेत वनादेना सो

+ मनके विषय चिन्तवन किया द्रव्य विशेष रूप होता है इसलिये मनः पर्यव ज्ञान
का दर्शन नहीं कहहै. और श्रुतिज्ञान मातज्ञान पूर्वक होता है इसलिये मातज्ञानके चक्षु और
अचक्षु दो दर्शन कहे हैं.

x कहते हैंकि—घोडा दो स्थान जागता है एकतो दाणा खाते कंकर दांत नीचे आवे तत्र और
संग्राम होवे तत्र.

‘स्त्यान गृद्ध’ निद्रा. इस निद्रा में अर्थ चक्रवर्ति का बल प्राप्त होता है, * जो इस निद्रा में मरेतो नरक गति ही होती है.

यह ४ दर्शन और ५ निद्रा मिल दर्शनावरणीय कर्म की ९ प्रकृति हुई.

३ वेदनीय कर्म.

उपरोक्त ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के तीव्र आभरण के उदयकर अज्ञानताके योगसे तीव्र विपाक भोगवते हुवे(१) जो नरकादि गतिमें दुःख की प्राप्ति हो वे-वेदे-भोगवे, सो असाता वेदनीय कर्म, और (२) तीव्र क्षयोपशम के योग्य से सूक्ष्म अर्थ जानते जो देवादि गति में साता सुख वेदनेमें आवे सो सातावेदनीय. जैसे मधू (सहेत) लिप्त खड्ग धारा को जिव्हां कर चाट ने से प्रथम तो मीठा रसका स्वाद आता है, और फिर जिव्हां कटने से दुःख होता है, ऐसे ही साता वेदनीय के क्षयसे असाता का उदय होता है और असाताका क्षय से साता का उदय अनुक्रम से बना रहता है.

४ मोहनीय कर्म.

जैसे मदिरा पान करने से मनुष्य वावला हो जाता है, तैसे मोहनीय कर्म के उदय कर जीव अपना हित अहित कुछ समझ सकता नहीं है; कदाचित समझ भी नायतो कर सकता नहीं है. इस के दो भेदः—(१) जैसे बुखार के जोर से पथ्य आहार पर रुचि नहीं होती है, तैसे ‘दर्शन मोहनीय’ के उदय कर शुद्ध-देव-गुरु-धर्म पर रुचि नहीं होती है, और कु-देव-गुरु-धर्म पर रुचि जगती है. (२) जैसे बंधी खाने में पडा हुवा मनुष्य इच्छित भोग भोगवने समर्थ नहीं होता है, तैसेही “चारित्रमोहनीय” के उदयकर जीवों-धर्म तप संयम का आचरण कर सकते नहीं है.

प्रथम कही दर्शन मोहनीय जिसके तीन भेदः—(१) जैसे नशा का पदार्थ भोगवने से मूर्च्छित हुवा जीव माति की विकलता होनेसे पदार्थों को विपरीत देखता है, तैसे-‘मिथ्यात्व मोहनीय’ के उदय चौठाणीया तीठाणीया दोठाणीया रस सहित अनुपहत सर्व घातिक रस तत्व सदहणा में विपर्यास का करने वाला होता है. (२) जै-

* कमबल वाला होवे तो भी दुगुना तीगुना बल आजाता है.

से उस मादक पदार्थका आधा नशा कभी होने से-विकलता कम होती है जिससे मु-
कार्य करता २ कुकार्य भी करने लग जाता है. तैसे "मिश्र मोहनीय" के उदय कर
दो ठाणीया रस रहने से कुछ सम्यक्त्व के कार्य करता २ मिथ्यात्व का भी, कार्य
करने लगजाता है, और उन दोनोंको एकसा-अच्छा श्रद्धान करता है. (३) जैसे सा-
फ नशा उत्तर गये बाद उसकी खमारी यत्किंचित रहती है जिससे जरा विचार उ-
चार आचार में तफावत आजाती है, तैसे ही "सम्यक्त्व मोहनीय" वालेने मिथ्यात्व
के दलको यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण कर मन के परि-
णाम उज्वल कर चौठाणीया त्रिठाणीया और दो ठाणीयां रसको निवार कर फक्त
एक ठाणीया रस बाकी रखा है वो जीव, जीवादि की परिक्षामें सुरझाय तो नहीं, प-
रन्तू आत्म स्वभाव रूप उपशम क्षायिक सम्यक्त्वकी उन के प्राप्ति होवे नहीं. सूक्ष्म
पदार्थों में विशेषादेश शंकित हो सम्यक्त्व में मेल लगालेता है.

(२) चारित्र मोहनीयकी २ प्रकृतिः—(१) कषाय, और (२) नो कषाय, इसमें
कषाय कीं १६ प्रकृति और नोकषाय की ९ प्रकृति, दोनों मिल चारित्र मोहनीय
की २५ प्रकृति होती है, सो कहते हैंः—

कष=रस+आय=आवे. जिससे संसार का कष आकर आत्म प्रदेशोंपर जमें
और जिससे संसार परि भ्रमण का कार्य निपजे सो कषायचार प्रकार की होती हैः—
१ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ. इन चारों को अनन्त बन्धि, अप्रत्याख्या-
नावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और संज्वलन इन चारों से चौगुने करने से १६
भेद होते हैं, सो आगे दृष्टान्त युक्त कहते हैं.

(१) अनन्तान बन्धि कषाय सो—अनन्तान=अनन्त संसारकी. अनुबन्धि वृ-
द्धि करे, इस कषायवाला कदाग्रह रूप कुयुक्ति से बुद्धिके शुन्य पणे कर-एकान्तवा-
दिकी रूचि टले नहीं. अन्यमतपर रागयुक्त, सन्मतपर द्वेषी, ऐसाजीवं बाह्य वृत्ति कर
कदापि कषायोदय मन्दभी देखाय तो भी युक्ति हीन पक्षपाति को नियमा से अन-

+ अनन्तान बन्धि चौक और तीनों दर्शन मोहनीय इन से श्रद्धान में फरक पडता
है, इसलिये इन सातों प्रकृति को दर्शन मोहनीयमें गृहणकी जाती है. और. यहां जो २५
प्रकृति को चारित्र मोहनीयकी कही है सो फक्त सम्मास अपेक्षाकर जानना. निश्चय नयसे
तो अनन्तान बन्धि चौक बिना २१ ही प्रकृति चारित्र मोहनीयकी है.

न्तान बन्धि काही उदय जानना. इसके चार भेदः-१ अनन्तान बन्धि क्रोधसो पत्थरकी तराड जैसा फटेवाद किसीभी उपवासे मिले नहीं, तैसेही इस कपाय वाले कामन फटा हुआ पीछा नहीं मिले, (२) अनन्तानबन्धी मानसो पत्थरके स्थंभ जैसा किसीभी उपवासे नभे नहीं, तैसेही अभिमानी नभे नहीं. 'इष्ट छोडे नहीं' ३ 'अनन्तान बन्धि माया'सो वांशकी गांठ जैसी गुप्त-गांठमें गांठ किसी तरहसे संधी होवे नहीं, तैसे-दगल वाजी किसीभी उपावसे छोडे नहीं, गुठ मायावी होवे. (४) और अनन्तान बन्धि लोभ सो-किरमजी मजीठके रंग जैसा. जलजावे तो भी रङ्ग नहीं जावे, तैसे ही महालोभी. चमडी जावो परन्तु दमडी मत जावो. ऐसा महा तृष्णावाला होवे. इन चारों कपायकी स्थिति जाव जीव की, * जो इन कपायों में मरेतो नरक में जावे, और इन कपायोंका उदय जहां तक रहे वहांतक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है.

(२) अप्रत्याख्यानावरणीय कपाय सो-अ=नहीं+प्रत्याख्यान-पञ्चखाण, इस कपाय वाला-पुद्गलोंको अनित्य असार जानता हुआ भी कर्मोदय कर उत्तर से ममत्व घटा सकता नहीं है, छोड सकता नहीं है. कदापि व्यवहार साध ने करभीले और अन्तःकरण में यह कपाय बनी होतो उनका फल सकाम निर्जरा रूप नहोने दे पुण्य वृद्धि रूप होसके, इसके ४ भेदः—(१) अप्रत्याख्यानी क्रोध सो सूके तलावके जमीन की तराड जैसा पीछा पानी वर्षे तब मिले. तैसेही फटा हुआ मान बहुत पर्यत्न करने से मिले. (२) अप्रत्याख्यानी मान सो काष्ठ के स्थंभ जैसा बहुतही पर्यन्त कर नेसे कुछ नभे. तैसे अन्य का जवर दाव लगने से अभीमान छोड सन्मार्ग अङ्गीकार करे. (३) अप्रत्याख्यानी माया सो बेंढेके शृंग (सींग) जैसी बाँका पना बहुत पर्यत्नसे मिटे. त्यों वो बहुत उपाव किये दगलवाजी प्रगटकरे. (४) 'अप्रत्याख्यानी लोभ'सो गा डेके पड़े का खंजन (पड़्योंके मध्यमें लगा तेलका कीट) का रंग जैसा, सो क्षारादिक जवर पर्यास से धोने से निकले, तैसेही जवरी से या विशेष बोध से द्रव्य का कुछ सद्व्यय कर सके. इन चारों कपाय की स्थिति १२ मांस की, इस कपाय में मरेतो

+ यह जो कपायों की वर्णोदि की स्थिति कही है सो फक्त अल्पज्ञो को समझाने के लिये ही कही है, क्योंकि ब्राह्मवलीजा १२ महीने तक स-मानी रहे तोभी चारित्र का घात न हुआ. और प्रसन्न चन्द्रराज ऋषि अन्तर मुहुर्त मात्र में तीव्र अनन्तान बन्धि क्रोधो दय से नरक के दालिये संच लिये. इसलिये निश्चय नय से तो परिणामों की धारा परही बन्ध का विशेषत्व है.

तिर्यच गति में जावे. इसका उदय रहे वहांतक देश व्रत भी धारण नहीं कर सके.

(३) 'प्रत्याख्यानावरणीय कपाय'—प्रत्याख्यान=पञ्चखाणके+आवरणीय=अन्तर करनेवाली, इस कपाय के उदय में सम्पूर्ण ममत्व को त्याग सर्व व्रतिन होने दे. और व्रति (साधु) हुवे बाद जो कभी इस कपाय का उदय होवे तो वो उदय रहे वहां तक संयम करणी के यथा तथ्य फल निर्जरा रूप न होते पुण्य वृद्धि हो जावे. इसके ४ भेदः—(१) प्रत्याख्यानी क्रोध सो—धूल में खेंची हुई लकीर के जैसा हवा चलने से मिटजावे, त्यों क्रोध कर थोड़े सद्बोध से क्षमा कर लेवे. (२) प्रत्याख्यानी मानसो बेंतके स्थंभ समान थोडा जोर देनेसे नम जावे, त्यों वो थोडा समझाने से मान तज विनीत बन जावे. (३) प्रत्याख्यानी माया सो चलते हुवे बेलका मात्र (पेशाव) समान हवालगने से सूक जावे, त्यों थोडे उपाव से माया-कपट त्याग देवे. (४) प्रत्याख्यानी लोभ सो कीचड के रङ्ग के जैसा सूक ने से झड जाय, त्यों थोडे बोध से लोभ त्याग सन्मार्ग में द्रव्य व्यय करे. इन चारों की स्थिति-४ महीने की, इस कपाय में मरेतो मनुष्य होवे, और इस कपाय का उदय वाला साधु व्रति धारण नहीं करसके.

४संज्वलन कपाय—सं=थोड+ज्वलन=प्रज्वले. प्रकट होकर तुर्त विरलयहो जावे, इसके उदय में संयमी भी शुद्ध चारित्र का आराधन नहीं करसकते हैं. इसके ४ भेदः—(१) संज्वलन क्रोध सो पाणी की लकीर के समान तुर्त मिल जावे. त्यों क्रोध के कडवे फल जान तुर्त शान्त पडजावे, (२) संज्वलन मान सो तृण के स्थंभ जैसा हवा लग ने से तुर्त झुकजाय, त्यों उसकी आत्मा सकोमल होवे, (३) 'संज्वलनमाया सो वांशकी छोंती के जैसी तुर्त सीधी होजाय, त्यों तुर्त निष्कपटी-शरल बन जावे. और (४) संज्वलन लोभ सो हलद पतंग के रङ्ग समान धूप लगे उड जावे, त्यों निर्लोभ अवस्था में सदा रहे. इन में क्रोधकी स्थिति दो महीनेकी, मानकी एक महीनेकी, माया की १५ दिनकी, और लोभकी अन्तर युर्त की. इस कपाय के उदय में मरेतो देवगति पावे. और इसका उदय रह वहांतक यथाख्यात चारित्रकी, व केवल ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होवे.

जिस कपाय का जिस स्थान में उदय होने की मना है वहां उसका उदय होनेसे अनाचार लगता है, होती कपाय के उदय मे अतिचार लगता है. जैसे-संयमी के संज्वलनका उदय होतो अतिचारलगे और १.२कपायका उदय होवेतो अनाचार जानना

[नो कषकाय उसे कहते हैंकि जो कषायको उत्पन्न करनेका मूल कारण होवे, जैसे कहवत् हैकि—“ झगडेका मूल हाँसी, और रोगका मूल खाँसी. ” ऐसेही नवों का जानना उन ९ नवों का नाम कहते हैं.—] (१) 'हाँसी सो' भांड चेष्टादि सकारण से तथा विना कारण से हंसना आवेसो. (२) 'रतिसो'—इन्द्रियों को अनू कूल सामग्री मिलने से या विना कारण मन में सुख वेदेसो. (३) 'अरति' सो—इन्द्रियोंके प्रातिकूल संयोग मिलने के कारण से तथा विना कारण मन में उद्वेग होवे सो. (४) 'भय'—दुष्ट मनुष्यादि देखने से भय होवे—सो एह लोगभय, सिंह सर्पादि देखनेसे भय होवै सो परलोग भय, चोरादि वस्तु का हरण करनेसे भय होवे सो आदान भय. विद्युतादि से अचिन्त्य भय उपजे सो अकस्मात् भय. उदर पूरण का भय सो आजीवका भय, मरण भय, पूजाश्लाघा भय, यह ७ प्रकार से डरकी प्राप्ति सो. (५) 'शोक'—इष्ट वियोगादि कारण विना कारण जिस कर्मोदय कर शोककी प्राप्ति होवे. (६) 'दुगच्छा'—सो दुर्गन्ध कुरूप आदि वस्तु देखे या विना देखे मत्सर—'ग्लानी आवै सो (इन ६ ही प्रकृतियों को 'हांस्य षट्क' कहते हैं) (७) 'स्त्रीवेद'—जो पुरुष के दर्श स्पर्श की इच्छा होवे सो. इसकी विषय वकरीयों की लेंडी की आग्निके जैसी छेडे त्यों ज्यादा होवे. (८) 'पुरुषवेद'—जो स्त्रीके दर्श स्पर्श की अभिलाषा करेसो—इसकी विषय सूके घांसकी आग्निके जैसी प्रज्वलित हो तूर्त शान्त पड जावे. और (९) 'नपुंसक वेद'—स्त्री पुरुष दोनोंका दर्श स्पर्शकी इच्छा होवेसो—इसकी विषय दवाग्नि के जैसी सदा प्रज्वलित रहे. (यह ३ वेद मिल ९ नो कषाय हुवे) उपरोक्त दर्शन मोहनीय की ३ प्रकृति और चारित्र मोहनिय २५ प्रकृतियों सब मिल मोहनीय कर्म की २८ प्रकृति हुइ.

आयुष्य कर्म.

जैसे अपराधी पुरुष को राज पुरुष काष्ठ के खोडे में कब्ज कर देते हैं, उस की जितने कालकी मुदत होती है उस के पाहिले वो उस खोडे में से निकल सकता नहीं है. तैसे ही कर्म के अपराधी आत्म ने नरकादि गति रूप खोडमें जितनी मुदत (आयुष्य) बन्ध कर प्रवेश किया है, उस मुदत पाहिले निकल नहीं सकता है. इस कर्म की ४ प्रकृतियों;—१ महा आरंभ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय का बध, और मदिरा मांस का आहार करने से जीवों नरक गति का आयुष्य बान्ध कर नरक में जाकर रहे सो 'नरकायु,' २ माया, मत्सर, झूठ बोलना, खोटे माप तोल करने से जीवों ति-

यैच गतिका आयुष्य बंधकर तिर्यैच गतिमें जाकर रहैसो-‘तिर्यैचायु.’ ३ भद्रिक, विनित, शरल दयालुता कर मनुष्यायु बन्धकर मनुष्य गतिमें रहैसो मनुष्यायु. ४ सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, वाल तप कर देवायु बान्ध देवगतिमें जाकर मुख भोगवे सो ‘देवायु.’ (यह आयु कर्म की चार प्रकृति जानना.)

६ नाम कर्म.

जैसे चित्रकार विचित्र रङ्ग और विचित्र उपकारणों कर सपद अपद आदि, विचित्र प्रकर के चित्र चित्रता है, तैसे नाम कर्मोदय कर जीवों के एकेन्द्रियादि विचित्र जातिमें सूक्ष्म स्थूल स्थावर जंगमादि विचित्र रूप रङ्ग आकार, स्वभा विभाव मय शरीरों की प्राप्ति होती है. इसकी मुख्यतो दो प्रकृति है:- १ शुभ नाम. और (२) अशुभ नाम. और उत्तर-प्रकृति ९३ होती है सो अलग २ कहते हैं.

पिण्ड समुदाय-दो चार आदि अनेक प्रकृतियों मिल जो एकही नाम से बोलाइ जावे उन्हे पिण्ड प्रकृति कहते हैं, ऐपिण्ड प्रकृति के मूल तो १४ भेद हैं, औ-उत्तर ६९ भेद होते हैं:-

(१) गति नाम कर्म. गति-जावे, जो एक पर्याय में से दूसरी पर्यायमें जावे उ से गति नाम कर्म कहते हैं, जिसके ४ भेद:- (१) नरक-न-नही ऽर्म-सूर्क-जहां प्रकार श नहीं, फक्त अन्धाराही होवे सो नर्क, और उसमें रहे सो नेरीये-न = नही + रह = रति = सुख. जिनको सुख नहीं सो नेरीया. ऐसा स्थान और नाम पावे सो “नरगाति नाम कर्म.” (२) तिर्यैच=जो तिरछे विशेष बढे, या तिरछे लोक में विशेष पावे. ऐ-सा जन्म पावे सो “तिर्यैच गति नाम कर्म” (३) मनुष्य=जो मनीच्छित कार्य को साध सके एसी गति में अवतरे सो “मनुष्य गति नाम कर्म” (४) देव=दिव्य-प्रकाशिक शरीर के धारक. ऐसी गति में अवतरे सो “देवगति नाम कर्म.”

(२) “जाति नाम कर्म”-इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोप शमकर जो, इन्द्रियों में जान ने की शक्ति प्रगट होवे सो भावेन्द्रिय. और इन्द्रिय पर्याप्ति नाम कर्मोदय कर जो प्रत्यक्ष में स्पर्शादि इन्द्रियों देखने में आवे सो द्रव्येन्द्रिय. इनदोनों करजीव पहचान ने में आवे कि यह एकेन्द्रियादि. जातिका है सो जातिका नाम कर्म. इस के ५ भेद:- (१) जो फक्त एक स्पर्शेन्द्रिय के धारक पृथव्यादि पांच स्थावरों है सो-“एकेन्द्रिय नाम” (२) जो स्पर्श और रस इन दोनों इन्द्रियों के धारक किटकादि जी-

वों है सो "वेन्द्रिय नाम." (३) जो स्पर्श रस और घ्राणेन्द्रिय के धारक पटमलादि जीवों है सो "तेन्द्रि नाम." (४) जो स्पर्श रसघ्राण और चक्षुइन्द्रिय के धारक मक्षिकादि जीवों है सो "त्रौरिन्द्रिय नाम." और (५) जो स्पर्श. रस घ्राण चक्षु और श्रोतेंन्द्रिय के धारक मनुष्य पशु पक्षी आदि जीवों हैं सो "पचेन्द्रिय नाम कर्म."

(३) "शरीर नाम कर्म"—जिसमें जीव कालकी मर्याद (आयुष्य) प्रमाणें स्थिर होकर रहै उसे शरीर कहते हैं. इस के ५ भेदः--(१) जो औदार=प्रधान. अर्थात्-जो सब शरीरों में श्रेष्ठ, मोक्ष मार्ग का साधक, तीर्थकर गणधरादि महान् पदका धारक, हडि मांसादि सप्त धातु का पूतला, मनुष्य तिर्यच के होवे सो औदारिक शरीर. (२) जो अच्छा बुरा छोटा बडा सुरूप कुरूप मनुष्य पशु आदि चाहे जैसा रूप अपने शरीर का बना लेवे. ऐसा शुभ पुद्गलों का देवों का शरीर और अशुभ पुद्गलों का नेरीयों का शरीर सो-"वैक्रिय शरीर." (यह शरीर मनुष्य तिर्यचकेभी लब्धि से होता है) (३) चउदह पूर्वके पाठी लब्धिवन्त महामुनि संशय की निवृत्ति के लिये या तीर्थकरों की ऋद्धि देखने के लिये आकश या स्फटिकरत्न जैसा स्वच्छ अतिमूक्ष्म आहारक वर्गणा का स्कन्ध एक हाथ भर का पूतला बनावे सो आहारक शरीर (४) गृहण किये आहाराको या कर्म वर्गणा के पुद्गलों को पचाने वाला व तेजो लक्ष्या प्रगट करने के हेतु भूत अनादि निधान सो-"तेजस शरीर" और (५) गृहण किये आहारको या कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आत्म प्रदेशकी साथ क्षीर नीर की तरह अन्योन्य अनुगत होवे कर्मों का वीकार सो "कारमाण शरीर."

(४) अंगो पाङ्ग नामकर्म-दो बाहु (भुजा.) दोऊरु (जंघा) पीठ, मस्तक, उदिर (पेट) और हृदय, इन ८ को अङ्ग कहते हैं. और हाथ को लगी हुई अंगुलियों, तथा जंघा को लगे हुवे घुटने (गोडे) इनको उपांग कहना. और नख हस्थरेखा तथा मस्तकादि के बाल, इनको अङ्गोपाङ्ग कहना;-इसके तीन भेदः-(१) जो औदारिक शरीर से सम्बन्ध धर रहें सो औदारिक अङ्गोपाङ्ग (२) जो वैक्रिय शरीर से लगे हुवै सो वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग. और ३ जो आहारक शरीर पणे परिणमे सो आहारक अङ्गोपाङ्ग.

तेजस और कारमाण शरीर जीवके क्षीर नीर की तरह से मिलरहा है. इस लिये न उनका कोई संस्थान है, और न उनके अङ्गो पाङ्ग है.

(५) "बन्धन नाम कर्म"—जैसे राल राख गूंद आदि पदार्थोंसे किसी भी प्रकारके दो अलग २ पदार्थों का जोडने से उनका सम्बन्ध कितनेक काल प्रयन्त रहता है,

तैसेही जिन कर्मोंदय कर शरीरमें परिणमें हुवे पुद्गलोंका कितनेकका पहिले बन्ध किया, और कितनेक पुद्गलों ग्रहण कर नवीन बन्धन करता है, उन पुद्गलोंका जो आपस में बन्ध पड कितनेक काल (शरीर की स्थिनी) तक टिक रहे और भी नवे २ पुद्गलोंको ग्रहणकर शरीर की वृद्धि होती है सो बन्धन नाम कर्म है. इस बन्धके दो प्रकार भगवति सूत्र में किये हैं. (१) शरीरकी उत्पत्ति के समय जितने पुद्गल पूर्वोपा-र्जन किये थे उतने सब उस समय होते हैं. इसलिये उस वक्त के बन्ध को सब बन्ध कहना. और (२) फिर समय २ उस बन्ध पुद्गलोंमेंसे हीनता होती रहे, इसलिये शरीर के अन्ततक देश बन्ध किया जाता है. इस बन्ध के-५ भेदः— * (१) औदारिक पुद्गल ग्रहण कर के जो शरीर की वृद्धि होवे सो “औदारिक बन्धन” (२) वैक्रिय पुद्गल ग्रहण कर जो वैक्रिय शरीर बन्धे सो, ‘वैक्रिय बन्धन.’ (३) आहारक पुद्गल ग्रहण कर जो आहारक शरीर बन्धे सो “आहारक बन्धन.” (४) तेजसके पुद्गलों ग्र-

*प्रकारन्तर से इन पांचों बन्धन के-१५ भेद होते हैं. (१) पहिले गृहण किये औदारिकके पुद्गलों उनके साथ नवीन औदारिकके पुद्गलोंका बन्ध पडेसो औदारिक औदारिक बन्धन. (२)औदारिकके साथ तेजसका बन्ध पडेसो औदारिक तेजस बन्धन.(३)औदारिकके साथ कर्मण का बन्ध पडे सो “औदारिक कर्मण बन्धन” (४) औदारिक साथ तेजस और कर्मण दोनों का बन्धन पडे सो “औदारिक तेजस कर्मण बन्धन.”(५) वैक्रिय के साथ वैक्रिय के पुद्गल बन्धे सो “वैक्रिय वैक्रिय बन्धन” (६) वैक्रियके साथ तेजस का बन्धन पडे सो “वैक्रिय तेजस बन्धन.” (७)वैक्रियके के साथ कर्मणका बन्ध पडेसो “वैक्रिय कर्मण बन्धन” (८) वैक्रिय के साथ तेजस और कर्मण दोनों का बन्ध पडे सो “वैक्रिय तेजस कर्मण बन्धन.” (९) आहारक के साथ आहारक का बन्धन पडेसो “आहारक आहारक बन्धन.” (१०) आहारक के साथ तेजस का बन्ध पडे सो “आहारक तेजस बन्धन .” (११) अहारक के साथ कर्मण का बन्ध पडे सो “आहारक कर्मण बन्धन.” (१२) आहारक के साथ तेजस और कर्मण दोनों का बन्ध पडे सो “आहारक तेजस कर्मण बन्धन” (१३) तेजस के साथ तेजस का बन्ध पडे सो “तेजस तेजस बन्धन”(१४) तेजस के साथ कर्मण का बन्ध पडे सो “तेजस कर्मण बन्धन” और (१५) कर्मण के साथ कर्मणका बन्ध पडे सो “कर्मण कर्मण बन्धन” यों बन्धन की ५ के स्थान १५ प्रकृति ग्रहण करने से नाम कर्म की सब १२३ प्रकृति होतीहै.

वों है सो “वेन्द्रिय नाम.” (३) जो स्पर्श रस और घ्राणेन्द्रिय के धारक पटमलादि जीवों है सो “तेन्द्रि नाम.” (४) जो स्पर्श रसघ्राण और चक्षुइन्द्रिय के धारक माक्षिकादि जीवों है सो “चौरिन्द्रिय नाम.” और (५) जो स्पर्श. रस घ्राण चक्षु और श्रोतेंन्द्रिय के धारक मनुष्य पशु पक्षी आदि जीवों हैं सो “पचेन्द्रिय नाम कर्म.”

(३) “शरीर नाम कर्म”—जिसमें जीव कालकी मर्याद (आयुष्य) प्रमाणे स्थिर होकर रहै उसे शरीर कहते हैं. इस के ५ भेदः--(१) जो औदार=प्रधान. अर्थात्-जो सब शरीरों में श्रेष्ठ, मोक्ष मार्ग का साधक, तीर्थकर गणधरादि महात्न पदका धारक, हडि मांसादि सप्त धातु का पूतला, मनुष्य तिर्यच के होवे सो औदारिक शरीर. (२) जो अच्छा बुरा छोटा बडा सुरूप कुरूप मनुष्य पशु आदि चाहे जैसा रूप अपने शरीर का बना लेवे. ऐसा शुभ पुद्गलों का देवों का शरीर और अशुभ पुद्गलों का नेरीयों का शरीर सो-“वैक्रिय शरीर.” (यह शरीर मनुष्य तिर्यचकेभी लब्धि से होता है) (३) चउदह पूर्वके पाठी लब्धिवन्त महासुनि संशय की निवृत्ति के लिये या तीर्थकरों की ऋद्धि देखने के लिये आकश या स्फटिकरत्न जैसा स्वच्छ अतिसूक्ष्म आहारक वर्गणा का स्कन्ध एक हाथ भर का पूतला बनावे सो आहारक शरीर (४) गृहण किये आहाराको या कर्म वर्गणा के पुद्गलों को पचाने वाला व तेजो लेख्या प्रगट करने के हेतु भूत अनादि निधान सो-“तेजस शरीर” और (५) गृहण किये आहारको या कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आत्म प्रदेशकी साथ क्षीर नीर की तरह अन्योन्य अनुगत होवे कर्मों का धीकार सो “कारमाण शरीर.”

(४) अंगो पाङ्ग नामकर्म-दो बाहु (भुजा.) दोऊरु (जंघा) पीठ, मस्तक, उदिर (पेट) और हृदय, इन ८ को अङ्ग कहते हैं. और हाथ को लगी हुई अंगुलियों, तथा जंघा को लगे हुवे घुटने (गोडे) इनको उपांग कहना. और नख हस्थरेखा तथा मस्तकादि के बाल, इनको अङ्गोपाङ्ग कहना;-इसके तीन भेदः-(१) जो औदारिक शरीर से सम्बन्ध धर रहें सो औदारिक अङ्गोपाङ्ग (२) जो वैक्रिय शरीर से लगे हुवै सो वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग. और ३ जो आहारक शरीर पणे परिणमे सो आहारक अङ्गो पाङ्ग.

तेजस और कारमाण शरीर जीवके क्षीर नीर की तरह से मिलरहा है. इस लिये न उनका कोई संस्थान है, और न उनके अङ्गो पाङ्ग है.

(५) “बन्धन नाम कर्म”—जैसे राल राख गूंद आदि पदार्थोंसे किसी भी प्रकारके दो अलग २ पदार्थों का जोडने से उनका सम्बन्ध कितनेक काल प्रयन्त रहता है,

बन्धन से बन्धि होवे, परन्तु हाड पट्टी और हाड खीली दोनों नहीं होवे सो “नारच संघयण.” (४) एकही तरफ मर्कट बन्ध होवे सो “अर्धनाराचसंघयण.” (५) फक्त हड्डीयों की सन्धि मिली हो—केल वृक्षकी तरह तुर्त नम जावे—सो—कीलिका संघयण. और (६) जिसके शरीर की हड्डीयों—एकेक हड्डीके आधार से रही होवे, जराक धक्का लगने से अलग हो जावे, सो—“छेवटा संघयण.” कहा जाता है.

८ “संस्थान नाम कर्म”—जो प्रत्यक्ष में शरीरका आकार देखने में आवे उसे ‘संस्थान’ कहते हैं, जिसके ६ प्रकार :- (१) ‘समचतुरस्र संस्थान’—सब—बरोबर+चतु—चारों तरफ के+अस्त्र=खोले. अर्थात् पद्मासन लगाकर बैठे वाद—दोनों घुटने और दोनों स्कन्ध के बीच—के चारों तरफ के अन्तर की डोरी बराबर आवे सो—‘समुचतुरस्र संस्थान.’ (२) जैसे (निग्रोध-वड) के वृक्ष का ऊपरका भागतो अच्छा देखाता—है, और नीचेका विभाग चडें आदि के सबब से खराब लगता है, तैसेही जिसके शरीर का नाभी ऊपर का भाग विलक्षणों पेत पूर्ण प्रमाण युक्त होवे, और नीचे का भाग बरोबर न होवे सो “निग्रोध परिमण्डल संस्थान.” (३) जैसे खुरसाणी इमलीका झाड नीचे तो शाखा प्रतिशाखादि कर अच्छा देखाता है, और ऊपर दूटा निकलनेसे खराब देखाता है. तैसेही जिसके शरीरका नाभी नीचेका भाग अच्छा होवे और उपरका आकार अच्छा नहोवे विद्रूप होवे सो—‘सादि संस्थान’ (४) जिसके हाथ पेर मुख ग्रीवादि अङ्ग सुन्दर होवे, और हृदयपर तथा पृष्ठपर हड्डीका पिण्ड निकला होवे सो—‘कुञ्ज संस्थान.’ (५) जिसके फक्त हाथ पेर छोटे होवे, बाकीका सब शरीर बरोबर होवे—जो टेंगणा होवे सो—“वाचना संस्थान.” और (६) जिसके सर्व अङ्गोपाङ्ग अशोभनीक होवे, अथ प्रज्वलित मुरदे के जैसा भयंकर देखाता होवे सो “हुंड संस्थान.”

९ ‘वर्ण नाम कर्म’—शरीर के विषय पुद्गलों का वाद्य रूप में रङ्ग परिणाम होवे सो ‘वर्ण नाम’ इसके ५ भेद :- (१) कोयले या काजल जैसा शरीर का काला रङ्ग होवे सो—“कृष्ण वर्ण नाम.” (२) सूवे की पंख जैसा हरे रङ्ग का शरीर होवे सो—“नील वर्ण नाम.” (३) हिंगलु के जैसा लाल रंग का शरीर होवे सो “रक्त वर्ण नाम.” (४) हरताल जैसा पीले रंग का शरीर होवे सो—“पित्त वर्ण नाम.” (५) और चन्द्रकीर्ण जैसा गौर वर्ण शरीर होवे सो—“श्वेतवर्ण नाम.”

१० “गन्ध नाम कर्म”—घ्राणोन्द्रिय के ग्रहण करने योग्य वास मय जो शरीर के पुद्गलों होवे सो गन्ध नाम कर्म. इसके २ भेद :- (१) केशर कस्तूरी जैसी शरीरकी

गीया नामक चौरिन्द्रिय जीवके उडते प्रकाश पडे. इत्यादि के शरीर का शीतल प्रकाश पडता है सो सब 'उद्योतनाम.' (५) "अगुरु लघू नाम"—जिनोका शरीर ऐसा भारीभी न होवे जो आपका शरीर आपसेही संभले नहीं, और एसा हलका भी न होके-वायु से उड जावे, ऐसा मध्यस्त शरीर होवे सो-अगुरु लघू नाम." (६) तीर्थकर नाम कर्म"—तीर्थकर नाम उपार्जन करने वाले प्राणी प्रदेशोदय से ज्ञान एष्वर्यता, अन्य प्राणीयों से अधिक होवे, तीर्थकर के भव में अवतरे तव पञ्चकल्या (चवन, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष) का महोत्सव चौसठ इन्द्रादि असंख्य देवों व गैरा करते हैं:—१. उनको अहार निहार करते चर्म चक्षु देख सके नहीं, २. पसीने मेल रज रोग रहित महा दिव्य प्रकाशी सुन्दर शरीर होवे. ३. सुगन्धि श्वाशोश्वास ४ रक्त मांस गौ दुग्ध जैसा उज्वल और मधुर. यह ४ अतिशय तो जन्मसे ही होते हैं, और भोगवाली कर्म भोगे वाद सर्वांरंभ परिग्रह को त्याग दिक्षा ले दुक्कर करण से चार घनधातिक कर्मोंका क्षय कर केवलज्ञान केवलदर्शन पावें. साधू साध्वी श्रावक श्राविका इन चारों तीर्थकी स्थापना करे. तथा समवसरणकी रचना, तीस अतिशय बगैरा महान पुण्य प्रताप का प्रकाश होता है, महान उपकार कर सर्व कर्मोंका क्षयकर मोक्ष पधारतेहैं. सो तीर्थक नाम(७)'निर्माण नाम'-जैसे-वढाइ(मुतार)काष्ठके हाथ पांव मस्तक आदि अङ्गोपाङ्ग अलग २ बनाकर, फिर यथा योग्यस्थान उन सबको जम कर, 'सुन्दर पुली' बनाते हैं, वैसे जीवोंके शरीर के अङ्गोपाङ्ग नाम कर्म उत्पन्न कर्ता है, और फिर इस निर्माण नाम कर्मोदयकर वो अङ्गोपाङ्ग सब निज स्थानमें २यथ योग्य रीति से जम जाते हैं. उसे निर्माण नाम कहते हैं,(८)"उघपात नाम कर्म" जैसे रोज नामक पशुके सींगोका बहुत फेलाव होने से किसी वक्त झाडी में शिर फांसे मरना पडता है, अर्थात् उसका शरीर उसीकी घातका कर्ता हुवा. ऐसे ही पड जीमी, चौदन्ता आदि दुःख दाता अङ्ग होवे सो "उमघात-नाम कर्म." यह ८ प्रतिक प्रकृतियोंका नामार्थ कहा.

* प्रश्न-आग्निके भी उष्ण प्रकाश पडताहै तो क्या उसकेभी आतप नाम कर्मका उदय समझण समाधान-आग्निके धाताप नाम कर्म का, उदय नहींहै, क्योंकि आग्नि काय के शरीर का स्वभाव ही कही उष्ण प्रकाश है, सो नजीक रहने से अधिक उष्णता मालूम पडतीहै और दूर रहने से कम उष्णता मालूम पडती है, और सूर्यतो दूर रहांभी एकसा प्रकाशताहै, तथा आग्नि काय का शरीर स्वभाविकही रक्त प्रकाशी है. तैसा सूर्यका नहीं इसलियेआग्निमें आतापनाम नहीं है.

अब “त्रस दशका”—अर्थात् त्रस आदि दश प्रकृति कहते हैं:—(१) “वस नाम”—जो दुःख से वास पावे, सुख से संतोष पावे यह उनके भाव प्रत्यक्ष में देखने में आवे, शीत उष्णादि दुःखप्रद स्थान को छोड़ सुख स्थान में जावे, इत्यादि लक्षण युक्त वेद्रिय, तेद्रिय, चौरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, में उत्पन्न होवे सो वस नाम. (२) ‘वादर नाम’—जिन जीवों का शरीर सर्वों के देखने में प्रत्यक्ष आवे ऐसा शरीर होवे सो-वा-दर नाम. (३) ‘पर्याप्ता नाम’—पुद्गल के उपचय से हुवा जो पुद्गल परिणामन हेतु शक्ति विशेष ? जो जीवों पुद्गलों को ग्रहण करे खल रस अलग अलग करे, सो “आहार पर्याप्ति.” २ जो शक्ति विशेष रस हुवा उसे सात धातु पणे परिणामावे सो ‘शरीर पर्याप्ति’, ३ उस धातु को द्रव्येन्द्रिय पणे परिणामने की जो शक्ति सो ‘इन्द्रिय पर्याप्ति’, ४ श्वाशोश्वास वर्णणादल ग्रहण कर श्वाश पणे परिणामावे सो ‘श्वाशोश्वास पर्याप्ति’. ५ भाषाके द्रव्य ग्रहण कर भाषा पणे परिणामावे सो ‘भाषा पर्याप्ति’. और ६ मन के द्रव्य ग्रहण कर मन पणे परिणामावे सो—“मन पर्याप्ति.” इन ६ पर्याप्ति में से-एकेन्द्रिय में पहिले की चार पर्याप्ति होती है. वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय और अस-न्नी पचेन्द्रिय इन में मन बिना पांच पर्याप्ति होवे, और सन्नी में ६ ही पर्याप्ति होवेहैं. इनमें से जिनमें जितनी पर्याप्ति होवे वो. प्रथम समय सब पर्याप्ति का आरंभ एक साथ ही करे, फिर एक समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण करे, फिर अन्तर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति पूर्ण करे, फिर औदारिक शरीर वाला तो अन्तर मुहूर्त २ अन्तर से बाकी रही पर्याप्ति पूर्ण करे. और वैक्रय तथा आहारक शरीर वाला समय २ के अन्तर बा-कीकी पर्याप्ति पूर्ण करे. आगे दो पर्याप्ति सूक्ष्महै, इसलिये कालका फरक पडजाताहै, यथा दृष्टान्त-छे स्त्रीयों सूत कातना एकही समय सुरु किया. उनमें से जो स्थूल जा-डा सूत काते सो शीघ्र पूर्ण करे, और बारीक काते तो देरसे पूर्ण होवे. यों-१ आ-हार पर्याप्ति, २ शरीर पर्याप्ति, ३ इन्द्रिय पर्याप्ति, यह ३ पर्याप्ति पूर्ण किये पहिले कोइ भी जीव कदापि मरता नहीं है, इसलिये इन ३ पर्याप्ति पूर्ण करे उसे ‘करण प-र्याप्ता’ कहना. और जिसके जितनी पर्या हैं उतनी पुर्ण करे उसे लब्धि पर्याप्ता कह-तेहैं. (४) “प्रत्येक नामकर्म” सो-एक शरीरमें एकही जीव रहे, ऐसे शरीरमें रहेसो प्रत्येक नाम (५) “स्थिर नाम कर्म”—हड्डियों दाँतों नशों अङ्गोपाङ्ग सब स्थिर होवे. अव्यय व द्रढ होवे सो स्थिर नाम. (६) “शुभ नाम कर्म” (६) जिसके अङ्ग का स्पर्श, दुसरे

को होने से हर्ष उत्पन्न करे जैसे नाभी के उपर के अङ्गका किसी को संघटा होने से बुरा नहीं लगता है, सो शुभ नाम. (७) "सोभाग्य नाम" पर उपकार किये बिना या स्वजनादि सम्बन्ध बिना सब जन को इष्ट करी लागे, सुबाहु कुमारकी तरह, सो सो भाग्य नाम" (८) "सुस्वर नाम सो" कोकिला जैसा सुस्वर होवे. (९) "आदेय नाम सो-जिसका बोला हुआ कैसा भी वचन सब को मन्योग लगे. शुभ शकुन की तरह ग्रहण करे सो आदेय नामी जाणना और (१०) "यश; कीर्ती नाम"—जो एक देश में विस्तरे सो कीर्ती, चारों दिशा में फैले सो यश; यह दोनों जिसके होवे सो यश कीर्ती नाम.

अब 'स्थावर दशका'— अर्थात् स्थावर आदि १० प्रकृति कहते हैं;—(१) 'स्थावर नाम' सो जो पृथ्व्यादि पाँचो स्थावर स्पर्शसे हलन चलन नहीं करसके सो. स्थावर सूक्ष्म नाम;—जिनके अंतख्यात शरीर का सन्नागम होवेसे भी जो दृष्टि नहीं आवे सो सूक्ष्म नाम. (२) "अपर्याप्त नाम" सो पूर्वोक्त छे पर्याप्ति में से-पहिलेकी तीस पर्याप्ति पूर्ण नहीं करे वहां तक-करण अपर्याप्ता. और जितनी जिस स्थान पर्याप्त बन्धने की है. वो पूर्ण बन्धे नहीं वहां तक लब्धि अपर्याप्त कहना. (३) साधारण नाम वनरपति-निगोद-कंद मूल आदि में एकेक शरीर में अनन्त २ जीवों हैं, उन में रहे सो साधारण नाम. (४) अस्थिर नाम सो-जैके कान भाषण केश इत्यादि सब हिलते रहे, ऐसे अस्थिर अव्ययव होवे सो अस्थिर नाम. (५) 'अशुभ नाम' जैसे नाभी के नीचे का किसीभी अङ्ग का किसी को संघटा हो जावे तो वो बुरा मानता है, तैसे अशुभ अङ्गोपाङ्ग होवे सो अशुभ नाम. (६) 'दौर्भाग्य नाम सो' बिना वैर-विरोध और बिना नुकसान कियेही जो दुसरेको अप्रिय-अनिष्ट लगे सो—"दौर्भाग्य नाम" (७) दुस्वर नाम-काग मंजार आदि कै तरह जिसका स्वर अनिष्ट खराब होवे सो. दुस्वर नाम. (८) "अनादेय नाम" जो अपने जान में सब को अच्छे लगे ऐसे वचन बोले, तोभी उस के वचन किसीकोभी अच्छे नहीं लगे, आप शकुन समझे सो अनादेय नाम. (९) और 'अपयश; कीर्ती नाम' सो—उत्तम काम करते भी जिसका अपयश होवे, लोको अव्रण वाद बोलै सो अपयश नाम:

यह ६५ पिन्ड प्रकृति, ८ प्रत्येक प्रकृति, १० बस दशका, और १० स्थावर दशका सब मिल १३ नाम कर्म की प्रकृति होती हैं.+

+ जो मूल प्राप्ति शरीर बन्धन ९ है. उसके जो १५ भेद पीछे किये है वो बन्धकी

७ गौत्र कर्म.

जैसे कुंभकार-कुम्भ कलश भादि उत्तम वरतन निपजावे तो वो अक्षत धूपा-दिसे पृज्य होतेहैं, और मदिराका घट वतावेतो मदिरा निकाले बाद भी दुर्भिगन्ध कर दुगंच्छनीय, निन्दनीय होतेहैं. ऐसेही गौत्र कर्म के भी दो भेद होते हैं:—(२) इक्षाग, उग्र राज भोग आदि महाजनोंके कुलमें जन्म लेवे सो ऊंच गोत्र. और (२) भिक्षुक चण्डाल आदि नीच कुल में जन्म लेवेसो नीच गौत्र.

८ अन्तराय कर्म.

जैसे राजा ने भन्डारी को हुकम दिया की इसे लक्ष रूपे इनाम के देवो. परन्तु वो रूपे देना भन्डारी के इक्त्यार है; तैसे वस्तु तो सब प्रकार की प्राप्त होगइ परन्तु उनका लाभ लेने देना यह अन्तराय कर्म दूटेके इक्त्यार है, इसके ५ भेद :- (१) 'दानान्तराय'—पात्र में देने योग्य शुद्ध द्रव्य भी पास है, लेने वाले शुद्ध पात्रका भी योग्य है. देने के भाव भी हैं, इतना सब योग होकर भी दान नहीं दिया जावे सो दानान्तराय. (२) चहा जैसी वस्तु उस के पास है. वो दातार है. देनेके भाव भी हैं, तोभी उस वस्तु की प्राप्ति न होवे, तथा बहूत होंइयारीसे व्यापार करते भी उस में लाभ की प्राप्ति न होवे सो 'लाभान्तराय.' ३ असन पान खादिया स्वादिम इत्यादि सब भोग के पदार्थोंका जोग मिलाहे, भोगवने की तीव्र इच्छाभी है, परन्तु भोगवे नहीं जावे सो 'भोगन्तराय.' (४) वस्त्र भूषण आसन शैया आदि, सब उप भोगकी इच्छित सामग्री मिली है, भोगवने की तीव्र इच्छाभी है, परन्तु भोगव सके नहीं सो—'उपभोगन्तराय'—और (५) मिथ्यात्व की क्रिया करने समर्थ होकर वो क्रिया नहीं कर सके सो 'बालवीर्यान्त राय'—तथा साधु श्रावक मोक्षकी क्रिया ज्ञानादि वीरत्न की आराधना करने समर्थ होकर भी आराध नहीं सके सो पंडित वीर्यान्तराय.

४२	स्त्रीवेद	२६
४४	पुरुष वेद	२७
४४	नपुंसक वेद	२८

५ आयुष्य कर्म की ४ प्रकृति.

४५	नरकका आयुष्य	१
४६	तिर्यचका आयुष्य	२
४७	मनुष्यका आयुष्य	२
४८	देवता का आयुष्य	४

६ नाम कर्म की ९३ प्रकृति.

४२	नरकगति	१
५२	तिर्यच गति	२
५१	मनुष्य गति	३
५२	देव गति	४
५३	एकोन्द्रिय जाति	५
५४	वेन्द्रिय जाति	६
५५	तेन्द्रिय जाति	७
५६	चौरिन्द्रिय जाति	८
५७	पचेन्द्रिय जाति	९
५८	औदारिक शरीर	१०
५९	वैक्रिय शरीर	११
६०	आहारक शरीर	१२
६१	तेजस शरीर	१३
६२	कार्मण शरीर	१४
६३	औदारिक अङ्गोपाङ्ग	१५
६४	वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग	१६
६५	आहारक अङ्गोपाङ्ग	१७
६६	औदारिक बन्धन	१७

६७	वैक्रिय बंधन	१९
६८	आहारक बंधन	२०
६९	तेजस बंधन	२१
७०	कार्मण बंधन	२२
७१	औदारिक संघातन	२३
७२	वैक्रिय संघातन	२४
७३	आहारक संघातन	२५
७४	तेजस संघातन	२६
७५	कार्मण संघातन	२७
७६	वज्र वृषभ नाराच संघयन	२८
७७	ऋषभ नारच संघयण	२९
७८	नारच संघयण	३०
७९	अर्ध नारच संघयण	३१
८०	केलिक संघयण	३२
८१	छेवटा संघयण	३३
८२	समचतुरस्र संस्थान	३४
८३	निगोद परिमंडल संस्थान	३५
८४	सादिया संस्थान	३६
८५	वावना संस्थान	३७
८६	कुवडा संस्थान	३८
८७	हुंड संस्थान	३९
८८	ऋष्ण वर्ण	४०
८९	नील वर्ण	४१
९०	रक्त वर्ण	४२
९१	पित-पर्ण	४३
९२	श्वेत वर्ण	४४
९३	सूरभीगन्ध	४५
९४	दुर्भीगन्ध	४६
९५	कटुक रस	४७
९६	तिक्त रस	४८
९७	कपायला रस	४९
९८	अम्लान रस	५०

१२१	मधुर रस	५१	१२७	शुभ नाम	७२
१२०	कर्कश स्पर्श	५२	१२८	सौभाग्य नाम	८०
१२१	मृदु स्पर्श	५३	१२९	सुस्वर नाम	८१
१२२	गुरु स्पर्श	५४	१३०	आदेय नाम	८२
१२३	लघु स्पर्श	५५	१३१	यज्ञ कीर्ति नाम	८३
१२४	शीत स्पर्श	५६	१३२	स्थावर नाम	८४
१२५	उष्ण स्पर्श	५७	१३३	सूक्ष्म नाम	८५
१२६	स्निग्ध स्पर्श	५८	१३४	आपर्याप्ता नाम	८६
१२७	रूक्ष स्पर्श	५९	१३५	साधारण नाम	८७
१२८	नरकानु पूर्व्वी	६०	१३६	आस्थिर नाम	८८
१२९	तिर्यचानु पूर्व्वी	६१	१३७	अशुभ नाम	८९
१३०	मनुष्यानु पूर्व्वी	६२	१३८	दौर्भाग्य नाम	९०
१३१	देवानु पूर्व्वी	६३	१३९	दुस्वर नाम	९१
१३२	शुभ विहायोगति	६४	१४०	अनादेय नाम	९२
१३३	अशुभ विहायोगति	६५	१४१	अयशकीर्ति नाम	९३
१३४	पराघात नाम	६६			
१३५	उश्वास नाम	६७			
१३६	आताप नाम	६८			
१३७	उद्योत नाम	६९	१४२	ऊंचा गौत्र	१
१३८	अगुरु लघु नाम	७०	१४३	नीच गौत्र	२
१३९	तीर्थकर नाम	७१			
१४०	निर्माण नाम	७२			
१४१	उपघात नाम	७३			
१४२	वस नाम	७४	१४४	दानान्तराय	१
१४३	वाटर नाम	७५	२४५	लाभान्तराय	२
१४४	पर्याप्ता नाम	७६	१४६	धोगान्तराय	३
१४५	प्रत्येक नाम	७७	१४७	उपधोगान्तराय	४
१४६	स्थिर नाम	७८	१४८	वीर्यान्तराय	५

७गोत्र कर्म की २ प्रकृति.

ऊंचा गौत्र	१
नीच गौत्र	२

८अंतराय कर्मकी ५ प्रकृति.

दानान्तराय	१
लाभान्तराय	२
धोगान्तराय	३
उपधोगान्तराय	४
वीर्यान्तराय	५



“ द्वितीय कर्मरोहण द्वारार्थ. ”

३४—प्रथम क्रियाद्वार का अर्थ.

मूल कर्मोत्पत्ति का कारण क्रियाही है. अर्थात्-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इन पांचों में-उद्योग कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम इन पांचोंका संयोग होने से क्रिया निवृत्ती है. वो क्रिया इस विश्व में धरे हुये कर्म वर्तमानके अनन्तान्त पुद्गलोंका परावर्तन होरहा है उन्हे खेंच कर आत्म प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध करतीहै. “सकषायया कषाययोः साम्परायिके र्ग्यायथपो” इस तत्त्वार्थ सूत्रके वचनानुसार क्रिया दो प्रकारकी है;—सकषाय जीवोंके जो क्रिया लगती है उसे सम्पराय क्रिया कही जाती है; वो कषाय के योग से बन्ध स्थिति प्राप्त करती है. और कषाय रहित महात्मा को जो फल जोगों प्रवृत्ति कर क्रिया लगती है सो इर्ग्याही क्रिया कही जाती है. सो कषाय रूप रस-विकृत के अभाव ले बन्ध स्थिति नहीं पाती है. काँच पर लगी रज (धूल) की तरह तुरंत दूर होजाती है.

इस में प्रथम सम्पराय क्रिया कही जिस के २४ भेद कहते हैं.

१. काइया क्रिया. इसके दो भेद;—(१)काया-शरीर पर समत्व भाव धारण कर व्रत प्रत्याख्यान तप संयम करता डरे, कि रखे धर्म करने से मेरा शरीर दुर्बल होजायगा. और शरीर के पोषणार्थ छोड़ी काया का कुट्टरम्ब करता डरे नहीं सो अणा उत काया क्रिया. (२) उठते बैठते हलन चलनादि करते यत्ना नहीं रखे सो दुप्रयुक्त काइया क्रिया.

२. आहीगरणीय क्रिया;—शस्त्र से लगे जिसके दो भेद;—(१) शस्त्र की धारा तीक्ष्ण करावे, हाथा आदि लगावे सो संयोजनाधि करणी. और (३) नवीन शस्त्र निपजावेसो निवृत्तनाधि करणी. ऐसीही इसके वचनाअश्री दो भेद;—ज्यूना क्लेश-क्षमा या क्लेश उद्दीरेसो संयोजनाधि करणी, और (२) नवा क्लेश करेसो निवृत्तनाधि करणी

३ 'पाउसीया क्रिया'—द्वेष परिणामों से लगे. इसके दो भेदः—(१) सजीव वस्तु मनुष्य पशु क्षुद्री जीवोंपर द्वेष करेसो जीव पाउसीया, (२) शीत ताप विष पापणादि निर्जीव नस्तुपर द्वेष करनेसे लगेसो अजीव पाउसीया.

४ 'परितापनिया क्रिया'—परिताप (दुःख) उपजाने से लगे, इस के दो भेदः—(१) जीवको दुःख दे सो जीव परितापनीय, और (२) अजीवका निकारण छेद न भेदन करे सो अजीव परितापनिया किरिया.

५ 'पाणाइवाइ क्रिया'—सो जीव काया अलग २ करे, इसके दो भेदः—(१) अपने से दुसरे की घात करे, तथा आप घात करे, सो सहत्य पाणावाइ, और (२) दुसरे के हाथ से दुसरे को मरावे, या दुसरेके हाथसे घात करावे सो परहत्य पाणाइवाइ क्रिया.

६ आरंभीय क्रिया—किसी भी पाप कार्य का प्रारंभ करे, इसके दो भेदः—(१) पृथग्यादि छेही जीव काया का मर्दन करे सो जीव आरंभी, और (२) साकट वाहन मुशलादि करावे सो अजीव आरंभी.

७ परिग्गाहीया क्रिया—ममत्व भाव से लगे, इसके दो भेदः—(१) दो पद चौपद मणी आदि पर ममत्व करे सो जीव परिग्गाहीया, और (२) वस्त्र भूषण मकानादि की ममत्व करे सो अजीव परिग्गाहीया.

८ 'मायावतिया क्रिया'—कपट करने से लगे, इसके दो भेदः—(१) ऊपर शुद्धाचारी रहे और अन्दर अनाचीर्ण सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावतिया, और (२) खोटे-तोले-मापे रक्खे सो बाह्यमायावति या किरिया.

९ मिथ्या दंशणवत्तिया क्रिया"—खोटी श्रद्धा से लगे, इसके ३ भेदः—(१-३) जिनाज्ञासे, कमी ज्यादा, विपरीत श्रद्धे परूपे स्पर्श. तथा (१-३) कुदेव-कुगुरू-कुर्धमका मत्य श्रद्धान करे.

१० 'अपचखाणीया क्रिया'—अविरति-पने से लगे इसके दो भेदः—(१) सजीव वस्तु भोगवने के पचखाण न होणे से उसकी अविरति आवे सो सचित्त अपचखाणीया. और (२) अचित्त-निर्जीव वस्तु भोगवनेके पचखाण नहोनेसे अविरत आवे सो अचित्त अपचखाणीया किरिया.

११ 'दीष्टीया क्रिया'—देखने से लगे, इस के दो भेद—(१) गज वृषभ अश्व्यादि सजीव वस्तु को देख हर्ष विषवाद उत्पन्न होवे सो जीव दीष्टीया. और (२) भवण भूषणादि अजीव वस्तु के देखने से हर्ष विषवाद होवेसो अजीव दीष्टीया क्रिया.

१२ "पुठियाक्रिया" स्पर्शने से लगे-इस के दो भेदः-(१) स्त्री पुरुष धान्य आदि सजीव वस्तु का स्पर्श करने से लगे सो जीव पुठिया. और (२) वस्त्र आभरण आदि स्पर्शने से लगे सो अजीव पुठिया.

१३ "पाडोचिया क्रिया"-बुरा चिन्तवने से लगे, इसके दो भेद-(१) भयंकर र सिंह आदि सजीव वस्तु का बुरा चिन्तवे सो जीव पाडोचिया; और (२) अशुची मलादि निर्जीव का बुरा चिन्तवे सो अजीव पाडो चिया क्रिया.

१४ सामन्तवणिया क्रिया-नजीक की वस्तु से लगे, इसके दो भेद-(१) स्व-क्रिय मनुष्य पशु पक्षी मकान भूषणादि की पर संस्था स्रुणकर प्रमोद पावे सो जीव सामन्तवणीया, और (२) दूध तेल आदि प्रवाही [पतले] पदार्थ उघाडे रखनेसे लगे सो पर सामन्तवणिया.

१५ निसर्थाया क्रिया-निक्षेप करने से-डालने से लगे, इसके दो भेद-[१] पृथ्वी पाणी आदि सजीव वस्तु अयत्ना से डालने से लगे सो सजीव निसर्थाया. और [२] तीर गोळा आदि फेंकने से-डालने से लगे सो अजीव निसर्थाया.

१६ "सहत्थियाया क्रिया" अपने हाथ से लगे, इसके दो भेद-(२) सिंहसर्प स्वान मंजार गौ अश्व्यादि का तथा अपने शरीर का वध बन्धनादि करने से लगे सो-जीव सहत्थिया. और (२) सोनार लोहकार कुंभकार आदि कूटन पीटन करेसो अ-जीव सहत्थिया.

१७ आणवणीया-आज्ञादे काम कराने से लगे, इसके दो भेद-[१] दास आदि को आज्ञादे काम करावे सो जीव आणवणीया. और (२) यंत्रादि की सहाय से कामलेवे सो अजीव आणवणीया.

१८ विदारणीया क्रिया-वस्तु के विदारने-फोड तोड करने से लगे, इसके दो भेदः-(१) मट्टी पुष्य फलादि सजीव वस्तु को विदारने सो जीव विदारणीया. और (२) धातु काष्ठ वस्त्रादि का छेदन भेदन करेसो अजीव विदारणीया. सिणगारिक रस, वि-भत्स रस, शुर रस, आदि कुरसों से पूरीत कथा रागादि कर विषय कपाय की प्रेरणा से दूसरे का हृदय विदारने सो भी विदारणीया क्रिया.

१९ अणा भोग क्रिया-विना भोगवेही क्रिया लगे. जिसके दो भेद-(१) शून्य चित्त-असावधान पणे किसी भी वस्तु को ग्रहण करे निक्षेप करेसो शून्य अनाभोगी. और (२) अन्य के काम भोग देख मुण उने आप भोगवणे की अभिलाषा करे, सो

वस्तु अणा भोगी.

२० "अणाव कंखवति क्रिया-नइच्छने लायक काम करने से लगे. इसके दो भेद-(१) दुर्व्यश्चादि सेवन करे सो लोकीक अणाव कंखी और (२) हिंसा धर्म स्थापे, तथा इस लोकार्थ धर्म करे सो लोकोत्तर अणाव कंखी.

२१ अनापयोगीक्रिया-निर्धक काम करने से लगे, इसके दो भेद-(२) मन वचन काया के योगों को अयत्ना से वर्तावे सो योग अनापयोगी(२)और कारीगरों के पास हिंसक कृतव्य करावे सो पर योग अनापयोगी.

२२ समुदाणिया क्रिया-वहूतों के समागम से लगे-इसके दो भेद-(१)वहुत मनुष्यों का समुदाय मिलकर शूली फासी नाटक तमाशा आदि देखे सो जीव सामुदानी. और (२) अजायब घर, बाग, दुकानादि, में बहुत वस्तुओंका संग्रह किया सो देखे सो अजीव सामुदाणी.

२३ पेजवतिया क्रिया-राग भावसे लगे-इसके दो भेद:- (१)माया-दगल वाजी करे, सो पेजवति. और (४)असा-तृष्णा वाछां करे सो लोभ पेजवतीया.

२४ दोपवतिया क्रिया-द्वेष भाव से लगे. इसके दो भेद:- (१) क्रोध कपाय कर स्वात्म परात्म को प्रज्वलित करै सो क्रोध दोपवति, और (२) अभीमान अहंता करने से लगे सो मान दोपवतिया.

यह २४ सम्परायिक अर्थात् कर्मों के बन्ध करने वाली क्रिया. जानना और-

२५ इर्यावही क्रिया-फक्त योगों की प्रवृत्ति से लगे इसके भी दो भेद:- (१) इर्यावहे; उपशान्त कपायी और वारवे क्षीण कपायीको योगोंके सकम्पणसे लगे सो छद्मस्तीक इर्या वही, और (२) तेरवे गुणस्थानी केवली भगवन्त के शुभ योगों की प्रवृत्ति से लगे सो केवल इर्यावही. यह इर्यावही क्रिया से साता वेदनीय कर्म प्रदेश से बन्ध तेहैं, सो कपाय के अभाव से स्थिति और अनुभाग को प्राप्त नहीं होते, उसही वक्त अर्थात् जिस समय बन्ध करे उसके दूसरे समय में वेदे (भोगवे) और वो तीसरे समय में-निर्जरे-दूर करदेते हैं.

३५ द्वितीय कारण द्वारका अर्थ.

ऊपर कहे मुझव क्रिया तो कर्म-प्रकृति दल का सञ्चय-संग्रह करतीहै, और उनका बन्ध कारण से होता है सो कर्म बन्ध के ९ कारण हैसो कहते हैं,

१ "मिथ्यात्व"-तत्त्वार्थ की अरूचि तथा विपरीत रुचिहोवे, कुपक्ष का कदाग्र-

दृ-दृष्ट करे सो मिथ्यात्व.

२ 'अविरति,'-तृष्णाका अपारिमाण-इच्छाका अनिरुध्दन-छूटा पणा, आरंभ और विषय में लोलुप्ता सो अविरति.

३ "प्रमाद"-सत्प्रवृत्ति में निरुद्यमी. कुप्रवृत्ति में सहाशिक, वाचाल, आळसी पणा सो प्रमाद.

४ "कपाय"-प्रकृति-स्वभाव की वक्रता सो कपाय.

५ "योग"-मन वचन काया की मळीनता सो योग.

३६ तीसरे से सातवे-तक-हेतुद्वार का अर्थ.

ऊपर जो ५ कारण कर्म बन्ध के कहे सो सामान्य सूत्र, और आगे जो हेतु कहते हैं सो इनही ५ कारणों में से तीसरा प्रमाद कारण छोड कर + बाकी के ४ कारणों के विशेषार्थ रूप ५७ भेद होते हैं, उन्हे कर्मों के हेतु (कर्मों का कार्य साधने वाले सज्जन) कहते हैं:-

प्रथम मिथ्यात्व कारण से पांच हेतु हुवे:- १ अभिग्रही मिथ्यात्व-हटीला, २ अनाभि ग्रहीमिथ्यात्व-भोला, ३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व-कदाग्रही, ४ सांशयिक मिथ्यात्व-वैमी. और ५ अना भोग मिथ्यात्व-अजान.(इन पांचों मिथ्यात्व का कथन मिथ्यात्व गुणस्थान के लक्षण. लक्षण द्वार में विस्तारसे कियाहै.)

द्वितीय अविरति के कारण से-१२ हेतु हुवे:- १. मनकी २ श्रोत इन्द्रियकी, ३ चक्षुइन्द्रिय की, ४ घणेन्द्रिय की, ५ रसेन्द्रिय की, ६ स्पर्शेन्द्रिय की, ७ पृथ्वी कायकी, ८ अपकाया की, ९ तेजकायकी, १० वायुकायकी, ११ वनस्पति कायकी और १२ वसकायाकी अर्थात्-मन को पांचों इन्द्रियों के विषय में और छेकाय के आरंभमें प्रव्रत तेहुवेको रोके नहीं, परन्तु छुटा छोडदेवे-अमर्यादित रहेसो १२अविरतिहै

तृतीय कपाय के कारण से २५ हेतु हुवे:- १-४ अनन्तानबंधी चौक- जिसका अनन्त नहीं आवे ऐसे क्रोध मान माया लोभ: ५-८ अपत्या ख्याना वरणी चौक-जो व्रत प्रत्याख्यानके निर्जरा रूप फलको न होनेदे ऐसे-क्रोध, मान, माया, लोभ; ९-१२

+पांच प्रमादों मेंसे-मद कपायका समावेश कपायमे हुवा. और विषयका समावेश अविरति मे हुवा. बी कथाका समावेश वचन योग में हुवा. इसलिये प्रमाद को छोड बाकीके ४ कारणोंके ही ५७ हेतु किये गये हैं.

त्तीव्र परिणाम श्रारित्र मोह.” अर्थात्-जब कषाय का उदय होवे-क्रोधादि प्रणति में परिण में उस वक्त अपना स्वभाव (भान) भूल कर तीव्र कषायी बन जावे, दीर्घकाल तक कषायमें राच रहै, तो चारित्र मोहनीयका बन्ध होवे; ४ “बह्यारम्भ परिग्रहत्व. नाह कस्यायुषः” अर्थात्-महा आरंभ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय का बध, और मांस मदिता का भोग करने से नरक गति के आयुष्य का बन्ध होता है. १ “माया तैर्यग्यो न स्य” अर्थात्-दगलवाजी, करे झूट बोले तोले मापे खोटे रखे, और मत्सर भाव सेतिर्य च गतिके आयुष्य का बन्ध होता है. “अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभाव मर्दवच मानुष्य स्य” अर्थात्-अल्प-आरंभ परिग्रह, शरल-निष्कपटता, दयालुता और विनय करनेसे मनुष्यगति के आयुष्यका बन्ध होतोहै. और “सराग संयमा संयमा संयमऽ काम निर्जरा बाल तपांसि देवस्य” अर्थात्-शिष्य शरीर आदि पर ममत्व रखने वाले साधु, श्रावक, विना मन कष्ट सहने वाले, अज्ञान तप करने वाले, देवगति का आयुबन्ध करते हैं, और “सम्यक्त्वं च” अर्थात् सम्यक्त्वी के देवायु काही बन्ध होता है. ६ योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्न “अर्थात्-मन वचन काया के योगों की कुटिलता रखे, दूसरे के साथ झूटे झगडे करे तो अशुभ नाम कर्म काबन्ध होता है. और “तद्विपरीतं शुभस्य” अर्थात्-मनादि त्रियोगों की शरलता शुद्धता रखे, धर्म चर्चा कर धर्मोन्नति करने से शुभनाम कर्म का बन्ध होता है. ७ “परात्मनिन्दा प्रशंसे सद सद्गुणों च्छाद नोद्गावने च नीचैर्गोत्रस्य” अर्थात् दूसरे की निन्दा करे, अपनी प्रशंसा करे, दूसरे के गुणोंके ढांके-छिपावे, अपने गुण प्रसिद्ध करे, दूसरे के दोष प्रसिद्ध करे, अपने दोष ढांके तो नीच गोत्रका बन्ध होताहै और “तद्विपर्ययो नीचैर्दृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य,, अर्थात्-गुणवातों के गुणानुवाद करे, अपनी निन्दाकरे, गुणीजनों के गुणों प्रसिद्ध करे, अपने गुण ढांके; दूसरे के दोषों छिपावे, अपने दोष प्रसिद्ध करे तो ऊंच गोत्रका बन्ध होता है, और ८ “विघ्नकरण मन्तरायस्य” अर्थात्-किसीको दान देने में, भोगोप भोग भोगने में, लाभोपर्जन करनेमें, और धर्म उद्यम करने में अन्तराय देनेसे-विघन करने से अन्तराय कर्म काबन्ध होता है.

उत्तर प्रकृति बन्ध के कारण.

पहिले बन्ध के चार कारण- (मिथ्या अदृत कषाय योग) कहै, उने १२० बन्ध की प्रकृतियों पर उतार तैहैं:- ३ नरक त्रिक, ४ पहिली चार जाति, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्ता नाम, साधारण नाम, हुंड संस्थान, आताप नाम, नपुंसकवेद छेवटा संघयण, और मिथ्यात्व मोहनीय, यह १८ प्रकृतियों एक मिथ्यात्वो दय कर

बन्धातीहै. १ अनन्तान वन्य चौक, ४ बीच के चार संस्थान, ५ पाहिले पांच संय-
यण, १ अशुभ विहाय गति, १ दौर्भाग्य नाम, २ तिर्यच त्रिक, ३ मनुष्य विक, २ औ-
द्वारिक द्विक, १ स्त्रीवेद, १ नीच गोव, ३ शीणद्धी त्रिक, १ उद्योत नाम, ४ अपत्या-
ख्याना वरणीय चौक. यह ३३ प्रकृति का मिथ्यात्व गुणस्थान में होवे तो मिथ्यात्व
प्रलय बन्ध होवे, और मिथ्यात्वके आगे अव्रत करके भी इन प्रकृतियोंका बंध होता
है. तथा मिथ्यात्व और अव्रत दोनोंके कारण से भी इनका बन्ध होता है, परन्तु वा-
की रहै तीनों कारणों कर इनका बन्ध नहीं होताहै ज्ञानवरणीय ५, दर्शनावरणीय-
६, असातावे दनीय? मोहनीय १५ (जिन नाम, और आहारक द्विक छोड कर) ना-
म कर्म की ३२, ऊंचगौव १, और अन्तराय की ५, इन+६५ प्रकृति का मिथ्यात्व
अविरति और कषाय इन तीनों में के एक कारण के सेवन से या दोनों तीनों कार-
णोंके सेवन से बन्ध पडताहै, परन्तु फक्त इकेले योग करकेही बन्ध नहीं पडताहै। ए-
क साता वेदनीय का बन्ध चारोंही कारण कर होता है, क्यों कि इसका बन्ध तेरेवे
गुणस्थान तक होताहै. १ अहारक द्विकका बन्ध निर्वर्ण योग सराग संयम कर होताहै
। और "दर्शन विशुद्धि, विनयस्पन्नता, शील वृतेष्वनती चारों, ५ भीक्षण ज्ञानो पयोग,
संवेगौ, शक्ति तस्त्याग, तपसी साधू समाधि वैयावृत्य करण, महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रव-
चन भाक्ति रावश्यका परिहाणि, मार्ग प्रभावना, प्रमचन वत्सलत्व, मिति तीर्थकरत्वस्य.
अर्थात्-निर्मल सम्यक्त्व पालने से, विनय-नम्र भाव रखने से, शील आदि सर्व व्रतों
आतिचार दोष रहित पालने से, वारम्बार ज्ञान में उपयोगका रमण करणे से, वैराग्य
भाव रखने से, स्वशक्यानुसार उलट भाव दान देनेसे, दुक्कर तपश्चर्या करनेसे, साधु
के चितको समाधी शान्ती प्राप्त होवे ऐसी तरह वैयावृत्य भाक्ति करने से, अर्हत आ-
चार्य बहुमुत्री शास्त्र इनो की भाक्ति करने से, दोनों वक्त के प्रतिक्रमण में हानी नहीं
डालने से अर्थात् दोनों वक्त प्रतिक्रमण करने से जैन मार्ग की प्रभावना महिमा की
वृद्धि और जिन वचनों की वत्सलता करनेसे तीर्थ कर गौव का उपार्जन होताहै. और
आहारक शरीरका बन्ध अप्रमत्त साधुकेही होताहै(यह १.२०. उत्तर प्रकृति बंधकेकारण.)

+ आगे देश विगत गुस्थानमें ६७ प्रकृतिका बन्ध कहा जायगा. उसमें से यहां जिन नाम
और साता वेदनीय यह प्रकृति ग्रहण नहीं करीहै.

प्रकृति बन्धके चार प्रकार.

१. पहिले थोड़ी प्रकृत्तिका बन्ध कर फिर बहुत प्रकृत्तिका बन्ध करे उसे-
“भूयस्कार बन्ध”-कहते हैं. २ जो पहिले बहुत प्रकृति का बन्ध कर फिर थोड़ी प्र-
कृत्ति बंध स्थानको जावे उसे-“अल्पतर बन्ध” कहते हैं. ३ जो बन्ध एकही संख्याके
स्थान में रहे, अर्थात् जितनी प्रकृत्ति पहिले बन्धि उतनीही प्रकृत्ति का निरन्त्र आगे
बन्ध करे सो-“अवस्थित बन्ध.” ४ और जो साफ अबन्ध होकर फिर एकादि प्रकृ-
त्ति बन्ध सो-अव्यक्त बन्ध” इन चारों का खुलासा कहते हैं.

आठों कर्मोंपर ४ ही प्रकार के बंध.

१ “भूयस्कार बन्ध”-(१) प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म से लगाकर जो आठवे अ-
न्तराय कर्म तक आठों कर्मों जिस वक्त बन्ध करे सो आठों का बन्ध स्थान-यह फक्त
अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहता है. क्योंकि-आयुष्य का बन्ध एक भव में एकही वक्त अ-
न्तर मुहूर्त पर्यन्त होता है; यह बन्ध पहिले गुणस्थान से (बीचका तीसरा गुणस्थान
छोड कर) सातवे गुणस्थान तक होता है. (२) आयुष्य विना सात कर्मोंके बन्ध का
स्थानक प्रथम गुणस्थान से नववे गुणस्थान तक पाता है, इसकी स्थिति-जघन्य अ-
न्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट-पूर्व क्रोडीका तीसरा भाग अधिक छे महीने कम ३३ सागरोपम
पर्यन्त जानना. क्योंकि-पूर्व क्रोडी वर्षके तीसरे भाग में देवायु का बन्ध करे, वो स-
वार्थ सिद्ध में ३३ सागरोपम के आयुष्य पणे देवता होवे, वहां सहस्र ६ महिना
आयुष्य बाकी रहे तब आगेका दुसरे आयुष्य का बन्ध करे, इसलिये. (३) आयुष्य
और मोहनीय यह दो कर्म छोड बाकी के छे कर्मोंका बन्ध दशवे गुणस्थान में होता
है. सो फक्त अन्तर मुहूर्त पर्यन्त रहता है. (४) आगे उपशान्त मोहनीय आदि गुण-
स्थान में. एक वेदनीय कर्मका बन्ध होता है. इसकी स्थिति जघन्य अन्तर मुहूर्तकी
उत्कृष्ट देश ऊणी (कुछ कमी) पूर्व क्रोडी वर्ष की. केवली के अपेक्षा कर. इन के ब-
न्ध स्थान तीन प्रकार के होते हैं.- (१) एक वेदनीय का बन्ध किये वाद छे कर्मोंका
बन्ध करे सो प्रथम समय प्रथम भूयस्कार. यह बंध इग्यारवे गुणस्थान (उपशम
श्रेणि) से पडते होवा है. और दशवे गुणस्थानमें ६ कर्मका बन्ध कर नववे गुणस्थान
में ७ कर्म का बंध करे, सो-दुसरा भूयस्कार. (२) और येही जीव सातवे गुणस्थान
में आयुष्य सहित आठों कर्मों का बंध करे सो प्रथम समय तीसरा भूयस्कार है.

२ अल्पतर वन्ध-आयुष्यका वन्ध किये बाद पहिले समय ७ कर्म का वन्ध करे सो प्रथम समय प्रथम अल्पतर वन्ध. और नववे गुणस्थान के प्रान्त में सातकर्मों का वन्ध कर दशवे गुणस्थान के प्रथम समय मोहनीय हीन कर छे कर्मोंका वन्ध करे सो दूसरा अल्पतर वन्ध. और छे कर्मों के आगे उपशान्त मोह क्षीण मोहमें एक वेदनीय कर्म का का वन्ध करते तीसरा अल्पतर वन्ध.

३ “अवस्थित वन्ध;”-आठ कर्मों का वन्ध किये बाद सात कर्मों का वन्ध करे तब प्रथम समय अल्पतर वन्ध, और फिर उसस्थान में जीव जितने काल रहे ता-हंलग पहिला अवस्थित वन्ध. इन सात के पीछे छे कर्म का वन्ध करे तब प्रथम समय अल्पतर वन्ध. और फिर दूसरा अवस्थित वन्ध. और ६ कर्मों वान्धे बाद एक का वन्ध करे तब प्रथम समय अल्पतर वन्ध, और फिर तीसरी अवस्थित वन्ध. और सात कर्मों का वन्ध किये बाद आठ कर्मों का वन्ध करते प्रथम समय भूयस्कार, वन्ध और फिर चौथा अवस्थित वन्ध.

४ “अव्यक्त वन्ध”-मूल प्रकृतियोंका सर्वथा अवन्धक पणातो चउदवे अयो-गी केवली गुणस्थान में होता है, और फिर वहां से कोइभी जीव कदापि पडताही न ही है. इसलिये चौथा जो अव्यक्त वन्ध है सो कही भी पाता नहीं है.

❀ उत्तर प्रकृतियों पर चारों प्रकार के वन्ध. ❀

१. ज्ञानावरणीय, २ वेदनीय, ३ आयुष्य, ४ गोव, और ५ अन्तराय, इन पांचों कर्मोंका एकही वन्ध स्थान है. क्यों कि ज्ञानवरणीय और अन्तराय यह दोनों कर्मों तो भ्रुव वन्धि हैं, इस लिये दशवे गुणस्थान तक इन दोनों कर्मोंकी पांच २ प्रकृति का साथही वन्ध होता है. वहां भूयस्कार और अल्पतर वन्ध नहीं होता है. और वेदनी, आयुष्य, गोव इन तीनों कर्मोंकी प्रकृतियों वन्ध विरोधनी है, इसलिये एक समय में एकही का वन्ध होता है, और इसहि लिये इन तीनों कर्मों का वन्ध स्थानभी एकही होताहै: भूयस्कार अल्पतर वन्ध नहीं होता है, और वेदनीय तो तेरवे गुणस्थान तक वन्ध तीहै. इसलिये इस बिना बाकी रहे चारों कर्मों की प्रकृतियों का फक्त अव्यक्त वन्ध एक होता है क्योंकि—इग्यारवे गुणस्थान में अवन्धहो फिर वन्ध करते प्रथम समय में अव्यक्त वन्ध जानना, और फिर अवस्थित वन्ध जाणना.

अब बाकी रहे दर्शनावरणीय, मोहनीय, और नाम इनों तीनों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों पर चारों प्रकार के स्थान वन्ध उतारते हैं:—

दर्शनावरणीय कर्म के-९ का, ६ का, और ४ का, यह ३ बन्ध स्थान हैं (१) इस में दर्शनावरणीय की सब नवोही प्रकृतिका बन्ध पहिले और दूसरे गुणस्थान में होता है, जिसकी जघन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनन्त, भव्य की अपेक्षा से अनादि सन्त, और पडवाइ की अपेक्षा सादि सान्त होती है. (२) नवप्रकृतियों में से धीणद्री त्रिक का बन्धका व्यच्छेद करनेसे मिश्रादि गुणस्थानमें ६ प्रकृतिका बन्धहोताहै, सो जघन्य तो अन्तर मुहूर्त और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम पूर्वक्रोडी प्रथक्त्व झाजेरा जाणना. । (३) छे में से निद्रा द्विक अपूर्व कारण के पहिले भाग में बन्ध का व्यच्छेद होने से आठवे गुणस्थान के बाकी रहे भागोंमें और नववे दशवे गुणस्थान में चारों प्रकृतियों का बन्ध जानना, सो जघन्य एक समय, श्रेणीमें मृत्यु होवे उसकी अपेक्षासे; और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त प्रमाण जाणना. । इन बन्धों में भूयस्कार बन्ध दो, अल्पतर बन्ध दो, अवस्थित बन्ध तीन, और अव्यक्त बन्ध दो होते हैं, सो कहते हैं:—(१) उपशम श्रेणी से पडते हुवे आठवे गुणस्थान के दूसरे भागमें आते हुवे दर्शना वरणीय की चारों प्रकृतियों का बन्ध करते हुवे पहिले निद्रा द्विक का व्यच्छेद कियाथा उसे पुनः बन्धे, तब ६ का बन्ध होवे; उस समय प्रथम भूयस्कार बन्ध जानना. फिर नवका बन्ध करते दूसरा भूयस्कार. (यह दो भूयकार बन्ध) ऐसही (२) प्रथम ९ का बन्ध कर फिर ६ का बन्ध करे उस समय प्रथम अल्पतर बन्ध अपुर्व कारण गुणस्थान के प्रथम समय छे प्रकृतिका बन्ध कर फिर निद्राद्विक का बंध व्यच्छेद होने से चार का बंध करे, उस समय दूसरा अल्पतर बंध. (यह दो अपलतर बंध) (३) और इन तीनों बन्ध स्थान में दूसरे समय से लगाकर उनस्थान के अन्तिम समय तक तीनों अवस्थित बंध जानना. और (४) इग्यारवे गुणस्थान में दर्शनावरणीय का अवंधक हो वहां से पडते दशवे गुणस्थान में चार प्रकृतिका बन्ध करे उसे समय पहिला अव्यक्त बंध और जो जीवो इग्यारवे गुणस्थानमें आयुक्षय होनेसे मरकर अनुत्तर विमान में देवता होवे वहां ६ प्रकृतिका बन्ध करे उस समय दूसरा अव्यक्त बन्ध. यों दर्शनावरणीय कर्म के उपर ४ प्रकारके बंध कहेजाते है.

मोहनीय कर्म के-१० बन्ध स्थान:—मोहनीय कर्म की २८ प्रकृति है, जिसमें से सम्यक्त्व मोहनी और मिश्रमोहनीय इन दोनों प्रकृतिका बन्ध होता नहीं है. इसलिये यह दोनों छोडकर बाकी २६ प्रकृति बन्ध के योग्य होती हैं; इसमें भी एकही

समय में-तीनों वेदों में से एकही वेद का बंध होता है. तथा (१) ह्यस्य और रति, (२) शोक और अरति, इन दोनों युगल में से एक वक्त एकही युगल का बंध होता है, क्योंकि यह प्रकृत्तियों बंध विरोध की है. इस लिये १ मिथ्यात्व गुणस्थान में २२ का बंध होता है, जिसकी स्थिति अभव्य आश्रिय अनादि अनन्त, भव्य आश्रिय अनादि संत, पडवाइ आश्रिय सादि संत जाननी. २ फिर सास्वादन गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का बंध नहोनेसे २१ प्रकृत्तिका बंध होता है, इसकी स्थिति जघन्य १ समय उत्कृष्ट ६ आंवलीका ३ फिर मिश्र और अविरति गुणस्थान में अनंतान-बंधि चौक का बंध नहीं होने से १७ प्रकृत्तिका बंध होता है, इसकी स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट तैतीम सागर पृथक् × पूर्व कोडी वर्ष अधि क; क्योंकि अनुत्तर वियान वासीदेव चक्कर जहां लग विरति पणा आङ्गि कार नहीं करे जहां तक यह बंध स्थान रहता है. ४ फिर देशविरति गुणस्थान में अपत्याख्यानी चौक का बंध नहीं होने से तेरे प्रकृत्तिका बंधस्थान होता है, इसकी स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट पुर्व कोडी वर्ष ५ फिर प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में प्रत्याख्यानी चौक का बंध नहीं होने से ९ प्रकृत्तिका बंध होता है. इसकी स्थिति जघन्य एकही समय की क्योंकि कोइ जीव फक्त एक समय मात्र परिणाम से सर्व विरति पणे में रह कर दूसरे समय में मर जाताहै, इस अपेक्षासे और नहीं तो जघन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशजणा पुर्व कोडी वर्ष की. ६ फिर नववे गुणस्थान में ह्यस्य, रति, भय, और दुगळा, इन चारों प्रकृत्तियोंका बन्ध नहीं होनेसे ९ प्रकृत्तिका बन्धस्थान, ७ इस में से पुरुष वेदका बंधन व्यच्छेद होते ४ प्रकृत्तिका बंध स्थान ॥ ८ इसमें से संज्वल के क्रोधका बंध व्यच्छेद होते ३ प्रकृत्तिका बंध स्थान, ९ इस में से संज्वल का मान का बंध व्यच्छेद होते २ प्रकृत्तिका बंध स्थान. १ और १० इसमें से भी संज्वल की माया का बंध व्यच्छेद होते एक प्रकृत्तिका बंध स्थान. १ छठे से लगा दशवे स्थान तक की जघन्य स्थिति एक समय

+ इस शब्द परसे विचार होता है कि जैसे सो वर्ष की वय हेवे उसवक्त ९ वर्ष में विज्ञान अवस्था प्राप्त हुई गिनी जातीहै. तैसेही कोड पूर्वकी उमर की वक्तभी ९ पूर्व उमरं हुवे बाद विज्ञानही अवस्था प्राप्त होती होगी.

नाम कर्म के ८ वन्ध स्थानः-(१) मिथ्यात्वी जीव मनुष्य तिर्यच अपर्याप्ताए-
केन्द्रिय, प्रायोग्य-१, वर्ण, २ गंध, ३ रस, ४ स्पर्श, ५ तेजस, ६ कार्माण, ७ अंगु
रुल्लु, ८ निर्माण, ९ उपघात, १० तिर्यच गति, ११ तिर्यचानु पूर्वी, १२ एकेन्द्रि
य जाति, १३ औदारिक शरीर, १४ हुंड संस्थान, १५ स्थानवर नाम, १६ वादर,
नाम, अथवा ः सृक्ष्य नाम, १७ अपर्याप्ता नाम, १८ प्रत्येक नाम, अथवा-साधारण
नाम, १९ अस्थिर नाम, २० अशुभ नाम, २१ दौर्भाग्य नाम, २२ अनोदय नाम,
और २३ अयशःकीर्ति नाम, इन २३ प्रकृतिका प्रथम वन्ध स्थान. (२) इन २३ में
पराघात नाम और उन्धज्ञ नाम यह दोनों प्रकृति मिलाने से और अपर्याप्ता के स्था
न पर्याप्ता कहने से यह २५ प्रकृति पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्यात्वी देव मनुष्य
तथा तिर्यच वान्ध तैहें; (३) इन २५ प्रकृति ये आताप नाम, अथवा उद्योत नाम इ
न दोनों में से एक नाम मिलाने से २६ प्रकृतिका वन्ध पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य
तीनों गतिके मिथ्यात्वी जीवों वान्ध तैहें. (४) २ देव द्विक, ३ पचेन्द्रिय जाति, (४)
वैक्रिय शरीर, ५ वैक्रिय अङ्गो पाङ्ग, ६ सम चतुरस्र संस्थान, ७ पराघात नाम, ८ उ
छ्वास नाम, ९ शुभस्र गति, १० तस, नाम ११ वादर नाम, १२ शुभ पर्याप्ता नाम,
१३ प्रत्येक नाम, १४ स्थिर अथवा अस्थिर नाम, १५ शुभ अथवा अशुभ नाम, १६
यःकीर्ति अथवा अयशःकीर्ति नाम, १७ सुभग नाम, १८ सुस्वर नाम १९ ओदय
नाम, २३ वर्णचतुष्क, २४ तेजस शरीर, २५ कार्मण शरीर, २६ अंगरुल्लु नाम
२७ निर्माण नाम. और २८ उपघात नाम. यह २८ प्रकृति देवगति प्रायोग्य मिथ्या
त्वी तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यच वान्ध तैहें. और ऐसेही नरक गति प्रायोग्य
भी २८ काही वन्ध होता है, जिसमें विशेष इतना है कि-देव द्विक के स्थान नरक
द्विक कहना, समचतुरस्र संस्थान के स्थान हुंड स्थान कहना, और अपरावर्त मान प्र
कृतियों अशुभ गृहण करनी. यह २८ प्रकृतियों का चौथा स्थान हुवा. (५) सम्य-
ग्दृष्टि जिन नाम सहित देव प्रायोग्य २८ का वन्ध करते २९ का वन्ध स्थान होता
है. अथवा २ मनुष्य द्विक, ३ पचेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक, ६ छे-संघयण में
का एक संघयण, ७ छेस्थान में का एक संस्थान; ८ तस, ९ वादर, १० पर्याप्ता, ११
प्रत्येक, १२ स्थिर अथवा अस्थिर. १३ शुभ अथवा, अशुभ, १४ सौभाग्य अ-

ॐ जहां दो दो प्रकृतिके साथ नाम अथवा प्रथम लगाकर लिखेहैं वहां कौनसी भीकिए लना.

यथा दौर्भाग्य. १५ सुस्वर अथवा दुस्वरं, १६ आदेय अथवा अनादेय १७ यशःकीर्ति अथवा अयशःकीर्ति १८ शुभस्व गति अथवा अशुभ स्वगति, १९ पराघात, २० उच्छ्वास, २४ वणचतुष्क, २५ तेजस शरीर, २६ कर्मण शरीर, २७ अगुरु लघु, २८ निर्माण, और २९ उपघात, यह २९ प्रकृतिका मनुष्य प्रायोग्य बंधस्थान होता है. देवगति प्रायोग्य २८ प्रकृतिके साथ आहारक द्विक सहित ३० प्रकृति का बंध अप्रमत्त साधु के होता है और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति का जिन नाम सहित ३० प्रकृतिका बंध सम्यग्दृष्टि देवता के होता है. (७) जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० प्रकृति बांधते ३१ प्रकृतिका बंध अप्रमत्त व अपूर्व करण गुणस्थानी मुनिके होता है (८) और आठवे गुणस्थान के छठे भाग में नाम कर्म की ३० प्रकृति का बंध विच्छेद कर फक्त एक यशःकीर्ति काही बंध करे. । इन ८ बंध स्थान में भूयस्कार बंध ६, अल्पतर बंध ७, अवस्थित बंध ८, और अव्यक्त बंध ३, होते हैं सो कहते हैं:-

(१) प्रथम २३ का बंध कर तथा विधि शिद्धि कर २५ प्रकृतिका बंध करे सो प्रथम भूयस्कार बंध मिथ्यात्वी के होता है. (२) इन २५ प्रकृति को आताप अथवा उद्योत दोनों में की एक प्रकृति सहित २६ प्रकृति बांधे सो दूसरा भूयस्कार. (३) विशुद्धया संक्षोप परिणामों से देव प्रायोग्य अथवा नरक प्रायोग्य २८ प्रकृति का बंध करते तीसरा भूयस्कार. (४) देव प्रायोग्य २८ प्रकृतिका जिननाम सहित २९ का बंध करे सो चौथा भूयस्कार. (५) ३० प्रकृति मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव प्रायोग्य बांधे सो पांचवा भूयस्कार. (६) देव प्रायोग्य ३० प्रकृति को जिन नाम सहित ३१ का बंध करे सो छठा भूयस्कार (यह ६ भूयस्कार) और (१) अपूर्व करण गुणस्थान में देव गति योग्य—२८—२९—३०—और ३१ का बंध कर श्रोणि चडते हुवे इस बंध का व्यच्छेदकर एक यशःकीर्ति काही बंधन करे सो प्रथम अल्पतर बंध. (२) कोइ आहारक द्विक और जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३१ प्रकृतिका बंध करते मरकर देवलोक में जावै वो वहां प्रथम समय मनुष्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का बंध करे तब दूसरा अल्पतर. [३] देवलोक से चक्कर मनुष्यपणें उत्पन्नहो जिन नाम सहित देवगति प्रायोग्य २९ का बंध कर उसके प्रथम समय तीसरा अल्पतर बंध [४] कोइ मनुष्य देवगति प्रायोग्य २९ प्रकृति का बंध करता विशुद्ध परिणामों कर देवगति प्रायोग्य २८ का बंध करे उसके प्रथम समय चौथा अल्पतर बंध. (५) इत्ही २८ का बंध करते संक्षेप परिणाम कर एकेन्द्रिय प्रायोग्य २६ का बंध करे सो पांचवा अल्पतर बंध. ६ यही २६

वाला २१ बांधे सो छद्दा अल्पतर. (७) और २५ वाला २३ का बंध करे सो सातवा अल्पतर बंध. (यह ७ अल्पतर बंध) और ऊपरोक्त आठों बंध के स्थानक में दूसरे समय से लगा कर अन्तिम समय तक आठोंही अवस्थित बंध जाणना. (यह ८ अवस्थित बंध) और [१] श्रेणिसे पडते हुवे. नाम कर्म का सर्वथा अवन्ध होकर. फिर यशःकीर्ति नाम का वन्ध करे उसके पहिले समय पहिला अव्यक्त वन्ध. [२] उपशान्तमोह गुणस्थान में आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर विमान में देवता होवे वहां प्रथम समय मनुष्य से मनुष्य प्रयोग्य २१ का वन्ध करे सो दूसरा अव्यक्त वन्ध, और [३] वाहांही जिन नाम सहित ३० प्रकृत्तिका वन्ध करे सो तीसरा अव्यक्त वन्ध. [यह ३ अव्यक्त बंध] ॥ इति प्रकृति बंध. ॥

स्थिति-वन्ध.

स्थिति बंध के ४ भाङ्गे;-ऊपरोक्त प्रकृति बंधमें मूल प्रकृत्तिका तो जघन्य एक का वन्ध है, उत्कृष्ट ८ का वन्ध है. और उत्तर प्रकृत्ति का जघन्य एक का वन्ध है, उत्कृष्ट ७४ का वन्ध है इसमें:- १ अनादि, २ सादि, ३ अनन्त, और ४ सान्त; यह ४ भाँगे कहते हैं:-मूल प्रकृत्ति वन्ध का ओघसे (समुचय) एक सादि सान्त भाँगा पाता है, क्योंकि-भवो भवमें एकही वक्त आयुष्य का वन्ध होता है, यह (८) का वन्ध कहा. और बाकीके कालमें सात प्रकृत्तिका वन्ध होताहै. और उत्तर प्रकृत्तिमें ज्ञानावरणीय और दर्शना वरणीय का एके का वन्ध स्थान, वेदनीय का-एक का वन्ध. मोहनीय का २२का वन्ध, गौत्रका एक कवन्ध, और अन्तरायका पांच कावन्ध. इन वन्धों में-१ अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त भाँगा, २ भव्यकी अपेक्षा अनादि सन्त भाँगा, और ३ पडवाइ की अपेक्षा सादि सान्त भाँगा. यों तीन भाँगे मिलते हैं, और बाकी रहै सर्व प्रकृत्तियों के स्थान में फक्त एक सादि सान्त भाँगा पाता है.

अठों कर्मोंकी स्थिति:-(१-२) ज्ञानावरणीय, दर्शना वरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की दशवे गुणस्थान के प्रान्त में होती है, और उत्कृष्ट तीस कोडा कोडी मागरोपम की उत्कृष्ट संकेश परिणामी मिथ्या त्वी के होती है. (३) वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति १२ मुहूर्त की सो इग्यारवा, चारवा और तेरवा इन तीनों गुणस्थानों को छोड बाकी के सरागी गुणस्थानों में पाती है. क्योंकि-इन तीनों गुणस्थानों में कषाययोदय नहोने से स्थिति वन्ध और रस वन्ध नहीं होता है, फक्त योग प्रत्यय प्रदेश वन्ध तथा प्रकृत्ति वन्ध पाता है. सो भी

प्रथम समय में वन्धे, द्वितीय समय में वेदे (भोगवे) और तीसरे समय में विनाशही पाजांताहै. और उत्कृष्ट स्थिति तीस क्रोडा क्रोडी सागरोपमकी (४) मोहनीय कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की बादर सम्पराय नववे गुणस्थान के प्रान्त में होती है और उत्कृष्ट स्थिति ७० क्रोडा क्रोडी सागरोपम की, महा संक्लिष्ट परिणामी मिथ्यात्वी के होती है. [५] आयुष्य कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर मुहूर्त की पहिले दुसरे गुणस्थान में होवे, और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की मिथ्यात्वी अत्यन्त सक्लेश परिणाम से नरकायु वान्यता है, और प्रमत अप्रमत मुनि विशुद्ध परिणामों कर देवायु वन्धते हैं (६-७) नाम कर्म और गौत्र कर्म की जघन्य स्थिति ८ मुहूर्त की सो सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के प्रान्त में वन्धे, और उत्कृष्ट २० क्रोडा क्रोडी सागरोपम की.

आठोंही कर्मों की १४८ प्रकृति की अलग २ स्थिति कहते हैं :-

१ ज्ञानावरणीय कर्म की-पाचों प्रकृति की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की सक्ष्म सम्पराय गुणस्थात के प्रांत में परिणामों की विशुद्धता से होती है, और उत्कृष्ट तीस क्रोडा क्रोडी सागरोपम की मिथ्यात्वी के होती है,

२ दर्शनावरणीय कर्म की - चक्षु दर्शनावरणीय आदि चारों प्रकृति की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त की सो सूक्ष्म सम्पराय के प्रांत में. पाचों निद्रा की-एक सागर के सात भाग करीये जिस में के दो भाग उस में पल्योपम के असंख्यातवे भाग कम जाननी, एकेन्द्रिय की अपेक्षा से, उत्कृष्ट १ ही प्रकृति की ३० क्रोडाक्रोड सागर

३ वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय की जघन्य स्थिति १२ मुहूर्त की, असाता वेदनीय की एक सागर के सात भाग करीये उस में के दो भाग जिस में पल्योपम का असंख्यातवा भाग कम. और उत्कृष्ट. साता वेदनीय की १५ क्रोडा क्रोडी सागरोपम, असात वेदनी की तीस क्रोडा कोडी सागरोपम की.

४ मोहनीय कर्म की-मिथ्यात्व मोहनीय की-जघन्य स्थिति-एक क्रोड सागरोपम में पल्योपम के असंख्यातवे भाग कम की. अनंतानबंधी, अप्रत्याख्यानि, प्रत्याख्यानि इन तीनों चौक के १२ कपाय की एक सागर के सातीये चार भाग की. संज्वल के क्रोध की नववे गुणस्थान के दुसरे भाग में चरम बंध दो महीना का संज्वल के मान का नववे गुणस्थान के तीसर भाग में चरम बंध एक महीने का, संज्वलकी माया का नववे गुणस्थान के चौथे भाग में चरम बंध १५ दिनका, संज्वल के लोभ का नववे गुणस्थान के पंचवे भाग में चरम बंध अंतर मुहूर्त का, पुरुष वेदका नववे

गुणस्थानके प्रथम भागमें चरम बंध ८ वर्ष का, स्त्रीवेदका एक सागर के चौदवे-वीन भाग का, नपुंसक वेदका एक सागर के चौदवे दोभाग का, हांस्य और रतिका एक सागर के सातीया-एक भाग का, अरति भय शोक दुगंच्छा का एक सागर के साती ये दोभाग का, [यह २६ प्रकृतिका बन्ध हुआ. सम्यक्त्व मोहनीय और भिश्रमोहनीय का बन्ध पडता नहीं है, इसलिये गिना नहीं है] और उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यात्व मोहनीय की ७० क्रोडा क्रोडी सागरोपम, चारोंही चौकडी की १६ कपाव की ४१ क्रोडा क्रोड सागरोपम, पुरुष वेदकी ११ क्रोडा क्रोड सागर. स्त्रीवेदकी १५ पन्द्रक्रोड क्रोड सागर, नपुंसक वेदकी २० क्रोडा क्रोड सागर. हांस्य और रतिकी १० क्रोडा क्रोड सागर. अरति भय शोक दुगंच्छा की २१ क्रोडा क्रोड सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति जानना.

५ आयुष्य कर्मकी-नरकायु देवायु की जघन्य स्थिति दशहजारवर्ष, उत्कृष्ट ३३ सागरोपम. मनुष्य तिर्यच की जघन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट तीन पल्योपम (जुगलीये आश्रिय.)

६ नाम कर्म की-जघन्य स्थिति जिन नाम की अन्तर मुहूर्त की, २ + आहारक शरीर, ३ आहारक अङ्गो पाङ्ग, ४ आहारक संघातन, आहारक बन्धन, ६ आहारक तेजस बधन, ७ आहारक कार्मण बधन, ८ आहारक तेजस कार्मण बन्धन, इस आहारक सप्तककी उत्कृष्ट स्थितिसे असंख्यात गुण हीनी, तोभी अन्तर मुहूर्तकी. १५ शःकीर्ति की ८ मुहूर्त की. १३ वस चतुष्क, १२ अस्थिपटक, २१ औदारिक द्विक, २३ तिर्यच द्विक, २४ एकेन्द्रिय जाति, २५ कुखगाति, २६ निर्माण, २७ आताप, २८ उद्योत, २९ स्थावर, ३० तैजस, ३१ कार्मण, ३२ अगुरुलघु, ३३ उपधात, ३४ उच्छ्वास, ३५ हुंडसंस्थान, ३६ छेवटा संघयण, ३७ कृष्णवर्ण, ३८ तीक्ष्णरस, ४२ अशुभ स्पर्श चतुष्क, ४३ दुर्गंध, और ४४ पराघात नाम इन ४४ प्रकृति की जघन्य स्थिति एक सागर के सातीये दोभाग की, ४९ सूक्ष्म विक, ५१ विह्वे, न्द्रिय विक, इन ६ की एसागर के पेंत्रीसी (३५) ये ६ भाग की. ५१ स्थिर, ५२ शुभ, ५३ सुभग, ५४ सुस्वर, ५५ आदेय, ५६ अयशःकीर्ति. ५७ शुभख गति. ५८

+तिर्यकर नाम कर्मके दलिये भेले क्रिये औरवोजो कभी अन्तर मुहूर्त बाद उदय भाव को प्राप्त होजावे तो वो दलिये क्षय न होवे वहांतक उस जीव की यश कीर्ती बहूत विस्तेरे वचन आदेय आदि शुभगुणों बढे

प्रथम संघयग, ५२ प्रथम संस्थान, ६० शुक्लवर्ण, ६१ मिष्टरस, ६५ शुभ स्पर्शचतुष्क
 इन १५ प्रकृतिकी-एक सागर के अग्रीहीसीये ५ भागकी। इन सिवाय और जितना
 म कर्म की स्थिति २० क्रोडा क्रोड सागर की है, उनकी जघन्य स्थिति सागरोपम के
 सातीये दो भागकी जाननी। जिनकी स्थिति दश क्रोडा क्रोड सागरोपमकी है उनकी साग
 रापम के सातीये एक भाग की। जिनकी पन्द्रह क्रोड क्रोड सागरोपमकी है उनकी
 जघन्य सागरोपम के चौदवे ६ भाग की, जिनकी उत्कृष्ट १८ क्रोडा क्रोड सागरोपम
 की है उनकी जघन्य सागरोपम के पैंतीसये १ भागकी की जानना। परन्तु सर्व
 स्थान पल्योपम का अख्यातया भाग हीन (कमी) लेना। एसी तरह नाम कर्म की,
 जघन्य स्थितिका प्रमाण करना। अब उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं:- १ सूक्ष्म, २ साधार-
 ण, ३ अपर्याप्ता, ६ त्रिकेन्द्रियत्रिक, इन ६ प्रकृतिकी १८ क्रोडा क्रोड सागरोपम की
 ७ वज्रवृषभ नाराच संघयण, समचतुरस्र संस्थान इनदोनों की दश क्रोडा क्रोड सा
 गरोपम की, ९ न्यग्रोध संस्थान, १० ऋषभ नाराच संघयण, इन दोनों की १२ क्रो
 डा क्रोड सागर. ११ नाराच संघयण, १२ सादि संस्थान इनदोनों की १४ क्रोडा
 क्रोड सागर. १३ अर्थनाराच संघयण, १४ वामन संस्थान, इन दोनों की १६ क्रोडा
 क्रोड सागर. १५ किलिक संघयण, १६ कुज्व संस्थान, इन दोनों की १८ क्रोडा क्रो
 ड सागर. १७ छेवटा संघयण, १८ हुंड स्थान इन दोनों की २० क्रोडा क्रोड सागर
 १९ मृदुस्पर्श. २० लघुस्पर्श, २१ स्निग्धस्पर्श, २२ उष्णस्पर्श, २३ सुर्भिगन्ध, २४ श्व
 तवर्ण, २५ मधुर रस, इन ७ प्रकृतिकी १० क्रोडा क्रोड सागर. २६ हरावर्ण, २७
 अम्लान रस, की साडी वारा क्रोडा क्रोडी सागर. २८ रक्तवर्ण, २९ कपायलारस-
 की १५ क्रोडा क्रोडी सागर. ३० पितवर्ण, ३१ कटुरस की साडी सतरे कोडा कोड
 सागर. १२ श्यामवर्ण, ११ तीक्ष्ण रसकी २० कोडा कोडा सागर. ३४ शुभ विहाय
 गति, ३५ देवगति, ३६ देवानुपूर्वी, ३७ स्थिर; ३८ शुभ, ३९ सौभाग्य, ४० सु-
 स्वर, ४१ आदिय, ४२ यशःकीर्ति, इन ९ प्रकृति की-१० कोडा कोड सागर. ४३
 मनुष्य गति, ४४ मनुष्यानु पूर्वी की १५ कोडा कोड सागर, ४५ पवैक्रिय शरीर, ४६
 वैक्रिय अङ्गो पाङ्ग, ४७ वैक्रिय संघातन, ४८ वैक्रिय वैक्रिय वन्धन, ४९ वैक्रय ते
 जस वन्धन, ५० वैक्रय कार्मण वन्धन, ५१ वैक्रिय तेजस कार्मण वन्धन. ५२ तिर्य-
 चगति, ५३ तिर्यचानु पूर्वी, ५४ औदारिक शरीर, ५५ औदारिक अङ्गो पाङ्ग, ५६
 औदारिक संघातन ५७ औदारिक औदारिक वंधन, ५८ औदारिक तेजस वंधन,

६२ औदारिक कार्मण बंधन, ६० औदारिक तेजस कार्मण बंधन, ६१ नरक गति
 ६२ नरकानु पूर्व्वी, ६३ तेजस शरीर, ६४ कार्मण शरीर, ६५ अग्ररुलघु ६६ निर्मा-
 ण, ६७ उघात, ६८ तेजस संघातन, ६९ कार्मण संघातन, ७० तेजस तेजस बंधन,
 ७१ कार्मण कार्मण वेधन, ७२ तेजस कार्मण बंधन, ७३ अस्थिर, ७४ अशुभ ७५
 दोर्भाग्य, ७६ दुस्वर, ७७ अनादेय, ७८ अयशःकीर्ति, ७९ वस, ८० वादर, ८१ पर्या-
 ष्ठा, ८२ प्रखेक, ८३ स्थावर, ८४ एकेन्द्रिय जाति, ८५ पचेन्द्रियजाति, ८६ अशुभ
 विहायो गति, ८७ उच्छ्वास ८८ आताप, ८९ पराघात ९१ गुरु स्पर्श, ९२ कठोर
 स्पर्श, ९३ रुक्षस्पर्श्य, ९४ शीत स्पर्श, और ९५ दुर्गन्ध, इन ५० प्रकृति की २०
 क्रोडा क्रोड सागर. २६ तीर्थ कर नाम. २७ आहारक शरीर, २८ आहारक अङ्गो
 पाङ्ग, २९ आहाराक संघातन १०० आहारक आहारक बंधन, १०१ आहारक ते-
 जस वेधन, १०२ आहारक कार्मण बंधन, १०३ आहारक तेजस कार्मण बंधन. इ
 न ८ प्रकृत्तिकी-एक क्रोडा क्रोड सागर की स्थिति.

७ गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति ८ मुहूर्त की, उत्कृष्ट ऊंच गोत्र की १० क्रो-
 डा कोड सागर की और नीच गोत्र की २० क्रोडा क्रोड सागर की.

८ अंतराय कर्म की पांचों अंतराय की-जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्ट-
 तीस कोडा कोड सागर की.

यह १४८ प्रकृति जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जाननी.

उत्कृष्ट स्थिति बंधके स्वामी-पहिले नरकयुका बंध किया हुआ मनुष्य क्षयोपश-
 म सम्यक्त्व प्राप्तकर तीर्थकर नाम कर्म की उपार्जना करे, और फिर पूर्व बंधानुसार
 नरक में गमन करते सम्यक्त्व का वमन करता अंतिम समय में तीर्थकर नाम की उ-
 त्कृष्ट स्थिति का बंध करते हैं. और आहारक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंध अप्रमत
 गुणस्थान चरम बंध मुनि के होता है. क्योंकि-इस बंध में येही अति संक्लिष्ट है. औ-
 र देवायु तो प्रमत गुणस्थान में आयु बंध का आरंभ कर अप्रमत गुणस्थान में च-
 डते हुवे सांधु के होता है, क्योंकि-शुभ आयु बंध के स्थानक में येही अति विशुद्ध
 स्थानक. है इन चारों प्रकृति त्रिवाय वाकी की प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध स-
 शी पर्याप्ता मिथ्यात्व दृष्टिके होता है. क्योंकि मनुषायु और तीर्थचायु विना वाकी
 की सव प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम से होता है, और
 मिथ्यात्वी से अधिक कोइ संक्लेश परिणामी होता नहीं है, इसलिये. इस में भी असं-

ख्यात अध्य वसाय के स्थानक होते हैं परन्तु जिस आयुबन्ध में जैसे अध्यवसाय की जरूर होवे वैसेही वहां समझना.

अनुभाग (रस) बन्ध.

यथादृष्टान्त—जैसे लींव आदि किसी कटुक पदार्थ का एक शेरभर रस सो-एक ठाणीयाकटु, उसे अग्निपर उकालने से तीन पाव रहने से कटुकता अधिक बढीसो “दो ठाणीया कटुतम रस और उसेभी विशेष उकालते आधा शेर रहे सो-त्रिठाणीया कटुतमरस और उसे भी विशेष उकालते पावभर रहै तब विशेष कटुवा होजाय सो-“चौठाणीया तीव्र कटुरस” जाणना. ऐसेही ८२ पाप प्रकृत्ति बन्ध के रस में- संज्वल की कषाय से एक ठाणीया कटुरस प्रगमता है, प्रत्याख्यानीया कषाय से दोठाणीया कटुतर रस प्रगमता है, अप्रत्याख्यानी कषाय से तीठाणीया कटुतर रस प्रगमता है. और अनन्तान बन्धि कषाय से चौठाणीया तीव्रकटु रस प्रगम ताह. ऐ से कषाय वृद्धिसे अशुभ रस में गुणवृद्धि होती है.

और उस पावभर रहै तीव्रकटु रसमें पावभर पाणी मिलानेसे कटुतामें मंदता होतीहै, अधेशेर पाणी मिलानेसे विशेष मंदता ताहोतीहै, तीनपाव पाणी मिलानेसे विशेष मंदतमता होतीहै और शेरपाणी मिलानेसे अत्यंतमंद कटुता होतीहै, तैसेही ८२पाप प्रकृत्तियोंका अनंतानबंधकर संचित दलियों में-अप्रत्याख्यनी कर मंदता, प्रत्याख्यानीकर मंदतरता, और संज्वल कर अत्यंत मंदता होजाती है.

ऐसेही शैलडी-इक्षु आदि मिष्ट पदार्थका-शेरभर रस अग्निपर उकालनेसे तीनपाव रहे.तब मिष्टता अधिक होतीहै आधशेर रहे तब आमिष्टतम विशेषाधिक होवे, और पावभररहे तब तीव्र मिष्टता होजातीहै, तैसेही वयालीस पुण्य प्रकृत्ति के बंधमें अनंतानबंधी कर+दोठाणीया, अप्रत्याख्यानी ख्यानी कर तीठाणीया, प्रत्याख्यानी या संज्वल कर चौठाणीया-तीव्र मिष्ट रस प्रगमता है. कषाय की मंदता से अधिक सुख दाता होता है,

और पाव भर इक्षुरस मे पावभर पाणी बिलाने से मिष्टता मंदहो तीहै, अधशेर पाणी मिलाने मे अधिक मंदतर होती है. तीन पाव मिलाने से विशेष मंद तम हो

÷ ४२ पुण्य प्रकृत्तिका एकठाणीया रस बंध कदापि नहीं होता है. इसलिये दो ठाणीयाही रस कहा है. परन्तु अत्यन्त संक्लिष्ट परिणामों कर दो ठाणीये रस को एक ठाणीया कर-ऊदेरते-वेदते हैं.

तीहै. और शेरभर पाणी भिल्लाणीसे बिलकूलही फिकास आजाति है. तैसेही संज्वलकी कषाय कर सञ्चित की ४२ पुण्य प्रकृतियोंमें प्रत्याख्यानी कर मन्दता, अप्रत्याख्यानी कर विशेष मन्दता, और अनन्तान बन्धी कर तो नष्टता जैसीही होजाती है.

❀ पाठक गणों! यह ऊपरोक्त कथन बहुत दीर्घ दृष्टिसे मनन पूर्वक उपादेय-गृहण करने योग्य है.

कर्म प्रकृतियों में रसका खुलासा-पांचों अन्तराय और केवल द्विक छोड कर-वाकी की ४ ज्ञानावरणीय, ३ दर्शनावरणीय, ४ संज्व लनक+चौक, १ पुरुषवेद, यों १२ प्रकृति का रस एक दो तीन जावव चौठाणीया यों चारोंही तरह का रस प्रगमताहै, एक ठाणीयां रसतो नववे गुणस्थान के संख्याते भाग गयेवाद प्रगमताहै—बन्ध ताहै. और उससे नीचे के गुणस्थान में दोठाणीया तीठाणीया चौठाणीया रसका बंध होता है. और इन १२ प्रकृतिको छोड वाकी की बन्धकी ११ प्रकृति रही उनका दोठाणीया आदिक रसबन्ध होताहै, परन्तु एकठाणीया रसबन्ध नहीं होताहै, क्योंकि-उनमेंजो अशुभ ६२ पाप प्रकृति है उनका बन्ध नववे गुणस्थान में हो ताही नहीं है, और जो ४२ पुण्य प्रकृतिहै उनका रसबन्ध एक ठाणीयां होता नहीं है, क्यों कि-असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण संक्लेश के स्थान है. और उससे कुछ अधिक विशुद्ध के स्थान है, यह दोनों यद्यपि तुल्य बराबर है तथापि विशुद्धि के स्थान तो कुछ अधिकही होतेहैं. जैसे उपशम श्रेणिमें जितने विशुद्धिके स्थानकसे चडते हैं, तैसेही पडती वक्त उतनेही स्थान से पडते हैं, यथादृष्टान्त आवास के जितने चडनेके पंक्तिये होते हैं, उतनेही उतरने के होतेहैं, परन्तु क्षपकश्रेणि कर जो विशुद्धिके स्थान को से चडता है, वो पीछा उतरता नहीं है, इस कारण से इतनेही संक्लेशके स्थान क से विशुद्धिके स्थान ज्यादा हैं. तब आत्म फते पाता है.

रागादि के बशीभूत होकर जीव सिद्ध भगवन्त के अनन्त में भाग कम और अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक इतने परमाणु से निष्पन्न कर्म स्कन्ध के दलिक अलग २ समय २ ग्रहण करता है. उनदलियों के प्रलेक परमाणु में कषाय विशेषकर सर्व जीवों से अनन्त गुण अधिक अनुभाग अर्थात्-रस विभाग पलीच्छेद होते

❀ ऊपर जो संज्वल का एक ठाणीया रस कहा सो स्थूल नय से कहा, परन्तु विशेष ठाणीया आदि होताहै.

हैं। जिसकी यह संक्षेप व्याख्या है।

जगन्मय रस बन्ध के श्वामी कहते हैं:—३ शीण विक्र, ४ अनन्तान बन्धि चो क, और १ मिथ्यात्वमोह. इन आठों प्रकृतिका मन्द रस बन्ध (अत्यन्त जघन्य रस बन्ध) के अधिकारी चारित्र के सन्मुख हुवे (आगे सम्यक्त्व युक्त चारित्र की प्राप्ति करेंगे ऐसे) अनिष्टति करण के चरम समय में वर्तते मिथ्यात्वी मनुष्य जानना, क्यों कि—इन आठों प्रकृतियों के बन्ध केलिये इतनी विशुद्धता दूसरे स्थान में नहीं मिलती है, जो कदापि मिथ्यात्वी से सास्त्रादनी के परिणाम विशुद्ध हैं, तथापि सास्त्रादनी तो पडवाइही होता है. इसलिये संक्लिष्टही कहा जाताहै. और यह ८ आठोंही पाप प्रकृतिहै, इनका मन्द रस बन्ध विशुद्धि मेंही होता है. और वो विशुद्धावस्थाय ग्रन्थी भेद करते होता है, उसमें भी सम्यक्त्व सहित चारित्र गृहण करने वालेकी विशुद्धि किम्विक्तही होती है. इसलिये इन्हे गृहण कियाहै. और सम्यक्त्व गृहण किये बाद तो इन ८ प्रकृति का अबन्ध है. या चारित्र गृहण करने के अधिकारी मनुष्य ही होते हैं, इसलिये यहां मनुष्यही कहे हैं परन्तु देवतादिक नाही कहा. । अप्रत्याख्याना वरण चौक के जघन्य रस बन्ध के अधिकारी जो आगे को संयम अङ्गीकार करेंगे ऐसे अविरति सम्यग् दृष्टि जानना. क्योंकि इसके बन्ध में इस से अधिक विशुद्ध और दूसरा स्थान नहीं है + । प्रत्याख्याना वरणीय के मन्द रस करने वाले संयम सन्मुख हुवे देशविरति (श्रावक) जानना. अविरति से देशविरतिकी विशुद्धि अनन्त गुण अधिक है. । अराति और शोक मोहनीय के जघन्य रस बन्धने वाले प्रमत्त गुणस्थान वर्ती साधु जो आगे को अप्रमत्त होंवेंगे सो जानना. अप्रमत्त में इन दोनों का बन्ध नहीं है. । आहारद्विक के बन्धाधिकारी अप्रमादि साधु अप्रमत्त गुणस्थान को प्रप्ता होने वाले संक्लेश परिणामी जानना, क्योंकि-यह दोनों पुण्य प्रकृति है, इनका मन्द रस बन्ध संक्लेश परिणामों सेही होता है. अप्रमादि जीवों इससे विशुद्ध होने के सबब से गृहण नहीं किये. । निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा. अशुभ वर्ण चतुष्क, हांस्य, रति, दुर्गच्छा, भय, और उपघात. इन १२ प्रकृति में से १० प्रकृति

+ यहां कितनेक देशविरति संयम के सन्मुख हुवे को बताते हैं, परन्तु देशविरति के सन्मुख होनेसे सर्व विरति के सन्मुख होनेकी विशुद्ध अधिक होनेके सबब से यहां ग्रहण किया है. तत्र केवली गम्ब.

का जघन्य रसबन्ध तो आठवे गुणस्थान के सात भाग में से छठे भाग के प्रान्त समय में जानना. और निद्रा तथा प्रचलाका जघन्य रस बन्ध आठवे गुणस्थान के प्रथम भाग में अपने बन्ध के प्रबन्ध व्यावच्छेद से प्रथम समय होता है, यहां उपशम श्रेणि प्रवर्तक गृहण करना. यद्यपि उपशम श्रेणिते क्षपक श्रेणी की विशुद्धता अधिक है, परन्तु जघन्य रस बन्ध सादि सान्त होता है. और क्षपक श्रेणी प्रवर्तक सादि अनन्त होते हैं (क्योंकि पडते नहीं हैं) इसलिये गृहण नहीं किये पुरुष वेद और संज्वलका चौक इन पांचो का जघन्य रसबन्ध नववे गुणस्थान के पांचों भाग में अलग २ होता है, अर्थात्—पाहिले भाग में पुरुषवेद का, दूसरे में संज्वलके क्रोधका, तीसरे में संज्वलके मानका, चौथे में संज्वलकी माया का और पांचवे में संज्वलके लोभ का, यों अलग २ बंध विच्छेद करने के अन्तिम समय अपने २ बंध के अन्तिम बंध में जघन्य रस बंध होता है. १ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, ५ अंतराय इन १४ का जघन्य रसबन्ध दशवे गुणस्थान वर्ती क्षपक श्रेणि प्रतिपन्न अपने बन्ध के अन्तिम समय करता है. सूक्ष्म, अपर्याप्ता. साधारण, तीनों त्रिकेन्द्रिय, चारोंगति का आयुष्य, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगो पांग, देवगति, देवानु पूर्वी, नरगति, नरकानु पूर्वी, इन १६ प्रकृति का मन्द रसबन्ध मनुष्य और तिर्यच तत्प्रायोग्य विशुद्ध संकेश में वर्तते होता है. इन १६ में से ७ तो पुण्य प्रकृति हैं, उनका मंद रस मलीन परिणामों से होता है, और ९ पाप प्रकृति हैं जिनका मन्दरस बहुत विशुद्ध अध्यायसाय, से होता है. इन १६ प्रकृति में से मनुष्यायु, तिर्यचायु छोडकर १४ प्रकृतिका बंध तो देवता तिर्यच के भव प्रत्यय नाही. और मनुष्य तिर्यचायुका जघन्य स्थिति बंध करते मंद रस होता है सो भी क्षुलक भव देवता नरक के नहीं होता है. इसलिये इन १६ प्रकृतिके मंदरस बंध स्वामी मनुष्य तिर्यचही है. उद्योत नाम, औदारिक शरीर, औदारिक अङ्गो पाङ्ग, इन तीनों प्रकृतिका रसबंध मिथ्यात्वी देवता और नरकी तिर्यच प्रयोग्य बन्धते संकेश परिणामों कर करते हैं. मनुष्य और तिर्यचपचेन्द्रिय ऐसे प्रायोग्य कर नरक प्रयोग्य का बंध करे परन्तु नरक में यह प्रकृतियों नहीं है, इसलिये नहीं कही. १ तिर्यच गति, तिर्यचानु पूर्वी, और नीच गोत्र, इन प्रकृतिका जघन्य रस बन्ध सातवी नरक के नेरीये सम्यक्त्व सन्मुख हुवे मिथ्यत्व के चरम समय में वर्तते होता है. क्योंकि-ऐसे प्रायोग्यमें वर्तते देवता या दूसरी नरक होवे तो वो मनुष्य प्रयोग्य बान्धते हैं. और सातवी नरक वालों के तो भवय प्रत्यय मनु-

प्य और ऊंचगोत्र का बन्ध नहींही होता है। तीर्थकर नाम कर्म का जघन्य रस बंध अविरति सम्यक् दृष्टि मनुष्य नरकायु बंध किये बाद क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर कथंचित् फिर भी नरक में जावे तब सम्यक्त्व का वमन करते अन्तिम समय करते हैं। एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नाम का जघन्य रसबंध नरक गति विना वाकी तीनों गति के जीवों मिथ्यात्वी मध्यम परिणाम में प्रवृत्ते त्रसका बंध कर स्थावरका बंध करते, पचेन्द्रिय जाति का बंध कर एकेन्द्रिय जाति का बन्ध करते यों घोल के परिणामों में प्रवृत्ते हुवे करते हैं। क्योंकि अवस्थित परिणाम में वैसी विशुद्धि नहीं होती है। और नारकी के भवप्रत्यय एकेन्द्रिय का बंध न होनेसे उसे छोड़ दिये। आताप नाम कर्म का जघन्य रस बंध भवन पतिसे लगा इशान देवलोक तक के देवता देवी मिथ्यात्वी अतिसंकलिष्ट परिणामी एकेन्द्रिय प्रायोग्य बांधते हुवे करते हैं। साता असाता वेदनीय, स्थिर, अस्थिर शुभ अशुभ, यश अपयश, इन आठों प्रकृतिका मन्द रस बंध मिथ्यात्वी गुणस्थानसे लगाकर प्रमत गुणस्थान तक प्रवृत्ते हुवे अन्तर मुहूर्त साता अन्तर मुहूर्त असाता। यों घोलके परिणामों में प्रवृत्ते अध्यवसाय स्थानक में अवस्थित पणें रहते एक साथही बन्ध करते हैं। त्रस, वादर, पर्याप्ता, प्रत्येक, शुभवर्ण चनुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण, मनुष्य द्विक, खगति द्विक, पचेन्द्रिय जाति, उश्वाश, पराघात, ऊंचगोत्र, छेसघयण, छेसस्थान, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, मुभग, दुभग, मुस्वर दुस्वर, आदेय, अनादेय, इन ४० प्रकृति का मन्द रस बंध चारों गति के मिथ्यात्वी जीवों बांधते हैं-इसमें, त्रस वादर, पर्याप्ता, प्रत्येक, शुभवर्ण चनुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निर्माण, पचेन्द्रिय जाति, पराघात, और उश्वाश, यह १५ प्रकृति तीर्थच मनुष्य मिथ्यात्वी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम नरक प्रायोग्य नामकी २८ प्रकृतिका बंध करते मंदरस बन्धते हैं। यह पुण्य प्रकृतिका है इसलिये इनका संक्लेश से रस बन्ध होता है। और नारकी तथा सांत कुमार से सहस्रारांत आठवे स्वर्ग पर्यन्त के मिथ्यात्वी देवता संक्लेशसे तीर्थच गति प्रायोग्य नाम कर्म की २९ प्रकृति का बंध करते भी इन १५ प्रकृति का मंद रस बंध करते हैं। और इन १५ में से-पचेन्द्रिय जाति और त्रस नाम विना वाकी की १३ प्रकृति के मंद रस बंध भवनपति देवसे इशान देवलोक तक के देवता देवीयों मिथ्यात्वी एकन्द्रिय प्रायोग्य बंध करतेवक्त बांधते हैं। और त्रस नाम तथा पचेन्द्रिय जाति यह दोनों प्रकृतियोंकुछक उ ससे भी अधिक विशुद्ध अध्यवसाय से पचेन्द्रिय प्रायोग्य बांधते हुवे मन्द रस से बा-

न्यते है, यों १५ प्रकृति के मन्द रसके स्वामी चारों गति के मिथ्यात्वी होतेहैं, और स्त्री वेद तथा नपुंसकवेद का मन्द रस चारों गति के मिथ्यात्वी जीवों सम्यक्त्वसन्मुख हुवे विशुद्धि से करते, हैं क्योंकि यह पाप प्रकृति है । मनुष्य गति, मनुष्यानु पूर्वी, शुभस्र गति, छे संघयण, छे संस्थान, शुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय अनादेय, और उँच गोत्र, इन २३ प्रकृति का मन्द रस वन्ध-मिथ्यात्वी जीव बोल के परिणामी परावर्त इस के विरोध की प्रकृति का वन्ध करते ऐसे चारों गति के जीवों जानने; क्योंकि सम्यक्त्व दृष्टि देवता और नारकी तां मनुष्य प्रायोग्य वान्धते तिर्यचादि विरोधी प्रकृति का वन्ध नहीं करते हैं, और ऋषभनाराचादि संघयन भी नहीं वान्धते हैं. और सम्यक् दृष्टि मनुष्य तिर्यच देवता प्रयोग्य वान्धते समचतुरस्र संस्थानका वन्ध करे वाकी के पांचों संस्थानो का वंध नहीं करे, इसलिये सम्यक्त्व की विरोधकी प्रकृति के साथ प्रावर्तते वंध नहीं होताहै, और इसही लिये वों मन्द रस वंध के अधिकारी नहीं हैं. और मिथ्यात्वी भी अति संकृष्ट परिणामसे बीस क्रोड क्रोड सागरोपम प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानक वर्तते तिर्यच द्विक, नरक द्विक, हुंड संस्थान, छेवटा संघयण, अशुभस्र गति, और नपुंसक वेदादि प्रकृत्तिका निरन्व पणे उत्कृष्ट वंध करे, वहां से भी और १८ क्रोडा क्रोड सागरोपम की स्थिति वंध अध्य वसाय स्थानक होवे तव कुब्ज संस्थान, किलिक संघयण, परावर्त हुंड संस्थान और छेवटा संघयण का वंध करै वह मन्द रस वन्ध. और १५ क्रोडा क्रोड सागरोपम की स्थिति वन्धाध्यवसाय स्थानक, से तिर्यच द्विक का मनुष्य द्विक साथ परावर्ति वन्ध करे, तैसेही नपुंसक वेदका स्त्रीवेद के साथ परावर्त कर वन्ध करे. और १० क्रोडा क्रोड सागर स्थिति वन्धाध्यवसाय स्थानक वाद दौर्भाग्य त्रिक, सोभाग्य त्रिक, के साथ परावर्त कर वंध करे, वहां से क्रोडा क्रोड सागर कुछ कमी तक परावर्त कर वन्ध होवे, इसलिये हीन स्थिति वन्धाध्यवसाय स्थानक में फक्त मनुष्याद्विक, वज्रवृषभ नारच संघयण, समच तुरस्र संस्थान, शुभ विहायो गति, सोभाग्य त्रिक, पुषस्वेद इन प्रकृत्तियों का निरन्व वंध करे; यरंतु वहां मंद रसमय वंध नहीं, होता है, क्योंकि विरोध की प्रकृत्तियों के साथ परावर्त कर वंध करते मंद रस होता है. (यह जघन्य रस वंध के स्वामी कह.)

अब उत्कृष्ट रस वन्ध के स्वामी कहते हैं:—एकेन्द्रिय जाति, स्थावर नाम, और आताप नाम इन तीनों प्रकृत्तियों का तीव्र (चौटाणीयां) रस वन्ध भवन पाति,

व्यन्तर जोतिवी, सोधर्म और इशान इन पांच स्थानको के मिथ्यात्वी देवता ओंके हो ता है; इस में जो आताप नाम पुण्य प्रकृति है, उसका बन्ध भी मिथ्यात्वी के तत्प्रा योग्य विशुद्ध परिणाम से पडता है. और दोनों प्रकृति का बन्ध अशुद्ध परिणाम से पडता है. क्योंकि ऐसा जो संक्लेश परिणाम मनुष्य तिर्यच के होवेतो नरक प्रायोग्य बन्ध करे, और नरक के जीवों के यह तीनों प्रकृति नहीं है. और सनत कुमार श्वा र्ग के ऊपर के देवों भी तीनों प्रकृत्तिका बन्ध नहीं करते हैं, इसलिये ऊपरोक्त पांच स्थान को सिवाय तीनों प्रकृत्तिका उत्कृष्ट रस बन्ध नहीं होता है। सूक्ष्म, अपर्याप्ता साधरण, तीन विक्लेन्द्रिय, नरक त्रिक, तिर्यचायु, और मनुष्यायु, इन ११ प्रकृत्तिका उत्कृष्ट रस बन्ध सत्री पर्याप्ता पचेन्द्रिय, मिथ्यादृष्टि, संख्यात वर्षायुवाला, तत्प्रायो- ग्यो संक्लेश वर्तते ऐसे मनुष्य तिर्यच के होता है. क्योंकि इनमें की पहिली ९ प्रकृति का बन्ध तो देवता नारकी के भव प्रत्यय तो नहीं होता है, और मनुष्य तिर्यच का आयुष्य जो देवता नारकी बन्धते हैं, तोभी इसकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की बन्धती वक्त उत्कृष्ट रस बन्ध होता है. ऐसा बन्ध देवता नारकी और जुगलीयों के नहीं होता है, इसलिये नहीं बान्धते हैं. और सास्त्रादन गुणस्थान में भी घोलके परि णाम होने से और उपर के गुणस्थानों में इन का बन्ध नहीं होने से इतनी स्थिति ब न्धती नहीं है, इसलिये मिथ्यात्वीही उत्कृष्ट रसबन्ध के अधिकारी होते हैं,। तिर्यच गति, तिर्यचानुपूर्वी, और छेवटा संघयण, इन तीनों प्रकृत्तिका उत्कृष्ट रसबन्ध अति संक्लिष्ट परिणामी सनन्त कुमार देवलोक से सहस्रान्त देवलोक तक के मिथ्यात्वी दे- वता के और नरक के होता है; क्योंकि संक्लिष्ट परिणामी मनुष्य तिर्यच तो नरक प्रायोग्यही बन्धते हैं, सम्यक् दृष्टि के यह बन्ध नहीं होता है. और भवन पतिसे ल- गा इशान देवलोक तक के देवता मिथ्यात्व युक्त संक्लिष्ट परिणाम में परिणामते एके न्द्रिय प्रायोग्य नाम कर्म की प्रकृति बान्धे हैं, परन्तु छेवटा संघयण का अनुकृष्ट रस बंध होता है. इसलिये इने नालिये। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अङ्गो पाङ्ग, देवगति, देवा- नु पूर्वी, आहारक द्विक, शुभखगति, शुभवर्ण चतुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरु लघु, निर्माण, तिर्थकर नाम, मातावेदनीय, ममचतुररस संस्थान, पराघात, त्रसदशका, प- चेन्द्रिय जाति, श्वाशा छत्राम, और उंच मोक्ष. यह २३ पुण्य प्रकृत्तिका उत्कृष्ट रसबंध क्षपके श्रीण में चडने वाले मनुष्य के होता है. इस में भी साता वेदनीये, उंचगौत्र और यशः कीर्ती, इन प्रकृति का उत्कृष्ट रस बंध सूक्ष्म सम्पराय के चरम भाग

वर्ती क्षपक के होता है; क्योंकि-इन प्रकृति के बंध के लिये येही अत्यंत विशुद्ध स्थान है, और इन विना बाकी रही जो २९ प्रकृति उनका उत्कृष्ट रस बंध अपूर्व करण के सात भाग मेंके छठे भाग में ३० प्रकृति का बंध विच्छेद होता है वहां-एक उपघात विना बाकी की २९ प्रकृति के चरम बंध में क्षपक के अत्यन्त विशुद्ध परिणाम परवर्तते चौठाणी रस बंध होता है, उपशम श्रेणि में भी यह गुणस्थान है, परंतु क्षपक जितनी विशुद्धि नहीं होने से उत्कृष्ट रस बंध के अधिकारी नहीं है, और देवता नरक तिर्यंच में तो यह गुणस्थान हेही नहीं. तो इन प्रकृति यों का उत्कृष्ट रस बंध होवे कहां से. । उद्योत नाम कर्म का उत्कृष्ट रस बंध सातवीं नरक के जीवों अकाम निर्जरा कर कर्म क्षय करते विशुद्ध परिणाम कर सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिये आनिष्टात्ति करण कर मिथ्यात्व की स्थिति के दो भाग करे, उस अंतकरण की प्रथम स्थिति के चरम समय उद्योत नाम का उत्कृष्ट रस बंध करे, और दुसरे नरक के या देवता के जीवों तो ऐसे परिणाम में प्रवृत्त ते मनुष्य प्रायोग्य का बंध करते हैं, सो बंध इस सप्तम नरक में नहीं है, फक्त तिर्यंचायु ही बांधते हैं, इसलिये तिर्यंचायु की सहकारी उद्योत नाम कर्म का उत्कृष्ट रस बंध यहां ही होता है, मनुष्य-द्विक, औदारिक द्विक, वज्र ऋषभ नाराच संघयण, यह ९ प्रकृति मनुष्य गति प्रायोग्य अतिहि शुद्ध सम्यक दृष्टि देवता-जिनास्थान श्रवण करते, जैन नोन्नति का कार्य करते, सम्यक्त्व उज्वल ते, चारों संघ की भक्ति करते उत्कृष्ट रस बंध करते हैं. मनुष्य जो ऐसी विशुद्धि में प्रवर्ते तो देवायु बंधे. और देवता में यह प्रकृतियों है नहीं. इसलिये यहां सम्यक्त्वी देवही लिये हैं. और नरक के सम्यक दृष्टि को इन बंध के कारणों का अभाव होने से उत्कृष्ट रस बंध नहीं कर सकते है. देवायु का उत्कृष्ट रस बंध ३३ सागरोपम का प्रमत गुण स्थान से अप्रमत गुणस्थानारूढ होते हुवे साधु अति विशुद्धि कर बांधते हैं. क्योंकि देवायु में अति विशुद्धि का स्थानक यह ही है. उपर कही प्रकृतियों में से दोष बाकी रही सो-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, १६ कषाय, १ मिथ्यामोहनी, ९ नो कषाय, प्रथम संघमण विना ९ संघमण, प्रथम संस्थान विना पांच संस्थान, अशुभ वर्ण चतुष्क. अस्थिर पट्टक, उपघात, कु खगति, नीच गौत्र और पांच अंतराय, यों ६८ प्रकृतिका उत्कृष्ट रस बंध चारों गति के पंचेन्द्रिय पर्याप्ता मिथ्यात्व दृष्टि जीवोंके होता है. इस में मध्य के संघयण और मध्य के चार संस्थान, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हाँस्य, रति, इन १२ प्रकृति वि-

ना बाकी रही सो ५६ प्रकृति यों का उत्कृष्ट रस बंधावसाय स्थानक में जो अत्यंत मलीन संक्लिष्ट अध्यवसाय स्थानक होवे वहां ही उत्कृष्ट रस बंध होता है, और हाँस्य तथा रति का उत्कृष्ट रस बंध मध्य संक्लेश स्थानक में बंधते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश तो नपुंसक वेद शोक और अरति का बंध करता है, और हुंड संस्थान तथा छेवटा संघयण का उत्कृष्ट रस बंधते हैं. इसलिये इन १२ प्रकृति का उत्कृष्ट रस मध्यम संक्लेशी चतुर्गति के जीवों जानना.

रस बंध के चार प्रकार—१ जिससे हीन-कमी कोई रस बंध न होवे सो 'जघन्य रस बंध.' २ और इस इस सिवाय दूसरे सब अजघन्य रस बंध. (इन दोनों भेदों में सब बंध का समावेश हो जाता है) तथा—१ जिससे अधिक दूसरा कोई तीव्र रस बंध नहीं होवे सो 'उत्कृष्ट रस बंध.' २ और उससे एकादि रस विभाग हीन-कम ऐसे सर्व रस बन्ध सो —'अनुत्कृष्ट रस बंध.' (इन दोनों में भी सब का समावेश होता है) इन चारों को कर्म प्रकृतियों पर उतारते हैं.

तेजस कार्मण, अगुरु लघु, निर्माण, और शुभ वर्ण चतुष्क इन ८ उत्तर प्रकृति का उत्कृष्ट रस बंध अपूर्व करण नामक अष्टम गुणस्थान के छठे भाग के प्रान्तमें अपने चरम बंधमें एक उत्कृष्ट रस स्थानक होता है. और उस बिना सब अनुत्कृष्ट रस बंध स्थानक जानने. और जिनको इस स्थानक की प्राप्ति नहीं हुई, उनको सदा अनुत्कृष्ट रस बंध स्थानक जानना. सो अनादि जाणना. और जो जीव उमशम श्रेणि में उत्कृष्ट रस बंध कर फिर वहां से पडता हुवा हीन रस बंध करे, वहां अनुत्कृष्ट रस बंध की सादि जाणना, और अभव्य को यह स्थानक प्राप्त होता नहीं है. तथा उत्कृष्ट रस बंध करना नहीं है इससे उनके अनुत्कृष्ट रस बंध अनंत जाणना. और भव्य जीव होवेगा वो श्रेणि प्रतिपन्न हो उत्कृष्ट रस बंध करेगा वहां अनुत्कृष्ट रस बंध का सांत पणा होता है. साता वेदनिय और यश कीर्ती इन दोनों शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट रस बंध क्षपक के दशवे गुणस्थान के अंत समय में पाता है. इसलिये उस स्थानक को जो नहीं प्राप्त हुवे उन के अनुत्कृष्ट की अनादि, और जो इस स्थानक को प्राप्त होकर पीछे पडे, उन के फिर बंध होती वक्त सादि, अभव्य के अनंत, और भव्य को उत्कृष्ट रस बंध करेंगे इसलिये अनुत्कृष्ट रस बन्धका सांत पणा. और इन आठों प्रकृति का उत्कृष्ट बंध क्षपक के अपूर्व करण में होवे, उसने प्रथम बंध करना मुरु किया इसलिये सादि बंध एक समय होता है, परंतु आगे नहीं होता, इसलि

ये सांत दुसरा भांगा. तथा यह आठों शुभ प्रकृति है इसलिये इनका जघन्य रस सर्वोत्कृष्ट संकेश में वर्तते मिथ्यात्वी जीव सजी पर्याप्त बंध करता है, सो एक अथवा दो समय पर्यन्त, फिर अजघन्य बंध बांधता है, फिर कालांतर में सर्वोत्कृष्ट संकेश को प्राप्त हो जघन्य रस बंध करे, यों जघन्य अजघन्य में फिरता जीव को सादि और सांत यह दो भाँगे पाते हैं. । उपर कहे तेजस चतुष्क विना बाकी रही जो-ज्ञाना वरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, कषाय १६, मिथ्यात्व मोहनीय १, अंतराय ५, भय १, दुगच्छा, उपघात, और अशुभ वर्ण चतुष्क, यह ४३ प्रकृति ध्रुव बंध की है, सो अशुभ है, इनका जघन्य रस बंध विशुद्धि कर के अपने चरम बंध में होता है, और उस स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उन के अजघन्य रस बंध की अनादि, और जो इस श्रेणि से पडकर फिर बन्ध करे उनके सादि, और अभव्य जघन्य रस बंध नहीं बंधता है. उससे उसके अजघन्य रसबंध अनन्त, और भव्य जीव सम्यक्त्वकी प्राप्ति करेगे तब उस स्थान को प्राप्त हो जघन्य रसबंध करेगे वहां अजघन्य रसबंध का सान्तपणा. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय यह चारों वातिक कर्म है. इन में से मोहनीय का तो नव वे गुणस्थान के प्रांत में, और तीनों कर्मों का दश वे गुणस्थान के प्रांत में जघन्य रस बंध होता है, बाकी रहे सर्व स्थानों में अजघन्य रस बंध होता है, इसके चार भाँगे:—१ जिस के जघन्य रस बंध न हुवा उस के अजघन्य रस बंध अनादि, २ जो जघन्य रस बंध कर फिर श्रेणि से पडते अजघन्य रस बंध करे तहां सादि, ३ अभव्य के अजघन्य रस बंध अनंत, और ४ भव्य के अजघन्य रस बंध सान्त. इन चारों कर्मों के अजघन्य रस विना बाकी के तीनों बन्ध में सादि सान्त भाँगा पाता है. । गौत्र कर्म के अनुत्कृष्ट तथा अजघन्य इन दोनों रस बंध में चार भाँगे:—१ नीच गौत्र का जघन्य रस बंध सातवी नरक में ग्रंथी भेद कर मिथ्यात्व के अंतिम समय में बंध करे, उस स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उनके अनादि का अजघन्य रस बंध होता है, २ जो एक समय में अजघन्य रस बंध कर फिर अजघन्य रस बंध करे उनके सादि. ३ अभव्य जीव उस स्थानक को कदापि नहीं स्पश्ये इसलिये उस के अनन्त, और ४ भव्य जीव जघन्य रस बन्ध करेगे और रस बंध का विच्छेद भी होगा इसलिये सांत. ऐसेही ऊंच गौत्र का विशुद्धता से उत्कृष्ट रसबन्ध दशवे गुणस्थान के प्रान्त में होता है, उस विना और सब अनुत्कृष्ट रस बंध जानना, वहां जिस ने श्रेणि नहीं करी उस ने उत्कृष्ट रस बंध नहीं किया

ये सांत दुसरा भांगा. तथा यह आठों शुभ प्रकृति है इसलिये इनका जघन्य रस सर्वोत्कृष्ट संक्लेश में वर्तते मिथ्यात्वी जीव सजी पर्याप्त बंध करता है, सो एक अथवा दो समय पर्यन्त, फिर अजघन्य बंध बांधता है, फिर कालांतर में सर्वोत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हो जघन्य रस बंध करे, यों जघन्य अजघन्य में फिरता जीव को सादि और सांत यह दो भाँगे पाते हैं. । उपर कहे तेजस चतुष्क विना बाकी रही जो-ज्ञाना वरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, कपाय १६, मिथ्यात्व मोहनीय १, अन्तराय ५, भय १, दुग्च्छा, उपघात, और अशुभ वर्ण चतुष्क, यह ४३ प्रकृति ध्रुव बंध की है, सो अशुभ है, इनका जघन्य रस बंध विशुद्धि कर के अपने चरम बंध में होता है, और उस स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उन के अजघन्य रस बंध की अनादि, और जो इस श्रेणि से पडकर फिर बन्ध करे उनके सादि, और अभव्य जघन्य रस बंध नहीं बंधता है. उससे उसके अजघन्य रसबंध अनन्त, और भव्य जीव सम्यक्त्वकी प्राप्ति करेगे तब उस स्थान को प्राप्त हो जघन्य रसबंध करेगे वहां अजघन्य रसबंध का सान्तपणा. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय यह चारों घातिक कर्म है. इन में से मोहनीय का तो नव वे गुणस्थान के प्रांत में, और तनों कर्मों का दश वे गुणस्थान के प्रांत में जघन्य रस बंध होता है, बाकी रहे सर्व स्थानों में अजघन्य रस बंध होता है, , इसके चार भाँगे:—१ जिस के जघन्य रस बंध न हुवा उस के अजघन्य रस बंध अनादि, २ जो जघन्य रस बंध कर फिर श्रेणि से पडते अजघन्य रस बंध करे तहां सादि, ३ अभव्य के अजघन्य रस बंध अनंत, और ४ भव्य के अजघन्य रस बंध सान्त. इन चारों कर्मों के अजघन्य रस विना बाकी के तीनों बन्ध में सादि सान्त भाँगा पाता है. । गौत्र कर्म के अनुत्कृष्ट तथा अजघन्य इन दोनों रस बंध में चार भाँगे:—१. नीच गौत्र का जघन्य रस बंध सातवी नरक में ग्रंथी भेद कर मिथ्यात्व के अंतिम समय में बंध करे, उस स्थानक को जो प्राप्त नहीं हुवे उनके अनादि का अजघन्य रस बंध होता है, २ जो एक समय ये अजघन्य रस बंध कर फिर अजघन्य रस बंध करे उनके सादि. ३ अभव्य जीव उस स्थानक को कदापि नहीं स्पर्श्ये इसलिये उस के अनन्त, और ४ भव्य जीव जघन्य रस बन्ध करेगे और रस बंध का विच्छेद भी होगा इसलिये सांत. ऐमेही ऊंच गौत्र का विशुद्धता से उत्कृष्ट रसबन्ध दशवे गुणस्थान के प्रान्त में होता है, उस विना और सब अनुत्कृष्ट रस बंध जानना, वहां जिस ने श्रेणि नहीं करी उस ने उत्कृष्ट रस बंध नहीं किया

उसके अनुत्कृष्ट रस बंध अनादि; और श्रोणीसे पड ते उत्कृष्ट रस बंध कर फिर अनुत्कृष्ट रस बंध करे तहां सादि, अभव्य के अनुत्कृष्ट रस बंध अनंत, और भव्य को अनुत्कृष्ट रस का सांत, इन ध्रुव बंध की ४७ प्रकृति सिवाय बाकी रही सो— औदारिक, वैक्रिय, आहारक-यह तीन शरीर, और इन तनिों के अङ्गोपाङ्ग तीन, छे संघयण, छे संस्थान, ४ गति, ५ जाति, खगति द्विक, अनुपूर्वी चतुष्क, जिननाम उद्योत, आताप, पराघात, त्रस, दशका, स्थावर दशका, (यह ५८ नाम कर्मकी प्रकृति) वेदनी द्विक, गौत्र द्विक, तीन-वेद, हांस्यादि युगल द्विक, और ४ आयुष्य, यह ७३ अध्रुव बन्ध की प्रकृति के-उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, यह चारों बंध-सादि और सांत यह दो भागे पाते हैं. क्योंकि-इन प्रकृतियों का बंध कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. जब होय तब सादि, और न होय तब सान्त जानना. (इति अनु-भाग बन्ध.)

प्रदेश-बन्ध

जैसे किसी "कुची कर्ण" नामक गाथापति के गौशाळ में बहुत गाइयों होने से उनकी मुख से गिनती लगाने जो वर्णादि गुणकर मिलती हुई गाइयों के अलग २ टोले बंधे. तैसेही ज्ञानी महान् पुरुषोंने अनन्त पुद्गल स्कन्धो को अलग २ देख उनके भेदान्तर मुख से जानने में आवे इसकेलिये प्रमाणों की संख्या के सरीखे २ स्कंधों के टोले बंधे उनका नाम "वर्गणा" ऐसा स्थापन किया. जैसे १ जगत् में छुड्कर एकेक प्रमाणों हैं; उनका टोला सो प्रथम वर्गणा. तैसेही दोप्रमाणों एकत्र मिलने से जो स्कन्ध हुवा उसे द्विगुण कहना. उसका टोला सो दूसरी वर्गणा. तैसेही तीन प्रमाणों से निष्यन्न स्कंध सो 'त्रिगुण.' उसका टोला सो तीसरी वर्गणा. यों एकेक प्रमाणों अधिक होते स्कंध के बरोवरी के टोले उसकी वर्गणा. अधिक २ होती जाती है. २ यों अधिक होती २ अभव्यजीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्धके जीवों के अनंतवें भाग प्रमाणें प्रमाणोंसे निष्यन्न जो स्कंध सो औदारिक शरीर निपजाने लायक होवे. इसलिये वो स्कंध औदारिक शरीर को गृहण करने योग्य होवें. इसलियो वो. औदारिक के गृहण करने योग्य जघन्य वर्गणा होती है. इससे एक प्रमाण कम स्कंध वर्गणा पर्यंत सब अगृहण योग्य वर्गणा. कहना. 'क्योंकि-वैसे स्कंधसे शरीर की निष्यन्ति नही होती है, । अब वो जघन्य औदारिक शरीर आरंभक स्कंध वर्गणा उससे ए-

केक प्रमाणु अधिक स्कन्ध की ऐसी दूसरी-तीसरी-चौथी-पांचवीं यों बढ़ते २ अनन्त वर्गणा. औदारिक शरीर गृहण योग्य पणे होवे, उस औदारिक शरीर गृहण योग्य जघन्य वर्गणा. से अनन्तवे भाग अधिक औदारिक शरीर गृहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होवे, वो अनन्त वा भाग भी अनन्त प्रमाणु रूप जाणना. इसलिये औदारिक के ग्रहण करने योग्य भी अनन्त वर्गणा. होती है. ३ औदारिक शरीर की उत्कृष्ट वर्गणा-से एकेक प्रमाणु अधिक स्कन्ध की वर्गणा. सो औदारिक की अपेक्षा से बहुत प्रदे. शोपाचित तथा सूक्ष्म परिणाम परिणाम, उससे औदारिक के अग्रहण योग्य और वैक्रिय शरीर आरंभक स्कन्ध की अपेक्षा से अल्पप्रदेशोपाचित तथा बादर परिणाम, इसलिये वैक्रिय शरीरके भी अग्रहण योग्य, यों एकेक प्रदेश अधिक होते स्कन्ध अनन्त की अभव्यसे अनन्त गुण और सिद्धके अनन्तवे भाग प्रमणा इतनी वर्गणासो वैक्रिय शरीर के अग्रहण योग्य जाणना. ४ उससे एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो वैक्रिय शरीर आरंभ करते जघन्य ग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. योंही और एकेक प्रदेश बढ़ते स्कन्ध की अनन्ती वर्गणा वैक्रिय शरीर निष्पादक होती है, वोभी जघन्य वैक्रिय गृहण योग्य वर्गणा से अपने अनन्तवे प्रमाण अधिक वैक्रिय शरीर के गृहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है. इसलिये यह भी अनन्त वर्गणा जाणना. ५ उस वैक्रिय गृहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो वैक्रियदल की अपेक्षा से बहुत प्रदेश निष्पन्न तथा सूक्ष्म परिणाम होती हैं, और आहारक शरीर प्रायोग्य दल की अपेक्षा अल्प प्रदेशी तथा बादर परिणाम होती है. इसलिये वैक्रिय तथा आहारक इन दोनों शरीर के काम में नहीं आवे, इसलिये वो अग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. वो भी एकेक प्रदेश अधिक होते २ स्कन्ध की अभव्य से अनन्त गुण और सिद्धों के अनन्तवे भाग प्रमाण अनन्त वर्गणा जाणना. (यह अनन्ति अग्रहण योग्य प्रदेश की वर्गणा होती है) ६ फिर उससे भी एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा उस करके वो आहारक शरीर की निष्पत्ति होवे. इसलिये वो आहारक प्रायोग्य जघन्य वर्गणा होती है. वोभी एकादि प्रदेश अधिक होते अनन्त स्कन्ध की अनन्ती वर्गणा होती हैं, वो जघन्य वर्गणा के अनन्त वे भाग प्रमाण प्रदेश से बढ़ती ऐसी उत्कृष्ट आहारक शरीर के गृहण करने योग्य वर्गणा अनन्ती होती है. ७ उस आहारक गृहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो आहारक की अपेक्षा बहुत प्रदेशिक तथा सूक्ष्म और तेजस की अपेक्षा अल्प प्रदेश

क वादरं परिणत इसलिये दोनों शरीर के गृहण करने योग्य नहीं ऐसी जघन्य वर्गणा उससे एकाधिक प्रदेश बढ़ती यावत् अभव्यसे अनन्त गुण वर्गणा इन दोनों शरीर के अगृहण करने योग्य होवे, इसलिये अगृहण वर्गणा कहीं. ८ उस उत्कृष्ट अगृहण योग्य वर्गणा दलसे एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो तैजस शरीर में योग्य जघन्य वर्गणा जाणना. फिर उससे एकेक प्रदेश वृद्धिहोते स्कन्ध की यावत् जघन्य तैजस शरीर वर्गणाके अनन्तवे भाग जो अनन्त प्रमाणुं उससे अधिक ऐसी उत्कृष्ट तैजस शरीर के गृहण करने योग्य वर्गणा अनन्त जाणनी. ९ उस तैजस शरीर के गृहण करने योग्य उत्कृष्ट वर्गणा के स्कन्धसे एक प्रदेश अधिक स्कन्ध सो तैजस की अपेक्षा से बहुत प्रदेशिक सूक्ष्म और भाषा दलकी अपेक्षा से अल्प प्रदेशिक वादर होतीहै इसलिये वो दोनों शरीर के काम में नहीं आने से गृहण करने को अयोग्य ऐसी जघन्य वर्गणा जाणना. यों एकेक प्रदेश अधिक होते स्कन्ध की अभव्य से अनन्त गुणी और सिद्ध के अनन्तवे भाग प्रमाण इतनी वर्गणा अगृहण योग्य होती है. १० उस उत्कृष्ट गृहण करने योग्य वर्गणा से एक प्रदेश अधिक स्कन्ध सो भाषा के दल के काम आवे इसलिये वो जघन्य भाषा गृहण योग्य वर्गणा होती है. उससे भी और एकाधिक प्रदेश अधिक होती यावत् जघन्य भाषा वर्गणा के अनन्त वे भाग जो अनन्त प्रमाणुओं, तहां बढ़ते स्कन्धकी ऐसी अनन्त वर्गणा भाषा के गृहण योग्य होती है. ११ उस भाषा के गृहण करने योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एकादिक प्रदेश वृद्धि होते यावत् अभव्य से अनन्त गुण प्रदेश पर्यन्त वृद्धि होते अनन्त वर्गणा सो सर्व भाषा शरीर की अपेक्षा से बहुत प्रदेशिक सूक्ष्म और श्वाशोच्छ्वास की अपेक्षा से वादर अल्प प्रदेशिक स्कन्ध, इसलिये वो वर्गणा दोनों के शरीर के गृहण योग्य ऐसी अनन्त जाणनी. १२ और उससे एक प्रदेशाधिक स्कन्धकी वर्गणा उससे श्वाशोच्छ्वास निपजे इसलिये ऐसे स्कन्ध समुदाय सो श्वाशोच्छ्वास गृहण योग्य जघन्य वर्गणा जाणना. इस से एकादिक प्रदेश वृद्धिपाति यावत् जघन्य वर्गणा के अ संख्यातवे भागमें जितने प्रदेश तत्प्रमाण उतने प्रदेश वृद्धि जो वर्गणा सो श्वाशोच्छ्वास की गृहण करने योग्य उत्कृष्ट वर्गणा जाणनी, १३ उससे एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की अगृहण योग्य वर्गणा. पूर्वकी तरह श्वाशोच्छ्वास की तथा मन को भी अगृहण योग्य तैसी एकादि प्रदेश वृद्धि पाति यावत् अभव्य से अनन्त गुणी वर्गणा अगृहण योग्य जाणनी. १४ ऐसीही तरह और भी उस वर्गणा से एकादि प्रदेश अधि-

क स्कन्ध उस करके द्रव्य मन उत्पन्न होवे. इसलिये वो जघन्य मनो द्रव्य गृहण योग्य वर्गणा जाणना. उससे एकादि प्रदेश अधिक स्कन्ध सो यावत् निज जघन्य वर्गणा स्कन्धके अनन्त वे भाग जो प्रदेश होवे उतने प्रदेश वृद्धपाति उत्कृष्टि मनो गृहण योग्य वर्गणा होवे. १.५ उससे एक प्रदेश अधिक पुद्गल स्कन्ध की वर्गणा सो मनो द्रव्य की अपेक्षा से बहुत प्रदेशी सूक्ष्म जाणना. और कर्म दलकी अपेक्षा से अल्प प्रदेशिक वा दर जाणना. इसलिये दौनो शरीर के गृहण करने योग्य नहीं ऐसी अभव्य से अनन्त गुणी वर्गणा जाणना. १.६ और भी उससे एक प्रदेश वृद्धि होते पुद्गल स्कन्ध की वर्गणा सो कर्म दल गृहण योग्य होती है. इसलिये सो कर्म प्रायोग्य जघन्य वर्गणा जाणना. उससे भी एकादि प्रदेश वृद्धि पाति यावत् अपनी जघन्य वर्गणा के अनन्तवे भाग प्रदेश प्रमाण प्रदेश से बढ़ती उत्कृष्टी कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल की वर्गणा जाणनी. उस करके कर्म दलमें कर्म प्रकृति का बन्ध होता है! एक कर्म की जघन्य और उत्कृष्टी के बीच में मध्यम अनन्त वर्गणा होती है. तैसे दल कर कर्म प्रकृति का बन्ध पडता है. इसलिये इसे कर्म गृहण योग्य वर्गणा कही जाती है.

उपरोक्त वर्गणा सो जीवको गृहण करने योग्य पुद्गल हैं, जीवके आश्रित रह तैहें इसलिये उपचार से इसको सचित्त वर्गणा कहना. और इससे एकादि प्रदेश अधिक पुद्गलों का स्कन्ध जिसे जीवों गृहण करे सकै नहीं इसलिये उसे अचित्त वर्गणा कहना. वो अचित्त वर्गणा भी सब जीवोंसे अनन्त गुण अधिक है. इन वर्गणा का स्वरूप सहज में समझाने के लिये कल्पित दृष्टान्त कहते हैं:- जैसे एक से लगाकर दशपर्यन्त प्रमाणु निष्पन्न अग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. उससे १.१-१.२-१.३ प्रमाणु निष्पन्न सो औदारिक गृहण योग्य वर्गणा जाणना. उससे १.४-१.५-१.६-१.७-१.८-१.९- और २.० पर्यन्त अग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. फिर २.१-२.२-२.३ पर्यन्त वैक्रियशरीरके गृहण करने योग्य वर्गणा जाणना. यों आठों वर्गणा गृहण योग्य, और बीच २ की आठों वर्गणा अग्रहण जोग, यों १.६ वर्गणा सचित्त होती है.

१. यह उपरोक्त उत्कृष्ट कर्म वर्गणा से एकादि प्रदेश अधिक स्कन्ध की सर्व जीव से अनन्त वर्गणा. सो निरन्व-हमेशा मिलती है, परन्तु वैसे स्कन्ध की वर्गणा, जीवों के गृहण करने योग्य नहीं होती है, इसलिये उसे ध्रुवाचित्त जघन्य वर्गणा कहना. उस जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा के प्रदेश अनन्त गुणों होते हैं, उसे उत्कृष्ट ध्रुवाचित्त वर्गणा कहना. २ उससे और भी एकादि प्रदेश अधिक स्कन्धकी वर्ग

णा अनाति, सब जीवोंसे अनन्त गुणी, ऐसे पुद्गल स्कन्ध कभी निरन्व भी होते हैं, और कभी सांतर पणे भी होती है, इसलिये अधुवाचित्त वर्गणा कहना. ३ उससे एकादि प्रदेश अधिक पुद्गल स्कन्ध की वर्गणा नहीं मिलती है, परन्तु आगेकी वर्गणा स्कन्ध का महत्त्व पणा बताने कही है, ऐसे भी अनन्ती शून्य वर्गणा होती है, उससे जघन्य वर्गणाके प्रदेश क्षेत्र पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाणा प्रदेशकी राशिसे गुणाकार करना तब उत्कृष्ट वर्गणा होती है. ४ उससे एक प्रदेशाधिक स्कन्ध वो साधारण तो नहीं परन्तु प्रत्येक जीवके औदारिकादि पांचो शरीर के प्रदेश, उसमेंके एक प्रदेश सर्व जीवोंसे अनन्त गुणा विश्रसा परिणत सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध का नाम प्रत्येक वर्गणा कहना. वो भी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा क्षेत्र पल्योपम के असंख्यातवे भाग रूप असंख्याता प्रदेश गुणाकार करने से वो भी अनन्ती वर्गणा जाणना. ५ उससे अनन्त शून्य वर्गणा प्रदेशोत्तर कल्पिए. वोभी जघन्य वर्गणा से लगाकर उत्कृष्ट वर्गणा पर्यन्त अनन्त वर्गणा जाणना. ६ उससे भी एकादि प्रदेश अधिक पुद्गल की वर्गणा सो वादर निगोदिये जीव के तीनो शरीर प्रदेशों के आश्रित अनन्ता पुद्गल स्कन्ध विश्रसा होते हैं, उसकी भी एकादि प्रदेश वृद्धि पाती अनन्त वर्गणा जाणनी, वोभी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा प्रदेश संख्यात असंख्यात गुणा होना है. ७ उससे भी और असत्कल्पना से अनन्ति शून्य वर्गणा पहिले की तरह जाणना. ८ उससे भी प्रदेशाधिक स्कन्ध वर्गणा सो सूक्ष्म निगोद शरीर प्रदेशाश्रित अनन्त पुद्गल स्कन्ध विश्रसा परिणत उसकी वर्गणा अनन्ती वर्गणा जाणना. वो भी जघन्य वर्गणा से आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय की राशिसे जघन्य वर्गणा को गुणा करते उत्कृष्ट वर्गणा होती है. ९ उससे भी और एकादि प्रदेशाधिक ऐसी असत्कल्पना से अनन्ती वर्गणा होती है. १० उससे भी और प्रदेशाधिक मिश्र स्कन्ध जिसका सूक्ष्म पणा से वादर पणा प्राप्त करने अभिमुख सो मिश्रस्कन्ध की वर्गणा अनन्ति जाणना. ११ उससे अचित्त महास्कन्ध जो पर्वत कूटादिक को विश्रसा परिणामें अश्रित अनन्त प्रदेशात्मक पुद्गल स्कन्ध जो विश्रसा परिण में (१) दंड, (२) कपाट, (३) मंथन, (४) अन्तर पूर्णादि करता केवल समुत्यात की तरह आठ समय का अजीव समुत्यात होता है, वहां चौथे समय सर्व लोका प्रमाण स्कन्ध होता है: अजितादि जिनश्वर के वारे में त्रस जीवो की उत्पत्ति अधिक होती है, उस वक्त वो स्कन्ध थोड़े होते हैं, और जिस वक्त त्रस जीव थोड़े होते हैं उस वक्त वो स्कन्ध बहुत होते

हैं, यह लोकस्थिति की वर्गणा भी अनन्ती जाणना. १२ इस से भी अधिक प्रदेश स्कन्ध पन्नवणाजी सूत्र में फरमाये हैं.

और एकाणुकादिक द्रुणुकादिक अर्थात्—एक प्रमाणु की दोप्रमाणु की वर्गणा, आदि शब्दसे तीन चार पांच जावत् संख्यात असंख्यात और अभव्य से अनन्त गुणी अधिक और सिद्धके जीवों के अनन्त वे भाग प्रमाणु की वर्गणा सो औदारिक शरीर के गृहण करने योग्य होती है, ऐसी अनन्त वर्गणा जाणना. इससे भी एकादि प्रमाणु अधिक बढ़ती ऐसीहि अनन्त सो औदारिक शरीर के अगृहण करने योग्य जाणनी. ऐसीही दूसरी वैक्रिय, शरीर के गृहण करने योग्य. तीसरी आहारक शरीरके ग्रहण करने योग्य, चौथी तेजस के ग्रहण करने योग्य, पांचवी भापा के ग्रहणे योग्य, छठी श्वाशोश्वास के ग्रहणे योग्य, सातवी मन के ग्रहणे योग्य, और आठवी कार्मण के गृहणे योग्य. इन आठों वर्गणा का अनुक्रम से अवकाश क्षेत्र एकेक से एकेक का सूक्ष्म होता है. अर्थात्—औदारिक गृहण योग्य वर्गणा का अवगाहना क्षेत्र से औदारिक अगृहण योग्य वर्गणा का अवगाहना क्षेत्र सूक्ष्म, उस से वैक्रिय गृहण योग्य वर्गणा का अवगाहना क्षेत्र सूक्ष्म. यों अनुक्रमसे आठों का जानना, यद्यपि इन आठों वर्गणा का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवे भाग है, तथापि एकेक से एकेक की अवगाहना छोटी होती है. क्योंकि ज्यों विशेष पुद्गलों के प्रमाणुओं समुदाय मिलता है त्यों विशेष सूक्ष्म परिणाम होता है. जैसे कपास (रुड़) के थोड़े प्रदेश भी विशेष क्षेत्र को रोकते हैं. और पार के बहुत पुद्गल थोड़ा क्षेत्र रोकते हैं.

प्रश्न-अमूर्ती आत्मा को मूर्तीमंत कर्मों से उपघात कैसे होता है?

उत्तर—जैसे मूर्तीमन्त मदीरापान करनेसे अरूपी ज्ञानका उपघात होता हुआ-वावलापना प्राप्त होता हुआ. और सारस्वत चूर्ण का सेवन करने से ज्ञान वृद्धि होती हुई प्रत्यक्ष दृष्टि आती है, तैसे ही अगुरु लघु पुद्गल द्रव्य कर्म दल का अगुरु लघु आत्म द्रव्य के साथ सम्बंध होता है. उस से ज्ञानादि गुणों का उपघात होता है, और जिन नामादि शुभ कर्म कर एश्वर्य पूजादि अनुग्रह भी होता है.

उपरोक्त आठ वर्गण में से-१. औदारिक वर्गणा, २. वैक्रिय वर्गणा, ३. आहारक वर्गणा, और ४. तेजस वर्गणा, यह ४ वर्गणा में—५. वर्ण, २. गंध, ५. रस और ८. स्पर्श यह २० गुण पाते हैं. इसलिये गुरु लघु द्रव्य कहे जाते हैं, और-१. भापा वर्गणा, २. श्वाशोश्वास वर्गणा, ३. मन वर्गणा, और ४. कर्म वर्गणा. इन ४ वर्गणा में,

५ वर्ण, २ गंध, ५ रस और ४ स्पर्श यों १६ गुण पाते हैं। इसलिये इने अगुरु लघु द्रव्य कहे जाते हैं। क्योंकि-शीत, उष्ण, रुक्ष, और स्निग्ध, यह ४ स्पर्श अगुरु लघु द्रव्य हैं। एक प्रमाणु में तो-१ वर्ण, १ गंध, १ रस और २ स्पर्श यह ५ गुण पाते हैं, क्योंकि रुक्ष और स्निग्ध प्रमाणु के परस्पर बंध होता है, इसलिये छुट्टे स्पर्श प्रमाणुओं में तो इन दोनों में का एकही स्पर्श जरूर पाता है, + तैसे ही शीत और उष्ण में का भी-एक स्पर्श पाता है। और अनन्त प्रदेशी यह सूक्ष्म परिणत स्कंध में कोई प्रमाणु स्निग्ध शीत, कोई स्निग्ध उष्ण, कोई रुक्ष शीत और कोई रुक्ष उष्ण, यों चार जाति के प्रमाणुओं मिलते हैं। तत्र भाषा, श्वाशोश्वास, मन, और कर्म, इन चारों के दल में चार स्पर्श मिलते हैं।

सर्व जघन्य रस से युक्त जो पुद्गल उसका रस × केवल ज्ञानी की प्रज्ञा कर छेद्यमान सर्व जीवों से अनंत गुण रस विभाग को देता है, वो विभाग अति सूक्ष्मता के योग्य से दूसरे भाव के अभाव से निरंश अंश अणुकहे जाते हैं। ÷ उस रसाणु के प्रति स्कन्ध सर्व प्रमाणुओं में सर्व जीवों से अनंत गुण वर्तते हैं। ऐसे रसाणु युक्त परिणत कर्म स्कंध दलिक को जीव ग्रहण करता है। वो जैसे गौ घांस को खाती हुई दुग्धादि मिष्ट रस उत्पन्न करती है, और सर्प दुग्ध पान करता गरल (विष) उत्पन्न करता है, तैसे ही कर्म दल के अनंत प्रदेशी स्कंध के प्रदेश २ प्रति अलग २ अनन्त रसाणु (अनुभाग) युक्त कर्म पणे जीव ग्रहण करता है, वो स्कंध भी अभव्य से अनन्तगुण सिद्ध के अनंत भाग वर्ती हैं।

जिन आकाश प्रदेशों को आत्म प्रदेश ने आवगाहे उन ही आकाश प्रदेशों को कर्मों के पुद्गलों ने अवगा हे हैं। जब जीव रागादि परिणति में परिणमता है तत्र वो कर्म पुद्गल दल आत्म प्रदेश से लिप्त होते हैं, परंतु अनंतर परंपर प्रदेशस्थ

+ पाठान्तर चारों वर्गणा स्कन्ध में मृदु लघु स्पर्शतो जरूर होता है। और रुक्ष स्निग्धमेंका एक तथा शीत उष्ण में का एक, यों ४ स्पर्श पाते हैं। ऐसी भी क्लिप्ता आचर्य का मत है।

× यहां रसाणु का अर्थ जीवोंके कर्मायी का अव्यवसाय जानित आनन्द विप्राद हेतु शुभा-शुभ कर्मों का विपाक इष्टानिष्टपणे कर मिष्ट और कडुवारस जाणना. परन्तु पांचों रस में के किसी भी रसकी विवक्षा नहीं करनी. यहां तो भाव रसही कहना चाहिये.

÷ रसाणु-रसविभाग-रसपालिच्छेद-भाव प्रमाणु यह सब इसके पर्याय वाचिक नाम हैं.

कर्म पुद्गल द्रव्य के गृहण करते नहीं हैं. जैसे तीव्र अग्नि के ताप में तपता हुआ-उकलता हुआ पाणी ऊपरका नीचे, नीचेका उपर आता है. तैसे रागादि प्रणति के योग्य कर आत्मा के असंख्यात प्रदेश + (आठ रुचक प्रदेश विना) आहत लेते हैं. दो आत्म प्रदेश कपायिक अध्यवसाय रूप चीकणता कर कर्म रूप रज सहित क्षेत्र में आवृत करते हुवे-जैसे तेल लगा हुआ शरीर कचरे में लोटने से कचरे कर लेपाता-धवाता है, तैसे कर्म रज कर असंख्यात प्रदेश लेपाते-वांधते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है कि-एक दोही प्रदेश लेपावें. क्योंकि-जीव के असंख्यात प्रदेशों का शृंखलावय की तरह परस्पर सम्बंध है, इसलिये जब एक प्रदेश कर्म दल गृहण करने प्रवर्ते तब सब प्रदेश प्रवृत्ते हैं, जैसे हास्त (हाथ) कर किसी वजनदार वस्तु को उठाते सब शरीर की शक्ति का उबर आकर्षण होता है, इतना विशेष पंजे पर जोर ज्यास्त लगता है, उस से भुजपर कम उतसे खन्धे पर कम, उतसे अन्य शरीर पर कम. तैसेही कर्म गृहणके सम्बंध में नजिकके प्रदेश के विशेष कर्म लगते हैं और दूरके प्रदेशोंके थोड़े कर्म लगते हैं. परन्तु लगते सब प्रदेशों के हैं.

अब जिस वक्त जीव आयु कर्म का बन्ध करता है उस वक्त अन्तर मुहूर्त पर्यन्त समय २ जो कर्म दल गृहण करे उसके आठ विभाग कर आठों कर्मों को बाँट देता है. और जिस वक्त आयु कर्म विना सात कर्मोंका बन्ध करे तब सात कर्मोंको बाँट देता है. दशत्रे गुणस्थानमें आयुष्य और मोहनीय विना छे कर्मोंका बन्ध करे तब छे को बाँटदे. और जब एक वेदनीय का बन्धकरे तब उसका हिस्सा भी एकही रहता है इसमें सब से थोड़े अंश आयुका जाणना. क्योंकि-दूसरे कर्मोंकी अपेक्षा से आयुष्य कर्म की स्थिति थोड़ी है, इसलिये थोड़े कालमें भोगकर पूराकरे. उससे नाम और गौत्र का भाग परस्पर तुल्य आयुष्य से अधिक, क्योंकि इनकी स्थिति बीस कोडा कोड सागरोपम की है. आयु कर्म से संख्यात गुण अधिक है. इसलिये. + इस से

÷ जो भगवती जी सूत्र में—“सर्वेषां सर्व वंधगा” एसा पाठ है सो आठ रुच प्रदेश अश्रिय नहीं हैं. इनको छोड बाकी के असंख्यात प्रदेशों पर कर्म लेप लगता है. जो रुचक प्रदेशों कर्म कर लेपावें तो फिर जडमें और चैतन्य में कुछ भी फरक नहीं रहता.

× आयुष्य कर्म के भाग का अंश सब से थोडा होता है, क्योंकि-दूसरे कर्मोंकी अपेक्षासे आयु कम की की स्थिति कर्म है, इसलिये उसका दल भी थोडे हैं, सो थोडे ही काल में भोग करक्षय कर देता है.

ज्ञानावरणीय, दर्शना वरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका हिस्सा आपसमें तुल्य, और नाम गौत्र से विशेषाधिक, क्योंकि इन तीनों की स्थिति तीस क्रोडा क्रोड सागरोपमकी है. इससे मोहनीय कर्म का हिस्सा विशेषाधिक क्योंकि-दर्शन मोहनीय की स्थिति सौत्तर क्रोडा क्रोडी सागरोपम की है; और चारित्र मोहनीय की स्थिति चालीस क्रोडा क्रोडी सागरोपम की है.

जैसे लूखा आहार (रोटे-रात्र प्रमुख) अधिक होवे तोही क्षुधा का उपशम होता है, और चिक्कणा आहार (शीरा-मावा प्रमुख) थोडा भोगवने से क्षुधाका उपशम होजाता है. तथा पाषाणादि बहुत द्रव्यसे मृत्यु प्राप्त होताहै. और विष (हला हल) थोडासा ही मृत्यु प्राप्त करता है, तैसेही वेदनीय कर्मका अधिक भाग होने सेही अनुभव गौचर होता है, क्योंकि-इस कर्मका दल मंदरस वाला अघातिक है, इसलिये इसके मंदरस होते है. और मोहनीय कर्म कादल तीव्ररस वाला हैसो थोडा होवेतो भी आत्म गुण का घातिक होता है. इस में स्थिति की विशेषता नही लेनी. बाकी वर्स स्थान ६ ही कर्मों में स्थिति की विशेष जाणना. अर्थात्-जिसकी स्थिति ज्यादा उसका भाग भी ज्यादा और जिस की स्थिति कम उस का भाग भी कम होता है.

और उत्तर प्रकृति आश्रियः-प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का मूल भाग प्राप्त हुवा उसमें से स्निग्ध सरस दल थोडा होवे ऐसे अनन्त वे भाग दलतो केवल ज्ञानावरणीय पणे परिण में, और बाकी दल रहासो मति ज्ञानावरणी आदि चारों प्रकृति देश घातिकहे उस पणे परिण में. । दर्शना वरणीय का जो मूल भाग प्राप्त हुवा उसका अनन्तवा भाग असन्त सरस दल तो पांचों निद्रा और केवल दर्शना वरणीय यह ६ प्रकृति तर्क घातिक है इस पणे परिण में और बाकी रहा जो निरस भाग सो चक्षुदर्शनावरणीयादि तीनों देशघातिक है उस पणे परिणमें. । माता और अमाता यह दोनों प्रकृति वन्ध विरोधकी है इसलिये एक समय में एकही का वन्ध होता है, और इमहीलिये इसका भागभी नहीं पडताहै.।मोहनीयका मूल भाग जो प्राप्त होवे उसके अतन्त वे भाग सरस दलके दो विभाग होतेहैं-(१)दर्शन मोहनीयका और (२) चारित्र मोहनीयका. चारित्र मोहनीयके विभागके फिर १२भाग करना वो अनन्तान वन्ध चौक को चार, अप्रत्याख्याना वरणीय चौकको चार, और प्रत्याख्यानीवरणी चौकको चार यों १२भाग बाँटेना. और बाकी रहै जो देशघातिक रस वन्त दल उसके दो विभाग

कर(१) कषाय और (२) नो कषाय को बाँट देना. उसमेंसेभी कषाय का भागतो सं-
ज्वल के चौक की चारों प्रकृति को देना. और नोकषाय का एकवेद, एक युगल
(भय और दुगंडा) इन पांचों प्रकृति को बाँट देना. । आयुष्य कर्म की भी चारों
प्रकृतियों बन्ध विरोधनी है-क्योंकि एक वक्त में एकही गति के आयुष्य का बन्ध हो
ता है इसलिये इसका भाग-हिस्सा भी नहीं होता है. । नाम कर्म का मूल भाग प्राप्त
होवे उसको २२ हिस्से में बाँट देना;—१ गति, २ जाति, ३ शरीर, ४ उपाङ्ग, ५ ब-
न्धन, ६ संघयण, ७ संस्थान, ८ अनुपूर्वी, १२ वर्ण चतुष्क, १३ अगुरुलघु, १४
उपघात, १५ उश्वाश, १६ निर्म्माण, १७ जिन नाम, १८ आताप, १९ शुभा शुभ
विहायो गति, २० त्रस दशका. अथवा + स्थावर दशका, इन २२ में से जितनी का
बन्ध पडता हो उतनेही भाग में बाँटदेना. और इसमें भी जो शरीर नाम की प्रकृति
है उसके तीन या चार भाग करना. उसमें वैक्रिय, आहारक, तेजस, और कार्मण, इ-
न चारों का बंध होवे तब चार भाग करना. तथा औदारिक तेजस कार्मण, या वैक्रि
य तेजस कार्मण, इनका बंध होवे तब तीन २ भाग करना. और बंधन नाम के ७ त
था ११ भाग करना. उसमें मनुष्य और तिर्यच प्रायोग्य बंधते औदारिक के बंधन
चार, और तेजस कार्मणके बंधन तीन, सो सात भागसे बंध होवे तब सात भाग में बाँ
ट देना. और देव प्रायोग्य नाम कर्म की ३१ प्रकृति का बंध करते वैक्रिय के बंधन
चार, तथा आहारक का बंधन चार, और तेजस कार्मण के बंधन तीन, यों ११ भाग
से बंध करे तब इग्यारे हिस्से में बाँट देना. और वर्णनाम के ५ भाग, गंधनाम के २
भाग, रस नामके ९ भाग, स्पर्श नाम के ८ भाग, यों २० भाग होते हैं. और बाकी
रही प्रकृतियों उनका भाग, होता नहीं है, क्योंकि वो सब प्रकृतियों बंध विरोध की
हैं-एक बंध होते दूसरी का बंध नहीं होता है. जैसे एक गतिको बंध करते बाकी की
तीनों गतिको बंध नहीं होता हैं, ऐसेही जाति संघयण संस्थान आदि, तथा वसादिक
दशका बंध करते स्थावरादि विरोध की प्रकृतिको बंध नहीं पडे, ऐसे सबस्थान जा-
नना. । ऐसेही गोत्र कर्म का भी भागीदार दूसरा नहीं होता है, क्योंकि-एक समय

+ त्रस दशके का भाग होवे तब स्थावर दशके का नहीं और स्थावर का होवे तब
त्रस का नैहा क्योंकि यह बन्ध विरोधकी प्रकृतियों है.

ऊच या नीच दोनोंमेंस एकही गोत्रका बंध होताहै। और अंतराय कर्मका मूल भाग जो प्राप्त होवे उसे अन्तराय के पांचो भागो में बाँट देना।

जिस प्रकृतिका बंध होता हो वो अपने २ प्रदेश दालिक भाग को प्राप्त होती है; और बन्ध विच्छेद होते उसका भाग जो दूसरी संजाति प्रकृतिका बन्ध होता हो उसे प्राप्त होता है। और कभी संजाति का बन्ध नहोता हो तो वीजाति को भी हिस्सा मिल जाता है; जैसे धीणद्ध विक का बन्ध विच्छेद होते उसका भाग निद्रा और प्रचला को मिले, और निद्रा प्रचाला का बन्ध विच्छेद होते उसका भाग चक्षुदर्शना वरणीयादिक को मिले, और दर्शना वरण का बन्ध विच्छेद होते उसका भाग विजाति प्रकृति वेदनीय है उसका बन्ध उसही गुणस्थान में होवे, इसलिये उसे हिस्सा मिले, और मिथ्यात्व मोहनीय के बन्ध विच्छेद से इसकी संजाति दर्शन मोहनीय प्रकृतिका भी बन्ध नहीं होता है इसलिये विजाति चारित्र मोहनीय की प्रकृतिको इसका भाग मिले। उसमें भी सरस दल सर्व धातिक प्रकृति के योग्य होता है इसलिये सर्व घाति की वारेही कषायों को उसका हिस्सा मिलेता है।

कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट पदसे प्रदेश (कर्म दालिक) की अल्पा बहुत्वः—१. ज्ञानावरणीयः—(१) सब से थोडे केवल वरणीय के उत्कृष्टपद से कर्म दल, (२) उस से मनः पर्यव ज्ञानावरणी के अनन्त गुणे. (३) उससे अवाधि ज्ञानावरणीय के विशेषा हीये. (४) उससे श्रुतज्ञानावरणीय के विशेषाहीये. और (५) उससे माति ज्ञानावरणीय के विशेषाधिक. । २ दर्शना. वरणीयः—(१) सर्व से थोडे प्रचला के. (२) उस से निद्राके विशेषके. (३) उससे प्रचला प्रचलाके विशापाहीये. (४) उससे निद्रा निद्रा के विशेषाहीये. (५) उससे धीणद्वी निद्रा के विशेषाधिक. (६) उससे केवल दर्शना वरणीय के विशेषाधिक, (७) उससे अवाधि दर्शना वरणी के अनन्त गुणे. (८) उस से अचक्षुदर्शना वरणी के विशापाइये. और उससे चक्षुदर्शना वरणीय के विशेषाहीये.। ३ वेदनीय कर्म—(१) सर्वसे थोडा असाता वेदनीय का भाग. (२) उस से सातावेदनीय का विशेषाधिक. । ४ मोहनीय कर्म—(१) सब से थोडा अप्रत्याख्याना वरणीय मान (२) उस से अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेषाधिक, (३) उस से अप्रत्याख्यानी माया विशेष, (४) उस से अप्रत्याख्यानी लोभ विशेष. (५—८) ऐसेही प्रत्याख्यानावरणीय चारों की और (९—१२) अनन्तान बांधि चारों की अल्पा बहुत जाणना. (१३) उस से-दुगच्छाके अनन्त गुणे. (१५) उससे भयके विशेष. (१६-१७)

उससे हांस्य और शोक के विशेष, और आपस में तुल्य. (१८-१९) उससे रति और अरतिके विशेष. और आपस में तुल्य. (२०-२१) उससे स्त्रीवेद और नपुंसक वेदके विशेष और अपस में स्वस्थान तुल्य. (२२) उससे संज्वल के क्रोधके विशेष पाधिक, (२३) उससे संज्वल के मान के विशेषपाधिक, (२४) उससे पुरुषवेद के विशेष पाधिक, (२५) उससे संज्वल की माया के विशेषपाधिक और २६ उससे संज्वल के लोभ के विशेषपाधिक. ४ आयुष्य कर्म की चारों प्रकृतियों के दलिक अपने २ स्थान में तुल्य हैं. ५ नाम कर्म (गति आश्रिय) (२) सब से थोड़े देव गति और नरक गति के दल. आपस में तुल्य (३) उससे मनुष्य गति के विशेष. (४) उससे तिर्यच गति के विशेष. (जातिआश्रिय) (१-४) सब से थोड़े वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय. आपस में स्वस्थान तुल्य. (५) उससे एकोन्द्रिय जाति के विशेष (शरीर आश्रिय)-(१) सब से थोड़े आहारक के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष. (३) उससे औदारिक के विशेष. (४) उससे तेजस के विशेष. और (५) उससे कर्मण के विशेष (योंही पांचों संघातन की भी अल्पा बहुत जानना.)-(उपाङ्ग आश्रिय)-(१) सबसे थोड़े आहारक के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष, और (३) उससे औदारिक के विशेष. (वन्धन आश्रिय) (१) सर्व से थोड़े आहारक आहारक वन्धन, (२) उससे आहारक तेजस वन्धन के विशेष, (३) उससे आहारक कर्मण वन्ध के विशेष. (४) उससे आहारक तेजस कर्मण वन्ध के विशेष, (५) उससे वैक्रिय वैक्रिय वन्ध के विशेष, (६) उससे वैक्रिय तेजस वन्ध के विशेष. (१) उससे वैक्रिय कर्मण वन्ध के विशेष, (८) उससे वैक्रिय तेजस कर्मण वन्ध के विशेष. (९) उससे औदारिक औदारिक वन्ध के विशेष. (१०) उससे औदारिक तेजस वन्ध के विशेष. (११) उससे औदारिक कर्मण वन्ध के विशेष. (१२) उससे औदारिक तेजस कर्मण वन्ध के विशेष. (१३) उससे तेजस तेजस वन्धके विशेष. (१४) उससे तेजस कर्मण वन्धके विशेष और (१५) उससे कर्मण कर्मण वन्ध के विशेषपाधिक. (संस्थान आश्रिय) (१-२) सब से थोड़े निग्रोध, मादि. वावन. कुज्व इन चार संस्थान के और आपस में तुल्य उससे (५) समचतुरस्र संस्थान के विशेष, और (६) उससे हुंडक संस्थान के विशेष. (संघयण आश्रिय (१-५) सब से थोड़े वज्र वृषभ नारच, वृषभ नारच, नारच, अधनारच और किलिक संघयण के (६) उससे छेवटे संघयण के विशेष, (वर्ण आश्रिय) (१) सर्व से थोड़े कृष्णवर्ण के (२) उससे हरेवरण के विशेष, (३) उससे रक्त

वर्णके विशेष, (४) उससे पित्त वर्ण के विशेष, और (५) उससे शुक्र वर्णके विशेष, [गंध आश्रिय] [१] सब से थोड़े सुभिगन्धके, (२) उससे दुर्भिगन्ध के विशेष. (रस आश्रिय) (१) सब से थोड़े तिक्त रस के, (२) उससे कटुक रस के विशेष, (३) उससे कषायले रसके विशेष, (४) उससे आम्ल रसके विशेष, और (५) उससे मधुर रसके विशेष. (स्पर्श आश्रिय) (१-२) सब से थोड़े करकरा और गुरु स्पर्श के, आपस में तुल्य. [३-४] उससे मृदु और लघु स्पर्शके विशेष और आपस में तुल्य. (५-६) उससे रुक्ष और शीतके विशेष आपस में तुल्य. (७-८) और उससे स्निग्ध और उष्ण स्पर्श के विशेष आपस में तुल्य. (आनुपूर्वी-आश्रिय) (१-२) सब से थोड़े देवानुपूर्वी नरकानुपूर्वी. आपस में तुल्य. (३) उससे मनुष्यानुपूर्वी विशेष. और (४) उससे तिर्यचानुपूर्वी विशेष. (स्वगति-आश्रिय) १. सब से थोड़ी शुभ विहायगति (२) उससे अशुभ विहाय गतिके विशेष. (त्रस और स्थावर आश्रिय) सब से थोड़े त्रस दशके के (२) उससे स्थावर दशके के विपाधिक. । सब से थोड़े वादर उस से सूक्ष्म विशेष. । सब से थोड़े पर्याप्त. उससे अपर्याप्त विशेष । ऐसे प्रत्येक साधारण दोनों । ऐसेही आताप उद्योत सम और परस्पर तुल्य । निर्माण, उश्वास, पराघात उपघात, अगुरु लघु, और जिननाम. इनकी अल्पा बहुत नहीं है. ॥ गोत्र कर्म-सर्व से थोड़े नीच गोत्रके उससे ऊंचगोत्र विशेष । ८ अन्तराय कर्म (१) सब से थोड़े दाना न्तराय के (२) उससे लाभान्तराय के विशेष (३) उससे भोगान्तरायके विशेष (४) उससे उपभोग अन्तरायके विशेष. (५) और उससे वीर्यान्तराय के दालिक विशेष. ॥ इति ॥

कर्म प्रकृतियोंके जयन्य पदसे अल्पा बहुत ॥ १. ज्ञानावरणीय (१) सब से थोड़े केवल ज्ञानावरणीय के (२) उससे मनुः पर्यन्त ज्ञानावरणीयके अनन्त गुणे (३) उससे अवधि ज्ञानावरणीके विशेष. (४) उससे श्रुत ज्ञानावरणीय के विशेष ५ और उससे माति ज्ञानावरणीयके विशेष ॥ २ दर्शनावरणीय (१) सब से थोड़े निद्राके (२) उससे प्रचलाका भाग विशेष (३) उससे निद्रा निद्रा का भाग विशेष (४) उससे प्रचला प्रचला का भाग विशेष, (५) उससे थीणद्वी का भाग विशेष, (६) उससे केवल दर्शनावरणीका भाग विशेष, (७) उससे अवधी दर्शनावरणयिका अनन्त गुणे, (८) उससे अचक्षु दर्शनावरणिके विशेष, (९) उससे चक्षु दर्शनावरणिय विशेष ३ वेदनीय कर्म—(१) सब से थोड़े असाता वेदनीय के, २) उससे साता वेदनीय के विशेष. । ४ मोहनीय कर्मः—(१) सबसे थोड़ा अप्रत्याख्यानावरणीय मान. (२) उससे अप्रत्याख्याना वरणीय क्रोधके

विशेष. (३) उससे अप्रत्याख्याता वरणीय माया के विशेष. [४] उससे अप्रत्याख्या-
ना वरणीय लोभ के विशेष [५-८] ऐसेही प्रत्याख्याना वरणीय चौक और (१-१२)
ऐसेही अतन्तान बन्धि चौक. (१३) उससे मिथ्यात्व का जघन्य भाग विशेष. (१४)
उससे दुगंछाका अनन्त गुणा. [१५] उससे भयके विशेष. [१६] उससे हंस्य के औ-
र शोक के विशेष, परस्पर तुल्य. (१९) उससे रति और अरतिका विशेष, परस्पर
तुल्य. (२२) उससे तीनों वेदों का भाग विशेष. [२६] उससे संज्वलका चौक विशेष
॥ ५ आयुष्य कर्म [१-२] सब से थोड़ा तिर्यचायु नरायु, (३४) उससे देवायु नरका
यु असंखेज गुणा. ॥ ६ नाम कर्म [गति आश्रिय] (१) सब से थोड़ा तिर्यच गति
का. (२) उससे मनुष्य गतिका विशेष. (३) उससे देवागति का संख्यात गुणा (४)
उससे नरक गति का संख्यात गुणा (जाति विषय) (१-४) सब से थोड़े वेन्द्रिय,
तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय पचन्द्रिय और आपसमें तुल्य: (५) उससे एकेन्द्रिय विशेष. ॥ (श
रीर आश्रिय) (१) सब से थोड़े औदारिक शरीर के, (२) उससे वैक्रिय के विशेष.
(३) उससे कार्मण शरीर के विशेष (४) उससे तेजसके संख्यातगुण (५) उससे आहारक
शरीर के संख्यात गुणे ऐसेही ५ संघातन का और १५ बन्धनका उत्कृष्ट पदके जैसा
कहदेना. ॥ (अङ्गो पाङ्ग आश्रिय) (१) सब से थोड़ा औदारिक अङ्गो पाङ्ग (२) उ-
ससे वैक्रिय अङ्गो पाङ्ग के असंख्यात गुणे, (३) उससे आहारक के संख्यात गुणा
(अनुपूर्वी आश्रिय) (२) सर्व से थोड़ा नरकानुपूर्वी देवानुपूर्वी, परस्पर तुल्य (३)
उससे मनुष्यानु पूर्वी विशेष (४) उससे तिर्यचानु पूर्वी विशेष (त्रस विसंति विषय) (१)
सब से थोड़ा त्रस दशका (२) उससे स्थावर दशका विशेष । यों वादर सूक्ष्म । यों-
ही पर्याप्ता अपर्याप्ता । योंही प्रत्येक साधारण । और बाकी का ४^२ प्रकृति की ज-
घन्य पदकी अल्पा बहुत्व उत्कृष्ट पदकी तरहही कहदेना ॥ ७ गोत्र कर्म (१) सर्व से
थोड़ा नीच गोत्र. (२) उससे ऊंच गोत्र के विशेष. ॥ ८ अन्तराय कर्म (१) सर्व से
थोड़ा दानान्तराय के, (२) उससे लाभान्तराय के विशेष, (३) उससे भोगान्तराय
के विशेष. (४) उससे उपभोग अनन्तराय के विशेष. और [९] उससे वीर्यन्तराय
के विशेष.

प्रकृत्यादि चारों बन्धों के कथन के गहन ज्ञान रूप सिन्धु में दीर्घ दृष्टि से गो
ता लगाते जीवकी शक्ति की अचिन्त्यता, और पुद्गलों के परिणामों की विचित्रता
का अवलोकन करते आत्मा में जिनेश्वर के ज्ञान का अद्भुत चमत्कार प्राप्त होता है!

४२-५० दूसरे से दशवेतक बन्ध द्वारों का अर्थ

जैसे—लोहका और धातु का, फूलका और अतर का, पत्थर का और अग्निका अनादि से स्वभावि कही बन्ध है. तैसेही कर्म वर्गणा के दलके अनादि से जीव का सम्बन्ध है. ऐसे सकर्मी जीवों जत्र मिथ्यात्वादि आश्रव का सेवन कर कर्मों कर पुनः बन्धातेहैं वत ऊपर जो आठों कर्मों की १४८ प्रकृति कही उसमें से १२० प्रकृति का बन्ध आत्मा के माय होता है. क्योंकि शरीर नाम कर्म में अपना २ बन्ध और संघात दोनों अविना भावी है अर्थात्-शरीर के बिना यह दोनोंही होसकते नहीं है. इस कारण ५ बन्ध, और ५ संघात यह १० प्रकृतियों बन्ध तथा उदय रूप नहीं है, अर्थात् कर्म बन्ध के अवस्था में यह प्रकृतियों अलग नहीं गिनी जाती है. और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन चारके ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस और ८ स्पर्श्यों, २० भेद होते हैं. परन्तु इनकी अभेद विवक्षा से इन २० भेदों में से बन्ध स्थान १ वर्ण, १ गंध, १ रस और १ स्पर्श्यों ४ ही प्रकृति लेना. बाकी की १६ प्रकृति नहीं लेना. यों-१० + १६ = २६ प्रकृतियों अभेद विवक्षा से बन्ध अवस्था में नहीं है. फक्त नामकी ६७ प्रकृति बंध रूपहोती है. और मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृति में से सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय इन दोनों प्रकृतियों का भी बन्ध नहीं पडता. इसलिये दो यह घटी, यों २८ हुई. सब कर्मोंकी १४८ प्रकृति में से इन २८ को कमी करने से १२० प्रकृतिही बन्ध रूप गिनी जाती है.

५१-५२ ध्रुव बन्ध कर्म प्रकृति द्वारोंका अर्थ

जिस कर्म बन्ध का मूल हेतु मिलने से उस कर्म का अवश्य बन्ध पडे, परन्तु उसके स्थान दूसरी प्रकृतिका बन्ध नहीं पडनेदे, उसे ध्रुव बन्ध की प्रकृति कहते हैं. सो-१ ज्ञानावरणीय की ५, २ दर्शना वरणीय की ९, ३ मोहनीय की १२, ४ नामकी ९, और ५ अन्तराय की ५ यों ५ कर्मों की ४७ प्रकृतियों ध्रुव बन्ध की कही जाती है; जिसका सबब:-ज्ञानावरणीय कर्म की ५ प्रकृति और दर्शना वरणीय की ९ प्रकृति, इन १४ प्रकृति का आवरण-ढक्कन सब जीवों के अपना २ बन्ध विना द स्थान पर्यन्त अवश्य बन्ध होता है, इसलिये ध्रुव बन्ध की जानना. ÷ और य मोहनीय तथा दुर्गच्छा मोहनीय यह दोनों बन्ध विरोध की प्रकृति नहोने से ध्रुव बन्धीही कहना. और मिथ्यात्व मोहनीय का भी निज हेतु मिथ्यात्वो दय के सद्भाव

से अवस्य बन्ध पडता है. और अनन्तान बन्धि कषाय के उदय में अनन्तान बन्धि -क्रोध-मान-माया-और लोभ इन चारों का अवस्य बन्ध होता है. तैसेही अप्रत्याख्यानी के उदय में अप्रत्याख्यानी क्रोधादि चारों का, प्रत्याख्यानी के उदय में प्रत्याख्यानी क्रोधादि चारों का, और संज्वल के उदय में संज्वल की क्रोधादि चारों कषायों का यों १६ ही कषायों और तीनों मोहनीय मिल १९ ध्रुव बन्ध की प्रकृति हुई. और १ वर्ण, १ गंध, १ रस, १ स्पर्श, १ तेजस शरीर, १ कार्भण शरीर, १ अगुरु लघु नाम, और १ निर्माण नाम. यह ९ प्रकृति नाम कर्म की. चारों गति-के सब जीवोंके अवस्य पाती है, क्यों कि-यह ९ प्रकृति शरीरिक बंध की है. और ऐसे ही अंतरंग्य कर्म की भी ९ प्रकृति दशवे गुणस्थान तक सब जीवोंके अवस्य होती है. यों सब ४७ प्रकृति ध्रुव बंधी जानना. (वेदनीय और गार्व कर्मे मूल प्रकृति की अपेक्षासे तो ध्रुव बंध में लेने में कुछ हरकत नहीं, पंगु उत्तर प्रकृतियों ध्रुव बंधी न होने से यहां नहीं गिनी-

५३-२४ अध्रुव बंध कर्म प्रकृति द्वारोंका अर्थ.

जो प्रकृति अपना बंध हेतु का संबन्ध मिलने पर भी-कभी बंध करे और कभी बंध नहीं भी करे, तथा उस के स्थान उसके बंध विरोधनी प्रकृति का बंध पड जावे सो अध्रुव बंध की प्रकृति कहना. सो:—१ वेदनीय की २ २ मोहनीय की ७ ३ आयुष्य की ४, ४ नामकी १८, और ५ गोत्रकी २, यों ५ कर्मों की ७३ प्रकृति अध्रुव बंध की होती है. जिसका सबब:—साता और असाता दोनों वेदनीय का बंध एकही साथ नहीं होता है. इसलिये अध्रुव बंधकी जानना. और हाँस्य और रति का बंध होतीवक्त शोक और अरातिका बंध नहीं होताहै तथा शोक और अरातिका बंध होती वक्त हाँस्य और रति का बंध नहीं होताहै इसलिये यहभी अध्रुव बंध की प्रकृति छठे गुणस्थान तक होतीहै और इसके आगे निरन्त्र बंध होनेसे अध्रुव बंध की कही जाती है स्त्री पुरुष ओर नपुंसक-इन तीनों वेदों मेंसे एक वक्तमें एकही प्रकृति (वेद)का बंध होता है, इस में नपुंसक वेद तो विध्यात्व तक, स्त्रीवेद सास्वदन तक, इस के आगे निरन्तर पुरुष वेदका ही बंध होता है, इसलिये यह ७ प्रकृति मोहनीय कर्म की भी अध्रुव बंधी जानना. नरकायु, तिर्यचायु, नरायु, और देवायु इन चारो आयुष्य में से एक भवमें तो एकही, आयुष्य का बंध होता है. इसलिये आयु कर्म की चारों प्रकृ-

ति अधुव बंध की जानना । औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर. इन तीनों के अङ्गोपाङ्ग, यह ६ मनुष्य तिर्यच के तो औदारिक होती है, नारकी देवता के वैक्रिय होती है और फक्त साधुजी के आहारक होती है इसलिये अधुव बंधी कहना और ६ संघयनों में का एक ही संघयन एक वक्त में पाता है, सो भी मनुष्य तिर्यच गतिका बंध करते ही पाता है, परंतु देव नरक के बंध में नहीं पाता है और ६ संस्थानों में का एक ही संस्थान एक वक्त मिलता है और एकेन्द्रिय वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय इन पांचो जाति में से एक ही वक्त में एक ही जाति का बंध पढ़ता है. ऐसे ही चारों गति में से एक वक्त में एक ही गति का बंध होता है, तैसे ही शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति, इन दोनों गति में से एक वक्त में एक ही गति का बंध होता है, तैसे ही चारों गति की चारों अनुपूर्वी में से एक वक्त में एक ही अनुपूर्वी का बंध होता है. जिन नाम का बंध फक्त सम्यक्त्वी के ही होता है सो भी कोइक वान्धते हैं, बाकी बहुत से नहीं वांधते हैं. उश्वाश नाम भी पर्याप्ता प्रायोग्य वांध ते वक्त वंधता है. अन्य वक्त नहीं. उद्योत नाम भी तिर्यचायु वांध ते कोइक वांधता है. आताप नाम भी पृथ्वी काय प्रायोग्य बंध ते कोइक वांधता है, पराघात नाम भी पर्याप्ता प्रायोग्य कोइक वंधता है, वस दशका और स्थावर दशका यह २० प्रकृतियों भी बंध विरोधकी है, यों ५८ प्रकृति नाम कर्म की, और नीच गौत्र का बंध होवे तव ऊंच गौत्र का बंध नहीं होवे और ऊंच गौत्र का होवे तव नीच गौत्र का बंध न होवे यह दोनों बंध विरोधकी प्रकृति है. यों सब ५ कर्मों की ७३ प्रति अधुव बंध की होती है.

इन दोनों बंधों पर चार भांगे :— १ आठों ही कर्मों की प्रकृतियों पहिले नहीं थी, नवाही बंध हुवा ऐसा कदापि नहीं होता है, इसलिये प्रथम अनादि भङ्ग, २ जिस प्रकृति का अनुबंधक पना हुवे वाद पहिले वान्धे सो सादि भङ्ग, ३ जिस प्रकृति का बंध विच्छेद न होवे वहां तक अनंत, और ४ जब बंध का अंत करे तव मान्त इन चारों भाङ्ग में से अनादि अनंत, और अनादि सांत यह दोनों भांगे एक मिथ्यात्व मोहनीय विना बाकी की २६ ध्रुवोदयी प्रकृति आश्रिय मिलते हैं. क्योंकि अभव्य के निर्माणादि २६ की आदि नहीं है, तैसे आगे गुणस्थान चडने के अभाव में उदय विच्छेद भी नहीं है, इसलिये अनंत जानना. और भव्य जीवों की, अपेक्षा में इन २६ प्रकृतियों की आदि तो नहीं है, परंतु-१२ वे, १३ वे, १४ वे, गुणस्थान

में अंत होवेगा ॥ और ध्रुव बंध की ४७ प्रकृति बंधकी अमेक्षासे ३ भाँगे होते हैं:—
 १ जो अभव्य जीवों अनादि काल से इन ध्रुव बन्ध की प्रकृत्तिका बन्ध करते हैं, इसलिये अनादि, और आगे गुणस्थानां रोहण के अभाव से बन्ध व्यच्छेद कदापि नहोने का इसलिये अनन्त. २ भव्य जीवों अनादि से मिथ्यात्वी हैं. और आगे गुणस्थानां रोहण कर प्रकृत्तियों का घात करेगें सो अनादि सान्त, ३ और भव्य जीवों इग्यारवे गुणस्थान मे इन प्रकृत्तियों का अवन्धक हो पीछे पडते हुवे बन्ध करे से सादि सान्त. १ मिथ्यत्व मोहके बन्ध में और उदय में भी तीन २ भाङ्गे:—१ अभव्य आश्रिय अनादि अनन्त, २ भव्य आश्रिय अनादि सान्त, ३ पडवाइ आश्रिय सादि सान्त, चौथा अनादि अनन्तका भांगा शून्य जानना

५५६०, घातिक अघातिकर्म प्रकृत्तिके द्वारों का अर्थ.

जो प्रकृत्ति आत्मा के गुणों को आवरे-अच्छादे-ढके उसे घातिक प्रकृत्ति कहते हैं. जिसमें सर्व घातिक प्रकृत्ति के रस स्पर्द्धक तो ताम्र पत्र के जैसे छिद्र रहित और स्फटिक की तरह निर्मल. द्राक्षकी तरह सूक्ष्म, सार प्रदेशों पर बहुल रस वाले होते है. इसलिये सर्व घातिक प्रकृत्तिके प्रदेश थोडे होते हैं, तोभी वीर्य अधिक होता है. जिनके नाम:—१ केवल ज्ञानावरणीय और २ केवल दर्शना वरणीय यह दोनों प्रकृत्ति जैसे सूर्य महामेघ के पडलों कर आवरता-ढकाता है, तैसे चैतन्य के, ज्ञान दर्शन गुणों को सर्वांश से आवरता है, तथापि महामेघ में दवा हुवा सूर्यका मण्डल दिन रात्री के विभाग को दर्शाता है. जिससे जाना जाता है कि-कुछ अंश अनाच्छादित है. तैसेही जीवके ज्ञानादि गुणों सर्व घातिक प्रकृत्तियोंने ढके हैं. तोभी जड और चैतन्य का विभाग जानने में आता है, इतना अंश उघाडा है. और पांचों निद्राभी सर्व घातिक गिनी है. क्योंकि-केवल दर्शना वरणीय से उघाडा रहा दर्शनांश को भी सर्वांश से अच्छादित करती है. पांचों इन्द्रिय के बोधको रोकती है, इसलिये सर्व घातिक कही है यहां भी ऊपरोक्त सूर्य मेघ पटल के दृष्टान्त मुजब निद्रा में भी कुछ प्रदेशांश खुला रहाता है. जिस सेही जीवों शब्द स्पर्श आदि से जाग्रत होते हैं. और अनन्तानु बन्धि चौक सो सर्वतः सम्यक्त्व गुणों का अच्छादन करता है अभत्याख्यानी चौक-देश विरति गुणों का सर्वतः अच्छादन करता है. और प्रत्याख्यानी चौक-सर्वतः सर्व विरति गुणों का आच्छादन करता है. यहां भी सूर्य मेघ प

दृलके दृष्टान्त मुजव-कितनेक मिथ्यात्वी अनेक प्रकारके तप करतेहैं आविरति भी मांस आहार आदि का त्याग करते हैं देश विरति सर्व विरति होने की इच्छा करते हैं तो भी इन १२ प्रकृतियों को सर्व घातिकही गिनी है. और मिथ्यात्व मोहनीय भी तत्त्व श्रद्धान गुणों का सर्वतः घात करेहै. इसलिये यह भी सर्व घातिक है. यों १. ज्ञानावरणीयदर्शना वरणीय, १.३मोहनीय की सर्वमिल २० प्रकृतियों सर्व घातिक होतीहै

देशघातिक प्रकृतियों:—देश घातिक प्रकृति के रस स्पर्श स्थूल—सछिद्र—दृष्टे की तरह, मध्यम छिद्र—कम्बल की तरह, और सूक्ष्म छिद्र—वस्त्र की तरह गिने जाते हैं. स्थूल प्रदेश निरस असार बहुत प्रदेशी अल्पवीर्य वन्त होते हैं. जिनके नाम:— १ माति ज्ञानावरणीय, २ श्रुतिज्ञानावरणीय, ३ अवाधि ज्ञानावरणीय, ४ मनः पर्यव ज्ञानावरणी, (यह ४ ज्ञानावरणीय की) ५ चक्षुदर्शना वरणीय ६ अचक्षुदर्शना वरणीय, ७ अवाधि दर्शना वरणीय, (यह ३ दर्शना वरणीय की,) यों ७ प्रकृतियों देश घातिक है, केवल ज्ञानावरणीय केवल दर्शना वरणीय, के अच्छादन होने पर भी अनन्तवा देसांश भाग ज्ञान दर्शन का खुल्ला रहाथा जिसका आवरण इन सातों प्रकृतियों ने किया है, इसलिये इने देशघाति कही है. और संज्वल का चौक भी सर्व विरति गुणों का देश से घात करते है. अर्थात्—देश से आतिचार लगाते हैं. इसलिये देश घातिक कहा है, और हाँस्यपटक तथा तीनोंवेद यह नो कपाय भी देश घातिक है. क्योंकि-यह भी चारित्र में आतिचार उपजाती है, पन्रतु अनाचार करता नहोने से देश घातिक गिनी हैं. और अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृति भी देशघातिक होती है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का अनन्तवा भाग-दान लाभ भोगादि में होता है. अर्थात् ग्रहण करने जोग जो पुद्गल हैं वो पुद्गल द्रव्य के अनंत वे भाग में हैं. उस में भी सबका दान लाभ उपभोगादि कर नहीं सकता है अकर्म नो कर्मादि तथा आहार आदि दान लाभ भोग आदि सब जीवके होता है, सब जीवों को इसका क्षयोपशम-जकरही होता है. यद्यपि जो वीर्य अन्तराय का सर्व घातिक रस होवेतो जीवका सर्व वीर्य का अच्छा दान होनेसे जीवों सूके काष्ठ की तरह निचेष्टित होजावे, फिर आहार आदि ग्रहण करना और परगमाना भी नवने इसलिये इसे भी देश घातिक जान ना. यह २५ प्रकृतियों देश घातिक होती है. और जो उदय की अपेक्षा से गिनी तो मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय यह दोनों प्रकृति भी देश घातिक होती होती है. यों २७ प्रकृति देश घातिक की हुइ.

२० सर्व घातिक और २७ देश यातिक बाँ दोनों मिलकर ४७ प्रकृति घातिक कर्मों की होती है.

अघातिक कर्म प्रकृति-ऊपर कहीसो ४७ घातिक प्रकृति, बाकी रही १०१ प्रकृति सो सब अघातिक जानना. क्योंकि यह १०१ ही प्रकृतियों से आत्मा के ज्ञानादि गुणों का कुछ घात नहीं होता है, फक्त जैसे चोरों की संगती से साहूकार भी चोर गिना जाता है. तैसेही यह १०१ प्रकृतियों भी घातिक प्रकृतियों की साथही वेदने में आती हैं. इसलिये घातिक कही जाती हैं.

६१-६४ पुण्य पापकर्म प्रकृति द्वारों का अर्थ.

पुण्य प्रकृतिका बन्ध-शुद्ध परिणाम से होता है, संक्लेश परिणामों से मन्द रस बन्ध पडताहै, और विशुद्ध परिणामों से तीव्र रस बन्ध पडता है, उसका उदयमी-ठे-मधुरे-मनोज्ञ रस में होता है, उसे वेदता जीव सुख मानता है. उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं, सो ४२ हैं:—१ साता वेदनीय (यह १ वेदनीय कर्म की) २ देवायु, ३ मनुष्यायु, ४ तिर्यचायु × (यह ३ आयु कर्म की प्रकृतिका बन्ध भी पुण्योदय से होता है, जिस से आगे इन ३ गति में सुखकी विशेषता है.) ५ मनुष्य गति, ६ मनुष्यानु पूर्वी, ७ देवगति, ८ देवानु पूर्वी, ९ पचेन्द्रिय की जाति. १०-१४ पांच शरीर १५-१७ तीनों शरीर के अङ्गो पाङ्ग, १८ वज्र व्रपभ नारच संघयण, १९ स मचतुरस्त्र संस्थान, २० शुभवर्ण (श्वेत, पित) २१ शुभ गन्ध (शुभी गन्ध) २२ शुभरस (मिष्ट, अम्ल, कषायला) २३ शुभ स्पर्श (लहु, कौमल, चिक्कणा, उष्ण) २४ अगुरु लघु नाम, २५ पराघात नाम, २६ उश्वाश नाम, २७ आताप नाम, २८ उद्योत नाम, २९ शुभ चलनेकी गति, ३० निर्माण नाम, ३१ त्रस नाम, ३२ वादर नाम, ३३ पर्याप्ता नाम, ३४ प्रत्येक नाम, ३५ स्थिर नाम, ३६ शुभ नाम, ३७ सोभाग्य नाम, ३८ सुस्वर नाम, ३९ आदेय नाम, ४० यशो कीर्ति नाम, ४१ तीर्थ करनाम, (यह ३७ नाम कर्म की) और ४२ ऊंच गोत्र. यह ४ कर्मकी सब ४२ प्रकृति जीवों को सुख दायक होने से पुण्य प्रकृति गिनी जाती हैं.

पाप प्रकृति बन्ध-अशुभ परिणामों से होता है. संक्लेश परिणामों से तीव्र रस

बन्ध होता है, जिसका उदय कडवे रस मय दुःख दायक होता है, उसे पाप प्रकृति कहते हैं. सो ८२ हैं:—२ ज्ञानावरणीय, १ दर्शना वरणीय, १ असाता वेदनीय, १ मिथ्यात्व मोहनीय, और २५ कषाय (यह मोहनीय की २६) १ नरकायु (अयुष्य की १) १ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, १ साधारण, १ अस्थिर, १ अशुभ, १ दौर्भाग्य, १ दुःस्वर, १ अनादेय, १ अयशः कीर्ति. १ नरक गति, १ नरकानु पूर्वी १ तिर्यंच गति, १ तिर्यंचानु पूर्वी, ४ पहिली चार जाति, १ अशुभ विहाय गति, १ उपघात नाम, १ अशुभ वर्ण (कृष्ण हरित) १ दुर्भिगन्ध, १ अशुभ रस (तीखा, कडुवा) १ अशुभ स्पर्श (गुरु, क्षरस्वर, लुक्ष, शीत) ५ पीछेके पांच संघयण, ५ पीछे के पांच संस्थान, (यह ३४ नाम, कर्म की) १ नीच गोत्र और ५ अन्तराय की, यों आठों कर्मों की ८२ प्रकृतियों दुःख दायक होनेसे पापप्रकृति गिनी जाती है.

~~३३~~ बन्धकी प्रकृति तो सब १२० है, और यह पुण्यकी ४२ पापकी ८२ मिल कर १२४ हुइ सो ४ प्रकृति बडने का सबब यह है. कि—वर्णादि ४ चारों प्रकृति को शुभ अशुभ दो भेद कर दोनों में (पुण्य पाप में) गिन ने से ४ प्रकृति बढ गइहै.

६५-६८ परावर्त मान अपरावर्त मान कर्म प्रकृति द्वारा का अर्थ.

जिन कर्मों की प्रकृति अपने विरोधी प्रकृतियों के बन्ध को और उदय को रोक कर—दूरकर अपनाही बन्ध और उदय प्रत्यक्षमें देखातीहै, और जिन प्रकृतियों का उदय अलग २ वक्त में होता है. अर्थात्—एक के उदय में दूसरी का उदय और बन्ध नहीं होवे, उनको “परावर्त मान” प्रकृति कही जाती हैसो ९ प्रकृतियों हैं:—१ निद्रा, २ निद्रा निद्र, ३ प्रचला, ४ प्रचला प्रचला, और ५ धीणद्वी निद्रा, यह पांचों दर्शना वरणीय की प्रकृति उदय और बन्ध का विरोध धरानेवाली है, अर्थात्—एक निद्राका बन्ध और उदय होता है. उस वक्त दूसरी निद्रा का बन्ध और उदय नहीं होता है, तैसेही—६ साता वेदनीय और ७ असाता वेदनीय इन दोनों वेदनीय कर्म की प्रकृतियों का बन्ध और उदय भी अलग २ वक्त में ही होता है. अर्थात्—जब साता वेदनीय का बन्ध पडता है. और उदय होता है. तब असाता का नहीं. और जब असाता का बंध और उदय होता है तब साता का नहीं. तैसेही—अनंतानबंधी आदि चारों चौक की क्रोधादि १६ ही कषाय का उदय और बंध भी विरोधी है.

अर्थात्—जब एक जीवके एक समय में एक क्रोध का उदय होता है तब-मान माया लोभ इन तीनों कषाय का उदय नहीं होता है, और जब मानका उदय होता है तब क्रोध माया लोभ इन तीनों कषाय का उदय नहीं, ऐसे ही सोले ही कषायों का जान ना. तैसे ही २४ हांस्य, और २५ रति, तथा २६ शोक और २७ अरति, यह चारों प्रकृति भी बंध विरोधनी है, क्योंकि—हांस्य के वक्त शोक नहीं, और शोक के वक्त हांस्य नहीं, तैसे ही-रति के वक्त अरति नहीं और अरति के वक्त रति नहीं। तैसे ही ३० तीनों वेदों भी उदय और बंध विरोधी हैं, एक जीवके एक वक्त में एकही वेद का बंध और उदय होता है. [यह मोहनीय कर्म की २३ प्रकृति) तैसे ही-३१ नरकायु, ३२ तिर्यचायु, ३३ नरायु, और ३४ देवायु, यह आयु कर्म को चारों प्रकृति भी उदय और बंध विरोधी है. क्योंकि-एक ही वक्त में एक जीव एक ही आयु वन्धता है और भोगवता है. तैसे ही-३८ चारों गति, ४३ पांचो जाति, ४६ पहिलेके तीनों शरीर, ४९ तिनो शरीर के अङ्गोपाङ्ग, ५५ छेही संघयण, ६१ छे सं, स्थान, ६३ दोनोंगति, ६७ चारों अनुपुर्वी, ७७ त्रस दशका, ८७ स्थावर दशका + ८८ उद्योत नाम, और ८९ आताप नाम, यों नाम कर्म की ५५ प्रकृति यों भी उदय और बंध विरोधनी है. और तैसे ही-९० ऊंच गौत्र और ९१ नीचे गौत्र, यह दोनों गौत्र कर्म की प्रकृति भी बन्ध विरोधनी है. यों सब ९१ प्रकृतिका उदय और बंध का विरोध होनसे परावर्तमान की कही जाती है.

और अपरा वर्तमान प्रकृति सो इस से उलट स्वभाव वालीजानना अर्थात्—जिस का बंध तथा उदय दुसरी प्रकृतियोंसे विरोध नहीं रखते दूसरी प्रकृतियोंका बंध और उदयको विना रोके ही अपना बंध दीपावे अर्थात्—अन्य प्रकृतियों का बंध पडती वक्त उनका बंध पडे और अन्य प्रकृतियों के उदय में उनका उदय पावे-प्रत्यक्ष देखने में आवे ऐसी प्रकृतियों २९ है:—सो ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ४, यों दोनों कर्मों की ९ प्रकृतियों भुव बन्ध की हैं, इनका बंध करते कोइ शुभ परिणाम विशेष दुसरी प्रकृति का बन्ध नही भी डाले तो भी रस बंध में भवों की मन्दता करती है. तैसे ही-१० भय, ११ दुगच्छा, और १२ मिथ्यात्व मोहनीय, यह ३

÷ क्योंकि त्रस की वक्त स्थावरका और स्थावरकी वक्त त्रस का बन्ध और उदय नहीं होता है.

मोहनीय कर्म की, और १३ वर्ण, १४ गन्ध, १५ रस, १६ स्पर्श, १७ तेजस शरीर, १८ कर्मण शरीर, १९ पराघात नाम, २० निर्माणा नाम, २१ उपघात नाम, २२ अगुरु लघु नाम, २३ उश्वास नाम, और २४ तीर्थंकर नाम, (यह १२ नाम कर्म की) और २९ पांचों अंतराय. यह २९ प्रकृति यों ध्रुव बंधकी है, अर्थात् इनका उदय प्रायः सब जीवों को सर्वदा पाता है. और एकेक बंध में दूसरीका बंध पडता है. तथा एकेक उदय में दुसरी का उदय भी कायम रह जाता है. जैसे कृष्ण वर्ण का पदार्थ सुगन्धी घीठा और हलका है. यह चारो प्रकृति की एकही वक्तमें एक स्थान में पाजाती है तैसे, ही सब जानना, इसलिये इन में अविरोधी पना होने से 'अपरावर्त मान' की प्रकृति इने कही जाती है.

परावर्तमान की २१ और अपरावर्त मान की २९ मिलकर सब २२० प्रकृतियों बन्ध की होती है.

६२-७५ भूयस्कारादि चारों बन्धपर कर्म प्रकृति द्वारोंका अर्थ.

१. ज्ञानावरणीय कर्म का-एक ही बन्धस्थान होने के सबब से भूयस्कारादि किसी भी बन्ध का संभव नहीं है.

२ दर्शनावरणीय कर्म के-२ का, ६ का और ४ का, यह तीन बन्ध स्थान होते हैं; इस में दर्शनावरणीय की सब ९ ही प्रकृतियों का बंध पहिले और दुसरे गुणस्थान में होता है-जिसकी-जघन स्थिति अन्तर मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति तो अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनन्त, और भव्य की अपेक्षासे अनादि सान्त होती है, तथा पडवाइ की अपेक्षा से सादि सान्त भी होती है. २ ऊपरोक्त ९ प्रकृतियों में से-(१) थीणद्वी निद्रा, (२) निद्रा निद्रा, और (३) प्रचला प्रचला, इन तीनों का बंध विच्छेद होनेसे मिश्रादि गुणस्थान में ६ प्रकृतिका बंध रहता है, जिसकी स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्तकी, और उत्कृष्ट ३ सागरोपम ऊपर पूर्व कोटी पृथक्त्व झाझेरी. ३ इन ६मेंसे निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियोंका बंध विच्छेद आठवे अपूर्व करण गुणस्थानके पहिले भागमें होनेसे, अपूर्व करणका बाकी रहे सर्व भागोंमें और नववे दशवे गुणस्थानमें ४ प्रकृतिका बंध रहताहै, जिसकी स्थिति-जघन्य एक समयकी श्रेणिमें मृत्यु पावे जिसकी अपेक्षा से और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की जाणना. 1 इन बंधों में भूयस्कार और अल्पतर बंध तो दो दो होतेहैं. अवस्थित बंध तीन होते हैं. और अव्यक्त बंध भी दो होते हैं सो कहते हैं.-१ उपशम श्रेणि से पडते हुवे आठवे गुणस्था-

न के दुसरे भाग में आते हुवे दर्शनावरणीय चार प्रकृति का बन्ध करता हुआ-बंध से विच्छेद की हुई निद्रा और प्रचला का फिर बंध करे तब ६ प्रकृति का बंध होवे, सो प्रथम समय प्रथम भूयस्कार. २ और फिर नवका बंध करे सो दुसरा भूयस्कार बंध, (यह २ भूयस्कार) और नवके बंध में से ३ का बंध विच्छेद कर ६ का बंध करते प्रथम समय पहिला अल्पतर बंध, और फिर अपूर्व करण गुणस्थान के प्रथम ६ प्रकृति का बंध कर फिर निद्रा और प्रचला का विच्छेद कर चार का बंध करे सो प्रथम समय दूसरा अल्पतर बंध. (यह २ अल्पतर बंध) और इन चारों के मध्या में तीनों बंध स्थान में दुसरे समय से लगाकर उन २ बंध के स्थानों में अन्तिम समय पर्यन्त तीनों अवस्थित बंध जाणना. और इग्यारवें गुणस्थान में दर्शनावरणीय का अवंधकहो वहां से पडते दशमं गुणस्थान में चार प्रकृति का बंध करे नेके पहिले समय पहिला अव्यक्त बंध, तथा उपशांतमोह गुणस्थान में आयुक्षय होने से मरकर अनुत्तर विमान में देव हो छे प्रकृतिका बंध करे उस के पहिले समय दुसरा अव्यक्त बंध.

३ मोहनीय कर्म के ११ बन्ध स्थानः—मोहनीय की बन्ध की २६ प्रकृति है, इसमें भी एक समय में तीनों वेदों में का १ वेद, हांस्य और रति, शोक और अरति इन दोनों युगल मेंका एक युगल काही बन्ध होता है, क्योंकि यह प्रकृतियों बन्ध विरोध की है. इसलिये—१ मिथ्यात्व गुणस्थान में २२ का बन्धहोता है, जिसकी स्थिति—अभव्य आश्रिय अनादि अनन्त, भव्य आश्रिय अनादि सान्त, और पडंवा इ आश्रिय सादि सान्त. २ फिर सास्वादन गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का बन्ध नहीं होने से २१ प्रकृति का बन्ध होता है, जिसकी स्थिति जयन्य एक समय की उत्कृष्ट ६ आंवालिका की. २ फिर मिश्र और आविरति सम्यक् दृष्टि गुणस्थान में अनन्तानु बन्ध चौक का बंध नहीं होने से १७ प्रकृति का बंध होता है, जिसकी स्थिति—जयन्य अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्ट ३३ सागरोमप पृथक्त्व पूर्वकोडी अधिककी, क्यों कि—अनुत्तर विमानवासी देवताओं चक्कर जहां तक विरति पणा धारन नहीं करें त हां लग यह गुणस्थान रहता है. ४ फिर देश विरति गुणस्थान में अपत्याख्यानी चौक का बंध नहीं होने से १३ प्रकृतिका बंध होता है, जिसकी स्थिति जयन्य अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्टि पूर्व कोडी वर्षकी । ५ फिर प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में यत्याख्यानी चौक का बंध नहीं होने से ९ प्रकृति का बंध होता है, जिसकी स्थि-

ति जघन्य एक समय की क्योंकि—कोई जीव एक समय मात्र सर्वविरतिरहकर दूसर समय मरण प्राप्त हो जाता है. ऐसे परिणामों की अपेक्षा से जाणना. नहीं तो जघन्य अन्तर मुहूर्त की, उत्कृष्ट देशऊणा पूर्वकोडी वर्षकी. १६ फिर अनिष्टति वादर गुणस्थान के पहिले भाग में हांस्य राति भय और दुगंछा का बन्ध विच्छेद होने से प्रकृति का बन्ध होवे, १७ दूसरे भाग में पुरुष वेद का बन्ध विच्छेद होने से चार प्रकृतिका बन्ध होवे, १८ तीसरे भाग में संज्वल के क्रोध का बन्ध विच्छेद होने से तीन प्रकृतिक बन्ध होवे. १९ चौथे भाग में संज्वल के मान का बन्ध विच्छेद होनेसे दो प्रकृति का बन्ध होवे. १९० फिर पांचवे भाग में संज्वल की माया का बन्ध विच्छेद होने से एक प्रकृति का बन्ध होवे. इन ६ से लगा कर १९० वे स्थान तक की जघन्य स्थिति एक समय की, उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की, उपरोक्त मोह के १९० बन्ध स्थानों में—९ भूयस्कार, ८ अल्पतर १० अवस्थित, और २ अव्यक्त बन्ध होते हैं सो कहते हैं:—१ जो जीव उपशम श्रेणिसे चडकर इग्यार वे गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त रह कर पडे, दशवे गुणस्थान में आवे वहां भी मोहनीय का अबन्ध रहे, वहां से पड नववे गुणस्थान के पांचवे भाग में आकर १ संज्वल के लोभ का बन्ध करे उसके प्रथम समय पहिला अव्यक्त बन्ध होवे. और इग्यारवे गुणस्थान में ही आं शुक्षय होने से मरण कर अनुत्तर वीमान में देव हो १७ प्रकृति का बन्ध करे, उस समय दूसरा अव्यक्त बन्ध, (यह २ अव्यक्त बन्ध) और नवने गुणस्थान के पांच वे भाग से पडकर चौथे भाग में आकर संज्वल की माया के साथ दो प्रकृति का बन्ध करते प्रथम समय प्रथम भूयस्कार, तीसरे भागमें संज्वलकी मायाके साथ तीन प्रकृति का बन्ध करे उस समय दूसरा भूयस्कार, ३ दूसरे भाग में संज्वल के क्रोध के साथ चार प्रकृति का बंध करे सो तीसरा भूयस्कार, ४ प्रथम भाग में पुरुषवेद सहित पांच प्रकृति का बंध करे सो चौथा भूयस्कार बंध. ५ वहां से आठवे गुणस्थानके अन्तमें हांस्य राति भय दुगंछा इन प्रकृति सहित ९ प्रकृतिका बंध करे सो पांचवा भूयस्कार. ६ वहां से देश विरति गुणस्थान में प्रत्याख्याना वरणीय चौक सहित १३ प्रकृति का बंध करे सो छठा भूयस्कार. ७ वहां से चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्याना वरणीय चौक सहित १७ प्रकृति का बंध करे सो सातवा भूयस्कार. ८ वहां से दूसरे गुणस्थान में अनन्तानु बंधा चौक सहित २१ प्रकृति का बंध करे सो आठवा भूयस्कार. और वहां से प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय सहित २२ प्रकृति का बंध करे सो नववा भूयस्कार. (यह ९ भूयस्कार बंध) और १ मिथ्यात्व

गुणस्थान में २२ प्रकृतिका बंध कर चौथे गुणस्थान में १७ प्रकृति का बंध करे सो प्रथम अल्पतर बंध. २ फिर १३ प्रकृति का बंध रहे सो दूसरा अल्पतर बंध. यों ऊपरोक्त भूयस्कार बंध सब उलट कहना. इसमें विशेष इतनाही है. कि-२१ प्रकृति का अल्पतर बन्ध नहीं होता है. क्यों कि-मिथ्यात्व गुणस्थान से सास्वादन गुणस्थान में कोईभी आता नहीं है. बाकी के ८ अल्पतर बन्ध होते हैं। और ऊपर मोह बन्ध के दशस्थान कहे सो दूसरे समय से लगा कर अन्तिम समय पर्यन्त दशोंही अवस्थित बन्ध जानना. ॥

४ नाम कर्मके ८ बन्धस्थान-१ मिथ्यात्वी जीव मनुष्य तिर्यच अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य-१ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श, ५ तैजस, ६ कार्मण, ७ अगुरुलघु ८ निर्माण, ९ उपघात, १० तिर्यच गति, ११ तिर्यचानु पूर्व्वी, १२ एकेन्द्रिय जाति, १३ औदारिक शरीर, १४ हुंड संस्थान, १५ स्थावर नाम, १६ वादर नाम अथवा मृक्ष नाम, १७ अपर्याप्ता नाम, १८ प्रत्येक नाम अथवा साधारण नाम, १९ आस्थिर नाम, २० अशुभ नाम, २१ दौर्भाग्य नाम, २२ अनादेय नाम, और २३ अयशः नाम, इन २३ प्रकृतियों का प्रथम बंध स्थान. । २ इन २३ में-१ पराघात और २ उच्छ्वास यह दोनों प्रकृतियों मिलाने से, और अपर्याप्ता के स्थान पर्याप्ता कहने से २५ प्रकृति का बंध पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्यात्वी देवता और मनुष्य के होता है. । ३ इन २५ प्रकृतिमें आताप अथवा उद्योत दोनों मेंसे एक प्रकृति मिलाने से २६ प्रकृति का बंध पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य तीनों गतिके मिथ्यात्वी जीवोंके होता है. । ४ फिर—२ देव द्विक, ३ पचेन्द्रिय जाति, ४ वैक्रिय शरीर, ५ वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग, ६ समुचतुरस्र संस्थान, ७ पराघात नाम, ८ उश्वाश नाम, ९ शुभ स्वगति, १० व्रस नाम, ११ वादर नाम १२ पर्याप्ता नाम, १३ प्रत्येक नाम, १४ स्थिर अथवा आस्थिर, १५ शुभ अथवा अशुभ, १६ यशः अथवा अयशः, १७ सुभग, १८ सुस्वर, १९ आदेय, २३ वर्ण चतुष्क, २४ तैजस, २५ कार्मण, २६ अगुरुलघु, २७ निर्माण, और २८ उपघात. यह २८ प्रकृति देवगति प्रायोग्य मिथ्यात्वी तथा सम्यक्त्वी मनुष्य और तिर्यच बंधते हैं. ऐसे ही नरक गति प्रायोग्य भी २८ काही बन्ध होता है, वहां इतना विशेष कि-देव द्विक के स्थान नरक द्विक कहना. और समुचतुरस्र संस्थान के स्थान हुंड संस्थान कहना. और अपरावर्तमान प्रकृतियों अशुभ गृहण करनी. यह २८ प्रकृति का चौथा बन्ध स्थान हुवा. ॥ ५ सम्यग

दृष्टि जिन नाम सहित देव प्रायोग्य २८ का बन्ध करते २९ का बंध स्थान होवे. अथवा मनुष्य द्विक, ३पचेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक, ६छे संघयणोंमें का-एक संघयण, ७ छे संस्थानों में का-एक संस्थान, ८ वस, ९ वादर, १० पर्यासा, ११ प्रत्येक, १२ स्थिर अथवा अस्थिर, १३ शुभ कथवा अशुभ, १४ सोभाग्य अथवा दौर्भाग्य, १५ सुस्वर अथवा दुस्वर. १६ आदेय अथवा अनादेय, १७ यशः अथवा अयशः १८ शुभ खगति अथवा अशुभ खगति, १९ पराघात, २० उन्वाश, २४ वर्ण चतुष्क, ५ तेजस, २६ कार्मण, २७ अगुरु लघु, २८ निर्माण, और २९ उपघात. यह २९ का मनुष्य प्रायोग्य बंध स्थान होता है. ६ देवगति प्रायोग्य २८ प्रकृति के साथ आहारक द्विक सहित बन्ध करते ३० प्रकृति का बन्ध अप्रमत्त साधु के होता है, और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति को जिन नाम सहित ३० प्रकृति का बन्ध सम्यग् दृष्टि देवता के होता है. १ जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३० प्रकृति का बन्ध करने ३१ प्रकृति का बन्ध अप्रमत्त और अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती साधु के होता है. १८ आठवे गुणस्थान के छठे भाग में नाम कर्म की ३० प्रकृति का बन्ध विच्छेद कर एक-यशः कीर्ती का बन्ध करे.

इन ८ बन्ध स्थानों में—भूयस्कार बंध ६, अल्पतर बंध ७, अवस्थित बंध ८, और अव्यक्त बंध ३ होते हैं सो कहते हैं:—१ प्रथम २३ का बंध कर, तथा विधि विशुद्धि कर फिर २५ का बंध करते प्रथम समय प्रथम भूयस्कार, मिथ्यात्वी के होता है. १ इन २५ को आताप अथवा उद्योत सहित २६ का बंध करते दूसरा भूयस्कार. १ विशुद्धया संकेश परिणामों से देव प्रायोग्य या नरक प्रायोग्य, २८ का बन्ध करते तीसरा भूयस्कार, १ देव प्रायोग्य २८ इने जिन नाम सहित २९ का बन्ध करते चौथा भूयस्कार. १ येही ३० प्रकृति मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव प्रायोग्य बन्धते पांचवा भूयस्कार. १ देव प्रायोग्य ३० और जिन नाम सहित ३१ का बन्ध करते छठा भूयस्कार. (यह ६ भूयस्कार बन्ध) और अपूर्व करण में देवगति प्रायोग्य—२८—का,—२९—का, ३० का, और ३१ का बन्ध कर श्राणि चडते हुवे सब बन्ध का विच्छेद कर एक यशः कीर्ती काही बन्ध करे सो प्रथम अल्पतर. १ कोइ आहारक द्विक और जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३१ का बन्ध करता मृत्यु पाकर देव लोक में जावे वहां प्रथम समय मनुष्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का बंध करे सो दूसरा अल्पतर. १ देवलोक से चव मनुष्य पणे उत्पन्नहो जिन नाम

सहित देवगति प्रायोग्य २२ का बंध करे उस वक्त तीसरा अल्पतर. । कोइ मनुष्य देवगति प्रायोग्य २२ का बंध करते परिणामों की विशुद्धि कर देवगति प्रायोग्य २८ का बंध करे उस समय चौथा अल्पतर. । इनही २८ का बंध करते संकृष्ट परिणामों से एकेन्द्रिय प्रायोग्य २६ का बंध करे सो पांचवा अल्पतर. । बोही २६ वाला २५ का बंध करे सो छठा अल्पतर. और २५ वाला २३ का बंध करे सो सातवा अल्पतर. (यह ७ अल्पतर बंध हुवे) और ऊपर कहे सो आठों बंध के स्थान कों में दूसरे समय से लगाकर आन्तिम समय पर्यन्त आठों अवस्थित बंध होते हैं (यह ८ अवस्थित बंध) और-१ श्रेणिसे पडते हुवे नाम कर्म का सवर्था अवंध होकर फिर यशः कीर्ती नाम का बंध करे उसके पहिले समय पहिला अव्यक्त बंध. और २ उपशान्त मोहगुणस्थान में मर कर अनुत्तर विमान में देवता होवे, वहां प्रथम समय मनुष्य से मनुष्य प्रायोग्य २९ का बंध करे सो दूसरा अव्यक्त, और वहां ही जिन नाम सहित ३० का बंध करे सो तीसरा अव्यक्त बंध (यह ३ अव्यक्त बंध.)

ऊपरोक्त इन तीनों कर्मों सिवाय बाकी रहे सो-१ ज्ञानावरणीय, २ वेदनीय, ३ आयुष्य, ४ गोत्र, और ५ अन्तराय, इन पांचों कर्मों का एकही बंध स्थान है. क्योंकि—ज्ञानावरणीय और अन्तराय यह दोनों कर्म तो ध्रुव बंधी हैं इसलिये दशवे गुणस्थान तक इन दोनों की पांच पांच प्रकृति का साथही बंध होता है जिस से इनका भूयस्कार और अल्पतर बंध नहीं होता है. फक्त एक अवस्थित बंधही सदा घना रहता है. और वेदनीय आयुष्य गोत्र इन तीनों कर्मों की प्रकृतियों बंध विरोध की है, इसलिये एक समय में एकही का बंध होता है. और बंध स्थान भी एकही होता है, जिससे इन का भी भूयस्कार और अल्पतर बंध नहीं होता है. और वेदनीय का बंधतो तेरवे गुणस्थान तक होता है, इसलिये इस विना बाकी के चारों कर्मों का व्यक्त बंध एकही होता है, क्योंकि—इग्यारेवे गुणस्थान में अवंधक हो फिर बंध करते प्रथम समय व्यक्त बंध होता है, फिर अवस्थित बंध जाणना.

ऊपरोक्त बंध में मूल प्रकृति का जघन्य एक का बंध है, और उत्कृष्ट ८ का पथ है, । और उत्तर प्रकृति का जघन्य एक का उत्कृष्ट ७४ का बंध होता है. इसने—१ अनादि, २ सादि ३ अनन्त, और ४ मान्त इन चारों भागों को विचारते हैं मूल प्रकृति के बंध स्थान में औघ भे १ सादि मान्त भागा पाता है. क्योंकि—भवों भव में एकही वक्त आबु का बंध होता है, यह आठ का बंध. और बाकी के काल

में-मात का बंध होता है। और उत्तर प्रकृति में ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय का एकैक बंध स्थान, वेदनीय का एक बंध, मोहनीय का २२ का बंध, गोत्र का एकैक बंध, और अन्तरा का पांच का बंध, इन बंधोंमें १ अभव्यकी अपेक्षा से अनादि अनन्त भांगा, २ भव्य की अपेक्षा से अनादि सान्त भांगा, और ३ पडवाइ की अपेक्षा से सादि सान्त भांगा यों तीन भांगे मिलते हैं, और बाकी रोहण बंध स्थानोंमें फक्त एक सादि सान्त ही भांगा पाता है, सो स्थिति मान जानना।

७७-१११ उदय द्वारोंका अर्थ.

जैसे मदिरा पान किये बाद कालान्तर से नशा का प्रभाव प्रत्यक्ष होता है—आत्माको विवहाल बना देता है, तैसे ही बन्धे हुवे कर्मों का अवाधा काल परी पक सोने से वो कर्म तीव्र, मन्द, घातीया, अघातीया, कटु, मिश्र इत्यादि विपाक रूप उनका प्रभाव प्रत्यक्ष आत्मा पे होवे उनको आत्मा से वेदे--अनुभवे--भोग वो उसे उदय कहते हैं, इसकी १२२ प्रकृतियों है; सो १२० तो बंध में कही सोही जानना, और यहां १ सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीय यह २ प्रकृति अधिक ग्रहण करना, क्योंकि इन दोनोंका उदय मिश्र्याव मोहनीय से कुछ अन्यही रूपमें देखताहै.

उय के ३४ द्वारों में से ८ विपाकोदय के द्वारों और ध्रुवो दय अध्रुवोदय छोडकर बाकीके द्वारोंका खुलासा तो बन्धके द्वारोंमें कहे मुजबही जानना, और धीपाकोदय का खुलासा यहां करते हैं.

चार विपाक द्वारोंका अर्थ.

यद्यपि सर्व प्रकृतियों अपना २ विपाक जीव कोही देखाती है, तो भी कितनीक १ क्षेव को मुख्यता कर देखाती है, सो क्षेव विपाक की कही जाती है, २ जी भव की मुख्यता कर विपाक देखातीहै सो भव विपाक की, ३ जो बाह्य शरीर पर विपाक देखातीहै सो पुद्गल विपाक की, और ४ जो इन तीनोंकी अपेक्षा बिना आत्मा मेंही साक्षात विपाक बतावे सो जीव विपाक कि प्रकृति जानना, इसका स्वरूप यहां कहते हैं.

१ जीव विपाक:—जैसे मूय की प्रभाव का अच्छादन बहल करते हैं, तैसे ही आत्मा के ज्ञान, दर्शन-श्रद्धान, चारित्र, और दानादि लब्धि इन गुणोंका अच्छा-

दन करने वाली जो - ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ९, मोहनीयकी २८ और अन्तर्गम्य की ५, ऐसे चारों वन घातिक कर्मों की ४७ प्रकृतियों शरीर पुद्गलकी अपेक्षा बिना अपना विपाक जीव को ही देखाती है, जैसे ही ४८-४९ साता और अज्ञाना वेदनीय, तथा-५०-५१ नीच और ऊंच गोत्र, यह चारों प्रकृतियों सुखी दुःखी व ऊंच नीच जीव को ही बनाती है. और ५२ तीर्थंकर गोत्र के उदय से परम एश्वर्य प्रजातीशय वचनातीशय और अपयागमतीशय यह चारों अतिशय जीवके ही होते हैं जिससे जीवही तीर्थंकर परमात्मा कहलाते हैं. ऐसे ही-५३ वस. ५४ स्यावर, ५५ सूक्ष्म, ५६ वादर, ५७ पर्याप्ता, ५८ अपर्याप्ता, ५९ सौभाग्य, ६० दौर्भाग्य, ६१ सुस्वर, ६२ दुस्वर, ६३ आदेय, ६४ अनादेय, ६५ यशःकीर्ति, ६६ अयशःकीर्ति. यह सब प्रकृतियों जीवके ही प्राप्त होती हैं, जिस प्रकृतिके नाम सुज्ञव ही (वस स्यावरादि नामसे) जीवको बोलाया जाता है. ६७ श्वाशोच्छ्वास, यद्यपि पुद्गल रूप है, परन्तु यह लज्जि जीवको ही होती है, ६८-७२ एकेन्द्रिययादि पांचों जाति, ७३-७६ नरकादि चारों गति, ७७-७८ दोनों स्वगति, यह भी जीव पर ही प्रवर्तती है. इसलिये सब ७८ प्रकृति जीव विपाक की गिती जाती है.

२ भव विपाककी-प्रकृति फक्त एक आयुष्य कर्म की ही चारों गिनी जाती है क्योंकि-देवतादिक का भव प्राप्त हुवे बाद भवके प्रथम समय से लगाकर अन्तिम सोय तक निरन्तर अपनी शक्ति बताती है, आत्मा का खोडे की तरह निरन्धन करती है, परभवमें जाने नहीं देती है, और जब उन प्रकृतियों का क्षय करते हैं तब परभव का आयुका उदय होनेसे परभव में जीव जाता है, इसलिये भव की मुख्यता कर के १. नरकायु, २. तिर्यचायु, ३. नरायु, और ४. सुरआयु, इन चारों प्रकृतिको भव विपाक को जानना. और दुसरा कारण यह भी है कि-चरम शरीरी जीव बाकी रहे तीनों गति के दिलिये को मनुष्य गति के एक आयुष्य में संक्रमा कर-उदयावली में लाकर दिक्कर क्षयकरे. क्योंकि प्रदेश से कर्म वेदे बिना छूटका नहीं होता है. और आयु-ता संक्रम किये बिना मोक्ष भी नहीं होती है. इस लिये आयुका संक्रम किये बाद फिर उस के किसी भी प्रकार का परभव का आयुष्य का उदय नहीं होनेसे स्वभा-विकाही उदय रहा है, इसलिये आयुष्यकी चारों प्रकृति भव विपाक की जानना.

३ पुद्गल विपाककी प्रकृति-जो अपनी शक्ति शरीरादि पुद्गलों में देखावे उन, प्रकृतियों से हुआहुवा गुण दुर्गुण अनुग्रह उपवात शरीरादि नो कर्म पुद्गलों में होवे

ऐसे द्रुपुल विपाक की फक्त १ नाम कर्म की ३८ प्रकृतियों हैं:—१ निर्माण, २ स्थिर, ३ आस्थिर ४ शुभ, ५ अशुभ, ६ तैजस, ७ कार्मण, ८ वर्ण, ९ गंध, १० रस, ११ स्पर्श, १२ अगुरुलघु, इन १२ के अङ्गोपाङ्ग नो कर्म पुद्गल के जिसस्थान चाहिये वहांही जो देना, हाड दांत आदि कर्म पुद्गलों का स्थिर बन्धन, लोही लाल आदि कर्म पुद्गलों का आस्थिर बन्धन, तैते ही मस्तकादि शुभ, पग प्रमुख अशुभ, शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्शादि पुद्गल के होते है. ऐतेही १३-१५ तीन शरीर, १६-१८ तीनों शरीरके अङ्गोपाङ्ग, १९-२४ छे संघयण, २५-३० छे संस्थान, यह प्रकृतिभी शरीरके पुद्गल पणे परगमी है. ३१ उपघात नाम अंगुली प्रमुख अधिक होवे, सो भी पुद्गल विपाक की है. ३२ साधारण नाम भी शरीर पर्याप्ति पूरी किये बाद उदय होनेसे एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं. ३३ ऐतेही प्रत्येक नामभी शरीराश्रित ही है. ३४ उद्योत नाम, ३५ आताप नाम, ३६ पराघात नाम यह भी शरीरके ही होते हैं. यों सब ३८ प्रकृति पुद्गल विपाक की होती है,

४ क्षेत्र विपाक—जो आकाश के प्रदेशों में जिसका मुख्यता कर उदय होवे अर्थात्-जत्र जीवों परभव को जाते दो समय या तीन समय की वक्र गति रूप श्रेणि करे उस जीवको जो जैसे बेल को नाथ (रस्ती) खेंचकर रस्ते पर लाती है त्यं जीव को जित्त गति में जाना होवे उस गति के रस्ते लगावे उन्हे क्षेत्र विपाक की प्रकृति कही जाती है, सो फक्त १ नाम कर्म की चार प्रकृति है:—१ नरकानु पूर्व्वी २ तिर्यंचानु पूर्व्वी, ३ मनुष्यानु पूर्व्वी और ४ देवानु पूर्व्वी. यह चारों अनुपूर्व्वी नामक प्रकृति रस्ते भूल जीवों को खेंचकर अपने नाम जैसी गति में-क्षेत्र मे ले जाती है इसलिये क्षेत्र विपाक की प्रकृति कहीजाती है.

ध्रुवोदय अध्रुवोदय कर्म प्रकृतियों का अर्थ.

ध्रुवोदय प्रकृति—५ पांच ज्ञानावरणीय, ४ दर्शना वरणीय, और ५ अन्तराय. इन १४ प्रकृति का उदय चारवे गुणस्थान तक रहताहै. १५ मिथ्यामोहनी का उदय अभव्य के सदा रहता है. और १६ निर्माण, १७ स्थिर, १८ आस्थिर १९ अगुरु लघु, २० शुभ, २१ अशुभ, २२ तेजस २३ कार्मण, और २४ वर्ण चतुष्क, य-३ नाम कर्म की १२ प्रकृति का उदय भी तेरवे गुणस्थान तक है, इसलिये चारों ग-

ति के जोषों के सदा पाता है. इसमें जो-स्थिर अस्थिर तथा शुभ अशुभ यह चारों प्रकृति आपसमें विरोध की है. सो वन्ध आश्रिय जानना. परन्तु उदय आश्रिय नहीं अर्थात् इन चारोंका एकही वक्त वन्ध नहीं, पडता है. परन्तु उदय रहता है जैसे रक्त मूत्र आदिका आस्थिर वन्ध अस्थिर कर्मादय से होता है, और हाड दांत आदिका स्थिर वन्ध स्थिर कर्मादय कर होता है, तैसे मस्तकादि शुभ अंग की प्राप्ति शुभ कर्मादय कर होती है, और पादादिक अशुभ अंगका उदय अशुभोदय से होता है. और चारोंही वस्तु एक शरीर में सदा देखने में आती है जिससे अधुवोदय की कही जाती है.

अधुवोदय की प्रकृति:—दर्शना वरणीय कर्म की पांचों निद्रा का उदय किंसी वक्त होवे किसी वक्त नहोवे, ऐसेही दोनों वेदनीय × मिथ्यात्व मोहनी विना २ प्रकृति ÷ मोहनी की, चारों आयुष्यकी, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ६ संघयण, ६ संस्थान, दौनों खगति, चारों अनुपूर्वी, जिन नाम, उद्योत, आताप, अपघात, पराघात, वस दशका, इथावर दशका और उपघात नाम, यों नाम कर्म की ५५ और गोत्र की २, यों सब २५ प्रकृति उदय विरोध की होने के सब से अधुव उदय की गिनी जाती है.

१.१३—१.२४, ऊदीरणा द्वारों का अर्थ.

जो कर्मों अभितक अवाधा काल परिपक्व नहोने से उदय अवस्था को-फल देने को समर्थ नहीं हुवे हैं, ऐसे कर्मों को अपना करण वीर्य की विशेषता कर-उन्हे आकर्ष कर-खिंचकर उदया वली में लाकर अप्राप्त काल में भोगवे-जैसे वृक्षके अपरिपक्व फल को आगिके व घांस (पराल) के जोग से पाका कर भोगवते हैं. उसे ऊ-

× सम्यक्त्व मोहका उदय वेदक सम्यक्त्वी के होता है और मिश्र मोह दोनों के मध्यमे होता है. इसलिये यह दोनों प्रकृति अधुव गिनी जाती है

÷ सोलेह काषाय. १.७ भय, १.८ दुगंछा, यह १.८ मोहनीय कर्मकी प्रकृति अधुवोदयमें गिनी है. क्योंकि-क्रोध के उदय में मानादिक का उदय नहीं होता है, यों सब प्रकृतियों उदय विरोधी होने के कारण से अधुवोदय में गिनी हैं. परन्तु वन्ध विरोधकी नहीं हैं. और भय तथा दुगंछा का उदय भी सान्तर है. अर्थात् कभी होवे और भी नहीं भी होवे, जिससे अधुवोदय की गिनी है.

ते हैं, और सत्ता की अपेक्षा से—८ का, ७ का और ४ का, यह तीनों स्थान होते हैं। सोही कहते हैं:-

जिस वक्त जीव सब कर्मों का बन्ध करता है तब आठ प्रकृति के बन्ध का स्थान होता है, सो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्तही रहता है। जब आयुष्य का बन्ध नहीं होता है तब सात प्रकृति का बन्ध स्थान होता है यह जघन्य अन्तर मुहूर्त, * और उत्कृष्ट ३३ सागर में ६ महीने कम और अन्तर मुहूर्त कम पूर्व कोटी वर्ष का तीसरा भाग अधिक इतना होता है. + । और जब आयुष्य मोहनीय विना छे कर्म का बन्ध दशवे गुणस्थान में होता है वो जघन्य १ समय ÷ उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त ! क्योंकि—इसकी स्थिति इतनी है। और १ वेदनीय कर्म का बन्ध इग्यारवे और

* कोइ अन्तर मुहूर्त आयुष्य वाला जीव अपने आयुष्य का तीसरा भाग वाकी रहे तब परभव के आयुष्य का बन्ध करे, तब आठों कर्म का बंध कर फिर सात प्रकृति के बंध स्थान में आवे. वहां फिर कुछ कम अन्तर मुहूर्त के तीसरे भाग पर्यन्त सात प्रकृति के बन्ध कर्ता सात प्रकृति के बन्ध स्थान में रहकर फिर मृत्यु पाकर अन्तर मुहूर्त के आयुष्य के स्थान में अवतरे वहां भी उस आयुष्य के दो भाग पर्यन्त सात प्रकृति का बन्ध करे, फिर तीसरे भाग के धुर में आयु बन्ध करे तब आठोंक बन्धे स्थान को प्राप्त होवे इसलिये अन्तर मुहूर्त का जघन्य काल कहाहै.

+ कोइ पूर्व कोटी वर्ष के आयुष्य वाला अपना आयुष्यक तीसरा भाग रहे तब अन्तर मुहूर्त पर्यन्त ३३ सागर का देवताका आयुका बन्ध करे वहां ८ प्रकृति का स्थान मे रहकर फिर पूर्व कोटी वर्ष का तीसरा भाग में अन्तर मुहूर्त कम रहे वहां तक सात प्रकृति के बंध स्थान में रहे, फिर वहां से चव कर देवता होवे वहां भी तैतीस सागर ६ महीने कम पर्यन्त तो ७ प्रकृति काही बन्ध करे. फिर छे महीना वाकी आयुष्य रहे तब परभव का आयुष्य बन्धे, तब आठ प्रकृति के बंध स्थान मे आवे. इस अपेक्षा से उत्कृष्ट इतने कालका संभव है.

÷ कोइ जीव पमश श्रेणिकर दशवा गुणस्थान एक समय लग्य स्वर्शे वहां भव क्षय से मरण पाकर अनुत्तर विमान में देवता होवे वांह फिर अत्राति सम्पक दृष्टि पने सात प्रकृतिका बन्ध करे इस अपेक्षासे जघन्य एक समय जानना-

* दशवे गुणस्थानकी स्थिति अतर मुहूर्त कीहीहै वहांभी छे प्रकृतिका बन्ध होता है.

तेरवे गुणस्थान में होता है, जिसकी स्थिति-जघन्य १ समय की, + उत्कृष्ट देश ऊणा क्रोड पूर्व की * । यह चार बन्ध के स्थानक ॥ आयुष्य कर्म का बन्ध करते एक आठ कर्मोंका बन्ध करने का स्थानक होता है, मोहनीय कर्म का बन्ध करते-एक आठ का और दूसरा सात का यों दा बन्ध स्थान होते हैं। वेदनीय कर्म का बन्ध करते-आठ का, सात का छेका और एक का यों चार बन्ध के स्थानक होते हैं। वाकी रहे-ज्ञानवरणीय, दर्शना वरणीय, नाम गोत्र और अन्तराय इन पाचों कर्मोंका बन्ध करते आठ का, सातका और छेका यह तीन कर्मोंके बन्ध के स्थान होते हैं ॥

२ उदय के तीन स्थानक कहते हैं:—सब आठों कर्मोंका उदय का पहला स्थानक, यह अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त, भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त, और पडवाइ की अपेक्षा सादि सान्त, इसकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूर्त की, - उत्कृष्ट देशऊणी आधा पुद्गल परावर्तन की × । मोहनीय विना सात कर्मों का दूसरा उदय स्थानक इग्यारवे वारवे गुणस्थान में होता है, जिसकी स्थिति जघन्य एक समय की, - और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त की (!) । और चारों घातिये कर्मों का क्षय कियेवाद, वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र यह चारों भवोप ग्राही कर्मों का उदय तेरवे चउदवे गुणस्थान में होता है जिसकी स्थिति-जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट देश ऊणी क्रोडपूर्व ॥ इसमें मोहनीय कर्म का उदय एकही आठ प्रकृति के उदय स्थानमें

+ इग्यारवा गुणस्थान को १ समय मात्र स्पर्श कर फिर भव क्षव हुवे मरण करे.

* कोइ क्रोड पूर्व के आयुष्य वाला सात महीने गर्व में रहकर जन्मे, जन्मे बाद आठ वर्ष के अन्ते में चारित्र प्रहण करे, उसी वक्त क्षपक श्रेणि चडकर फेवल ज्ञान प्राप्त करे इस अपेक्षा से जानना.

× क्योंकि-कोइ जीव अन्तर मुहूर्त के नन्तर फिर भी श्रेणि प्रातिपन्न होजाता हैं

- क्योंकि उपशम श्रेणि दूसरी वक्त स्पर्श ने का उत्कृष्ट अन्तर इतनाही होता है, कारण की सम्यक्त्व प्राप्त हूवे बाद संसार में रहनेका उत्कृष्ट काल इतनाही है. इतने कालतक आठों कर्मोंका उदय रहता है.

(!) कोइ जीव इग्यारवा गुणस्थान स्पर्श कर तुर्त मृत्यु पावे इस अपेक्षासे जानना.

× इग्यारवा और वारवा गुणस्थान का काल इतनाही है, और ७का उदयस्थान भी यही है.

होता है; ज्ञानावरणीय, दर्शना वरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मों का उदय आठ के और सात के दोनों स्थानों में होता है, बाकी के चारों कर्मोंका उदय दश-वे गुणस्थान तक आठों के उदय होता है, इग्यारवे वारवे गुणस्थान में सात के उदय स्थान में होता है, तेरवे चउदवे गुणस्थान में चारों के उदय स्थान में होता है।

३ तीन सत्ता के स्थानकः—आठों कर्मों का सत्ता का स्थानक तो इग्यारवे गुणस्थान तक पाता है, सो अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त, और भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्तः। मोहनीय कर्म का क्षय कियेवाद् सात कर्मों का सत्ता स्थानक-वारवे गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त पर्यन्त पाता है। और चारों घातिये कर्म क्षय कियेवाद्, चारों अघातिये कर्मों का सत्ता स्थान तेरवे चउदवे गुणस्थान में जघन्य अन्तर मुहूर्त × उत्कृष्ट देशउणा क्रोड पूर्व लग पाताहै ॥ इसमें-एक मोहनीय की सत्ता में आठों कर्मों का सत्ता स्थानक, मोहनीय विना तीनों घातिये कर्मों की सत्ता में-आठका और सातका यह दो स्थानक पाते हैं। और चारों अघातिक कर्मों की सत्ता में आठका सातका और चारका यह तीन सत्ता के स्थानक पाते हैं।

अठों कर्मों का बन्ध उदय और सत्ता का सम्बन्ध कहते हैंः—अष्टविधि बन्धक सप्तविधि बन्धक और पडाविधि बन्धक, इन तीनों बन्ध में अलग १ आठ कर्मों का उदय और सत्ता होती है, जितके तीन भाँड़े हैंः—१ आठों का बन्ध आठों का उदय, और आठों की सत्ता; यह प्रथम भङ्ग आयुबन्ध के वक्त अन्तर मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थान से लगा प्रमत्त संयति गुणस्थान तक पाता है। १ सात का बन्ध आठ का उदय और आठ की सत्ता; यह दूसरा भङ्ग आयुबन्ध के अभाव से जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट छे मनहीने कम तैतीस सागर पूर्व कोडीका तीसरा भाग अधिक, मिथ्यात्व से लगा कर अनिष्टात्ति वादर गुणस्थान तक पाता है, ३ छेः का बन्ध, आठ का उदय, और आठ की सत्ता; यह तीसरा भङ्ग, सूक्ष्म, सम्पराय गुणस्थान में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त प्रमाण जाणना. क्योंकि—यहां मोहनीय का बन्ध नहीं है, ॥ एक वेदनीय के बंध के तीन भाँड़े होते हैंः—२ एक का बंध सातका उदय और आठ की सत्ता, यह प्रथम भङ्ग—उपशान्त मोहके स्थान जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त लग मिलता है, क्योंकि—यहां मोहका उदय तो

नहीं है, परन्तु सत्ता है, २ एक का बन्ध, सात्त का उदय और सात्त की सत्ता यह दूसरा भङ्ग क्षीणमोह गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त लग पाता है. एक का बन्ध, चारका उदय, और चारकी सत्ता यह तीसरा भङ्ग संयोग केवली गुणस्थान में जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृत्त देशज्जणा क्रोड पूर्व वर्ष पर्यन्त पाता है, । २ और बन्ध के अभाव से चार का उदय और चार की सत्ता यह एकही भङ्ग अयोगी केवली गुणस्थान में पाता है. जिसकी स्थिति पांच लघु अक्षर की । यों सब आठ मूल प्रकृतिके ७ भागों होते है.

कर्मों की उत्तर प्रकृतियों पर बन्ध उदय और सत्ता का संबन्ध. ज्ञानावरणीय और अन्तराय इन दोनों कर्मों की पांच २ प्रकृति होने से बन्ध उदय और सत्ता का संबन्ध एकसा है, इसलिये यहां दोनोंही साथही कहते है:—दोनों कर्मों पांच २ प्रकृतियों ध्रुव बन्धकी है, इसलिये पांचों का बन्ध भी ध्रुव उदय भी ध्रुव, और सत्ता भी ध्रुव जाणनां. । अब इन दोनों का सम्बन्ध कहते हैं:—१. ज्ञानावरणीय और अन्तराय के बन्ध की वक्त पांचों प्रकृतिका बन्ध, पांचों का उदय और पांचों की सत्ता यह प्रथम भङ्ग दशवे गुणस्थान तक पाता है, इन दोनों कर्मों के बन्ध के अभाव से; पांचों का उदय और पांचों की सत्ता यह दूसरा भङ्ग—११ वे, १२ वे, गुणस्थान में पाता है.

दर्शना वरणीय का सम्बन्ध भङ्गादि

दर्शना वरणीय बन्ध के तीनस्थान:-२ नवों प्रकृति बन्धका स्थान पहिले और दूसरे गुणस्थान में पाता है, सो—अभव्यकी अपेक्षा से अनादि अनन्त, भव्य की अपेक्षा से अनादि सान्त, और पडवाइ की अपेक्षा से सादिसान्त होता है. । २ छे: प्रकृति का स्थान मिश्र गुणस्थान से अपूर्व करण गुणस्थान के प्रथम भाग तक पाता है. सो जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट १३२ सागर झाजेरा × । ३ निद्र प्रचला विना चार प्रकृति बन्ध का स्थान अपूर्व करण गुणस्थान के दूसरे भागसे लगाकर दशवे

× प्रथम सम्यक्त्व में ६६ सागर रहकर फिर मिश्र गुणस्थान में अन्तर मुहूर्त रहे. फिर सम्यक्त्व में ६६ सागर रहे, फिर कोई जीव कपायोदय से मिथ्यात्व में जाकर ९ प्रकृति का बन्ध करे. और क्षपक श्रेणि करे तो ४ प्रकृतिक बन्ध करे, इस अपेक्षासे १३२सागरकी उत्कृष्ट स्थिति जाणना.

गुणस्थान तक पाता है सो जवन्य एक समय ÷ और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्तः ॥ दर्शना वरणीय के सत्ता के तीन स्थानः-१. नवका सत्ता का स्थानक-अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त, और भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त होता है; यह स्थान उपशम श्रेणिकी अपेक्षा से तो मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाता है, और क्षपक श्रेणिकी अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान से लगा अनिवृत्ति वादर गुणस्थान के पहिले भाग तक पाता है. यहां थीणाद्वि त्रिक का क्षय होने से-
 1. २ छ; प्रकृति का सत्ता स्थान अनिवृत्ति वादर गुणस्थान के दूसरे भाग से लगा कर वारवे गुणस्थान के द्विचरम समय लग पाता है, इसकी स्थिति अन्तर मुहूर्त की
 1. ३ और वारवे गुणस्थान के अन्तिम समय-निद्रा और प्रचला का क्षय होने से चारों प्रकृतिका सत्ता स्थानक एक समय तक रहे. ॥ दर्शना वरणीय के उदय के दो स्थानकः-१ चक्षुदर्शना वरणीय, अचक्षुदर्शना वरणीय अवाधि दर्शना वरणीय और केवल दर्शना वरणीय इन चारों प्रकृतिका ध्रुवोदय मिथ्यात्व से लगा क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है. 1. २ और इन चारों के साथ जब निद्रा का उदय होवे तब पांच के उदय का दुसरा स्थान जानना. +

अब दर्शनावरणीय कर्म प्रकृति का बन्धादि का सम्बन्ध कहते हैं:-दर्शनावरणीय में-नवका बंधस्थान मिथ्यात्व और सेस्त्रादन गुणस्थान में होता है, इस में-१. चक्षुदर्शनावरणी आदि चारों के उदय स्थान होवे, और २ पांचो निद्रा में की एक वक्त में एक हीनिद्रा का उदय होनेके पांचका उदय स्थान होवे इन दोनों भागोंमें सत्ता का स्थान तो १ प्रकृतिका ही होता है. अर्थात्-१. नवका बंध चारका उदय और १ की सत्ता यह प्रथम भङ्ग, २ नवका बंध पांच का उदय, और नवकी सत्ता यह दु-

× कोइ जीव आठवे गुणस्थान में मरकर देवता होवे वहां ६ प्रकृति का बंध करे इस अपेक्षासे.

समय,

÷ पांचों निद्रा नहीं है, ॥ एक ही प्रकृति है, इसलिये उदय विरोधी है, अर्थात्-पांचों मेंसे एकही उदय और आठ की उदय होता है. दुसरका नहीं होता है. और जब निद्राका एक समय उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त आदि चारों का उदय रहता है. इसलिये निद्रिस्थ पाता है नही तो चारका भाग पाता है. यों दो भागों

÷ यह अन्तगड केवली की अपेक्षा

और चार की सत्ता + ॥ यह सब मिल कर (११) भाङ्गे दर्शनावरणीय कर्म क होते हैं. = ॥

वेदनीय कर्म के भंगादि

वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय और असाता वेदनीय यों दोनों प्रकृति बन्ध विरोधकी है. अर्थात्-एक समय में दोनों में से एक काही बन्ध पडता है. तैसे ही उदय विरोध की भी है:-अर्थात् एक समय में उदय भी एक काही होता है. साता का तब असाता का नहीं और असाता का तब साताका नहीं इसलिये बन्ध का और उदयका एक एकही स्थान होता है और सत्ता स्थान तो दो काभी होता है और एक का भी होता है. १ वेदनीय कर्म के ८ भाङ्गे:-१ असाता बन्ध, असाता का उदय और साता असत्ता दोनों की सत्ता. २ असाता का बन्ध साताका उदय और साता असाता दोनों की सत्ता. (यह दोनों भाङ्गे मिथ्यात्व गुणस्थान से लगा कर प्रथम गुणस्थान तक पाते हैं, फिर आगे असाता का बन्ध च्छेद होता है फक्त एक साताही का बन्ध रहै तब) ३ साता का बन्ध असाता का उदय और दोनों की सत्ता ४ साता का बन्ध साताका उदय और दोनों की सत्ता. (यह दोनों भाङ्गे मिथ्यात्व से लगाकर संयोगी केवली गुणस्थान तक पाते हैं. १ फिर आगे बन्ध के अभाव से) ५ साता का उदय और दोनों की सत्ता, ६ असाता का उदय और दोनों की सत्ता (यह दोनों भाङ्गे अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक पाते हैं. १ फिर (७२ प्रकृति में जिनों ने असाता क्षयका किया उन के) ७ साता का उदय और साता की सत्ता यह भाङ्गा अयोगी गुणस्थान के अन्तिम समय में पाता है. १ और (जिनोंने साता का क्षय कि-

÷ द्विचरम समय में निद्रा का और प्रचला का क्षय होता है, इसलिये चारही की सत्ता रहती है.

= और जो क्षपक श्रेणि में निद्रा का उदय मानते हैं उनके मत से-१ चार का बन्ध, पांच का उदय छेकी सत्ता. यह भाङ्गा नववे दशवे गुणस्थान वृत्ति क्षपक में पाता है और बन्ध के अभाव से पांच का उदय छकी सत्ता यह भाङ्गा गीण मोहके द्विचरम समय तक पाता है. यों यह दोनो भाङ्गे बढने से दर्शनावरणीय के १३ भांग भी होजाते हैं. और भी जहां जितनी निद्रा का उदय होवे वहां उतनी निद्रा को अलग २ कहने से २५ भांगे होजाते हैं

या उनके) ८ असाता का उदय और असाता की सत्ता (यह भाङ्गा भी अयोगी गुणस्थान के अन्तिम समय पाता है) यह वेदनीय कर्म के ८ भाङ्गे

मोहनीय कर्म के भाङ्गादि.

मोहनीय के २२ का, २२ का २७ का, २३ का, ९ का, ९ का, ४ का, ३ का, २ का, और १ का यह २० वन्ध स्थान हैं—२ प्रथम २२ प्रकृति का वन्ध स्थान सो मोहनीय की सब २८ प्रकृति में से १ मिश्रमोह और २ सम्यक्त्व मोहका तो वन्ध पडताही नहीं है, और तीनों वेदों में से एक वक्त में एकही वेदका वन्ध पडता है तथा हांस्य और रतिशोक और अरति इन दोनों युगलों मेंसे एक वक्त में एकही का वन्ध पडता है यों २ दोमोहनीय, २ वेद और २ एकयुगल की मिल ६ प्रकृति कमी होने से एक वक्त में २२ ही प्रकृति का वन्ध पडता है, यह वन्ध मिथ्यात्व गुणस्थान में पाता है, सो—अभव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त, भव्य की अपेक्षा अनादि सान्त और पडवाइ की अपेक्षा सादि सान्त. । इन २२ में से जब मिथ्यात्व मोहनीय का वन्ध नहीं होवे तब २१ प्रकृति का दूसरा वन्ध स्थान सेस्वादन गुणस्थान में पाता है. सो जयन्य एक समय, उत्कृष्ट ६ आवलि का × । पूर्वोक्त २२ प्रकृति में से—अनन्तान वन्ध चौक और मिथ्यात्व मोहनीय का वन्ध नहोवे, तब मिश्र गुणस्थान में, १ का अविरति गुणस्थान में तीसरा १७ प्रकृति का वन्ध स्थान जयन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट ३३ सागर झाजेरा काल तक पाता है. ÷ । इन २७ प्रकृति में से—जिसवक्त अपत्याख्याना वरणीय चौक का वन्ध नहीं होता है तब २३ प्रकृति का चौथा वन्ध स्थान देशविरति गुणस्थान में जयन्य अन्तर मुहूर्त उत्कृष्ट देशरूपा क्रोडपूर्व पर्यन्त पाता है । इन २३ में से जब प्रत्याख्याना वरणीय चौक का वन्ध नहीं होता है तब प्रथम अप्रथम और अपूर्व करण गुणस्थान तक ९ प्रकृति का पांचवा वन्ध चौथे वन्ध जितने काल

× यहां नपुंसक वेदका वन्ध नहीं है तो भी. त्रिवेद पुरुषवेदका तो है.

÷ क्योंकि-अनुत्तर विवमान के देवता चक्कर जहांतक विरति पना न पावे वहांतक इसी वन्ध स्थान में रहते हैं.

नक रहता है. + । इन ९ में से दोनों जुगल की चारों प्रकृति का बन्ध अपूर्व करण गुणस्थान के अन्तिम भागमें विच्छेद होने से फिर अग्निवृत्ति करण गुणस्थान के पहिले भाग में ५ का बन्ध, दुसरे भाग में पुरुष वेद का क्षय होने से ४ का बन्ध, तीसरा भाग में संज्वल का क्रोध विच्छेद होने से ३ का बन्ध, चौथे भाग में संज्वल का मान विच्छेद होने से २ का बन्ध. पांचवे भाग संज्वल की माया का विच्छेद होने से फक्त १ संज्वल के लोभ का बन्ध ही रहता है यों एक नवमेंही गुणस्थानके में मोहनीय के ५ बन्ध स्थानक पाते हैं. सो जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तर मूर्हत पर्यन्त रहते हैं. यह मोहनीय के-१० बन्ध स्थान हुवे. ॥ मोहनीय के ९ उदयस्थानः-१ का, २ का, ३ का, ४ का, ५ का, ६ का, ७ का, ८ का, ९ का औ १० का इन नवोंही स्थानोंका स्वरूप बताते हैं:-१ संज्वलकी चौकडी में से किसी एक कपाय का उदय सो प्रथम स्थान. २ एक पुरुषवेद और संज्वल की चौकडी में की कोई भी एक कपाय यों दो प्रकृतिका उदय सो दुसरा स्थान ३ पुरुषवेद, संज्वलकी १ कपाय और दोनों जुगल में का १ जुगल यों ४का उदय होवे सो तीसरा स्थान ४ इन चारोंमें भय अधिक करनेसे पांचका चौथे स्थान ५ इन पांचमें दुगुंछा अधिक करने ६ का पांचवा स्थान. ६ इन ६ में प्रत्याख्यानी चौक की एक कपाय मिलानेसे सातका स्थान छटा. ७ इन ७ में अप्रत्याख्यानी चौक की एक कपाय मिलाने से आठका उदय स्थान सातवा. ८ इन आठ में-अन्नतान बन्धी चौक की एक कपाय मिलाने से ९ का उदय स्थान आठवा. ९ और ९ में मिथ्यात्व मोहनीय मिलासेने १० का उदयस्थान. नववा ॥ मोहनीय के १५ सत्ता स्थानः-२८ का, २७ का, २६का, २४ का, २३ का, २२ का, २१ का, १३ का, १२ का, ११ का, ९ का, ४ का, ३ का, २ का, और १ का. यों १५ स्थानों का पश्चान् पुर्वी से स्वरूप बताते हैं:- १ सर्व मोहनीय की २८ प्रकृति का सत्ता स्थान तो जो सम्यक्त्वका वमन कर पडे होवें उन में पावे. २ इस में से सम्यक्त्व मोहनीय घटाने से २७ का सत्ता स्थान ३ इस में से मिश्र मोहनीय घटाने से २६ का सत्ता स्थान (यह दोनों अनादि मिथ्यात्वी में पाते हैं) ४ उपरोक्त २८ में से अनन्तान बन्धि चौक खपावे तब २४ का सत्ता स्थान. ५ इस में से मिथ्यात्व खपावे तब २३ का सत्तास्थान, ६ इस में मिश्र मोह खपावे तब २२ का सत्तास्थान. ७ इसमें से-सम्यक्त्व मोह खपावे, तब २१ सत्ता-

+ मानेव और आठवे गुणस्थान में शोक और अरुतिका बन्ध नहीं है तोभी हांस्य और र तिका तो बन्ध है. इसलिये ९ ही प्रकृतिका बन्ध कहा है.

स्थान इन २१ की सत्ता क्षायिक सम्यक्त्वी के होती है । आगे के सत्ता स्थान खप क होते हैं सो कहते हैंः--) ८ इक्कीस में से अप्रसाख्यानी चौक और प्रसाख्यानी चौक खपावे तब अनिट्टति करण गुणस्थान के तीसरे भाग में १३ का सत्ता स्थान, ९ इसमें से नपुंसक वेद खपावे तब चौथे भागमें १२ का स्थान, १० इसमेंसे स्त्रीवेद गपावे तब पांचवे भागमें ११ का सत्ता स्थान ११ इसमेंसे हांस्य पटके ६ खपावे तब छठे भाग में ९ का सत्ता स्थान. १२ इसमें से पुरुष वेद का क्षय करे तब सातवें भाग में ४ का सत्ता स्थान १३ इसमें से संज्वलके क्रोधका क्षय करे तब आठवें भागमें तीन ३ का सत्ता स्थान, १४ इसमें से संज्वलके मानका क्षय करे तब नववें भागमें २ का सत्ता स्थान, और १५ इसमें संज्वलकी मायाका क्षय करे तब सुक्ष्म सम्प्राय गुणस्थानमें एक संज्वलके लोभका सत्ता स्थान । यह १५ सत्तान स्थानहुवा

मोहनीय कर्म के बन्ध स्थान के भाङ्गेः--२२ प्रकृति के बन्ध स्थान में ६ भा-

ङ्गेः--१. पुरुष वेदी हांस्य और रतिका बन्ध करता २२ का बन्ध करे, २ पुरुष वेदी --शोक और अरतिका बन्ध करता २२ का बन्ध करे. ३ स्त्री वेदी--हांस्या और अरतिका बन्ध करतो २२ का बन्ध करे. ४ स्त्री वेदी--शोक और अरति का बन्ध करता २२ का बन्ध करे. ५ नपुंसक वेदी--हांस्य और रतिका बन्ध करता २२ का बंध करे, ६ नपुंसक वेदी--शोक और अरति का बंध करता २२ का बंध करे. । २१ के बंध के ४ भाङ्गेः--१. एक मिथ्यात्व का अवंध होने से सेस्वादनी २१ प्रकृति का बंध करे उनके मिथ्यात्व के अभावसे नपुंसक वेदका बंध नहोने से ऊपर कहे ६ भांगे में से २ भांगे नपुंसक के कम हुवे. बाकीके के दोनों वेद के ४ भाङ्गे रहे । १७ और १३ प्रकृति के दोदो भाङ्गेः--ऊपरोक्त २१ प्रकृति में से अनंतान बंधी चौक कभी करने से १७ का बंध मिश्र और अविरति गुणस्थान में होता है, और इन १७ में से अप्रसाख्याना वरणीय चौक का विच्छेद होने से देशविरति गुणस्थान में १३ का बंध होता है. इन दोनों के अनतान बंधी के अभाव से स्त्री वेद का बंध न होने से फक्त पुरुष वेदके दोनों भाङ्गे पाते हैं. (दोनों बंधके मिलकर ४ भाङ्गे हुवे) ९ के बंध में दो भाङ्गेः--१. हांस्य और रतिसे संज्वल का चौक, भय शोक, दुगंच्छा और पुरुष वेद. २ शोक और अरति से संज्वल का चौक, भय, शोक दुगंच्छा और पुरुष वेद । इसके आगे अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में शोक और अरति का बन्ध विच्छेद होने से प्रकृति का एकही बन्ध स्थान में एकही भाङ्गा । और इ-

सके ऊपर नववे गुणस्थान के पांचो स्थान में एकेक भाङ्गा होता है । यों सब मोह के १० स्थान के २१ भाङ्गे हुवे ॥

मोहके अन्य स्थान में—उदय स्थानः—२२ के बन्ध में ४ उदय पाते :- ७ क. ८ का, ९ का, और १० का । इसमें से—१ सात का उदय स्थान सो (१) मिथ्यात्व, (२) हांस्य, (३) रति, (अथवा शोक अरति) (४) तीनोंवेदों में का एक वेद, (५) अप्रत्याख्यानी चौक में की एक कषाय और (६) संज्वलके चौक में की-एक कषाय :- इन सातों प्रकृति का उदय २२ के बंधक मिथ्यात्वी के निश्चय से होता है । इसके भाङ्गे २४ होते हैंः—१ क्रोध, २ मान, ३ माया, और ४ लोभ इन चारों कषाय को—१ स्त्री, २ पुरुष और ३ नपुंसक इन तीनों वेदों से तीनगुने करने से—४ = ३—१२ भाङ्गे हुवे । और इन १२ को हांस्य रतिसे या शोक अरति से दुगुने करने से २४ भाङ्गे होते हैं (इसे भाङ्गे की चौबीसी कहते हैं) २ ऊपरोक्त ७ प्रकृति के उदय में १ भय, २ दुर्गच्छा, और अनन्तान बन्धि चौक में की एक कषाय, इन तीनों प्रकृति में से एकेक प्रकृति का क्षेप करने से ८ प्रकृति का उदय होता है ।

+ क्रोध मान माया और लोभ यह चारों उदय विरोधी होते हैं इसलिये क्रोधादिक उदय में मानादिक का उदय नहीं पाता है, परन्तु क्रोध के उदय में उस के नीचे के सब प्रकार के क्रोधोंका उदय होता है जैसे-जहां अनन्तानु बन्धि क्रोधका उदय होता है वहां अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, और संज्वल इन तीनों क्रोधोंका उदय जरूरही होता है । ऐसी तरह अनन्तानु बन्धि क्रोधके उदय में चारों क्रोधों का उदय गिना जाता है । और प्रत्याख्यानी क्रोध के उदय में नीचे के दोनों क्रोधों का उदय होने से तीनों क्रोधों का उदय गिना जाता है । प्रत्याख्यानी क्रोध के उदय में दोनों क्रोधका उदय गिना जाता है । और संज्वल के क्रोध के उदय में एक एक संज्वलकाही उदय गिना जाता है । इसलिये यहां प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध के उदय में तीनों क्रोध का उदय गिना है । ऐसीही मान आश्रिय भी चार तीन दो और एक का उदय जानना, और ऐसीही माया तथा लोभ आश्रिय भी चार तीन दो और एकका उदय जानना, और इसलिये क्रोध मान माया और लोभ इन चारों के चार भांगे होते है ।

x आगे जहां २ भांगों की चौबीसी करने का कथन आवे वहां २ ऐसीही तरह करना

हां भांझे की तीन चौबीसी होती है. अर्थात्—सातों में भय मिलानेसे ८हुवे, इने तीनों वेदों से तीगुने करने से २४ हुवे. योंही दुगंछा के मिलाने से. और अनन्ता बंधी कषाय मिलके ३ वेदसे चौबीसी करना. १ ऊपरोक्त ७ प्रकृत्तिके उदयमें भय और दुगंछा का उदय बढ़ाने से—नवका उदय होता है, यहां भी पहिले की माफिक भांझे की चौबीसी होती है । < पूत्राक्त सात प्रकृत्ति में भय और अनन्तान बंधि चौक में की एक कषाय का उदय बढ़ाने से भी नवका उदय होता है, यहां भी भांझे की चौबीसी जानना. एतेही सात प्रकृत्ति में—दुगंछा और अनन्तान बंधि की एक कषाय बढ़ाने से भी नवका उदय गिना जाता है, यहां भी भांझे की चौबीसी जानना. यों सब मिलकर नवके उदय में भांझे की तीन चौबीसी होती है. । ४ मिथ्यात्व, भय, दुगंछा, हांस्य, रति, (तथा-शोक अरति) तीनों वेदों में का एक वेद, और अनन्तानु बंधिकी चारों कषाय. यों दशका उदय स्थान जब होवे तब भी भांझ की चौबीसी होती है. ॥ २१ प्रकृत्ति के बंध में तीन उदय स्थानः—१ हांस्य, २ रति, (तथा १ शोक २ अरति) ३ तीनों वेदों में का—एक वेद. चारों कषायों में से क्रोधादि एकही कषाय के चारों भेद यों सात प्रकृत्तिके उदय में भांझे की १ चौबीसी होती है. । २ इन सात के उदय में भय का उदय मिलान से—८ का उदय होवे वहां भी भांझे की एक चौबीसी पावे. तथा दुगंछा मिलाकर ८ का उदय होवे तहां भी भांझे की—१ चौबीसी. । और भय और दुगंछा दोनों मिलाने से नवके उदय में भी भांझे की एक चौबीसी. यों २१ प्रकृत्तिके बन्ध सेस्वादन गुणस्थान में तीन उदय होकर भांजे की चौबीसी चार होती है. × ॥ १७ प्रकृत्तिके बन्ध में चा

÷ यहां सेस्वादन के दो भेद होते हैंः—१ उपशम श्रेणिगत और २ अश्रेणिगत इस में से अश्रेणिगत में तो यह तीनों उदय स्थान पाते हैं. और श्रेणिगत में आचार्यके मत दो तरह के हैं.—जो अनन्तान बन्धिको उपशमा कर श्रेणि करता है. और पडवाइहो सेस्वादन गुणस्थान स्पर्श उन के मतसे पहिले कहे सो तीनों स्थान उदय के जानना. और २ जो आचार्य अनन्तान बन्धि चौककी वीसंयोजना से श्रेणिका प्रारंभ मानते हैं. उन के मत से पडवाइ के अनन्तान बन्धि की सत्ता के अभाव से अनन्तानु बन्धि के उदय रहित सेस्वादन पनका संभव नहीं है. और जो सम्यक्त्व से पडाओ मिथ्यात्व में नहीं पढ़ें-

र उदय स्थान होते हैं—जिसमें से तीसरे गुणस्थान में—१.७ के वन्ध में—७ का, ८ का और ९ का यों तीन उदय स्थान होवे—१. मिश्र मोहनीय, २. स्य, ३. रति, (तथा—२ शोक, ३ अरति,) ४ एक वेद, और अनन्तानु बन्धि विना वाकी के तीनों चौबीसों की एकेक कपाय. यों ७ प्रकृतिका उदयमें एक चौबीसी. १. २ हांइन सातों में भय को मिलाने से ८ का उदय होवे उसमें भी भाङ्गे की एक चौबीसी. तथा दुगंछा मिलाने से भी ८ के उदय में भाङ्गे की एक चौबीसी. १. ३ और भय और दुगंछा दोनों मिलाने से—नवके उदय में भी भाङ्गे की एक चौबीसी. यों मिश्र गुणस्थान में १.७ के वन्ध में तीनों उदय की मिलकर चार चौबीसी होती है. ॥ चौथे गुणस्थान में—१.७ के वन्ध में—६ का, ७ का, ८ का, और ९ का यों चार उदय स्थान क्षायिक सम्यक्त्व की होते हैं. ऊपर मिश्र मोहनी युक्त ७ उदय कहा उसमें से मिश्र मोहनीय कपी करने से—६ का उदय यहां गिनते भाङ्गे की १ चौबीसी होवे. इनमें—भय, दुगंछा, और सम्यक्त्व मोहनीय इनमें से एकेक का अलग २ उदय मिलाने से—एकेक भेदमें एकेक भाङ्गे की चौबीसी होने से, सात के उदय में तीन चौबीसी भाङ्गे की होती है. १. और छेके उदय में—भय और दुगंछा, तथा भय और वेदक सम्यक्त्व मोहनीय, अथवा—दुगंछा और वेदक सम्यक्त्व मोहनीय, यों दो दो प्रकृति एकेक साथ मिलाने से—तीन प्रकार से आठका उदय का स्थान होवे, वहां भी प्रत्येक भाङ्गे की एकेक चौबीसी गिनने से तीन चौबीसी होती है. + १. और छेके उदय में—भय, दुगंछा और वेदक सम्यक्त्व मोहनीय, इन तीनों का उदय साथही मिलाने से—नव प्रकृति का उदय होवे वहां भी भाङ्गे की एक चौबीसी होती है. यों सब मि-

चे वहांतक अनन्तानु बन्धिके उदय विना भी सेखादन गुणस्थान मिलता है. यों कहते वहां ६ प्रकृतिका ही उदय मानना चाहिये. तब २.१ प्रकृति के वन्ध में—६ का, ७ का, ८ का और ९ का यों चार वन्ध स्थान पाने चाहिये. और भांगे की चौबीसी भी आठमाननी चाहिये. परन्तु वहां माना नहीं है. इसलिये इनके मत से श्रेणि से पडवाइ का सेखादन गुणस्थान नहोना ऐसा होता है.

×यह सम्यक्त्व मोहनीयके जो भांगे हैंसा वेदके सम्यक दृष्टिके जानना और क्षायिक तथ उपक्रम सम्यक दृष्टिके सम्यक्त्व मोहनीय का उदय नहीं है इसलिये उनके नहीं.

लकर चौथे गुणस्थान में आठ चौबीसी भाङ्गे की होती है. जिसमें से चारतो क्षायिक तथा उपशम सम्यक्त्वी की और चार क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी की मिश्रकी तरह जानना. इन आठ चौबीसी के साथ मिश्र गुणस्थानीकी चारों चौबीसी मिलाने से-१७ के बन्ध स्थान में १२ चौबीसी भाङ्गे की होती है. यद्यपि तीसरे चौथे गुणस्थान का उदय स्थान तो बोही है परन्तु वहां प्रकृतियों अलग २ है. इसलिये दो वक्त कहा है. ॥ तेरे प्रकृति के बन्ध स्थान में-५ का, ६का, ७का, और ८का, यह चार उदय स्थान होते हैं जो कहतेहैं:-प्रसाख्यानी क्रोध, संज्वल का क्रोध पुरुषवेद, एक युगल, यों ९ प्रकृति का उदय होवे, यहां क्रोध के स्थान मान-भाया-लोभका पलटा करने से चार भाङ्गे पुरुष वेद के साथ होवे, चार भाङ्गे स्त्री वेद से होवे चार भाङ्गे नपुंसक वेद से होवे. यों १२ भाङ्गे होवे. इन १२ को-हांस्य और रातसे, तथा, शोक और आरति यों, दोनों जुगल से दुगुने करने से २४ भाङ्गे हुवे. यों भाङ्गे की १ चौबीसी पांच के उदय मे पाती है. । इसमें पांच प्रकृति भय दुगंछा और सम्यक्त्व मोहनीय इन तीन में की एकेक प्रकृति मिलाने से-छे के उदय स्थान के तीन भेद होवे. इसके एकेक स्थान में एकेक चौबीसी गिनते छे के उदय में तीन चौबीसी होवे । ऊपरोक्त पांच प्रकृति में-भय और दुगंछा, तथा-भय और सम्यक्त्व मोहनीय, तथा-दुगंछा और सम्यक्त्व मोहनीय; यों दो दो प्रकृति का उदय एक साथ मिलाने से सात प्रकृति के उदय स्थान तीन होवे. यहां भी भाङ्गे की चौबीसी तीन होती है. । और ऊपरोक्त पांच के उदय में-भय, दुगंछा और सम्यक्त्व मोहनीय-ह तीनों का उदय साथही मिलाने से-आठ प्रकृति के उदय स्थान में भी भाङ्गे की चौबीसी एक होती है. । यों १३ के बन्धके चारो उदय स्थानी देशविरति गुणस्थानी में सब मिलकर भाङ्गे की चौबीसीयों ८ होती है. इसमें क्षायिक और उपशम सम्यक्त्वी की चार, और वेदक सम्यक्त्वी की चार जानना. ॥ प्रमत अप्रमत और अपूर्व करण इन तीनों गुणस्थान में-नवप्रकृति के बन्ध के स्थान में-चारके उदय से लगाकर उत्कृष्ट सात का उदय स्थान तक पाता है, तहां-१ संज्वल के चौक में की एक कपाय, तीनों वेदों में का एकवेद, दोनों युगल में का एक जुगलयों, चार का-उदय क्षायिक तथा उपशम सम्यक्त्वी के ध्रुव होता है. इसलिये भाङ्गे की चौबीसी एक होती है. इन चार में-१ भय, दुगंछा और सम्यक्त्व मोहनी इन तीनों प्रकृति मे से एकेक प्रकृति मिलाने से-तीन प्रकार से पांच का उदय होता है. तहां भङ्गे

की चौबीसी भी तीन होती है। ऊपरोक्त चारोंमेंसे भय और दुगंछा, तथा भय और सम्यक्त्व मोहनीय, तथा दुगंछा और सम्यक्त्व मोहनीय—यों दो दो प्रकृति को मिलाने से—तीन प्रकार से छे का उदय होता है। वहां भी भाङ्गे की चौबीसी तीन होता है। और ऊपरोक्त चारों में—भय, दुगंछा, और सम्यक्त्व मोहनीय यह तीनों प्रकृति साथ मिलाने से—सात प्रकृति का उदय होवे वहां भी भाङ्गे की चौबीसी १ होती है। यों नवके बन्ध के चारों उदय स्थानों की भाङ्गे की चौबीसी < हुइसो, चार तो क्षायिक और उपशम समाकृति की और चार वेदक समाकृति की। ॥ पांच प्रकृति के बन्ध में—दों प्रकृति का एकही उदय स्थान होता है; संज्वलके चौक में की १ कषाय, १ वेद, इने दोनों प्रकृति का उदय स्थान होवे। यहां भाङ्गे १२ होते हैं। क्योंकि—यहां हांस्यादिक का उदय नहीं है, इसलिये भाङ्गे की चौबीसी नहीं होशक्ति है। फक्त चारों कषायों की तीनों वेदों के साथ गिनने से १२ भाङ्गे होते हैं, यह १२ भाङ्गे नववे गुणस्थान के पांच भागों में के पहिले भाग में पाते हैं। ॥ ऊपर कहा पांच का बन्ध स्थान उसके आगे चारका बन्ध, तीसका बन्ध, दोका बन्ध, और एकका बन्ध। इन चारों बन्ध स्थानों में—एकेक प्रकृतिका उदय स्थान सर्वस्थान पाताहै, सो कहते हैं:—यहां पुरुष वेदका बन्ध विच्छेद हुवे बाद—संज्वल के चौक काही बन्ध रहा और पुरुषवेद के बन्ध के साथ में उदय भी टला, इसलिये चारों बन्ध में एकही भाग पाताहै। क्योंकि—संज्वल की चारों कषायों में से—किसी को फक्त क्रोधका उदय, किसी को फक्त मान का उदय किसी को फक्त मायका और किसीको फक्त लोभ का उदय होने सेही चार भाङ्गे उदय के अनिष्टात्ति करण गुणस्थान के दुसरे भाग में पाते हैं। * । उसके बाद संज्वल के क्रोध का विच्छेद होने से अनिष्टात्ति करण

÷ यहां कितनेक आचार्य चतुर्विध बन्ध के संक्रमण काल में तीनों वेदों में के एक वेद का उदय भी मानते हैं। इसलिये उन के मतसे चतुर्विध बन्ध के संक्रमण कालमें संज्वल का चौक और तीनों वेदों के साथ गिननेसे—१२ भाङ्गे द्विकोदय के यहां भी होते हैं। और पांच विध बंध में भी द्विकोदय के वारे भांगे होते हैं। यों दोनों द्विकोदय के २४ भांगे प्रथम काल में होते हैं। उसके बाद चतुर्विध बन्ध के एकोदय के चार भांगे होते हैं।

के तीसरे भाग में—विविध बन्ध होता है, तहां एक का उदय होवे, जिसके भाङ्गे ती न वन्ते है। फिर चौथे भाग में—दोके बन्ध से संज्वल की माय तथा लोभ इन दो नों में से एक उदय में दो भाङ्गे होते हैं। और एक संज्वल के लोभ के बन्धस्थान में—एक संज्वल लोभ का उदय होवे. उदयका एक भांगा नववे गुणस्थान के पांचवे भाग में होता हैं. ॥ फिर बन्ध विना फक्त उदय का एक भाङ्गा होवे. सो कहते है:- मोहनीय कर्म बन्धक अभाव सेभी—सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें—एक संज्वलके लोभका उदय स्थान होवे. वहां एकही भाङ्गा जानना. यों चारके बन्ध स्थानमें भाङ्गा चार तीनके बन्ध स्थानमें भागे तीन, दोके बंध स्थानमें भाङ्गे दो एकके बंध स्थानमें भांगा एक और बंध के शुन्य स्थान में भाङ्गा एक, सब मिल भाङ्गे १.१. एकेक के उदय में होते हैं। यद्यपि यहां संज्वल के क्रोधादिक के उदय में विशेष नहीं है, तथापि बन्ध स्थान के विशेषत्व कर विशेष जानना. ॥ फिर उदय के अभावसे भी उपशान्त मोह गुणस्थान में—कपाय उपशम किया परन्तु सत्ता है इसलिये प्रसङ्गानु पेत यह भी एक भाङ्गा गृहण करना. परन्तु यहां बन्ध और उदय के संवेध में सत्ता का भाङ्गा कहना सो निष्कारण है, और क्षीणमोह में तो सत्ता भी नहीं हैं.

सब भाङ्गो की संख्या कहते हैं:—१ दशके उदय की—१ चौवीसी, २ नवके उदय की ६ चौवीसी. ३ आठ के उदय की ११ चौवीसी. ४ सात के उदय में दशचौवीसी. ५ छे के उदय में ७ चौवीसी. ६ पांचके उदयमें—चार चौवीसी. और ७ चारके उदय में एक चौवीसी—यों सब मिल भाङ्गे की ४० चौवीसी यों हुइ. और दे के उदय के १२ भाङ्गे एक के उदय के ११ भाङ्गे सब मिल चालिस चौवीसी के तो $४०+२४=६४$ और $११+१२=२३$ यों $६४+२३=८७$ भाङ्गे होते है. = इन सब उदयों के भाङ्गे में का एक भाङ्गा जघन्य एक समय रहे और उत्कृष्ट अन्तर मुहूर्त पर्यन्त × रहता है.

+ और मतान्तर में दोके उदय में २४ भागे कहे हैं उन के मत मे ४१ चौवीसी के १८४ भांग होते हैं.

× बन्ध स्थान फिरने का स्वरूप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गुणस्थान के भेद से अनस्थान जाता है.

= वेदोदय और हॉस जुगल में एक अन्तर मुहूर्त में पलटा होता है.

≡ पद वृन्द कहते हैं.—दशके उदय में भागे की १ चौवीसी इसको १० गुना कर

अब सत्ता स्थानक का सम्बन्ध कहते हैं:—२२ प्रकृति का बन्ध मिथ्यात्वकै होता है, वहां- ७ का, ८ का, ९ का और १० का यह चार उदय स्थान पाते हैं, (१) सात के उदय में एकही अठावीस का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि सातका बन्ध अनन्तान बन्धिये के अभाव से होता है. बोधी सम्यक्त्व युक्त अनन्तान बांधीकी उद्दीरणा की हो, वो जिसवक्त मिथ्यात्वमें जावे उस वक्त फिर मिथ्यत्व प्रत्ययी अनन्तानुबन्धि चौक बन्धना सुरु करे. उस मिथ्यात्वकै बन्ध आवलिका तथा संक्रमावलिका लग अनन्तान बन्धिये के उदय रहित सत्ता उदय होता है, वहां निश्चय से उसके २८ की सत्ता होती है. (२) आठ प्रकृति के उदय स्थान में २८ का, २७ का, और २६ का यह तीन सत्ता स्थान होते हैं:—जिसके अनन्तान बन्धिये रहित ८ का उदय होता है. वहां पूर्वोक्त युक्ती से एक २८ का स्थान होता है, और अनन्तान बन्धिये सहित जो ८ का उदय होवेतो-उस में तीन सत्ता स्थान होते हैं:— १ जहांलग सम्यक्त्व मोहनीय की उद्दीरणा नहीं करे तहांलग २८ का सत्ता स्थान २ सम्यक्त्व मोहनीय उद्देरे बाद २७ का सत्ता स्थान. ३ मिश्र मोह उद्देरे बाद २६ सत्ता स्थान अनादि मिथ्यात्वी में पाता है. योंही नवके उदय में भी तीन सत्त स्थान पाते हैं. १ और दशका उदय तो अनन्तान बन्धि सहित होता है इसलिये वहां भी येही तीनों सत्ता स्थान जानना. ॥ २१ के बन्ध में-७ का, ८ का और ९ का यह तीनों उदय स्थान में भी एक अठाइस का सत्ता स्थान होता है. १७ के बन्ध में-२८ का, २७ का, २४ का, २३ का, २२ का, और २१. यों ६ सत्ता स्थान होते हैं. १७ प्रकृति का बन्ध तीसरे चौथे गुणस्थान में होता है. वहां ६ का, ७ का ८ का और ९ का. यह ४ उदय स्थान सम्यक दृष्टि के होते हैं. जिस में ६का उदय

नेसे १० चौबीसी होवे ऐसेही ९ के उदय में ६ चौबीसी की- $९ \times ६ = ५४$ होवे. आठके के उदय ११ चौबीसी की $८ \times ११ = ८८$ होवे. सात के उदय १० चौबीसी के $७ \times १० = ७०$ होवे. छेके उदय ७ चौबीसी के $६ \times ७ = ४२$ होवे पांचके उदय ४ चौबीसीके $५ \times ४ = २०$ होवे. चारके उदय चौबीसी ४ होवे, दो के उदय एक चौबीसी के २ होवे, यों $१० + ५४ + ८८ + ७० + ४२ + २० + २ = २९०$ सब मिलके चौबीसी हुइ. इनको २४से गुना कर ने से $२९० \times २४ = ६९६०$ इतने भांगे होते हैं. इस में एकौदय के ११ भांगे मिलानेसे $६९६० \div ११ = ६३३$ इतने पद बृन्द मोइके होते हैं! इतने विकल्पों कर संसारी जाव मूर्छित होरहे हैं!

स्थान तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के होता है. और क्षायिक सम्यक्त्वी के २१ का सत्ता स्थान होता है. और उपशम सम्यक्त्वी के प्रथम ग्रन्थीभेद करते ओपशम सम्यक्त्वी प्राप्त होते तथा उपशम श्रेणिमें जिनोंने अनन्तान बन्धि का उपशम किया हो उनके २८ का सत्ता स्थान होता है, और जिनोंने अनन्तान बन्धि की विसंयोजना कर श्रेणिका आरंभ किया हो उनके २४ प्रकृति का सत्ता स्थान होता है. यों दो सत्ता स्थान उपशम सम्यक्त्वी के पाते हैं. यह १७ के बन्धि के और ६ के उदय के सब मिल-२८ का २४ का, और २१ का, यह तीनों सत्ता स्थान हुवे. मिश्र दृष्टिके-७ का ८ का, और १ का, यह तीन उदय २८ का, २७ का, और २४ का, यह तीन सत्ता स्थान होते हैं. इसमें जो २८ की सत्ता वाक्या मिश्र गुणस्थान में प्रवृत्ते उसके २८ की सत्ता होती है. और जिसने मिथ्यात्व होते सम्यक्त्व की उद्दीरणा की हो और मिश्रपणा उद्दीरणा सुरू किया नहीं होवे वो सम्यक्त्व उदरे मिथ्यात्व से निवृत्त फिर परिणामों कर मिश्रमें आवे उसके २४ की सत्ता होती है. चौथे गुणस्थान में १७ के बन्धि में-सत्ता के उदय में-२८ का-२४ का, २३ का, २२ का और २१ का, यह ५ सत्ता स्थानक पाते हैं. इसमें से-२८ का, तो उपशमिक और वेदक सम्यकदृष्टि के होता है. और अनन्तात बन्धि की विसंयोजना किये बाद २४ का स्थान भी इनदोनों केही हाते है. मिथ्यात्व के क्षय से-२३ का सत्ता स्थान. मिथ्यात्व और मिश्र दोनों के क्षय से २२ का सत्ता स्थान

÷ सेस्वादन पणा ओपशामिक सम्यक्त्व का वमन करते होता है. उस वक्त उपशम सम्यक्त्व मिथ्यत्वके दलीयं का-१. सम्यक्त्व मोह, २ मिश्र मोह, ३ और मिथ्यात्व मोह यह तीन पुंज किये इसलिये तीनों दर्शन मोहनीय की सत्ता सेस्वादन में मिलने से २८का सत्ता स्थानक पाता है.

* अनन्तान बन्धि चौक और ३ मोह इन ७के क्षयसे ही क्षायिक सम्यक्त्व होतीहै.

× यह २४ की सत्ता चारों गतिके जीवों में पाती है. क्योंकि-चारों गति के सम्यकदृष्टि अनन्तान बन्धियेकी विसंयोजना करते हैं. चारों गति के पर्याय जीवों-सम्यक दृष्टि, देश विरति और सर्व विरति. यह तीनों अनन्तान बन्धि की विसंयोजना करते हैं. वो फिर परिणामो के वश्य से मिश्र दृष्टि में आतहैं इसलिये यह भागा चारों गतिके जीवोंमें पाता है.

न (यह दोनों वेदक सम्यक दृष्टिके होते हैं. x) और २१ की सत्ता तो क्षायिक सम्यक्त्वी के होती है. ॥ ८ के उदय में मिश्र गुणस्थानी की सत्ता के उदय की तरह-२८ का, २७ का, और २४ का. यह तीन सत्ता स्थानक होते हैं. और अविरति सम्यक दृष्टिके जो-७ के उदय में पांच सत्ता स्थान कहै, वैसीही तरह ५ सत्ता स्थानक आठके उदय में भी कहना. ॥ तेसीही ९ का उदय भी अविरति वेदक सम्यक दृष्टिके होता है-सो क्षयोपशम समाकीर्ति केलिये-२१ और २७ इन दोनों सत्ता स्थानक विना बाकी का २८ का २४ का २३ का और २२ का यहचार सत्ता स्थानक होते हैं, सो पहिले की तरह कहना. और १३ के बन्ध में तथा ९ के बन्ध में अलग २-२८ का, २७ का, २४ का, २३ का, २२ का, और २१ का, यह पांच २ सत्ता के स्थानक होते हैं. इसमें से-१३ का, बन्ध देश विरति के होवे उसके दोभेद :- (१) तिर्यचाश्रिय और २ मनुष्याश्रिय. इसमें तिर्यचके-५ का, ६ का, ७ का, और ८ का, इन चारों उदय स्थानों में-२८ का, और २४ का, यह दो सत्ता स्थान होते हैं-यहां ५ के, ६ के, और ७ के, उदय में ओपशायिक सम्यक दृष्टिके २८ की सत्ता होता है इसमें कोईक ग्रन्थी भेद कर सम्यक्त्व युक्त देश विरति पला आदरे जिसकी अपक्षा से लेना और क्षयोपमशिक सम्यक दृष्टि तिर्यच के-६ का ७ का और ८ का, यह तीनों उदय २४ की सत्ता में होता है-सो अनन्तानुवीन्य चारों की विसंयोजना. पहिले चारों गति में करी है उस अपेक्षा से, और दूसरे-२३ का, २२ का और २१ का यह ३ सत्ता स्थानक देश विरतितिर्यच के नहीं होते हैं :- और दे

x क्योंकि-अनन्तान बन्धि चौक और मिथ्यात्व तथा मिश्र मोह इन ६ प्रकृति को क्षय कर सम्यक्त्व मोहर्नाय क्षपाता उसके अन्तिम समय-प्रास में वृत्तता कांड पूर्व बन्धायु जीव वहाही आयुष्य पूर्ण कर गति में की किसी एक गति में जावे इसलिये २२ की सत्ता चारों गति में पा

= क्योंकि-२२

पाते हैं और
के तिर्यच
के देश

स्थान क्षायिक सम्यक्त्व उपन होती वक्त
ती नहीं. किसी क्षायिक सम्यक्त्वने पाहे
यु वाले (युगलिये) में उपजे, उस
अयु बन्ध किये बाद क्षायि-

शिविरति मनुष्य के ५ के उदय में २१ का, २४ का, और २८ का यह तीन सत्ता स्यानक पाते हैं, तथा ६ के और ७ के उदय में ५ सत्ता स्यानक होते हैं, और ८ के उदय में—२१ के सत्ता स्यानक विना, बाकी के चारों सत्ता स्यान पाते हैं, क्यों कि ८ का उदय सम्यक्त्व मोहनीय के साथ होता है, वहां २१ का, सत्ता स्यान नहीं होता है, बाकी के ४ होते हैं, सो भी वेदक सम्यक दृष्टि मनुष्य के देश विरंती गुणस्यान में चार के उदय में—२८ का, २४ का, और २१ का, यह ३ सत्ता स्यान पाते हैं, और ५ के उदय में, तथा ६ के उदय में जो देश विरति में कहे वेदी ५ सत्ता स्यान होते हैं, और ७ के उदय २१ की सत्ता विना बाकी के ४ सत्ता स्यानक होते हैं सो भी पहिले की तरह सेही कहना ॥ ५ के वन्य में और ६ के वन्य में अलग २ छेछे सत्ता स्यानक होते हैं, उसमें के—२८ और २४का यह दो सत्ता स्यानक तो उपशम श्रेणि में उपशमिक सम्यक दृष्टि के होते हैं, यहां जिसने त्ववेगुणस्यान के प्रथम भाग में अनन्तानु वन्य चौक की विनियोजना करी उसके २४ का सत्ता स्यान, और २१ का सत्ता स्यान तो—क्षायिक सम्यक्त्वी के उपशम श्रेणि में तथा स्वपक श्रेणि में जहां तक—अप्रत्याख्यानी चौक और प्रत्याख्यानी चौक इन ८ कपाय का क्षय नहीं होवे तहां तक २१ का सत्ता स्यान होता है, और ८ कपाय स्वपाये बाद उसी वन्य में—१३ का सत्ता स्यान रहता है, उसमें से नपुंसकवेद स्वपाये बाद १२ की सत्ता रहे, स्त्रीवेद स्वपाये बाद ११ की सत्ता रहे; पुरुष वेदका वन्य करते हांस्यादि ६ प्रकृति का क्षय नहीं होता है, इसलिये वहां पांचादि का सत्ता स्यान नहीं होता है, ॥ ४ के वन्य में—२८ का, २४ का, और २१ का, यह तीन सत्ता स्यान तो उपशम श्रेणि में पहिले की तरहही जानना, बाकि के—३ सत्ता स्यान स्वपक श्रेणिमें होते हैं, सो कहते हैं—कोई जीव नपुंसक वेदोदयेम प्रवर्तता स्वपक श्रेणि प्रारंभ करी वो स्त्री और नपुंसक दोनों वेदों को साथही स्वपावे, उस वक्त ही पुरुष वेदके वन्य का विच्छेद होवे, फिर पुरुष वेद और ६ हांस्यादि यह ७ प्रकृति साथही स्वपावे, और जिनोंने स्त्री वेदो दयमें श्रेणि प्रारंभ करी—वो पहिले नपुंस

क सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिये देश विरति तिर्यच के—१३ के वन्य में—२१ का सत्तास्यान नहीं होता है।

क वेदका क्षयकरे, फिर अन्तर मुहूर्त वाद स्त्रीवेद का क्षयकरे, उसके साथही पुरुष वेदका वन्ध विच्छेद होवे, और पुरुष वेदका वन्ध छेदकिये वाद, पुरुषवेद और ६ हांस्यदि इनका साथही क्षय करे, यह जहां लग क्षय नहोवे वहां तक इन दोनों स्थान में—चार के वन्ध में वेदोदय रहित एकोदय वर्तते को ११ प्रकृति का सत्ता स्थान होता है और पुरुष वेद ६ हांस्यदि इनका साथही क्षय हुवे वाद चार प्रकृतिका सत्ता स्थान होवे. यों ५ सत्ता स्त्रीवेद में और नपुंसक वेदमें श्रेणि प्रारंभे उनके होवे. और जो पुरुषवेद में खपक श्रेणि प्रारंभे—उनके हांसादि ६ के क्षयके साथ पुरुष वेद का वन्ध टले—इसलिये उनके चतुर्विध वन्ध वक्त ११ का सत्ता स्थान होवे. पुरुषवेद विना हांस्यदि ६ वर्जे उसवक्त ५का सत्ता स्थान होवे, वो दो समय कम दो आंवलिका तक रहे, फिर पुरुष वेद का क्षय हुवे वाद चार का सत्ता स्थान रहे. वो भी अन्तर मुहूर्त रहे. इसलिये इनके भी ११ का सत्ता स्थान छोड वाकी के ५ सत्ता स्थान होवे, यों ४ के वन्ध में ६ सत्ता स्थान पाते है ॥ वाकी रहै ३ का, २का, और १ का इन तीनों वन्ध स्थानों में अलग २ पांच २ सत्ता स्थान होते हैं. वहां—३ के वन्ध में २८ का २४ का २१, ४ का, और ३का यह ५ सत्ता स्थानक पावे. इसमें के पहिले तीन सत्ता स्थान तो उपशम श्रेणि में होते हैं. वाकी के—४ का और ३का यह दो सत्ता स्थान क्षपक श्रेणि में होते हैं;—संज्वल के क्रोध की अन्तःकरण प्रथम स्थिति—एक आंवलिका मात्र वाकी रहे. उसका वन्ध उदय और उदीरणा एक ही वक्त विच्छेद होवे उस वक्त मानादि तीनों का वन्ध होवे. उसवक्त संज्वल के क्रोधका प्रथम स्थिति गत आंवलिका मात्र और दो समय कम दो आंवलिका वन्ध सत्ता छोडकर और सब क्षय हुवा और उस क्रोधकी सत्ता भी दो समय कम दो आंवलिक काल में क्षयशुगी वो जहां लम न जावे तहां लग द्विविधि वन्ध चार प्रकृतिके सत्ता में होवे. और उस संज्वल के क्रोधका क्षय हुवे वाद तीन प्रकृति का सत्ता स्थान होवे. सो अन्तर मुहूर्त लग जाणना. । द्विविधि वन्ध में २८ का, २४ का २१ का और २ का, यह पांच सत्ता स्थान होते हैं. इसमें के तीन तो पहिले की तरह उपशम श्रेणि में कहना और दो क्षपक श्रेणि में कहना सो पूर्वोक्ता क्रोधकी तरेही मान को भी आंवलिका मात्र प्रथम स्थिति गत करे तब संज्वल के मान की भी वन्ध उदय उदीरणा का साथही विच्छेद होवे. तब द्विविधि वन्ध होवे. वहां दो समय कम दो आंवलिका तक संज्वल की सत्ता रहै तब तीन प्रकृतिका सत्ता स्थानक जाणना. और फिर मान के क्षय से अ-

न्तर मुहूर्त पर्यंत दो प्रकृति का सत्ता स्थान जाणना. । और एक के बंध स्थान में, भी पांच सत्ता स्थान जानना. उसमें से तीन तो पहिले की ही तरह उपशम श्रेणि में कहना. और क्षपक श्रेणि में कहने. सो कहते हैं:—जिसवक्त संज्वल के माया की प्रथम स्थिति आवलिका मात्र रहे उस वक्त संज्वसल की माया का बन्ध उदय और उदीरण का साथही विच्छेद होवे. तब—एक का बंध स्थान रहता है, और दो समय कम दो आवलिका तक माया की सत्ता रहती है. इसलिये दो की सत्ता होवे । उस के बाद अन्तर मुहूर्त पर्यात एक लोभ की सत्ता होवे यह व्याक्तव्य सब नववे गुण-स्थान वर्ती की जाणना. ॥ अब बंध का विच्छेद होने से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान-न में—२८ का, २४ का, २१ का, और १ का, यह ४ सत्ता स्थान होते हैं, उसमें से तीन तो पहिले की तरही उपशम श्रेणिके कहना. और एक संज्वल के लोभ की सत्ता का स्थान क्षपक श्रेणि में पाता हैं और बंध तथा उदय के अभाव से उपशान्त मोह नामक ११ वे गुणस्थान में—२८ का, २४ का, और २१ का, यह तीन सत्ता के स्थानक होवे, यह भी पहिले की तरही कहदेना यों उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि का सम्बन्धन जानना ॥ यह सब १० बंध के, ९ उदय के, १५ सत्ता के स्थान इनके अलग २ भाङ्गे और बंधोदय सत्ताका सम्बन्ध युक्त प्रकृति स्थान मोहकर्मकेकेहे.

आयुष्य कर्म के भाङ्गे

आयुष्य कर्म का सामान्य प्रकार से एकही बंध स्थान होता है, क्योंकि चारों गतिके आयु का बंध विरोधी है—इसलिये एकही वक्त में दो आयु का बंध तथा उदय होता नहीं है और सत्ता स्थान तो कभी एक का और कभी दो का भी पाजाता है:—जैसे जहां लग आगे के भवका आयुका बन्ध पडा न होवे वहां तक एकही आयु वर्तता है, उसकी सत्ता जाणना. और परभव के आयुके बन्ध के कालमें तथा बान्धे बादमरे वहांतकदो आयुकीसत्ताहोतीहै आयुका संबन्ध:-आयुकी तीन अवस्था होतीहै १.परभव का आयु बन्धे के पहले की अवन्ध अवस्था. २.परभव का आयु बान्धे उसवक्त की सवन्ध अवस्था. और ३. आयु बन्ध किये बाद की परा अवस्था इन तीन अवस्था के अनुसार से भाङ्गा करते हैं:—नरक गति आश्रिय ९ भाङ्गे:— १. नरकायुका उदय और नरकायुकी सत्ता. यह प्रथम भाङ्गा परभव के आयु बन्ध पहिले बन्ध के अभाव से प्रथम के चार गुणस्थान में पाता है. २. जो वर्तमान में तो

नारकी है परन्तु मरकर तिर्यच होगा उसके परभाव आयु बन्ध के वक्त में-तिर्यचायु का बन्ध, नरकायुका उदय, और नरकायु तिर्यचायु दोनों की सत्ता. यह दूसरा भाङ्गा मिथ्यात्वसे स्वादन गुणस्थान में पाता है ३ जो नारकी मरकर मनुष्य होगा उसके आयु बन्ध वक्त में मनुष्यायु का बन्ध, नरकायुका उदय और नरकायु मनुष्यायु दोनों की सत्ता. यह तीसरी भाङ्गा प्रथम दूसरे और चौथे गुणस्थान में पाता है. ÷ (परभव का आयु बन्धे बाद उत्तर अवस्था में शुन्य होने से दो भाङ्गे पाते हैं: -) ४ नरकायु का उदय और नरकायु तिर्यचायु की सत्ता ५ नरकायु का उदय और नरकायु मनुष्यायु की सत्ता यह दोनों भाङ्गे प्रथम के चारों गुणस्थान में पाते हैं ॥ जैसे यह नरक गतिके ५ भाङ्गे किये ऐसीही तरह देवगति के भी पांच भाङ्गे करना विशेष इतनाही की नरकायु के स्थान देवायु का नाम लेना. यों दोनों गति के १० भाङ्गे हुवे ॥ तिर्यच गति के १ भाङ्गे:- १ जिस तिर्यचने पूर्वगतिके आयुका बन्धनही किया हो उसके-तिर्यचायु का उदय और तिर्यचायुकी सत्ता यह भाङ्गा पश्चिम गुणस्थान पर्यन्त पाता है (परभव का आयुष्य बन्धती वक्त) ३ जो तिर्यच मरकर तिर्यच होने वाला होवेतो उसके-तिर्यचायुका बन्ध तिर्यचायुका उदय और दो तिर्यचायुकी सत्ता यह भाङ्गा पहिले के दो गुणस्थान में पावे. क्योंकि-आगे के गुणस्थानों में तिर्यचायु का बन्ध नहीं है. ३ जो तिर्यच मरकर मनुष्य होवे उसके-मनुष्यायु का बन्ध, तिर्यचायु का उदय. दोनों की सत्ता. यह भाङ्गा भी पहिले दोनों गुणस्थान में मिलता है. ४ जो तिर्यच मरकर देवता होवे उसके देवायुका बन्ध तिर्यचायु का उदय और दोनों की सत्ता यह भाङ्गा पहिले दूसरे चौथे और पांचवे गुणस्थान में पावे ५ जो तिर्यच मरकर नरक में जावे उसके नरकायु का बन्ध, तिर्यचायु का उदय दोनों की सत्ता यह भाङ्गा मिथ्यात्व में पावे. (आयु बन्ध किये बाद परा अवस्था में:)-६ एक तिर्यचायु का उदय, दो तिर्यचायु की सत्ता. ७ तिर्यचायु का उदय, और तिर्यचायु तथा मनुष्यायु दोनों की सत्ता, ८ तिर्यचायु का उदय और तिर्यचायु देवआयु दोनों

÷ नरक के जीवों-मनुष्य तिर्यच दोनों गतिका ही आयु बंध करते हैं. नरकाया मरकर नरक में भी नहीं उपजे और देवता भी नहीं होवे. इसलिये फक्त तिर्यच मनुष्य दोनों गति के भागे करे हैं.

की सत्ता, ९ तिर्यचायु का उदय और तिर्यचायु नरकायु दोनों की सत्ता. ॥ मनुष्यायु गति आश्रिय ९ भाङ्गे:—१ मनुष्यायु का उदय और मनुष्यायु की सत्ता— यह प्रथम भाङ्गा १४ ही गुणस्थानों में पाता है. २ जो मनुष्यायु का बन्ध करे उसके मनुष्यायु का बन्ध मनुष्यायु का उदय और दो मनुष्यायु की सत्ता ३ जो मनुष्य तिर्यचायु का बन्ध करे उसके—तिर्यचायु का बन्ध, मनुष्यायु का, उदय और तिर्यचायु मनुष्यायु दोनों की सत्ता. (यह दोनों भाङ्गे मिथ्यात्व से स्वदन दोनों गुणस्थान में पाते है ÷ ४ जो मनुष्य देवायुका बंध करे उसके देवायुका बंध, मनुष्यायु का उदय. और देवायु मनुष्यायु दोनों की सत्ता यह भाङ्गा—तीसरा मिश्रगुणस्थान छोड़कर बाकी पहिले से सातवें गुणस्थान तक पाता है. ५ जिस मनुष्याने नरकायु का बंध कियाहो उसके नरकायु का बंध, मनुष्यायु का उदय और दोनों की सत्ता. यह भाङ्गा मिथ्यात्व गुणस्थान में पावे (अब परा अवस्था में बन्ध के अभाव से) ६ मनुष्यायु का उदय, दो मनुष्यायु की सात ७मनुष्यायु का उदय, मनुष्य और नरकायु दोनों की सत्ता. ८ मनुष्यायु का उदय, मनुष्य और तिर्यच दोनों आयु की सत्ता. (यह तीनों भाङ्गे मिथ्यात्व से लगा अप्रमत्त गुणस्थान तक पाते है.) और ९ मनुष्यायु का उदय मनुष्यायु तथा देवायु दोनों की सत्ता. यह भाङ्गा पहिले गुणस्थान से इग्यरेवें गुणस्थान तक पाता है. ÷ । यों चारों गतिके मिलकर आयुष्य कर्म के $५ \times ५ \times २ \times २ = २८$ भाङ्गे होते हैं.

नाम कर्म के भाङ्गे

नाम कर्म के बन्ध स्थान ८ हैं:—२३ का, २५ का, २६ का, २८, का २९ का, ३० का, ३१ का और १ का, यह आठों बन्ध स्थानों तिर्यच और मनुष्य गति के प्रायोग्य कर अनेक प्रकार के होते हैं सो कहते हैं:—तिर्यच गति प्रायोग्य बन्ध ने वाले को सामान्य पने—२३ का, २५ का, २६ का, २९ का और ३० का

+ क्योंकि—सम्यक्त्री मनुष्य तिर्यच देवता काही आयुष्य बांधता है, दूसरा नहीं बांधता है इसलिये चौथे गुणस्थान में यह भाङ्गा नहीं पाता है.

÷ क्योंकि— देवायु बंधे बाद भी श्रेणिका प्रारंभ कर शक्त है परन्तु अन्य तीनों गतिके आयु बंधहुवे बाद श्रेणिका प्रारंभ नहीं होता है. इसलिये बीच के तीनों भाङ्गे अप्रगत गुणस्थान तक कहे हैं.

यह पांच वन्ध स्थान होते हैं। इस में एकन्द्रिय तिर्यच गति प्रायोग्य में, २३ का, २५ का और २६ का यह तीन वन्ध स्थान होते हैं:—जैसे-१ तिर्यच गति, २ तिर्यचानुपूर्वी, ३ एकेन्द्रिय जाति, ४ औदारिक शरीर, ५ तेजस शरीर, ६ कार्मण शरीर, ७ हृण्ड संस्थान, ८ वर्ण, ९ गंध, १० रस, ११ स्पर्श, १२ अगुरुलघु, १३ उपघात, १४ स्थावर, १५ सूक्ष्म-अथवा वादर, १६ पर्याप्ता, १७ प्रत्येक अथवा साधारण, १८ अस्थिर, १९ अशुभ, २० दौर्भाग्य, २१ अनादेय, २२ अपशः कीर्ति, और २३ निर्माण। इन २३ प्रकृति का प्रथम वन्ध, यह अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य वन्ध ते तिर्यच तथा मनुष्य मिथ्यात्व दृष्टि के जानना। यहां भांगे ४-४ होते हैं:— १ सूक्ष्म पणे साधारण सहित २३ का वन्ध करे। २ सूक्ष्म पणे प्रत्येक सहित २३ का वन्ध करे, ३ वादर पणे साधारण सहित २३ का वन्ध करे। और ४ वादर पणे प्रत्येक सहित २३ का वन्ध करे। (यह ४ भांगे हुवे) ॥ और इन २३ प्रकृति में- १ पराघात और उश्वास यह प्रकृति मिलाने से २५ का दुसरा वन्ध स्थान-पर्याप्ता एकेन्द्रिय में जाने वाले होवे वो वन्ध ते हैं। यहां अपर्याप्ता के स्थान पर्याप्ता कहना। और स्थिर अस्थिर में से-एक, तथा शुभ अशुभ में से-एक तथा यशः अपयशः में से-एक, यों वन्ध करे। यहां भाङ्गे:—२० होते हैं:—वादर, पर्याप्ता, प्रत्येक, और स्थिरके साथ २५ का वन्ध करे सो-प्रथम भाङ्गः अस्थिर के साथ २५ का वन्ध करे सो दुसरा वन्ध, इनको शुभा शुभ से गिनने से ४ होवे, चार को यशः अपयशः से गिनने से-८ होवे ऐसेही फिर-वादर पर्याप्ता साधारण पणा वन्धने से-स्थिर और अस्थिर से दो भाङ्गे होवे। शुभा और अशुभ से चार भाङ्गे होवे। = योंही सूक्ष्म पर्याप्ता प्रत्येक, के चार भाङ्गे होते हैं। और भी सूक्ष्म पर्याप्ता साधारण साथ भी चार भाङ्गे होते हैं। यों सब मिलकर २५ के वन्ध में २० भाङ्ग उपजते हैं, ये २० में के एकेन्द्रिय प्रायोग्य देवता जिसवक्त वन्ध करे उस वक्त वादर पर्याप्ता और प्रत्येक के ८ भाङ्गे उपजते हैं। ॥ २५ में आताप नाम अथवा उद्योत नाम इन दोनों में का एक मीलाने से २६ प्रकृति का वन्ध स्थान होता है। वहां वादर अथवा सूक्ष्म के स्थान में वादरही लेना, और साधारण के स्थान प्रत्येकही लेना यह वन्ध स्थान पर्याप्ता वाद

- यहां साधारण के साथ यशः कीर्ति का वन्ध नहीं होता है, क्योंकि-यहां अपयशःका

र प्रत्येक एकेन्द्रिय प्रायोग्य-मिथ्यात्व दृष्टि तिर्यच मनुष्य और देवता में पाता है. य हां-आताप उद्योत के साथ स्थिर और अस्थिर शुभ और अशुभ यशः और अपयश इन प्रकृतियों से प्रावर्तन करने से सोले भाङ्गे होते हैं. × सो कहते हैः—१ आताप स्थिर शुभ और यशः, २ आताप स्थिर शुभ और अयशः, आताप २ स्थिर अशुभ और यशः, ४ आताप, स्थिर, अशुभ, और अयशः, ५ आताप, अस्थिर शुभ, और यशः, ६ आताप अस्थिर, शुभ और यशः ७ आताप, आस्थिर, अशुभ, और यशः, और ८ आताप, अस्थिर, अशुभ, अयस इन भाङ्गोंसे एकेन्द्रिय पर्याप्ता प्रायोग्य आताप, साथ २६ प्रकृति का बन्ध करे, तैसेही उद्योत के साथ भी २६ प्रकृति का बन्ध करे, यों १६ भाङ्गे होते हैं. यह एकेन्द्रिय प्रायोग्य तीनों बन्ध के ४० भाङ्गे हुवे. १ वेन्द्रिय प्रायोग्य बन्ध करते—२५ का, २९ का, और ३० का, यह ३ बन्ध स्थान होते हैंः—२ तिर्यच द्विक, ३ वेन्द्रिय जाति, ५ औदारिक द्विक, ६ तेजस, ७ कार्मण, ८ हुंडक संस्थान, ९ छेवटा संत्रयण १० वर्ण, ११ गन्ध, १२ रस, १३ स्पर्श, १४ अंगु लघु, १५ उपघात १६ त्वस १७ वादर, १८ पार्यप्ता, १९ प्रत्येक, २० अस्थिर-२१ अशुभ, २२ दौर्भाग्य, २३ अनादेय, २४ अयशः कीर्ती, और २५ निर्माण, यह ५ का बन्ध स्थान अपर्याप्ता वेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्यात्व दृष्टि मनुष्य तिर्यच बान्धते हैं. यहां अपर्याप्ता नाम के साथ शुभा शुभादिक परतर्ब मान प्रकृति में की अशुभ ही प्रकृति का बन्ध होता है. परन्तु शुभ का नहीं होता है, इसलिये दूसरा भाङ्ग उत्पन्न नहीं होने से एकही पाता है. ॥ उपरोक्त २५ प्रकृति में—१ पराघात, २ उश्वस, ३ अशुभ खगति, ४ पर्याप्ता, और ५ दुःस्वर. यह ५ प्रकृति मिलाने से—३० प्रकृति होती है. जिसमे से पहिले कहा अपर्याप्ता नाम निकालने से—२९ प्रकृति रहती है इनका बन्ध वेन्द्रिय प्रायोग्य मिथ्यावी जीवों के होता है. यहां स्थिर और अस्थिर, शुभ, और अशुभ, यशः यह प्रकृति यों पर्याप्ता सहित है इसलिये इसके परावर्त में—एक शुभ के साथ और एक अशुभ के साथ, यों दो भाङ्गे स्थिर के और दो भां

÷ यहां आताप उद्योत है सो सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्ता के साथ नहीं होता है. इस लिये इसके साथ भाङ्गे कहे नहीं तैसेही यशः कीर्ती भी—सुक्ष्म साधारण अपर्याप्ता के साथ नहीं बन्धती है.

नाम मिलाने से ३० प्रकृतिका वन्ध मनुष्य प्रायोग्य देवता तथा नारकी के सम्यक दृष्टि जीवों के होता है. यहां भी भांगे ८ होते हैं. क्योंकि तीर्थकर नाम का वन्ध पहिलेके तीनों गुणस्थानों में नहीं होता है. इसलिये ३० के वन्ध में ज्यादा भांगे नहीं होते हैं. यों मनुष्य गति प्रायोग्य तीनों वन्ध के मिलकर ४६१.७ सत्र भांगे हुं. ॥ देवगति प्रायोग्य -२८ का, २९ का, ३० का और ३१ का यह ४ वन्ध स्थान होते हैं. सो पंचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य वान्धते हैं. इस में: -२ देवाद्रिक, ३ पचेन्द्रिय जाति. ४ वैक्रियद्रिक, १.४ नव प्रकृति ध्रुव वन्धकी, १५ समचतुरस्र संस्थान, १.६ शुभ स्वगति, २० वस चतूष्क, २१ पराघात. २२ उश्वास, २३ स्थिर अथवा आस्थि र, २४ शुभ अथवा अशुभ २५ सुभग, २६ सुस्वर, २७ आदेय, २८ यशः कीर्ती अथवा अयशःकीर्ति, इन २८ प्रकृति का वन्ध स्थान विध्यात्वसे लगाकर देश विरति गुणस्थान तक मनुष्य तिर्यच के होता है. इसके आगे छठे गुणस्थान में फक्त मनुष्यकेही होता है. यहां स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, यशः और अयशः इनके परावर्त से- ८ भांगे होते हैं. और अप्रमत तथा अपूर्व करण गुणस्थान में बंध होता है, स्थिर शुभ और यशः काही वन्ध होता है इसलिये भाङ्गा एकही पाता है बोधी आठ के अन्दरकाही है. इसलिये अलग नहीं गिना. । उपरोक्त २८ में जिन नाम मिलानेसे-२९ का वन्ध देव प्रायोग्य चौथे पांचवे और छठे गुणस्थान में होता है. वहांभी स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशः और अयशः से परावर्त करते ८ भाङ्गे होते हैं. और इन ३० का वन्ध फक्त स्थिरादिक शुभ प्रकृति सहित अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में होता है, यहां भी एकही भाङ्गा होता है सो इसके अन्तर भूत जानना. । उपरोक्त ३० में-आहारक द्रिक मिलाने से ३० प्रकृति का वन्ध देव गति प्रायोग्य अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थानी कहते हैं. यहां भी स्थिर शुभ और का ही वन्ध करते हैं. इसलिये-एकही भाङ्गा पाता है. । इन ३० में जिन नाम मिलाने से-३१ प्रकृति का वन्ध देवगति प्रायोग्य अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थानी वान्धते हैं. यहां भी शुभ प्रकृतिर्योका ही वन्ध होनेके सबब से भाङ्गा एकही पाता है. सब विष्ट देवगति प्रायोग्य चारों वन्ध स्थानोंके-१८ भांगे हुं. ॥ नरकगति प्रायोग्य वान्धने वाले जीवोंके एकही-२८ प्रकृति का वन्ध स्थान होता है—नरक द्रिक, ३ पचेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रिय द्रिक, ६ हुंड संस्थान, ७ पराघात, ८ उश्वास ९ अशुभ विदायोगति, १० वस, ११ वादर, १२ पर्याप्ता, १३ प्रत्येक, १४ अस्थिर,

१५ अशुभ, १६ दौर्भाग्य, १७ दुस्वर, १८ अयश कीर्ति, १९ अनादेय, और २० नव प्रकृति का ध्रुव बन्ध की। इन २० प्रकृति का बन्ध पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य भिद्यत्वात् गुणस्थान वालेके होता है। यहाँ सब परावर्तने की अशुभ प्रकृतियोंका ही बंध होनेसे विकल्प न होते एकही भांगा पाता है, ॥ देवगति प्रायोग्य बंध विच्छेद होनेसे भी-अपूर्व करण के सातवें भाग से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के अंत पर्यन्त-एक यशः कीर्ति नामका बंध मनुष्य करता है, वहाँभी एकही भांगा लेना। ॥ अब बंध स्थानके भांगे की संख्या कहते हैं:—अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य २३ प्रकृति के बन्ध के ४ भांगे, २५ प्रकृति बन्धके २१ भांगे; वेन्द्रिय प्रायोग्य १, तेन्द्रि-प्रायोग्य १, चौरिन्द्रिय प्रायोग्य १, पचेन्द्रिय तिर्यच प्रायोग्य १, मनुष्य प्रायोग्य १ यो २५ के बंधमें २५ भांगे एकेन्द्रिय प्रायोग्य: २६ के बंध में-१६ भांगे: देव प्रायोग्य २० के बंध के ८ भांगे; नरक प्रायोग्य २८ के बंध का १ भांगा, यों २८ के बंध के ९ भांगे; वेन्द्रिय प्रायोग्य ८, तेन्द्रिय प्रायोग्य ८ चौरिन्द्रिय प्रायोग्य ८, पचेन्द्रिय प्रायोग्य ४६०८, मनुष्य प्रायोग्य ४६०८ और देव प्रायोग्य ८, यों सब मिल २५ के बंध के ९२४८ भांगे। वेन्द्रिय प्रायोग्य ८, तेन्द्रिय प्रायोग्य ८, चौरिन्द्रिय प्रायोग्य ८ पचेन्द्रिय प्रायोग्य ४६२८, मनुष्य प्रायोग्य ८, और देव प्रायोग्य १, यों सब मिल ३१ के बंध के ४७४१ भांगे होते हैं। और ३१ का बंध स्थान में देव प्रायोग्य १, यो नाम कर्म के आठोंही बंध स्थानोंके सब मिलकर १३२४५ भांगे होते हैं।

नाम कर्म के १२ उदय स्थान:—२० का, २१ का २४, का, २५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, १ का और ८ का इन १२ही उदय स्थानोंको अलग २ बताते हैं: इसमें से-एकेन्द्रिय के-२१का, २४ का, २५का, २६ का और २७ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं सो कहते हैं:—१ तैजस, २ कर्म ण, अगुरुलघु, ४ स्थिर, ५ अस्थिर, ६ शुभ, ७ अशुभ, ८ वर्ण, ९ गंध, १० रस, ११ स्पर्श, और १२ निर्माण। (इन १२ प्रकृति का ध्रुवोदय होता है, क्योंकि यह १२ प्रकृति १३ वे गुणस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सब जीवों के होती है। इसलिये इनको सर्व स्थान लेनी।) १३ तिर्यचाद्विक, १४ स्थावर, १५ एकेन्द्रिय जाति, १६ वादर अथवा सूक्ष्म, १७ पर्याप्ता, अथवा अपर्याप्ता, १८ दौर्भाग्य, १९ अनादेय, और २० यशः अथवा अयशः, इन २० प्रकृति का उदय एकेन्द्रिय जीवोंके भवके

अन्तराल में वर्तते = पाता है. यहां भांगे ५ उपजते हैं:- १. सूक्ष्म पर्याप्त के साथ २१ उदय, सूक्ष्म पर्याप्ता के साथ २१ उदय, सूक्ष्म अपर्याप्ताके साथ २१ उदय, ३ वादर अपर्याप्ताके साथ २१ का उदय. अपर्याप्ता. यह तीन भाङ्गे तो फक्त अयशः के साथ होते हैं, क्योंकि-यहां यशःका उदय नहीं है. और ४ वादर पर्याप्ता के साथ यशः सहित-२१ का उदय, तथा अयशः साथ २१ उदय. । फिर उस शरीरस्थ के ऊपरोक्त २१ प्रकृति के उदय में-१ औदारिक शरीर, २ हुंड संस्थान, ३ उपघात, ४ प्रत्येक अथवा साधारण, इन चारों प्रकृति को मिलाना, और १ तिर्यचानुपूर्वी कमी करना तब २४ प्रकृति का उदय रहता है. और प्रथमोक्त ५ भांग को प्रत्येक और साधारण के साथ दुगुणे करने से-१० भांगे होते हैं, इस में एक भांगा वैक्रय-का मिलान्न ÷ क्योंकि-वादर प्रत्येक पर्याप्ता और यशः कीर्ति के साथ एकही भाङ्गा होता है. × यों २४ प्रकृति के उदय में सब ११ भाङ्गे हुवे । फिर उस शरीर पर्याप्ताके-२४ के उदय में पराघात मिलाने से २५ का उदय होता है. सो शरीर पर्याप्ता पूरी किये वाद पाता है. इसे वादर पर्याप्ता के साथ और प्रत्येक तथा साधारण के साथ गिनने से दो भाङ्गे होते हैं. इने यशः और अयशः से दुगुणे करते ४ भाङ्गे होते हैं. इने वादर के स्थान सूक्ष्म के साथ प्रत्येक साधारण में विकल्प करने से, ६ भाङ्गे होते हैं, + । और वादर वायु काया के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्ति

= पूर्व भवका शरीर छोडे वाद जहां तक दुसरा शरीर धारण नहीं करे उसे भवका अन्तराल कहते हैं.

* जिस के जितन पर्याय है उतनी सब पूरी करेगा उसे लब्धि पर्याप्ता कहा जाता है.

÷ क्योंकि वादर वायुकाय वैक्रिय शरीर करती हैं वहां भी २४ का उदय होता है, परन्तु इतना विशेष की औदारिक के स्थान वैक्रिय शरीर कहना.

× क्योंकि- तेजकाय और वायुकाय के साधारण तथा यशः कीर्ति का उदय नहीं है. इसलिये १ भांगा.

+ यह दोनों भांगे फक्त अयशः कीर्तिमेंही मिलते हैं; परन्तु यश कीर्ति में न मिलने से भांगा न गिनना.

पूरी हुये बाद पराघात का उदय मिलाने से भी २१ का उदय होता है वहां भी प्रथमोक्त रीति से-१ भाङ्गा पावे. यों सब २५ के उदय में ७ भाङ्गे होते हैं। श्वाशो श्वास पर्याप्त पूरी किये बाद २५ के उदय में श्वाशो श्वास का उदय मिलाने से २६ का उदय स्थान होता है. यहां भी पहिले की तरह ६ भाङ्गा पाते हैं. अथवा शरीर पर्याप्त पर्याप्ता के श्वाशो श्वास के अनुदय से + वादर और उद्योत सहित २६ के उदय में-प्रत्येक के साथ एक भाङ्गा साधारण के साथ दूसरा भाङ्गा, यह दोनों यशः और अयशः से दुगुने करने ४ हुवे. | और उद्योत के साथ आताप का उदय मिला ने से भी २६ का उदय स्थान होता है, वहां प्रत्येक के यशः और अयशः से दोभां गे × | और वादर वायु काम को सक्रिय करते श्वाशो श्वासः पर्याप्ती कर पर्याप्ता हुं वे-२५ प्रकृति में उश्वास का उदय मिलाने से २६ का उदय होता है. यहां भी भाङ्गा १ ही होता है. क्योंकि वायु काय के आताप उद्योत और यशः कीर्ती का उदय नहीं है. यों २६ के उदय में सब १३ भाङ्गे हुवे. | श्वाशो श्वास पर्याप्ति कर पर्याप्ता श्वाशो श्वास सहित २६ के उदय में आताप तथा उद्योत इन दोनों में का एक मिलाने से-२७ का उदय होता है. यहां पुरोक्त रित से २६ भाङ्गे पाते हैं. | यों ए-कोन्द्रय के उदय स्थान में-२१ उदय ५, २४ के उदय ११, २५ के उदय ७, २६ के उदय १३, और २७ के उदय ६ यों ५ उदय के मिल ४२ भाङ्गे होते हैं. || वेन्द्रिय में-२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, का, ३० का, और ३२ का यह ६ उदय स्थान हैं, इनके भाङ्गे कहते हैंः—इतमें-२ तिर्यच द्विक, ३ वेन्द्रिय जाति, ४ त्रस, ५ वादर, ६ पर्याप्ता, ७ दौर्भाग्य, ८ अनुदय, ९ यशः कीर्ति अथवा अयशः कीर्ती, यह ९ और इतमें ध्रुवोदय की २२ प्रकृति मिलाने से २२ प्रकृतिका उदयवि

+ क्योंकि-आताप पृथ्वी कामेसे ही होता है. इसलिये २ प्रत्येक ही लिया है, और उद्योत पृथ्वी तथा वनस्पति दोनों में होता है. इसलिये यहां प्रत्येक और साधारण दोनों लिये. और आतापका तथा उद्योतका उदय वादर के ही होता है. परंतु सूक्ष्म के नहीं इस लिये यहां सूक्ष्म का उदय नहीं लिया.

= जहांतक श्वाशो श्वास पर्याप्ती पुरी न करे वहां तक-उश्वास के उदय बिना उद्योतका उदय नहीं होता है.

ग्रह गति में प्रवृत्तते भवके अन्तराल गति में—वेन्द्रिय जीवों के होता है. यहां अपर्याप्ता के साथ अयशः कीर्ति मिलाने से भांगा—२ होता है. और पर्याप्ता के साथ अयशः तथा यशः दोनों अलग २ मिलाने से भांगे दो होते हैं. यों सब ३ भांगे होत हैं. फिर उस वेन्द्रिय को स्वस्थान में अवतरे वाद, उपरोक्त २२ के उदय में से तिर्यचा नु पूर्वी निकालने से और—२ औदारिक द्विक, ३ हुंड संस्थान, ४ छेवटा संघयण, ५ उपघात और ६ प्रत्येक, यह ६ प्रकृति मिलाने से २६ का उदय स्थान होता है, यहां भी उपरोक्त राति से भाङ्गे ३ ही होते हैं. फिर पर्याप्ता पूरी हुवे. वाद—२ पराघात, और २ कूलगति यह २ प्रकृति मिलाने से—२८ प्रकृतिका उदय स्थान होती है. यहां यशः और अपयशः कर भाङ्गे दो होते हैं. = फिर श्वासो श्वास पर्याप्ता पूरे हुवे वाद, श्वाशो श्वास अधिक होने से २९ के उदये भी उपरोक्त २ भांगे होते हैं. अथवा शरीर पर्याप्ति पर्याप्ति को उस—२८ के उदय में श्वास के उदय विना उद्योत का उदय मिलाने से—२९ का उदय स्थान होवे, यहां भी भांगे २ होते हैं. यों २९ के उदय के सब ४ भांगे होते हैं. इन २९ के उदय में—सुस्वर दुस्वरमें का—एक मिलाने से ३० का उदय स्थान होवे, इसके यशः अपयशः से भाङ्गे दो, और सुस्वर दुस्वर से भांगे ४ होते हैं. और श्वाशोश्वास करके पर्याप्ताने जहांतक भाषा पर्याप्त पुंरी नकरी होवे वहांतक—दोनों श्वरके उदय विना उद्योतका उदय मिलानेसे भी ३० का उदय स्थान होता है. यहां यशः और अयशः कर दो भांगे होते हैं. यों सब मिल ३० के स्थान के ६ भांगे होते हैं. और स्वर सहित ३० के उदय में—उद्योत का उदय मिलाने से—३१ उदय स्थान भाषा पर्याप्ता कर पर्याप्त जीव के होता है, यहां यशः, अयशः मृस्वर और दुःस्वर कर ४ भांगे होते हैं. यों २१ उदय के ३, २६ के उदय, ३, २८ के उदय के २, २९ के उदय के ४, ३० के उदय के ६ और ३१ के उदय के ४, सब मिल वेन्द्रिय के उदय के २२ भांगे होते हैं. ऐसे ही तेन्द्रिय के उदयके २२, ऐसेही चौरिन्द्रिय के उदय के २२, यों तीनों विहन्द्रिय के मिलकर सब ६६ भांगे होते हैं. सामान्य से तिर्यच पचेन्द्रिय के—६ उदय स्थान होते हैं. ॥:—२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, ३० का और ३१ का. ॥ इस में—२

पर्याप्ति-अशुभ विहाय गति (कु खगति) में अपर्याप्ता नामका उदय नहीं होता, इसलिये पहिले काहे तीनों भांगे में से यह १ भांगा कम हुवा. बाकी के-दो भांगे पाते हैं.

तिर्यच द्विक, ३ पचेन्द्रिय जाति, ४ त्रस, ५ वादर, ६ पर्याप्ता, ७ सौभाग्य तथा दौर्भाग्य, ८ आदेय तथा अनादेय, ९ यशः तथा अयशः १. यह ९ और १२ ध्रुवोदय की मिल २१ का उदय स्थान-तिर्यच पचेन्द्रियके पहिले का शरीर छोडे वाद रस्तेमें विग्रह गति करता होवे तब पावे. यहां जो पर्याप्त नाम के उदय वर्तता होवे तो-सुभग दुभग के उदय में भांगे दो, आदेय अनादेय के विकल्प से भांगे चार, और यशः अयशः सभांगे ८ होते हैं. और जो अपर्याप्ता नाम के उदय वर्तेतो-सुभग आदेय, और यशः के आभाव से अन्य भाङ्गा न उपजते एकही भाङ्गा होता है, यों ९ भाङ्गे हुवे. ÷ बोही पचेन्द्रिय तिर्यच शरीरस्थ अवतरे वाद-२१ के उदय में से तिर्यचानु पूर्व्या का उदय निकाले और-२ औदारिक द्विक, ३ छे संघयण, में का १ संघयण, ४ छे संस्थान में का एक संस्थान ९ उपघात और ६ प्रत्येक. इन ६ का उदय मिलाने से-२६ का उदय स्थान होता है. इसे पर्याप्ता के साथ ६ संघयण से गिनने से ६ भाङ्गे होवे. इने ६ संस्थान से ६ गुने करने से ६ × ६ = ३६ भाङ्गे होवे. इने सौभाग्य दौर्भाग्य से दुगुने करने से-३६ × २ = ७२ भाङ्गे होवे. इने आदेय अनादेय से दो गुने करने से-७२ × २ = १४४ होवे. इने यशः अयशः से दुगुने करने से-१४४ + २ = २८८ भाङ्गे होते हैं. । और अपर्याप्ता के-हुंडक संस्थान, छेवटा संघयण, दौर्भाग्य, अनादेय और अयशः इनही का उदय होने से एकही भाङ्गा होता है = यों २८९ भाङ्गे हुवे. । वो पर्याप्ता हुवे वाद-१ पराघात, २ दोनों में की एक खगति, इन दोनों को मिलाने से २८ का उदय होवे. इनके पहिले कहे २८८ भाङ्गे को शुभा शुभ विहायो गति से दुगुने करने से-५७२ भाङ्गे होते हैं ÷ । और ऊपरोक्त २८ में

÷ यहां कोइ आचार्य कहते हैंकि-शुभग का और आदेय का एकही वक्त उदय होता है, तेसे ही दुभग का और अनादेय का भी-उदय एकही वक्त होता है. इसलिये इन दोनों के साथ दो भांगे इने यशः और अयशः से दुगुने करनेसे ४ भांगे तो पर्याप्ताके साथ होता हैं. और १ अपर्याप्ता का भांगा, में ६ हुवे. यों सुभग दुभग आदेय, अनादेय से आगे भी मतान्तर से फरक होता है सो बुद्धि से विचारना.

= अपर्याप्ताके अशुभ प्रकृति का ही उदय होता है, परन्तु शुभका उदय न होने से एकही भांगा गिना है.

× यहां अपर्याप्ता न होने से उपरका एक भांगा गिना नही है.

श्वाशोश्वास पर्याप्ति से पर्याप्ता के—उश्वास नाम का उदय बढ़ाने से—२९ का उदय होता है, यहां भी प्रथमोक्त रीति से भाङ्गे ५७६ होते हैं। अथवा-शरीर पर्याप्ति से पर्याप्ता के श्वाशोश्वास विन एक उद्योत का उदय पहिले की तरह २८ में मिलाने से २९ का उदय स्थान होता है। यहां भी प्रथमोक्त रीति से भाङ्गे ५१६ होते हैं। यों २९ के उदय में सब भाङ्गे ११५२ होते हैं। फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता हुवे बाद—२९ में सुस्वर या दुःस्वर में से एक प्रकृति मिलाने से—३० प्रकृति का उदय स्थान होता है। यहां पहिले कहे हुवे श्वाशोश्वास के—५७६ भाङ्गे को सुस्वर दुस्वर से दुगुने करने से—५७६—२—११५२ भाङ्गे होते हैं। अथवा—श्वाशो श्वास पर्याप्ति से पर्याप्त के स्वर के उदय विन उद्योत का उदय प्रथमोक्त २९ प्रकृति में मिलाने से भी ३० प्रकृति का उदय होते हैं। वहां भी प्रथमोक्त रीति से भाङ्गे ५७६ होते हैं। यों सब मिलकर ३० प्रकृति के उदय स्थान के १७२८ भाङ्गे होते हैं। और श्वर सहित ३० के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से—३१ का उदय स्थान होता है, यहां पहिले स्वर सहित ३० उदय में—११५२ भाङ्गे कहेथे उतनेही जानना। यों तिर्यच पंचेन्द्रिय के ६ उदय स्थान के सब मिलकर ४१०६ भाङ्गे होते हैं। और तिर्यच पंचेन्द्रिय के वैक्रिय करते—२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का यह पांच उदय स्थान पाते हैं। इसमें—२ वैक्रिय द्विक, ३ समचतुरस्र संस्थान, ४ उपघात ५ तिर्यच गति, ९ वस चतुष्क, १० पंचेन्द्रिय जाति, ११ सौभाग्य अथवा दौर्भाग्य १२ आदेय अथवा अनादेय १३ यशः कीर्ति अथवा अयशः कीर्ति, इन १३ प्रकृति में ध्रुवोदय की १२ प्रकृति मिलाने से—२५ प्रकृति का उदय होता है। जिसके—सौभाग्य दौर्भाग्य से २ भाङ्गे, इने आदेय अनादेय से दुगुने किये ८ भाङ्गे होते हैं, और इनको यशः अयशः से दुगुने किये ४ भाङ्गे और इसको आदेय अनादेय से दुगुने किये ८ भाङ्गे होते हैं। = । फिर वैक्रिय शरीर की पर्याप्ति पूरी हुवे बाद १ पराघात २ शुभ विहायो गति यह दोनों मिलने से—२७ का उदय होता है यहां भी भांगे ८ जानना। फिर वैक्रिय शरीर की श्वाशोश्वास पर्याप्ति पूरी हुवे बाद उश्वास का उद-

= यहां वैक्रिय शरीर होनेके सबब से संवयण तो होता नहीं है। और संस्थान फक्त एक समचतुरस्र पाता है। इसलिये इनके भांगे न हीनेसे विशेष भांगे नहीं पाते हैं।

य मिलाने से २८ का उदय होता है. यहां भी बोही ८ भाङ्गे जानना. अथाव शरीर पर्याप्ति के के उश्वास के अनुदय में उद्योत का उदय मिलाने से भी २८ का उदय होवे वहां भी येही ८ भाङ्गे जानना. यों २८ के उदय के सब मिल १६ भाङ्गे योते हैं. । वैक्रिय शरीरी के भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सुस्वर के उदय को पू वोंक्त उश्वास सहित २८ प्रकृति में मिलाने से २९ का उदय होता है वहां भी भांङ्गे ८ होते हैं. यों २९ के उदय के भी सब १६ भाङ्गे होते हैं. । और सुस्वर सहित २९ के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३० का उदय होता है. यहां भी भाङ्गे ८ होते है. यों सब मिल तिर्यच पचेन्द्रिय के ४९६२ भाङ्गे होते हैं. और एकेन्द्रिय या दि सब तिर्यच के भाङ्गे मिलाने से—५०७० भाङ्गे होते हैं. ॥ अब मनुष्य के सामान्या पने २२ का, २६ का, २८ का, ३१ का, और ३० का यह ५ उदय स्थान होते हैं. इन पांचोंही उदय स्थान के भाङ्गे तिर्यच पचेन्द्रिय की तरह ही कहना, परन्तु इतना विशेष तिर्यच गति और तिर्यचानु पूर्वी के स्थान मनुष्य गति और मनुष्यानु पूर्वी कहना. तथा २९ प्रकृति का उदय उद्योत सहित कहा है सो नहीं कहना. इसलिये २९ के उदय के ५७६ भाङ्गे होते हैं. और ३० के उदय के भी—११५२ भाङ्गे होते हैं. परन्तु ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि—वैक्रिय और आहारक शरीर करती वक्त फक्त साधु केही उद्योत का उदय होता है. इसलिये मनुष्य के सब २६०२ भाङ्गे ही होते हैं. । और मनुष्य के वैक्रिय करती वक्त—२५ का २७ का, २८ का २९ का, और ३० का यह ५ उदय स्थान पाते है. इसमें—१ मनुष्य गति, २ उपघात नाम ३ पचेन्द्रिय जाति, ५ वैक्रियादिक, ६ सवचत्तरस संस्थान १० वस चतुष्क, ११ सौभाग्य. अथवा दौर्भाग्य, १२ आदेय अथाव अनादेय, १३ यशः अथवा अयशः और १२ प्रकृति ध्रुवोदय की यों २९ का उदय होता है, यह भी तिर्यच में कहे माफिक ८ भाङ्गे पाते हैं । फिर वैक्रिय शरीर पर्याप्ता के पराघात और शुभ खगति के उदय २७ का उदय होता है. यहां भी ८ भाङ्गे जाणना फिर श्वासो श्वास पर्याप्ति पूरी किये बाद—२७ के उदय में उश्वास का उदय मिलाने से २८ के उदय में भी ८ भाङ्गे जाणना. अथवा साधु के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप्ति पूरी किये बाद श्वासोश्वास के उदय विना उद्योत का उदय मिलाने से २८ का उदय होता है. यहां एकही भाङ्गा होता है.—यों २८ के उदय में सब १ भाङ्गे होते हैं. । और सुस्वर सहित २९-

= क्योंकि साधुके दौर्भाग्य, अनादेय, और अयशः कीर्तिका उदय नहीं होता है.

के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३० का उदय स्थान होता है. यहां भी पहिले के तरह साधु के एकही भाङ्गा जाणना. यों सब वैक्रिय के पांचों स्थानको के २५ भाङ्गे होते हैं. । और संयति के आहारक शरीर करती वक्त-वैक्रिय मनुष्य के कहै बोली ५ उदय स्थान पाते हैं. परन्तु इतना विशेष वैक्रिय द्रिक, के स्थान आहारक द्रिक कहना, और सब प्रतस्त प्रकृति ही लेना इसलिये २५ के उदय में एकही भाङ्गा जाणना. । फिर शरीर पर्याप्ता पर्याप्ता के-पराघात और शुभ खगति मिलाने से २७ का उदय होता है. यहां भी एकही भाङ्गे होता है फिर प्राणापान (श्वाशोश्वास) पर्याप्ता के श्वाशोश्वास का उदय मिलाने से-२८ के उदय में भी एकही भाङ्गा होता है. अथवा शरीर पर्याप्ति पर्याप्ता के-उश्वास का अनुदय और उद्योत का उदय मिलाने से भी २८ प्रकृति का उदय होता है. यहां भी एकही भाङ्गा यों २८ के उदय के दो भाङ्गे होते हैं. । फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के उश्वास सहित २८ के उदय में सुस्वर का उदय मिलाने से २९ का उदय स्थान होता है, यहां भी एक भाङ्गे अथवा श्वाशोश्वास पर्याप्ति के सुस्वर के अनुदय और उद्योत के उदय में भी २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी एक भाङ्गा यों २९ के उदय में २९ भाङ्गे । फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सुस्वर सहित २९ के उदय में उद्योत का उदय मिलाने से ३० का उदय होता है. यहां भी एक भाङ्गा । यों आहारक शरीर के पांचों उदय स्थान के ७ भाङ्गे होते हैं. । अब केवल ज्ञानी मनुष्य के-२० का, २१ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, ९ का और ८ का, यह १० उदय स्थान होते हैं, इसमें-१ मनुष्य गति, २ पचेन्द्रिय जाति, ३ व्रत, ४ वादर ५ पर्याप्ता ६ तुभग, ७ आदेय, ८ यशः कीर्ति और १२ ध्रुवोदय की प्रकृति मिलाने से २० का उदय होता है. सो केवल समुत्पात करती वक्त बीच के ३ समय पर्यन्त कर्मण जोग वर्तते के होता है. यहां भाङ्गां १ ही होता है. और तीर्थकर केवल ज्ञानी के तीर्थकर नाम वृक्त-२१ का उदय होता है, यहां भी भाङ्गा एक होता है. । और ऊपरोक्त २० में-२ औदारिक द्रिक, ३ छे संस्थान में का एक संस्थान, ४ प्रथम-संघयण, ५ उपघात, और २ प्रत्येक, यह २ प्रकृति मिलाने से २२ का उदय नामान्य केवली के समुद्र घात करते, दूसरे, छट्टे और सातवे इन ३ समय में औदारिक मिश्र जोग वर्तते होता है. यहां ६ संस्थान से २ भाङ्गे होते हैं, परन्तु सामान्य मनुष्य आश्रिय होने से गिनती में नहीं लिये. । ऊपरोक्त २६ में-तीर्थ कर नाम

मिलाने २७ का उदय तीर्थकर के समुद्रघात होती वक्त दूसरे तीसरे और सातवे समय में होता है. यहां भांगा १ ही । ऊपरोक्त २२ में—१ पराघात, २ उश्वास, ३ शुभ अथवा अशुभ खतांगि ४ सुस्व अथवा दूस्वर, यह ४ प्रकृति मिलाने से—३० का उदय सामान्य केवली के—औदारिक काया योग वर्तते होता है. यहां २ संस्थान से २ भांगे, इने दोनों विहाय गति से दुगुने करते १२ भांगे और इने सुस्वर दुस्वर से दुगुने करते २४ भांगे होते हैं. परन्तु सामान्य मनुष्या मिश्र होने से नहीं गिने । ऊपरोक्त ३० प्रकृति में तीर्थकर नाम मिलाने से ३१ का उदय स्थान तीर्थकर के अयोगी केवली के औदारिक काया योग वर्तते होता है. यहां समचतुरस्र संस्थान शुभ विहाय गति, और सुस्वर का उदय होने से एकही भांगा होता । इन १३ में से औदारिक काया योगका निरुंथन करे तब वचन योगका भी निरुंथन होवे जिससे स्वरका भी निरुंथन होवे, इसलिये स्वरके उदय विना ३० का उदय स्थान रहै. यहां भी एक भांगा तीर्थकर के जानना । फिर उश्वास रह्ये तब २९ का उदय रहै. वहां भी एक भांगा तीर्थकर के जानना । और सामान्य केवली पूरोक्त ३० में से वचन योग का निरुंथन किये २९ का उदय रहै—यहां २ संस्थान और विहायो गति से—१२ भांगे होते हैं. परन्तु सामान्य मनुष्य के होने से गिने नहीं । इन २९ में से उश्वास का निरुंथन करने से २८ का उदय रहै यहां भी २ संस्थान और २ विहायो गति से १२ भांगे होते हैं. सामान्य मनुष्य के होने से नहीं गिने । और १ मनुष्य गति २ पचेन्द्रिय जाति ३ व्रस, ४, वादर ५ पर्याप्ता, ६ सुभग, ७ आदय, ८ यशः कीर्ति और ९ तीर्थकर नाम, इन ९ प्रकृति का उदय तीर्थकर अयोगी केवली के चरम समय वर्तते होता है. यहां भी १ भांग । इन ९ में से तीर्थकर नाम निकालने से ८ का उदय सामान्य अयोगी केवली के चरम समय होता है वहां भी १—भाया यों के वली के १० उदय स्थान के मिलके ६२ भांगे होते हैं. जिसमें—२० का, २१ का, २७ का, २९ का, ३० का, ३१ का, ९ का, और ८ का, इन ८ स्थानों में तो एक ही भांगा पाता है, जिसमें दो स्थान सामान्य केवली के और ६ स्थान तीर्थकर हैं सोतो गिने हैं. और बाकी के ५४ भांग सामान्याश्रिय होने से उन भांगे के अन्तर भूत समाये जिससे अलग नहीं गिने यो मनुष्य समबन्धि सब मिलकर २६२५ भांगे होते हैं ॥ अब देवता के २२ का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का, यह ६ उदय स्थान पाते हैं इसमें—२ देवदिक, ३ पचेन्द्रिय जाति, ४ व्रस

५ वादर, पर्याप्ता, ७ सुभग, दुर्भग में का एक, ८ आदेय अनादेय में का एक, ९ यशः अयशः में का एक और २२ ध्रुवोदय की प्रकृति मिल २२ का उदय भवके अन्तराल गति में वर्तते देवता कहेता है. यहां सुभग, आदेय अनादेय, यशः और अयशः इनके साथ गिनने से ८ भांगे होते हैं. * । फिर वो शरीरस्थ हुवे वाद ऊपरोक्त २२ प्रकृति में—२ वैक्रिय द्विक, ३ उपघात, ४ प्रत्येक, ५ समचतुरस्र संस्थान. यह ५ प्रकृति मिला वे, और देवानु पूर्वी निकाले तब २५ प्रकृति का उदय रहै. यहां भी पहिले की तरह ८ भांगे होते हैं. । फिर शरीर पर्याप्ति पर्याप्ता के—१ पराघात, और प्रसस्त विहायोगति यह दो प्रकृति विशेष होनेसे—२७ का उदय स्थान होवे यहां भी. ८ भांगे * फिर प्राणापान पर्याप्ता के उश्वास का उदय अधिक होनेसे—९८ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे, अथवा शरीर पर्याप्ताके उश्वास के अनुदय और उद्योत के उदय में भी ९८ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, यों २८ के उदय में सब १६ भांगे होते हैं. ॥ फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ताके सुस्वर का उदय अधिक होनेसे - २९ का उदय स्थान होता है. यहां भी ८ भांगे होते हैं. + अथवा श्वाशोश्वास पर्याप्ति से पर्याप्ताके सुस्वर के अनुदय और उद्योत के उदय में २९ का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, = ॥ यों २९ के उदय के सब १६ भांगे हुवे. फिर भाषा पर्याप्ति पर्याप्ता के सूस्वर सहिन २९ के उदय में उद्योत का उदय मिलने से ३० का उदय होता है. यहां भी ८ भांगे, यों देवता के ६ उदय स्थान के सब मिल ६४ भांगे होते हैं. ॥ अब नारकीके २१ का, २५ का, २७ का, २८ और २९ का, यों ५ उदय स्थान होते हैं. । इस में—२ नर्क द्विक, २ पचेन्द्रिय जाति, ४ वस, ५ वादर ६ पर्याप्ता, ७ दुर्भग, ८ अनादेय, ९ अयशः कीर्ति और १२ ध्रुवोदय की प्रकृति. यों २१ प्रकृति का उदय-विग्रह गति में वर्तते नर्क के जीवोंके होते हैं., यह भांगा एक ही होता है = ॥ फिर १८ में ८ वैक्रिय द्विक, हुंडक

* दौर्भाग्य अनादेय, और अयशः का उदय पीशाचादि हीन जातके दवाँके होता है.

+ देवताके अशुभ विहायो गतिको उदय नहीं होने से भांगे बडे नहीं.

+ क्योंकि—देवता दस्वर का उदय नहीं होता है.

= उत्तर वैक्रिय करने देवता के उद्योत का उदय होता है. = नर्कके जीवोंके प्रावर्तमान.

प्रकृति में ही अथवा प्रकृति ही उदय होने से मिलने का उदय नहीं है. यों २९ के उदय में सब १६ भांगे होते हैं.

स्थान, ३ उपघात ५ प्रत्येक, इन ९ प्रकृति का उदय मिलाने से और पूर्वी का उदय कम करनेसे २६ का उदय स्थान नर्क में उत्पन्न हुवे बाद शरीरस्थ के पात है. यहां भी भांग एकही होता है. फिर शरीर पर्याप्ति पर्याप्ता के पराघात और अशुभ खगति इन दोनों का उदय बढ़ने से २७ का उदय होता है. यहां भी भांगा एकही। फिर प्राणा पाना पर्याप्ति पर्याप्ता के श्वाशो श्वाश का उदय बढ़ने से २८ का उदय होता यहां भी भांगे १। फिर भावा पर्याप्ति पर्याप्ता के दुस्वर का उदय बढ़नेसे—२९ का उदय होता है, जिसका भांगा एकही होता है. यों नर्क के ५ स्थानोंके ५ भांगे होते हैं. और चारों गति के सर्व उदय स्थानोंके मिल सब १७९१ भांगे होते हैं सो कहते हैं.

उदय स्थानों के सब भाङ्गों की संख्या:—२० प्रकृति के उदय स्थान में—१ भांगा केवली के होता है, २१ प्रकृति की उदय स्थान में—एकेन्द्रिय के ९ विक्रेन्द्रिय के ९, पचेन्द्रिय तिर्यच के ९ मनुष्य के ९, केवली का १, देवता के ८, और नर्क का १, यों सब मिल ४२ होते हैं, २४ प्रकृतिक उदय स्थान में—एकेन्द्रिय के ११, भांगे होते है, २५ प्रकृति के उदय स्थान में—एकेन्द्रिय के ७ वैक्रिय तिर्यचके ८, वैक्रिय मनुष्य के ८, आहका १, देवता के ८ और नर्क का १, यों सब ३३ भांगे होते हैं. २६ प्रकृति के उदय में एकेन्द्रिय के १३, विक्रेन्द्रिय के ९, पचेन्द्रिय तिर्यच के २८९, और सहज मनष्य के २८९, यों सब ६००० भांगे होते हैं, २७ प्रकृति के उदय में—एकेन्द्रिय के ६, वैक्रिय तिर्यच के ८, वैक्रिय मनुष्य के ८, आहारक का १, केवली का १, देवता के ८, और नर्क का १, यों ३३ होते हैं. २८ के उदय में—विक्रेन्द्रिय के ६, पचेन्द्रिय तिर्यच के ९७६, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय तिर्यच के १६ वैक्रिय मनुष्य के ९, आहारक के २, केवली का १ देवता के १६ और नर्क का १, यों सब १२०२ भांगे होते हैं. २९ प्रकृति के उदय में विक्रेन्द्रिय के १२ पचेन्द्रिय तिर्यच के ११५२, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय तिर्यच १६ वैक्रिय मनुष्य के ९ आहारक के २, केवलीका २ देवता के १६ और नर्क का १ यों सब १७८५ भांगे होते हैं; ३० प्रकृति के उदय में विक्रेन्द्रिय के १८ तिर्यच पचेन्द्रिय के १७२८, मनुष्य के ११५२, वैक्रिय तिर्यच के ८, वैक्रिय मनुष्य के १, आहारक का १, केवली का १, देवता के ८, यों सब २९१७ भांगे होते हैं. और ३१ का प्रकृति के उदय में—विक्रेन्द्रिय के १२, पचेन्द्रिय तिर्यच के ११५२, और केवलीका

१, यों सब ११६५ भांगे होते हैं. यों ९ ही उदय के सब मिलकर १७९१ भांगे होते हैं.

अब नाम कर्म के सत्ता स्थानक कहते हैं:-१ नाम कर्म की सर्व प्रकृति के समुदाय की सत्ता होवे तब ९३ की सत्ता, २ इस में से जिन नाम की सत्ता नहीं होवे तब ९२ की सत्ता, ३-९३ वेमें से- (१) आहारक शरीर, (२) आहारक अङ्गोपाङ्ग, (३) आहारक बन्धन, और (४) आहारक संघातन, इन चारों की सत्ता नहीं होवे तब ८९ का सत्ता स्थान, ४ इस में से- जिन नाम की सत्ता न होवे तब ८८ का सत्ता स्थान, ५ इस में से-देव द्विक, या नर्क द्विक की प्रकृति कमी करे तब ८६ की सत्ता. ६ तथ्य ८८ मेंसे-तेज और वायु में वैक्रियाष्टक उवेलकर ८० की सत्ता बन्त हुवा पचेन्द्रिय पना पाकर देव गति योग्य बन्ध करे तो देव, द्विक और वैक्रिय चतुष्क बन्ध में ८६ का सत्ता स्थान होवे. तथा पचेन्द्रिय योग नरक प्रायोग बान्धे तो नरक द्विक और वैक्रिय चतुष्क बन्ध में भी ८६ का सत्ता स्थान होवे, ७ फिर नरक द्विक और वैक्रिय चतुष्क का निकाल होनेसे ८० का सत्ता स्थान हो फिर मनुष्य द्विक उवेलनेसे ७९ का सत्ता स्थान होता है. यह सातों सत्ता स्थान क्षपक छोडकर दुसरे जीवों के होते हैं. इस में अभव्य के तथा पहिले सम्यक्त्व प्राप्त न करी हो उन के-७८ का, ८० का, ८६ का, और ८८ का, यह चार सत्ता स्थान पाते हैं। अब क्षपक के-६ सत्ता स्थान कहते हैं:-१३ में से ८ नरक द्विक, ४ तिर्यच द्विक, ८ प्रथम की चार जाति, ९ स्थावर, १ आताप, ११ उद्योत, १२ सूक्ष्म और १३ साधारण इन १३ प्रकृति का क्षय होनेसे-७९ की सत्ता पाती है. और ९ में से-१३ क्षपाने से ७६ की सत्ता, और ८८ में से-१३ क्षपाने से-७५ की सत्ता. और-८ मनुष्य गति, २ पचेन्द्रिय जाति, ३ वस, ४ वादर, ५ पर्याप्ता, ६ शुभग, ७ आद्रिय, ८ यशः और तीर्थकर नाम इन ९ की स्वतः और इन ९ में से-तीर्थकर नाम कमी करने से ८ की सत्ता, यह ८-९ के दोनों सत्ता स्थान अयोगी केवलीभे अन्तिम समय में होती है यह नाम कर्म के १२ सत्ता स्थान हुवे.

अब नाम कर्म के बन्ध उदय और सत्ता स्थान का सम्बन्ध कहते हैं; २३ का बन्ध अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्यही होता है, इसके बन्धने वाले-एकेन्द्रिय, त्रिकेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य होते हैं, इनके-२१ का, २४ का, २५ का, २६ का:

२७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ९ उदय स्थान होते हैं इसमें के हरेक उदय स्थानमें वर्तते एकेन्द्रिय प्रायोग्य-२३ प्रकृतिका बन्ध स्थान करता है, वहां २१ उदय तो विग्रह गति में वर्तते-एकेन्द्रिय विक्रेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्यके होता है. वहां सत्तास्थान-२२ का, ८८ का, ८६ का, ८० का, और ७८ का यह ५ स्थान सब जीवों के पाते हैं, परन्तु मनुष्य के ७८की सत्ता नहीं होती है, क्यों कि-७८ की सत्ता मनुष्य द्विक उबेलने सेही होती हैं, इसलिये मनुष्य के चार सत्ता स्थान नहीं होते हैं. । और २४ का उदय एकेन्द्रिय पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों के होता है, वहां भी ऊपर कहे सो ५ सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशेष-जो वायु का य वैक्रिय करे तो-२४ के उदय में वर्तते को ८० का, और ७८ का यह दोनों सत्ता स्थान पाते हैं. क्योंकि उसके वैक्रिय पटक और मनुष्य द्विक निश्चय से पाता है, + इसलिये ८० का और ७८ का स्थानक छोड कर-२२ का, ८८ का और ८६ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं. । और २५ के उदय में वर्तते एकेन्द्रिय वैक्रिय तिर्यच और वैक्रिय मनुष्य के होता है, तहां तेउ और अवैक्रिय वायु के जो पांच सत्ता स्थानक हैं वोही ९ सत्ता स्थानक कहना. क्योंकि-७८ की सत्ता उसीकेही है, अन्य के नही × । और दूसरे पर्याप्ता के ७८ की सत्ता विना वाको के ४ सत्ता स्थानक वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के बन्धते हैं. और २५ का उदय होता है. । और २६ का उदय पर्याप्ता एकेन्द्रिय तथा पर्याप्ता अपर्याप्ता वेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य के होती है. वहां भी पहिले की तरह ही ५ सत्ता स्थानक, उसमें से ७८ का स्थानक तो तेउ तथा वैक्रिय वायु की अपेक्षा से लेना. और वाकी रहै ४ सत्ता स्थानक दूसरे जी

+ वैक्रिय तो साक्षात अनुभव रहा है इसलिये उसे उबेलता नहीं है, और उसके उबे-
उ विन नरक द्विक तथा देव द्विक नहीं होता है, समकाल ही वैक्रिय पटक उबेलता है,
और वैक्रिय पटक उबेले बाद मनुष्य द्विक उबेलता है. परन्तु उसके पहिले नहीं उबेलता है

× क्योंकि-दूसरे सब पर्याप्ता जीवों मनुष्यद्विक का बन्ध करते हैं, और एकोन्द्रिय के
विक्रेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय जो तेउ वायु से आकर अवतरते हैं वो जहांतक मनुष्य द्विक
का बन्ध नहीं करे वहांतक अपर्याप्ता अवस्था में उनके ७८ की सत्ता होती है. इसलिये
५ सत्ता स्थान पाते हैं.

वों आश्रिय २३ के बन्ध में और २६ के उदय में लेना। और २७ का उदय तेज वायु छोड़ कर पर्याप्ता वादर एकेन्द्रिय तथा वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के होते हैं। वहां ७ ८ विना बाकी रहे ४ सत्ता स्थानक जाणना. = 1 और २८ का, २९ का, और ३० का यह तीनो उदय स्थान पर्याप्ता विह्वेन्द्रिय तथा तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य के होते हैं। और ३८ उदय स्थान पर्याप्ता विह्वेन्द्रिय तथा तिर्यच पचेन्द्रिय मिथ्यात्वीके होता है, यहां मनुष्य द्विक की सत्ता होती है। इसलिये एक ७८का सत्ता स्थान छोड़ बाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं, यों २३ के बन्ध के योग्य ९ उदय स्थानक के सब मिलकर ४० सत्ता स्थान होते हैं। और २९ के, २६ के बन्ध में भी योंही नव नव उदय स्थान में सत्ताका सम्बन्ध ४०-४० स्थान सामान्य आदेशसे जाणना. और विशेषा देशसे पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य २९ का बन्ध करने वाले देवता के-२१ का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का, इन ६ उदय स्थान में-२२ का, और ८८ का यह दो सत्ता के स्थानक अलग २ होते हैं। और पर्याप्ता विह्वेन्द्रिय तथा अपर्याप्ता तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य प्रायोग्य २९ प्रकृति का देवताके बन्ध नहीं है क्योंकि-अपर्याप्ता देवता में उपजता नहीं है। इसलिये २३ का, २५ का, और २६ बन्ध स्थान में सब ९ उदय स्थान के मिलकर १२० सत्ता स्थान मिथ्यात्वीके ही होते हैं। और २८ के बन्ध में-२१ का, २५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का यह ८ उदय स्थान होते हैं, और २९ का, ८८ का, ८६ का, तथा ८९ का यह ४ सत्ता स्थान एकेक के उदय से होते हैं। यह २८का बन्ध दो तरहसे होता है:- १ देवगति प्रायोग्य और २ नर्कगति प्रायोग्य इममें देवगति प्रायोग्य २८के बन्धमें ८ उदय स्थान अनेक जीवों आश्रिय होते हैं। और नर्क गति प्रायोग्य २८ के बन्ध में-३० का और ३१ का यह दो उदय स्थान होते हैं, जिस में-देवगति के प्रायोग्य २८ के बन्ध में २९ का उदय क्षायिक सम्यक्त्वी अथवा क्षयोपशामिक सम्यक दृष्टि पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य का भवन्तराल गति में होते

= तेज और वायु के आनाप का और उद्योत का उदय नहीं है, इसलिये उनके २७ का उदय स्थान भी नहीं है, और तेज वायु विना ७८ की सत्ता दुमरे किसीभी स्थान मिथ्या नहीं है इसलिये, २३ के बन्ध में और २७ के उदय में ४ सत्ता स्थान पाते हैं।

तब पावे. परन्तु मिथ्यात्वी के नहीं पावे. क्योंकि-मिथ्यात्व दृष्टि देवगति प्रायोग्य २८ का बन्ध नहीं करता है, मिथ्यात्वी तो सब पर्याप्तिमें पर्याप्ताही देव गति प्रायोग्य २८ बान्धता है × इस देव गति प्रायोग्य २८ के बन्धक २९ के उदय में वर्तते को— १२ का और ८८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु यहां जिन नामकी सत्ता नहीं है. = और २५ का उदय आहारक साधु वैक्रिय तिर्यच और सम्यक दृष्टि मनुष्य इन तर्कों के होता है. तथा मिथ्यात्व दृष्टि के भी होवे वहां सामान्यसे यह दो सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु इतना विशेष जो आहारक के धारक हैं. उनके आहारक चतुष्क जरूर होता है, इस लिए उनके-एक-१२ काही सत्ता स्थानक होते हैं. बाकी के दूसरे जीवों के दो सत्ता स्थान होता है. यह २८के बन्ध के २५ के उदय के दो लत्ता स्थान जानना. और २६के उदय क्षायिक और क्षयोपशमसम्यक दृष्टि शरीरस्त पचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य के २८ का बन्ध देव गति प्रायोग्य होता है, वहां १२ और ८८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं. । और २७ के उदय आहारक साधु तथा वैक्रिय तिर्यच मनुष्य सम्यक दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि के बोही दोनों सत्ता के स्थानक जानना. तैसे ही-२८ के २९ के उदय में भी अनुक्रम से शरीर पर्याप्ति पर्याप्ताके-२८ का उदय होता है । और श्वासोश्वास पर्याप्ति कर पर्याप्ताके-२९ का उदय होवे सो क्षयिक तथा वेदक सम्यक दृष्टि के, आहारक साधु, वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के देवगति प्रायोग्य २८ का बन्ध होवे तहां भी १२ और ८८ के दोनों सत्ता स्थान पावे. । और ३० का उदय पचेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य सम्यक दृष्टि के, मिथ्यात्व दृष्टि के, आहारक करते साधुके तथा वैक्रिय करते साधु के होता है, वहां सामान्यसे

× यह कहेगा कि-जो पसा कहोतो वैक्रिय करती वक्त तिर्यच और मनुष्य-२५ के, २७ के, २८ के, और २९ के उदय में वर्तते मिथ्यात्वी देवगति प्रायोग्य २८ का बन्ध करता है सो कैसे संभवो! समाधान-उसही भव की आदि में पूरी पर्याप्ति करता है, फिर वैक्रिय शरीर करते औदारिक निवृति पर्याप्ता पणे उदय से निवृते तोभी उसे पर्याप्ता ही कहना. इसलिये पर्याप्ता अवस्था में तो मिथ्यात्वीके भी बन्ध विरोध नहीं है.

= जो कदापि जिननाम की सत्ता होवेतो उसका बन्ध भी होना चाहिये तो फिर २९का बन्ध होवे. इसलिये-यहां जिन नाम नहीं है.

१२ का, ८१ का, ८८ का, और ८६ का यह ४ सत्ता स्थान होते हैं; और विशेष से—पचेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य मिथ्यात्व दृष्टि के नर्कगति प्रायोग्य २८ का वन्ध करते ३० के उदय—१२ का, ८१ का, ८८ का, और ८६ का यह चार सत्ता स्थान होते हैं. इस में १२ का और ८८ का तो प्रथमोक्त रीति से कहना. और ८१ की सत्ता सो—किसी जीवने नर्कायु वन्ध किये बाद सम्यक्त्व प्राप्त कर के तीर्थकर नामका वन्ध किया, वो जीव नर्क जानेक सन्मुख हुवा. तब सम्यक्त्वका वमन कर मिथ्यात्व में गये बाद तीर्थकर का वन्ध है इसलिये तीर्थकर नाम की सत्ता होवे, परन्तु तीर्थकर की सत्ता होते भी आहारक की सत्ता मिथ्यात्वी के नहीं होती है वहां, ८१ की सत्ता पाती है. अब ८६ की सत्ता का स्वरूप कहते हैं:—कोइ सर्व पर्याप्ति से पर्याप्ता ऐसा तिर्यच पचेन्द्रिय अथवा मनुष्य वो तीर्थकर नाम, आहारक चतुष्क, वैक्रिय चतुष्क, देवद्विक, नरकद्विक, इन १३ प्रकृति विना ८० की सत्ता में वर्तता संकृष्ट परिणाम से नरक गति प्रायोग्य २८ का वन्ध करते वैक्रिय चतुष्क और देवद्विक का अवश्य वन्ध करता है, तब ८६ का सत्ता स्थान होता है. यों २८ के वन्ध में, ३० के उदय में, ४ सत्ता स्थान होते हैं ॥ और ३१ के उदय में—१२ का, ८८ का, ८६ का यह तीन सत्ता स्थान होते हैं, यहां ८१ की सत्ता नहीं होती है +। यों २८ के वन्ध में ८ उदय स्थान के मिल चार सत्ता स्थान के संबन्ध से १२ भाङ्गे पाते हैं. ॥ २१ के वन्ध में और ३० के वन्ध में अलग अलग:—२१ का २४ का, २५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का, यह ९ उदय स्थान होते हैं. और—१३ का, १२ का, ८१ का, ८८ का, ८६ का, ८० का, और ७८ का, यह ७ सत्ता स्थान होते हैं. । इस में पचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य प्रायोग्य. २१ का वन्ध करते पर्याप्त अपर्माप्ता ऐसे एकेन्द्रिय, विक्रेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय मनुष्य देवता और नर्क विग्रह गति में—२१ का उदय होता है उस में—१२ का, ८८ का, ८६ का, ८० का, और ७८ का यह ५ सत्ता स्थान होते हैं. परन्तु

+ क्योंकि ३१ का उदय तिर्यच के होता है और उस तिर्यचमें तीर्थकर नामकी सत्ता नहीं होती है. और ८१ की सत्ता तो तीर्थकर नाम सहित ही होती है. इसलिये ८१ छोड़कर बाकी के तीनों सत्ता स्थान पाते हैं.

इतना विशेष कि—वायुकाय विना दुसरे पर्याप्ता एकेन्द्रिय, विक्लेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय मनुष्य देवता और नार की इन के ७८ विना बाकी के ४ सत्ता स्थान पाते हैं. (इसका कारण प्रथमोक्त) ऐसे ही—२४ के, २५ के और २६ के उदय में भी येही पांच २ सत्ता स्थान जानना. इसमें जो २३ के बन्ध में उदय सत्ता सम्बन्ध के भागे कहेसो ही यहां भी जानना, परन्तु इतना विशेष कि—यहां २५ के उदय में मिथ्यात्वी देवता और नार की के २९ का बन्ध होता है. । और २७के उदय पर्याप्ता एकेन्द्रिय देवता, नारीकी, वैक्रिय तिर्यच मनुष्य मिथ्यात्वी की, विक्लेन्द्रिय के तिर्यच मनुष्य के प्रायोग्य २९ का बन्ध बान्धता हुवे—१२ का, ८८ का, ८६ का और ८० का यह चार सत्ता स्थान पाते हैं. । और २८ का २९ का उदय विक्लेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय, चनुष्य, वैक्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय, मनुष्य देवता, और नारकी २९ का बन्ध करते होता है. यहां भी वोही चारों सत्ता स्थानक पाते हैं. । और ३० का उदय—विक्लेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय, और मनुष्य के; तथा उद्योत के उदय में देवता के होता है, । और ३१ का उदय—विक्लेन्द्रिय और तिर्यच पचेन्द्रिय के उद्योतके उदयमें होता है वहां मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का बन्ध करते चार सत्ता स्थानक—एकेन्द्रिय विक्लेन्द्रिय और तिर्यच पचेन्द्रिय के होते हैं. । और तिर्यच गति मनुष्य गतिके प्रायोग्य २९ का बन्ध करते नको अपने २ उदय स्थान में—यथा योग्य पने वर्तते को भी ७८ का सत्ता स्थान होता है, क्योंकि—मनुष्य द्विक होते ७८ सत्ता नहीं होतीहै इसलिये वोही चारों सत्ता स्थानक पाते हैं. और देवता नारकी पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य प्रायोग्य २९ का बन्ध करते अपने अपने उदय में वर्तते—१२ का, और ८८ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं. वहां मिथ्यात्वी नर्क को तिर्यकर नाम कर्म होते मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का बन्ध अपने २ उदय में यथा योग्य पने वर्तते को एक ८९ का सत्ता स्थान होता है. क्योंकि—मिथ्यात्वी के आहारक चतुष्क जिन नाम होते भी नहीं पाता है. । विक्लेन्द्रिय और तिर्यच पचेन्द्रिय के येही चारों सत्ता स्थान कहना. जैसे २३ के बन्धमें कहे जैसे सर्व स्थान जानना. परन्तु इतना विशेष जो मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का बन्ध करे उसके ७८ विना चार सत्ता स्थान होते हैं. । तिर्यच गति प्रायोग्य २९ के बन्ध में पांचों सत्ता स्थान पाते हैं. । और देवगति प्रायोग्य २९ का, बन्ध करते अविरति सम्यक्त्व द्रष्टि के—२१ का, २६ का, २८ का, २९ का, और ३१ का, यह ५ तथा आहारक और वैक्रिय करते साधु के—२५ का, २७ का, २८

का, और ३० का यह ५ उदय स्थान होते हैं। और देश विरति मनुष्य के वैक्रिय करते उद्योत का उदय नहीं होवे इसलिये ३० के उदय विना अन्य चार उदय स्थान होते हैं। वहां देवगति प्रायोग्य तीर्थकर नाम सहित २९ का बन्ध करते—२३ का और ८९ का, यह दो सत्ता पांचों उदय स्थान महों ती है। और आहारक साधु के देवगति प्रायोग्य २९ का बन्ध करते एक २३ का, सत्ता स्थान होता है। यों सामान्य पने २९ के बन्ध में २३ के उदय कर सब २४ भां गे होते हैं। और ३० के बन्ध स्थान में—जैसे तिर्यच गति प्रायोग्य २९ का बन्ध बन्धते—एकेन्द्रिय, विक्रेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय, मनुष्य, देवता, और नारकी के जैसे उदय स्थानक कहै तैसे उद्योत सहित तिर्यच गति प्रायोग्य ३० के बन्ध में—एकेन्द्रिया दिक के भी उदय और सत्ता स्थान का सम्बन्ध कहना ॥ और मनुष्य गति प्रायोग्य तीर्थकर नाम सहित ३० प्रकृति का बन्ध करते देवता नारकी के जो विशेष होता है। सो कहते हैं:—देवता के २९ के उदय में प्रवृत्तते—२३ का और ८९ का दो सत्ता स्थान होते हैं। और नारकी को २९ के उदय में प्रवृत्तते—मनुष्य गति प्रायोग्य ३० प्रकृति का बन्ध करते—एक ८९ प्रकृति का सत्ता स्थान होता है। परन्तु नारकी के २३ की सत्ता नहीं होती है। ÷ । और २५ का, २७ का, २८ का, और २९ का इन चारों उदय स्थानों में भी देवता के ऊपरोक्त दो दो सत्ता स्थान होते हैं। जिस नारकी के ३० का उदय स्थान होता है उस नारकी के उद्योत का उदय नहीं होता है। यों सामान्य पने ३० के बन्ध में २९ के उदय में—२४ के उदय में ५ और २५ के उदय में ७, २६ के उदय ४, २७ के उदय ६, २८ के उदय ६, २९ के उदय ६, ३० के उदय ६, और ३१ के उदय ४, यों सब मिल ३० के बन्ध के

÷ क्योंकि—तीर्थकर नाम तथा आहारक चतुष्क इन दोनों की सत्ता नारकी के भेदी नहीं होती है।

× नाम कर्म की एकही यशः कीर्ति प्रकृति का बन्ध अपूर्व करण के सातवें भागसे लगाकर दशवें गुणस्थान तक होता है। यो अति विशुद्ध है। इसलिये आहारक और वैक्रिय करते नहीं इसलिये उनके दूसरे २५ आदिक उदय स्थान वैक्रियदिक की पर्याप्तिके योग्य नहीं होते है। फल १ ही ३७ प्रकृति का उदय स्थान होता है।

१ उदय के ५२ भांगे होते हैं. और ३१ के बन्ध में १ उदय स्थान और १ सत्ता स्थान होता है. क्योंकि—देवगति प्रायोग्य जिन नाम तथा आहार द्विक सहित २१ का बन्ध स्थान अप्रमत्त और अपूर्व करण गुणस्थान में होता है. वहां वैक्रिय और आहारक शरीर का कारण नहीं है. इसलिये इन विना—अन्य—२५ का, २६ का इसादि अल्प प्रकृति का उदय नहीं होता है. और औदारिक शरीर की तो सब पर्याप्ता कर पर्याप्ता है. इसलिये उनके ३० काही उदय होता है. वहां एकही ९३ का सत्ता स्थान पाता है. दूसरे सत्ता स्थान नहीं है. क्योंकि—३१ का बन्धतो आहारक चतुष्क जिन नाम सहित होता है. १ और एक यशः कीर्तिके बन्ध में भी एक ३० प्रकृति काही उदय स्थान होता है. और वहां ९३ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, ८० का ७९ का ७६ का, और ७५ का यह ८ सत्ता स्थान होते हैं. इसमें के—२३ का, २२ का ८९ का, और ८८ का, य ४ तो उपशम श्रेणिकी अपेक्षा से होते हैं. और क्षपक श्रेणि में भी जहां तक—निवृत्ति वादर के प्रथम भाग में जाकर—१ स्थावर २ सूक्ष्म, ४ तीर्थच द्विक, ६ नरक द्विक, १० जाति चतुष्क, ११ साधारण १२ आताप, और १३ उद्योत, इन १३ प्रकृतियों का क्षयकरे वहां तक अनेक जीवों की अपेक्षा से—८० का, ७९ का, ७६ का, और ७५ का, यह ४ स्थान स्वपक श्रेणि में होते हैं. इसके ऊपर वचन के अभाव से—२० का, २१ का, २६ का, का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, ९ का, और ८ का, यह १० उदय के स्थान और ९३ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, ८० का, ७९ का, ७६ का, ७५ का, ९ का, और ८ का, यह १० स्थान होते हैं. इसमें केवली के—आठ समय का, समुदघात करते बीच के—तीसरे चौथे और पांचवे समय पर्यन्त कार्माण जोग वर्तते—१ पचेन्द्रिय जाति, ४ त्रस त्रिक, ५ सुभग, ६ आदेय, ७ यशः कीर्ती, ८ मनुष्य गति, और १२ प्रकृति ध्रुवोदय की यों २० प्रकृति का उदय होता है. वहां—सत्ता स्थान ७९ का, तथा आहारक चतुष्क विना ७५ होता है. १ और तीर्थकर के समुदघात करते ऊपर-क्त बीचके तीनों समय में तीर्थकर नाम सहित २७ का, उदय स्थान होता है. और वो जिन नाम युक्त होने से—८० का, और ७६ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. और केवली समुदघात करते औदारिक मिश्र योग वर्तते—२ औदारिक द्विक, ३ वज्र वृषभ नारच संघयण, ४ छे संस्थान में का १ संस्थान, ५ उपघात, और ६ प्रत्येक यह ६ प्रकृति उपरोक्त २० में मिलाने से २६ का उदय स्थान होता है. सो—दूसरे छ

हे, और सातवे समय पर्यन्त ७१ का, और ७५ का, यह दो स्थान होते हैं। और तीर्थकर को इसी स्थान में जिन नाम सहित २७ के उदय में—८० का, और ७६ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं। ऊपरोक्त २६ में—१ पराघात, २ उश्वास, ३ दोनों में की १ खगति, यह ४ प्रकृति मिलाने से ३१ का, उदय औदारिक योग वर्तते केवलीके अथवा इग्यारवे गुणस्थान में भी होता है। यहां—२३ का, २२ का, ८९ का, ८८ का ८० का, ७९ का, ७६ का और ७५ का हय ८ सत्ता स्थानों में से पहले के ४ तो उपशम श्रेणि की अपेक्षा से और पीछेक ४ क्षीण कपाय के सयोगी केवली के, और तीर्थकर के होते हैं यहां आहारक चतुष्क की सत्ता सहित तीर्थकर के ८० का, और अतीर्थकर के ७९ का आहारक चतुष्क छोड़कर तीर्थकर के ७६ का और अतीर्थकर के ७६ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं और ३१ के उदय ८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान तीर्थकर केवलीके जानना क्योंकि—सामान्य केवली के तो २१ का उदय नहीं होता है। यन ३१ में से—तीर्थकर के वचन जोग निरुंधन होने से २९ का उदय होवे वहां ८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान होवें। और सामान्य केवली के औदारिक योग वर्तते ३७ का उदय और ७९ का, ७५ का, यह दो सत्ता स्थान। इन ३० में से वचन जोगका निरुंधन करने से सामान्य केवली के २९ का उदय होता है, वहां—७९ और ७५ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं। और तीर्थकर के वचन जोग का निरुंधन होने से ३० प्रकृति रहै, और ३० में से भी, श्वाशोश्वास का निरुंधन होनेसे २९ का उदय होता है। वहां—८० का और ७६ का यह दो सत्ता स्थान पाते हैं यों २९ के उदय में चार सत्ता स्थान पाते हैं। और सामान्य केवली के वचन जोगका निरुंधन होनेसे २९ का उदय रहै, और उस में से श्वाशोश्वास का उदय कमी कर ते २८ का उदय होता है उस में—७९ और ७५ का दो सत्ता स्थान पावे, और ९ के उदय में तीर्थकर के अयोगी गुणस्थान में ८० का, ७६ का और अन्तिय समय में ९ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं, और सामान्य केवली के ८ के उदय में—अयोगी केवली गुणस्थान के द्विचरम समय तक, ७९ का और ७५ का अथा अन्तिय समय ८ का यह ३ सत्ता स्थान पाते हैं ॥

यों नाम कर्म के सम्वेध के भाङ्गे ३० होते हैं।

चउद्ध गुणस्थान पर नाम कर्म के भांगे.

१. मिथ्यात्व गुणस्थान में—२३ का, २५ का, २६ का, २८ का, २९ का, ३१ यह ६ वन्ध स्थान होते हैं. सो कहते हैं:—(१) अपर्याप्ता एकन्द्रिय प्रायोग्य २३ का वन्ध करते—आहार सूक्ष्म प्रलेक और साधारण इन ४ पदसे ४ भाङ्गे होते हैं. (२) पर्याप्ता एकन्द्रिय प्रायोग्य २५ का वन्ध करते २१ भाङ्गे होते हैं. (३) पर्याप्ता एकन्द्रिय प्रायोग्य २६ का वन्ध करते १६ भाङ्गे, (४) देवगति प्रायोग्य ३६ का, वन्ध करते ८ भाङ्गे, नरक गति प्रायोग्य २८ का वन्ध करते १ भाङ्गा यों १ भाङ्गे २८ के वन्ध के होते हैं. | और पर्याप्ता वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय प्रायोग्य २९ का वन्ध करते. अलग २ आठ २ भाङ्गे होते हैं. पर्याप्ता तिर्यच पचेन्द्रिय प्रायोग्य २९ का वन्ध के ४६०८ भाङ्गे पर्याप्ता मनुष्य गति प्रायोग्य २९ का वन्ध करते ४६१८ भाङ्गे यों २९ के वन्ध के सब १२४० भाङ्गे होते हैं. × | और पर्याप्ता तीर्ण विद्धेन्द्रिय प्रायोग्य ३० का वन्ध करते अलग २ आठ २ भाङ्गे, तिर्यच पचेन्द्रिय प्रायोग्य ३० का वन्ध करते ४६१८ भाङ्गे, यों ३० के वन्ध के सब ४६३२ भाङ्गे होते हैं. और सब ६ ही वन्ध स्थान के मिलकर—१.३१२६ हुवे || मिथ्यात्व गुणस्थान में—२१ का, २४ का, २५ का, २६ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का और ३१ का, यों ९ उदय स्थान होते हैं. जिनके—सब $४१ + ११ \times ३२ \times ६०० + ३१ \times ११२९ + १७८१ + २९१ \times ११ \times ७४ = ७७७३$ भाङ्गे होते हैं. + || मिथ्यात्व गुण-

× यह तीर्थकार नाम सहित देवगति प्रायोग्य २९ प्रकृति के वन्ध के ८ भांगे, और आहारक द्विक सहित ३० के वन्ध का १ भांगा, तथा जिन नाम सहित मनुष्य गति प्रायोग्य ३० के वन्ध के ८ भांगे, यों सब १७ भांगे का अभाव है. क्योंकि-यह वन्ध सम्यक्त्री और साधु विन नहीं होता है.

+ पहिले सामान्य देश में-उदय स्थान के ११११ भांगे कहे, उस में से—केवली के ८, आहारक के ७, उद्यात सहित वैक्रिय मनुष्य के २१—३०—३१ यह ३, इनके उदय का एकैक भांगां, उद्यात सहित वैक्रिय साधु के तथा देवता के होता है. उस में देवता के उत्तर वैक्रिय के भांगे अलग २ नहीं गिने, और आहारक साधु छे सातवे गुणस्थान में होते हैं परन्तु मिथ्यात्व में नहीं होते हैं. इसलिये १८ उदय के भांहे छोडकर बाकी—७७७३ भांगे सब जायोंकी अपेक्षा पाते हैं.

स्थान में—६ सत्ता स्थान होते हैं—जिसमें से—१२ की सत्ता तो सबजीवों के होती है. और किसी वेदक सम्यक दृष्टि जीवने प्रथम नर्कायुका बन्ध किया हो वो आयुके अन्तमें सम्यक्त्व का वमन कर नर्क में जाता है. उसके अन्तर मुहुर्त पर्यन्त ८१ की सत्ता पाती है. फिर अन्तर मुहुर्त बाद वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है. * । ८८ का सत्ता स्थाना भी चारों गति के मिथ्यात्वी में पाता है. । ८६ का सत्ता स्थान—एकेन्द्रिय में देवगति प्रायोग्य तथा नर्कगति प्रायोग्य उबेलने से पाता है, ८० का सत्ता स्थान तो—१३ वे में से—१ तीर्थकर नाम, ५ आहारक चतुष्क, ११ वैक्रिय षट्क, १३ नरक द्विक, इन १३ प्रवृत्तियों को उबेलने से—एकेन्द्रिय में पाता है. फिर एकेन्द्रिय में भे निकाल विह्वेन्द्रिय तथा त्रिषेच पचेन्द्रिय मनुष्य में अवतर पर्याप्त भवे बाद भी अन्तर मुहुर्त तक उत्तम ८० का स्थान पाता है. अन्तर मुहुर्त वीते बाद अवश्य वैक्रियादि का बन्ध होता है. और उन ८० में से—मनुष्य गति और मनुष्यात् पृथ्वी उबेले बाद तेड वायु में ७८ की सत्ता पाती है, । और तेड वायु में से आकर विह्वेन्द्रिय होवे वहां ७८ की सत्ता अन्तर मुहुर्त पर्यन्त पाती है, वो पर्याप्त हुवे बाद अवश्य मनुष्य द्विक का, बन्ध करे तब ७८ की सत्ता नहीं पावे. । यों सामान्य प्रकार १२ सत्ता स्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में पाते हैं. ॥ अब इनका सम्बन्ध कहते हैं—मिथ्यात्वी के अपर्याप्ता एकेन्द्रिय प्राणेश्वर २३ का बन्ध करते सब ९ उदय स्थान का संभव होता है, परन्तु उसमें २५ के उदय में देवता के भाङ्गे ८, नर्क का भाङ्ग १, यों १, और २७ उदय देवता के ८, नर्कका १, और २८के उदय देवता के १६ नर्क का, १ इतनेही २१ के उदय में ३० के उदय देवता के ८, यों सब ६० भाङ्गे २३ के बन्ध में नहीं पाते हैं, क्योंकि—नर्क तो एकेन्द्रिय में जातेही नहीं है. अपर्याप्ता देवाना भी और एकेन्द्रिय में जाते नहीं है, इसलिये इनके ६० भाङ्गे छोड़कर बाकी के ७७१३ उदय के भाङ्गे २३ के बन्ध में पाते है. वहां १२ का ८८का, ८६ का, ८० का, और ७८ का, यह ५ सत्ता स्थान तो—२१ का, २४ का, और २६ का, यह ३ उदय स्थान प्रत्यय होते हैं. उसमें २५ के उदय में जो तेड वायु उद-

। सत्ता भाङ्गे है। तहां ७८ की सत्ता, परन्तु दूसरे भाङ्गे नहीं होते हैं। और दुसरे— २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का, इन ५ उदय में—७८ विना वा-
 गी के चार २ सत्ता स्थान होते हैं। यों सब २३ के वन्ध में ४० सत्ता स्थान होते हैं
 परन्तु इतना विशेष—जो पर्याप्ता एकेन्द्रिय प्रायोग्य २९ के वन्ध में अपने उदय में दे-
 ता के भी भाङ्गे पाते हैं, इसलिये ७७६८ भाङ्गे इन दोनों वन्ध स्थान में पाते हैं। फ-
 क नर्क के ५ उदय के भाङ्गे नहीं पाते हैं। और देवता जो एकेन्द्रिय प्रायोग्य २५ प्र-
 कृति का, वन्ध करे, क्योंकि—सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्ता में देवता उपजते नहीं
 हैं। और २८ के वन्ध में भी मिथ्यात्वी के ३० का और ३१ का यह दो उदय
 स्थान होते हैं, उसमें ३० का तो पचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य के होते हैं। और ३१
 का वन्ध पचेन्द्रिय तिर्यच के होते। ३० के उदय पचेन्द्रिय तिर्यच अथवा मनुष्य दे-
 वगति प्रायोग्य तथा नरक गति प्रायोग्य २८ का वन्ध होता है। बाकी विच्छेन्द्रिय के
 ३० भाङ्गे उदय के नहीं होते हैं। इन दोनों उदय के मिलकर ४०४८ भाङ्गे २८ के
 वन्ध में होते हैं। उसमें—३० के उदय में—१२ का, ८१ का, ८८ का, और ८६ का
 यह ४ सत्ता होती है। और ३१ के उदय ८१ की सत्ता नहीं होती है। तीर्थकर ना-
 म सहित ८१ की सत्ता होती है। सो तिर्यच में नहीं पाती है। इसलिये ३ ही सत्ता
 होती है। और ३० उदय में भी जो वेदक सम्यक्त्व का वमन कर जिन नाम सहित
 मिथ्यात्व में गया उसके नर्क प्रायोग्य २८ का वन्ध करते भी ८१ की सत्ता होती है
 यों २८ के वन्ध में ७ सत्ता स्थान होते हैं। देवगति प्रायोग्य विना दूसरी मनुष्य
 तिर्यच गति प्रायोग्य २९ के वन्ध में २० का, ९ का, और ८ का, इन ३ उदय वि-
 ना सब उदय स्थान पाते हैं। और १२ का, ८१ का, ८६ का, ८० का, और ७८
 का, यह ६ सत्ता स्थान होते हैं। यहां २१ के उदय ६ सत्ता स्थान होते हैं। सो कह-
 ते हैं। जिन नाम का वन्ध कर फिर सम्यक्त्व का वमन कर जो नर्क में जावे उसके
 बीचमें २१ का उदय होता है। तहां ८१ की सत्ता होती है। और १२ का तथा ८८
 का, यह दोनों सत्ता स्थान चारों गति के जीवों के विग्रह गति में २१ के उदय में
 होते हैं। और ८६ तथा ८० यह दोनों सत्ता देवता नर्क विना दूसरे जीवों के होती
 हैं। और ७८ की सत्ता देव नर्क और मनुष्य विना दूसरे जीवों के होती है, यों २१
 के उदय में ६ सत्ता स्थान पाते हैं। और २४ के उदय में एक ८१ विना बाकीके
 ५ सत्ता स्थान एकेन्द्रिय के होते हैं। दूसरे जीवों के यह उदय नहीं हैं। और २५ के

उदय में ६ सत्ता होते हैं. २६ के उदय में ८२ की सत्ता विना वाकी के ५ सत्ता स्थान होते हैं. क्योंकि—८२ की नारकी के होती है. उनके २६ का उदय स्थान देही नहीं. और २७ के उदय ७८ विना ५ सत्ता स्थान होते हैं, सो २१ के उदय की तरह कहना. क्योंकि—तेउ वायु में २७ का उदय नहीं है. वाकी के एकेन्द्रिय दिक् के भी पर्याप्ता अवस्था में यह उदय होता है. वो मनुष्य द्विक, का बन्ध अवस्यक रता है. इसलिये ७८ की सत्ता वहां उदय में नहीं होती है. और २८ के उदय में ५ सत्ता स्थान होते हैं. उसमें ८६ की सत्ता त्रिकेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय मनुष्य की अपेक्षा से लेना- और दूसरे तरह स्थान पहिले की तरह ही कहना. और २९ के उदय में भी यही ५ सत्ता पहिले के तरह ही कहना. । और ३० के उदयमें ८२ विना वाकीके बोही चार सत्ता त्रिकेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य की अपेक्षासे होती हैं. ८२ की सत्ता तो जिन नाम का बन्ध कर सम्यक्त्व का बन्ध कर नर्कमेंजा वे ऐमे मिथ्यात्वी नारकी के होती है. वहां ३० का उदय स्थान नहीं होता है. और बोही ४ सत्ता स्थान ३१ के उदय में भी मनुष्य विना ३१ के उदय में भी मनुष्य विना दूसरे जीवों के होती है. क्योंकि—३१ का उदय सामान्य मनुष्य के नहीं है. केवली के होता है. यों सब २९ के बंध में ४९ सत्ता स्थान होते हैं. ॥ देवगति प्रायोग्य ३० के बन्ध विना त्रिकेन्द्रिय तथा पचेन्द्रिय प्रायोग्य ३० के बन्ध में सामान्य से—२० का, ८ का, और ९ का, यह ३ उदय स्थान विना वाकी के—२ उदय गुणस्थान होवे, वह ८२ विना ५ सत्ता स्थान होवे, क्योंकि—तिर्यच गति में जितना म की सत्ता नहीं पाती है. तहां २१ का, २४ का, २५ का, और २६ का, इन चारों उदय में पांच २ सत्ता स्थान होते हैं. और दूसरे पांच उदय में ७८ विना चार २ सत्ता स्थान होते हैं. यों १ उदय के मिल ४० सत्ता स्थान होते हैं. यहां ८२ का सत्ता स्थान तो देवगति प्रायोग्य, अहारक द्विक सहित ३० के बंध में और जिन नाम नहित मनुष्य प्रायोग्य ३० के बंध में होता है. यह दोनों मिथ्यात्वी बांध ते नहीं हैं, इसलिये मिथ्यात्व गुणस्थान में ६ बंध स्थान के नव उदय स्थान मिलकर २१२ सत्ता स्थान होते हैं.

२. मास्वदन गुणस्थान में—२८ का, २९ का और ३० का यह ३ बंधस्थान होते हैं सो कहते हैं;—देवगति प्रायोग्य २८ के ८ भाङ्गे मास्वदन में बंधते हैं. उस के संयोग साठे पचेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय मनुष्य के होते हैं.

तो मिथ्यात्व प्रत्ययि है इसलिये सास्वादन में नहीं है. तिर्यच पंचेन्द्रिय प्रायोग्य और मनुष्य प्रायोग्य २१ प्रकृति बंध के भाङ्गे ६४०० का बंध—एकेंद्रिय, विह्वेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय मनुष्य देवता नारकीको इनो के सास्वादन गुणस्थान में होता है. यहां—हुं डक संस्थान और छेवटा संघयण का बंध नहीं होनेसे पांच संघयण और पांच संस्थान तथा सात युगलों के विकल्पों कर ३२०१ भाङ्गे प्रत्येक मनुष्य तिर्यचच गति प्रायोग्य २१ के बंध में होते हैं. दोनोंके ६४०० भाङ्गे होते हैं. और पहिला कहा जो एकेंद्रियान्दिक के सास्वादन में उद्योत सहित ३१ का बंध तिर्यच पंचेन्द्रिय प्रायोग्यही करते हैं वहां भी ३२०० भाङ्गे होते हैं. इन का विस्तार सहित परणन पाहिले ही कर्मदिया है, सो जानता. यों सब बंध के भाङ्गे १६०८ होते हैं. ॥ सास्वादन गुणस्थान में २१ का, २४ का, २५ का, २६ का, २९ का, ३० का, और ३१ का, यह ७ उदय स्थान होते हैं. तहां नर्क विला तीनों गति के जीवोंकी अवेक्षाम-२१का उदय दो गति की के बीच में रस्त चलते जीवोंके होता है. वहां उदय के भाङ्गे ३२ होते हैं, यद्यपि-२१ के उदय में सब ४२ भाङ्गे कहे थे, परंतु उस में १ अपर्याप्ता के, एक सूक्ष्म पर्याप्ता का, एक नरक का, और १ केवली का यों १० भाङ्गे इस गुणस्थान में नहीं पाते हैं. ॥ और २४ का उदय तो एकेंद्रिय के उत्पन्न होते ही होता है. यहां भी वादर पर्याप्ता अपर्याप्ता के यशः अयशः के विकल्प में दो भाङ्गे सास्वादन गुणस्थान में पाते हैं. वाकी के सूक्ष्म साधारण के भाङ्गे नहीं पाते हैं. और वाक्रीय वाला भाङ्गा तो वायु काय केही होता है. सो भी सास्वादन में नहीं पाता है. ॥ और २५ का उदय तो देवगति में उत्पन्न होनेही होता है. तथा क्रिभी के नहीं भी होता है. वहां देवता के ८ भाङ्गः—सुभग दुभग, आदेय अनादेय, यशः अयशः से उपजते हैं. ॥ और २६ का उदय विह्वेन्द्रिय तिर्यच पंचेन्द्रिय मनुष्य में उत्पन्न हो लेही पाता है. वहां अपर्याप्ता का एकैक भाङ्गा छोडकर विह्वेन्द्रिय पर्याप्ता के ६ पंचेन्द्रिय तिर्यच के २८७, मनुष्यके भी २८८, यों ५८२ भाङ्गे २६ के उदय में पाते हैं. ॥ और २७-२८ का, उदय तो सास्वादन में होता ही नहीं है. क्योंकि—यह दोनों स्थान उत्पन्न हुवे. से—अन्तर मुहूर्त वाद पाते हैं. और सास्वादन तो ६ आवलिकता मा टेरी मात्रही होता है. इसलिये यह भी पावे. और २९ का उदय देवता नारकी के पर्याप्ता अवस्था में प्रथम प्राप्त सम्यक्त्व से पडते हुवे होता है, वहां देवता के ८, और नर्क का १, यों ९ भांगे पाते हैं. ॥ और ३० का उदय तिर्यच पंचेन्द्रिय मनुष्य के

सर्व स्थान पर्याप्ति पूरी किये वाद औपशाभिक सम्यक्त्व से पडते हुवे होता है. तथा उत्तर वैक्रिय करते हुवे देवता के उद्योत के वक्त में होता हैं. वहां मनुष्य और तिर्य च के अलग अलग ११५२ भाङ्गे होते हैं, और देवता के ८ भाङ्गे होते हैं, यों सर्व मिल २३१२ भांगे उदय के होते है, । और ३१ का, उदय पचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्ति के प्रथम सम्यक्त्व का वमन करते पाता है, वहां भाङ्गे ११५२ होते है. यों सब ७ उदय के ४०९७ भांगे सास्वादन गुणस्थान में पाते हैं. सास्वादन में ९२ का और ९८ यह दो सत्ता स्थान होते है. और ८८ की सत्ता तो चारों गति के सास्वदनीके पाती है. ॥ अब सम्बन्ध कहते हैं:—२८ के बन्ध में सास्वादन में ३१ का और ३१ का, यह दो उदय स्थान होते हैं. क्योंकि—देवगति प्रायोग्य २८ प्रकृति का, वं अपर्याप्ता के होता है, इसलिये दूसरे उदय स्थानक इसके नहीं होते है. वहां मनुष्य व बन्धक की अपेक्षा से ३० का उदय और ९२ की ८८ की सत्ता स्थान होते हैं. और तिर्यच के उपशम श्रेणि होती नहीं हैं. इसलिये उपशम श्रेणि के पडने के अभाव से—९२ की सत्ता नहीं पाती है. फक्त ८८ की सत्ता ही पाती है. और तिर्यच मनुष्य के प्रायोग्य २९ का बन्ध करते सास्वादनी के ७ उदय स्थान होते हैं. वहां अपने २ उदय स्थानों में एकेक ८८ का सत्ता स्थान पाता है. और मनुष्य के ३० के उदय में वर्तते—२२ का और ८८ का, यह दो सत्ता स्थान पाते हैं. बाकी के सब के फक्त ८८ का ही सत्ता स्थान पाता है. ऐसे ही ३० के बन्ध का भी सम्बन्ध कहना. यों सब मिलकर सास्वादन गुणस्थान में १८ सत्ता स्थान पाते हैं.

३ मिश्र गुणस्थान में—२८ का और २९ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं. वहां मिश्र दृष्टि तिर्यच मनुष्य के देवगति प्रायोग्य २८ का बन्ध होता है. वहां भाङ्गे ८ पाते हैं और मनुष्य प्रायोग्य २९ का बन्ध मिथ्यात्व दृष्टि देवता नर्क के होवे वहां स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशः अयशः के विकल्प से भाङ्गे ८ होते हैं. दूसरे जो छे स्थान कादि के विकल्प से भाङ्गे उत्पन्न होवे. वो यहां नहीं पाते हैं. (यों आगे के गुणस्थान में भी जानना) सब बन्ध के भाङ्गे १६ होते हैं. ॥ मिश्र गुणस्थान में २९ का, ३० का, और ३१ का यह ३ उदय स्थान पाते हैं. तहां २९ के में देवता के भाङ्गे ८, और नर्क का भांग १, यों १ भाङ्गे पाते हैं. और ३० के उदय-तिर्यच पचेन्द्रिय के १७२८ और मनुष्य के ११५२ यों सब २८८० भाङ्गे ३० के उदय में होते हैं । और ३१ के उदय पचेन्द्रिय तिर्यच के होता है वहां ११५१ भाङ्गे पाते हैं.

यह दोनों उदय नर्क तिर्यच और देव कि होते हैं ३१ का उदय नर्क बिना तीनों गति में होता है और ३१ का उदय पंचेन्द्रिय तिर्यचके होता है। यहां सर्व-स्थान अपने अपने उदयके भाग ग्रहण करना ॥ चैथे अविगति सम्यक दृष्टि गुणस्थानमें चार सत्ता स्थान होते हैं: अमृत और अपूर्व करण गुणस्थान में आहारक द्रिक और जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३१ का वन्द्य कर पड़ता हुआ मरकर देवता होवे, उस अपेक्षा से ३३ की सत्ता जानना और आहारक चतुष्क का वन्द्य कर फिर परिणामों प्रवर्ति से भिद्ययात्की चारों गति में से किनी गति में उत्पन्न होकर फिर सम्यक्त्व प्राप्त करे, उसके ३२की सत्ता पाती है। यह सत्ता देवता और मनुष्य के भिद्ययात्त्व में गये बिना भी पाती है, इसलिये यहां ग्रहण करी है। और ८२ की सत्ता तो-देवता नारकी और मनुष्य अविगति सम्यक दृष्टि के जिन नामका वन्द्य है इसलिये पाती है। और ८८ की सत्ता चारों गति के सम्यक दृष्टि जियों के पाती है ॥ अब सत्ता का सम्बन्ध कहते हैं:— अविगति सम्यक दृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य देव प्रायोग्य २८ के वन्द्य में ८ उदय स्थान होते हैं। वहां २२ का और २७ का उदय वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के होता है, दुसरे ६ स्थान सामान्य से पाते हैं। उन एकेक उदय में-३२ का और ८८ का यह सत्ता स्थानक पाते हैं। यों आठों उदय के १६ सत्ता स्थान होते हैं। और २२ का वन्द्य एक देवगति प्रायोग्य, दुसरा मनुष्य गति प्रायोग्य होता है, वहां देवगति प्रायोग्य, जिन नाम सहित २१ का वन्द्य मनुष्यके होता है, परन्तु तिर्यचके नहीं होता है, उनके ३१ का उदय बिना मान ही उदय स्थान होते हैं, क्योंकि-मनुष्य के ३१ का उदय नहीं है, उन एकेक उदय में १३ और ८२ यह दो दो सत्ता स्थान होते हैं, और मनुष्य गति प्रायोग्य २१ का वन्द्य देवता नर्क के होता है वहां-२१ का, २७ का, २७ का, २८ का, २९ का, यह ५ उदय स्थान होते हैं, एकेक उदय में-३२ का और ८८ का, यह दो दो सत्ता स्थान होते हैं, और मनुष्य गति प्रायोग्य जिन नाम सहित ३१ का वन्द्य भी देवता नारकी के होता है वहां-२१ का, २७ का, २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का, यह ६ उदय स्थान होते हैं, उन में अलग अलग १३ का और ८२ का यह दो सत्ता स्थान होते हैं, क्योंकि-नर्क में जिन नामकी सत्ता होते आहारक की सत्ता नहीं होती है, इसलिये १३ की सत्ता होती है, और ३१ के उदय में दो सत्ता होती है, यों सब मिल २४ सत्ता स्थान होते हैं।

१ पांचका देव विगति गुणस्थान में-२८ का और २१ का यह दो वन्द्य स्थान

न होते हैं. वहां मनुष्य तिर्यच देश विरति देवगति प्रायोग्य २८ का वन्ध करे उसके ८ भाङ्गे, और येही जिन नाम सहित २९ का वन्ध मनुष्य देश विरति करे (परन्तु तिर्यच के नही होवे) जिसके ८ भाङ्गे, सब १६ भाङ्गे, १ देश विरति गुणस्थान में सामान्य—२९ का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, और ३१ का, यह ६ उदय स्थान होते हैं, वहां २८ के वन्ध में पहिले के उदय तो वैक्रिय तिर्यच मनुष्य के होवे. इनका एकेक भाङ्गा करने से चार भाङ्गे होवे, और २८ का, २९ का, यह दो नों उदय सामान्य तिर्यच मनुष्य के होवे, तथा वैक्रिय के भी होवे, वहां उदय के भाङ्गे ६ होते हैं. और ३० का उदय तिर्यच मनुष्य के होवे, वहां ६ संघयण ६, संस्था के विकल्प से ३६ भाङ्गे होवे. इने सुस्वर दुस्वर से दुगुने करने से ७२ होवे. इने शुभा शुभ गति से दुगुने करने से १४४ होवे, इनमें अलग २ एकेकका, उदय होता है. यहां दौर्भाग्य अनादय और अयशः कीर्तिका उदय यहां गुण प्रत्यय करके नही होता है, और वैक्रिय तिर्यच के उदय में भाङ्गा—१, यों सब मिल २८९ भाङ्गे होते हैं. १ और ३१ का, उदय तिर्यच के होता है, वहां भाङ्गे १४४ होते हैं. और सब मिल ४४३ भाङ्गे २८ के वन्ध में पाते हैं. ॥ और २९ के वन्ध में मनुष्य के—२९ का २७ का, २८ का, २९ का, और ३० का, यह ५ उदय स्थान होते हैं, इसमें पहिले के चार उदय स्थान तो वैक्रिय के हैं, उसका भाङ्गा एकेक. और ३० के उदय में भाङ्गे १४४, यों मिलकर १४८ भाङ्गे होते हैं. और सब उदय स्थानके ५९१ भाङ्गे होते. ॥ देश विरति गुणस्थान में ९३ का, ९२ का, ८९ का, और ८८ का, यह ४सत्ता स्थान होते हैं. इसमेंसे जो अप्रमत अपूर्व करण वाले-तीर्थकर नाम तथा आहारक का वन्धन कर पडते हैं. उन परिणामों से देश विरति होवे उनके ९३ की सत्ता होती है. और बाकी की सब चौथे अविरति गुणस्थान की तरह कहना. ॥ अब सम्वेध कहते है:—देश विरति मनुष्य के २८ के वन्ध में—२९ का, २७ का २८ का २९ का, और ३० का, यह ५ उदय स्थान होते हैं. तहां अलग अलग ९२ का, और ८८ का, यह दो दो सत्ता स्थान होवे. तैसे तिर्यच के भी—३१ सहित ६ उदय में दो दो सत्तास्थान होवे, और २९ का वन्ध देश विरति मनुष्य केही होता है. वहां २९ और ३० वाले उदय स्थान पहिले कहे सोही पांचों उदय स्थान कहना. और वहां ९३ का, तथा ८९ का, यह दोनों सत्ता स्थान होते हैं. देश विरति में सब मिल २२ सत्ता स्थान होते हैं.

दोनों उदय में अलग अलग २८ की सत्ता होती है. और २९ के वन्य के दोनों उदय में अलग अलग ९२ की सत्ता होती है. और ३१ के वन्य में दोनों उदय में अलग अलग ९३ की सत्ता होती है. = यों सब < सत्ता पाती है.

८ अपूर्व करण गुणस्थान में—२८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, और १ का, यह पांच वन्य स्थान होते हैं. इसमें के चारों तो अप्रमत्त की तरह ही कहना. और १ यशः कीर्ति का वन्य सो सातवे भाग में देवगति प्रायोग्य वन्य कर विच्छेद करत हैं, वहां अलग २ एकेक भाङ्ग होता है. सब मिल वन्य के ९ भाङ्ग होते हैं. इन प्रत्येक वन्य स्थानों में ३१ काही उदय स्थान होता है. यहां ६ संवयण से ६ संस्थान के विकल्प कर ६ भांगे होते हैं. इने शुभा शुभ खगति से गिनने से—१२ भांगे होते हैं. इने सुस्वर दुस्वर से गिनने से २४ भांगे होते हैं. + सब पांचों उदय में ३६० भांगे होते हैं. इसमें पहिले के चारों वन्य स्थान में ३० के उदय में अनुक्रम से ८८ का, ८९ का, ९२ का, और ९३ का, यह एकेक सत्ता स्थान होता है. और १ के वन्य में ३० के उदय में यह चारों सत्ता स्थान पाते हैं. सब < स्थान. १-१० अ निवृत्ति वादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में—१ यशः कीर्ति का वन्य और ३० का, उदय इसमें क्षपक के भाङ्ग २४ और औसशमिक के तीनों संवयणों के विकल्प में ७२ भांगे उदय के होते हैं. और ९३ का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, यह चार सत्ता स्थान पाते हैं.

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में—वन्य के अभाव से ३० का १ ही उदय स्थान होता है. यहां भांगे ७२ होते हैं. और ९३ का ९२ की, ८९ का, और ८८ का, यह चार सत्ता स्थान पाते हैं.

१२ क्षीणमोह गुणस्थान में—एक ३० प्रकृति का उदय स्थान होता है, यहां भी तीर्थकर नाम सहित के स्थानादिक सब प्रशस्त होते हैं. इसलिये ८० का, सत्ता

+ यहां तीर्थकर नाम तथा आहारक निश्चय से बान्धते है उनके पङ्के का ही सत्ता होती है.

+ कितनेक आचार्य पहिलेके ८ संवयण में उपशम श्रंणि का अभाव मानते हैं उनके मतसे उदय के ७२ भांगे होते हैं.

उंच का उदय और दोनों की सत्ता, यह भांगा दशवे गुणस्थान तक पाता है. ६ उंच गोत्र का उदय और उंच नीच दोनों की सत्ता, यह भांगा इग्यारवे गुणस्थानसे लगा चउदवे गुणस्थान के द्विचरम समय पर्यन्त पाता है. ७ उंच गात्र का, उदय, और उंच की ही सत्ता यह भांगा अयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय पर्यन्त पाता है. यह ७ भांगे गौत्र कर्म होते हैं.

अन्तराय कर्म के भांगे.

अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृति ध्रुव बंध की है अर्थात्—एक ही साथ पांचों का ही बन्ध होता है, और उदय भी ध्रुव होता है, और सत्ता भी ध्रुव ही पाती है इसलिये—१ अन्तराय कर्म की पांचों प्रकृति का बन्ध, पांचों का उदय, और पांचों की सत्ता, यह एक ही भांगा होता है, सो दशवे गुणस्थान पर्यंत पाता है, और आगे बंध के अभाव से—२ पांचों प्रकृति का उदय और पांचों की सत्ता यह दुसरा भांगा इग्यारवे वारवे गुणस्थान तक पाता है.

बन्धिके भागों का खुलासा.

१ बंधि बंधन्ति बंधेति सो—गत कालमें कर्म बंधे, वर्तमानमें कर्म बंधता है. और आगते काल में बन्धन करेगा सर्व संसारी जीवों, २ बन्धि, बन्धन्ति नबन्धति, सो गत काल में बंधे वर्तमान, में बंधता है, भविष्य में नहीं बंधेगा—चरम शरीरी. ३ बंधि, नबन्ध, बन्धन्ति, गत काल में बंधे, वर्तमान में नहीं बंधे, आगे को बंधेगा. स्वर्ग प्राप्त होने वाले मुनि. और ४ बंधि, नबन्धति, नबन्धति, अतित काल में बंध किया, प्रत्युप-क्ष में बंध नहीं करते हैं. और अनागत में भी बन्ध नहीं करेंगे. सो केवल ज्ञानी.

इर्यावही के भांगे का खुलासा.

१ बंधि, बंधति, बंधेति सो—गत कालमें उपशम श्रेणि कर इग्यारवा गुणस्थान स्पर्श्य इर्यावही का बन्ध कर पडवाइ हुये, और वर्तमान काल में (दुसरे वक्त] फिर उपशम श्रेणी चड इग्यारवे गुणस्थान जा इर्यावहीका बन्ध कर रह हैं. वो फिर वहां से फिर पडेंगे, और फिर तीसरी वक्त उपशम श्रेणी से या क्षपक श्रेणी से चड कर इर्यावही का बन्ध करेंगे. २ बंधि, बंधति, नबन्धति, सो—गत काल में उपशम श्रेणी चड

सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करसके-संसारही बना रहै सो असिद्धत्व. (३) अविरत-अप्रत्याख्यानारवणीय कषायोदय कर जी वृत्त प्रत्याख्यान नहीं कर सके-सो (अविरति. (४-१) छेलेश्या जिन अध्यवसायों कर आत्मा लेपाय सो-कृष्ण-नील-कापुत-तेजो-पशु-और शुक्र-यह छे प्रकार की लेश्या हैं. × (१०-१३] चार कषाय-मोह कर्मोदय कर जिस प्रणतिसे संसारका कस-रस आवे सो-क्रोध-मान-माया और लोभ यह चार कषाय. (१४-१७) चारगति-जो नाम कर्मोदय कर जीवों गमनागमन करे ऐसी-नर्क-तिर्यव-मनुष्य और देव चारों गति. (१८-२०) जो मोह कर्मोदय से विषयाभिलाषा रूप विकार को वेदे सो-स्त्री पुरुष नपुंसक-यह तीन वेद हैं. और २१ मिथ्यात्व मोह भी मोह कर्म के उदय से होता है.

२ ओप शमिक भाव के दो भेदः—(१) ओपशम सम्यक्त्व सो अनंतान वंधि चौक और तीन दर्शन मोहनीय इन सातों प्रकृति यों-रसोदय और प्रदेशोदय को प्राप्त न होवे सो उपशम भाव, और उस से जो प्रगट हुइ तत्वों की रुचि सो उपशम सम्यक्त्व, और. (२) जो वाकी रही २१ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उपशम होनेसे जो स्थिरता रूप चारित्र होवे सो ओपशमिक चारित्र

१ क्षयोपशमिक भाव के १८ भेदः—४ चार ज्ञान (केवल विना) ७ तीन अज्ञान. १२ तीन दर्शन (केवल दर्शन विना) १५ पांच क्षयोपशम लब्धि छद्मस्तकी. १६ क्षयोपशम सम्यक्त्व, १७ क्षयोपशम चारित्र, और १८ संयमासंयम. (इन का खुलासा इस में माति ज्ञानावरणीय, श्रुति ज्ञानावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावर

हीं समझ ले-कु आचार और कुशील समझा जाता है. तैसे ही यहां अज्ञानका अर्थ कु ज्ञान जानना सो अनादि और स्वभाविक होनेसे-औदयिक भाव में गृहण किया है.

× (१) जो आचार्य अष्ट कर्मोदय से लेश्याको मान ते है. उनके मतसे 'लेश्या' औदयिक भाव में हैं.

(२) जो कषायोदय से लेश्या माने उनके मत से मोहका औदयिक भाव में लेश्या और जो.

(३) योगों की प्रकृति से लेश्या माने उन के मत से नाम कर्मी औदयिक भाव. यों तीन मत हैं.

सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करसके-तंतारीही बना रहै सो असिद्धत्व.(३) अविरत-अप्रत्याख्यानाखणीय कपायोदय कर जी वृत प्रत्याख्यान नहीं कर सके-सो (अविरति. (४-२) छेलेइया जिन अध्यवसायों कर आत्मा लेपाय सो-कृष्ण-नील-कापुत-तेजो-पशु-और शुक्र-यह छे प्रकार की लेइया हैं. x (१०-१३] चार कपाय-मोह कर्मोदय कर जिस प्रणतिसे संसारका कस-रस आवे सो-क्रोध-मान-माया और लोभ यह चार कपाय. (१४-१७) चारगति-जो नाम कर्मोदय कर जीवों गमनागमन करे ऐसी-नर्क-तिर्यच-मनुष्य और देव चारों गति. (१८-२०) जो मोह कर्मोदय से विषयाभिलाषा रूप विकार को वेदे सो-स्त्री पुरुष नपुंसक-यह तीन वेद हैं. और २१ मिथ्यात्व मोह भी मोह कर्म के उदय से होता है.

२ ओप शमिक भाव के दो भेदः—(१) ओपशम सम्यक्त्व सो अनंतान वंधि चौक और तीन दर्शन मोहनीय इन सातों प्रकृति यों-रसोदय और प्रदेशोदय को प्राप्त न होवे सो उपशम भाव, और उस से जो प्रगट हुइ तत्वों की रुचि सो उपशम सम्यक्त्व, और. (२) जो वाकी रही २१ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों उपशम होनेसे जो स्थिरता रूप चारित्र होवे सो ओपशमिक चारित्र

१ क्षयोपशमिक भाव के १८ भेदः—४ चार ज्ञान (केवल विना) ७ तीन अज्ञान. १० तीन दर्शन (केवल दर्शन विना) १५ पांच क्षयोपशम लब्धि छद्मस्तकी. १६ क्षयोपशम सम्यक्त्व, १७ क्षयोपशम चारित्र, और १८ संयमासंयम. (इन का खुलासा इस में माति ज्ञानावरणिय, श्रुति ज्ञानावरणिय, चक्षु दर्शनावरणिय, अचक्षु दर्शनावर

हीं समझ ले-कु आचार और कुशील समझा जाता है. तैसे ही यहां अज्ञानका अर्थ कु ज्ञान जानना सो अनादि और स्वभाविक होनेसे-औदयिक भाव में गृहण किया है.

x (१) जो आचार्य अष्ट कर्मोदय से लेइयाको मान ते है. उनके मतसे 'लेइया' औदयिक भाव में हैं.

(२) जो कपायोदय से लेइया माने उनके मत से मोहका औदयिक भाव में लेइया और जो.

(३) योगों की प्रकृति से लेइया माने उन के मत से नाम कर्मी औदयिक भाव. यों तीन मत हैं.

५ परिणाधिक भाव के ३ भेदः—(१) मुक्ति जाने जोग जीव का स्वभाव सो भव्य पना. (२) मुक्ति कदापि नहोवे ऐसा जीव का स्वभाव सो अभव्य पना. और (३) द्रव्य तथा भाव प्राणों का स्वभाव सेही धारण करने वाला सो जीव पना. यह तीनों स्वभाव अनादि अनन्त उत्पन्न और नाश रहित सो परिणाधिक भाव जानना. यों-पांचों भावों के-सब मिल ५३ भेद होते हैं. =

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मों में एक ओपशमिक भाव बिना चारों भाव पाते हैं. वेदनीय, आयुष्य नाम और गौत्र इन कर्मों में-१ ओदयिक, रक्षायिक और ३परिणाधिक यह तीन भाव पाते हैं. और मोहनीय कर्ममें फक्त एक ओपशमिक भाव पाता है.

पांचों भावों के विशेष भेद सूत्र से.

१ ओदयिक भाव-जैसे धतुरा का भक्षण करने से श्वेत रङ्ग की वस्तु पीले रङ्ग मय देखाती है. तैसेही जीवतो शुद्ध सिद्ध समान है, परन्तु अष्ट कर्म रूप धतुरे के नश के उदय कर जीव कर्म स्वभाव में परिण में सो ओदयिक भव. और जैसे सुवर्ण नामक धातुतो एकही है. परन्तु मूर्धन कार सञ्जके संयोग से मुकट कुंडल हारादि अनेक रूप में परिणमात्र तैसे ओदयिक भाव के स्वभाव से आत्मा अनेक रूप में परिण में जैसे-अहंस्त्री, अहंपुरुष, अहंकृष्ण, अहं शुक्ल, अहंस्युलं, अहंकस्य. इत्यादि. इस उदय भावके दो भेदः-१.जिमसे आठो कर्मोंका उदय होवेसो उदय और२उदय निष्यन्न इसके दो भेदः-१. जीव उदय निष्यन्न और२ अजीव उदय निष्यन्न. इसमें जीव उद

=धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकास्तिकाय काल द्रव्य, और पुद्गलास्ति काय. यह पांचों द्रव्य अनादि परिणामी भाव में परिणमते हैं. अपने स्वभाव में ही रम रहे हैं. कदापि पर स्वभाव में रमण नहीं करने से-अनादि परिणामी भाव में गिने जाते हैं. इस में पुद्गल दृणकादि स्कन्ध है सो-सादिक भाव पणे परिणामता है. ऐसेही अनंत प्रदेशी स्कन्ध जाणना. सो ओदयिक भाव में भी गिने जाते हैं. क्योंकि-कर्म पुद्गल के स्कन्ध जीव के सम्बन्ध से पुद्गल विपाक की कर्म प्रकृति के औदारिक नो कर्म के विषे वर्णादिक होते हैं. इसलिये अनन्त प्रदेशी स्कन्ध कर्म वर्णगादि पुद्गल सों सब ओदयिक भाव में होते हैं. यह अजीव आश्रिय भाव के भेद कहे.

७ भोगान्तराय के क्षयसे अनन्त भोग लब्धि प्रगटी, ८ उप भोगान्तराय के क्षयसे अनन्त उपभोगा लब्धि प्रगटी, और ९ वीर्यान्तराय के क्षयसे अनन्त बलवीर्य लब्धि प्रगटी. +

४ क्षयोपशमिक भाव—जैसे बद्दलोंकी गहरी घटासे अच्छादित हुआ सूर्य का तेज, वायु के प्रयोग्य से ज्यों ज्यों बद्दल पतले पडते जाते हैं. त्यों त्यों तेज—प्रकाश अधिक बढ़ता जाता है ? तैसेही कर्म रूप बद्दलों से अच्छादित हुई आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप तेज के मन्दता में स्थित, शुभ परिणाम रूप वायु के प्रयोग्य से—उदयावसी रस के क्षयसे, अप्रविष्ट रसके अनुदय रूप उपशम से और कितनेक स्पर्द्धक के उदय से उदयानुविधि क्षयोपशम होता है. सो फक्त चारों घातिये कर्मों काही होता है. अघातिये का नहीं. इसलिये जो घातिये कर्म उदयमें आयेये उनको तो क्षयकिये. बाकी के कर्म सत्ता में रहै वोभी पतले पडगये, ऐसी मिश्रता होनेसे इसे मिश्र भाव तथा क्षयोपशम भाव कहते हैं, इसके दो भेदः—१. ऊपरोक्त विधिसे चारों घन घातिक कर्मों क्षयोपशम करे सो—क्षयोपशम और क्षयोपशम निष्पन्न कर्मों का क्षयोपशम होने से ३२ गुण प्रगटेः—प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से ८ गुणों की प्राप्तिहोवेः—१ मतिज्ञान, २ श्रुतिज्ञान, ३ अवधि ज्ञान, ४ मनःपर्यव ज्ञान, ५ मतिअज्ञान, ६ क्षुतिअज्ञान, ७ विभङ्ग ज्ञान, और ८ आचाराङ्गादि सूत्रका जान पना. । दूसरा दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से ८ गुण प्रगटेः—९ चक्षुदर्शन, १० अचक्षुदर्शन ११ अवधि दर्शन, १२ श्रोतन्द्रिय का जानपना. १३ चक्षुइन्द्रियका जान पना. १४ घणेन्द्रिय का जान पना. १५ रसेन्द्रिय का जान पना. और १६ स्पर्शेन्द्रिय का जान पना. । तीसरे मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ८ गुण प्रगट हुवेः—१७ सम्यग दृष्टि पना. १८ मिथ्यात्व दृष्टि पना. १९ सममिथ्यात्व दृष्टि पना. २० सामायिक चारित्र्य पना. २१ छेदो स्थापनीय चारित्र्य पना. २२ परिहार विशुद्ध चारित्र्य पना. २३ सू-

x पठान्तरः—क्षायिक निष्पन्न के ३७ भेदः—५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीय की, ८ (क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, दर्शनमोह और चारित्र्य मोह यह ८) मोहनाय की, ४ आयुष्य की, २ नामकी, २ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी, यों आठों कर्मोंकी सब ३७ प्रकृतियों का क्षय-सर्वथा नाश करे सो क्षायिक निष्पन्न भाव.

१. भाङ्गा इग्यारव्हे गुणस्थान में मिलता है.

❀ श्रेणिद्वार का बहुतही विस्तार से खुलासा प्रथम खण्डके ५वें लक्षण द्वारा में किया है सो सब यहां जानना

वेदे द्वार सो उदय में आये हुवे कर्म पुद्गलों का शुभा शुभ परिणाम को आत्म प्रदेशों कर चैत्यन्यता-उपयोग युक्त अनुभवे सो वेदना जानना. इसका विशेष खुलासा अन्य स्थान मेरे देखने में न आया इसलिये यहां संक्षेप में ही लिखा है. परन्तु रचना विशेषत्व उदय द्वार के जैसी देखाती है.

ऐसेही निर्जरा का भी खुलासा विशेष नकर सका परन्तु इसकी रचाना विशेषत्व ऊदीरणा द्वार जैसी जानना.

दश करण द्वार का खुसासा

बन्धुकट करणं । सं संक्रम मोकद दीरणा सत्तं ॥

उद्युव समा मणिधत्ती । णिकाचणा होदिपडि पयडी ॥

गोम्मट सार कर्म काण्ड गो^० १४७

१. कर्मों का सम्बन्ध होना अर्थात्—मिथ्यात्वा परिणामों से जो पृद्गलद्रव्य का ज्ञानवरणीयादि रूप होकर परिणमन करने से ज्ञानादि को आवरण करना सो बन्ध करण है. २. कर्मों का स्थिति तथा अनुभाग का बढ़ाना सो — उत्कृष्टण करण है. ३. बन्ध रूप प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप परिणमना सो संक्रमण करण है. ४. स्थिति तथा अनुभाग का कम होना सो “ अपकर्षण करण ” है. ५. जिसके उदय का अ.भि समय नहुवा. ऐसे जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्ष के बलसे उदया वली बलमें प्राप्त करना सो—“ऊदीरणा करण” है. ६. जो पृद्गल कर्म रूप रहे सो सत्ता करण है. ७. जो कर्म अपनी स्थिति को प्राप्त होवे. अर्थात्—फलदेने के समय को प्राप्त होवे. सो “ उदय करण ” है. ८. जो कर्म उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय, अर्थात्—ऊदीरणा अवस्थाको प्राप्त नहीं होसके, सो “ उपशान्त करण ,, है. ९. जो कर्म उदयावली में भी प्राप्त नहोसके, और संक्रमण अवस्थाको भी प्राप्त नहो सके सो “ निधात्त करण ,, है. और १०. जिस कर्म की ऊदीरणा, संक्रमण, उत्कृष्टण, और अपकर्षण, यह चारोंही अवस्थाओं नहो सके सो—निकाचित करण है. अवस्था वाला कहते है ॥

जैम जीवके परिणाम-गति ज्ञानि कषाय, लब्ध्या, इत्यादि पण्डे सो, और अर्जाव केप
 णिणाम वस्तु के द्विपय उत्पात व्यय क्षय होयें सो. और अनादि परिणाम-सो कदापि
 पण्डे नहीं जिनके ३ भेदः—१. जीव परिणामी, २. भव्य परिणामी, ३. अभव्य परिणा
 भी. यह तीनों शाश्वते भाव हैं.

६ मन्वीवाइ भाव सो—जैम दही के और मद्धर के मिळने मे दोनों का एकर
 स हो श्रीकरण नाम का पदार्थ बनता है. पेमेही—एक दो तीन चार या पांचो भावों
 एकस्थान संयोग होवे उभे—मन्वीवाइ भाव कहते हैं. जिनमें दो भावों का मिळाप हो
 वे सो द्विसंयोगी भद्र कहा जाता है, जिनके—१० भाङ्गे होते हैंः—१. उदय उपशम २.
 उदय क्षायिक, ३ उदय क्षयोपशम, ४ उदय परिणामी, ५ उपशम क्षायिक, ६ उपश
 म क्षयोपशम, ७ उपशम परिणामी, ८ क्षायिक क्षयोपशम, ९ क्षायिक परिणामी, और
 १० क्षयोपशम परिणामी. १ पेमेही तीन भाव मिळने मे तीन संयोगी भी १० भाङ्गे
 होते हैंः—१. उदय उपशम क्षायिक, २ उदय उपशम क्षयोपशम. ३ उदय उपशम परि
 णामी. ४ उदय, क्षायिक, क्षयोपशम. ५ उदय क्षायिक परिणामी. ६ उदय क्षयोपश
 म परिणामी. ७ उपशम क्षायिक क्षयोपशम, ८ उपशम क्षायिक परिणामी. ९ उपशम
 क्षयोपशम, परिणामी. और १० क्षायिक क्षयोपशम परिणामी. १ चार भाव मिळने मे
 चउ संयोगी ५ भाङ्गे होते हैंः—१. उदय उपशम क्षयोपशम परिणामी. २ उदय उपश
 म क्षायिक परिणामी. ३ उदय उपशम क्षयोपशम परिणामी. ४ उदय क्षायिक क्षयोप
 शम परिणामी. ५ उपशम क्षायिक, क्षयोपशम और परिणामी. १ और पांच संयोगी—
 एकही भाङ्गा होता हैः—१ उदय उपशम क्षायिक क्षयोपशम और परिणामिक. १ यों
 पांचों भावों के मव मिळ २६ भाङ्गे होते हैं. इन २६ भाङ्गो में से २० भाङ्गे तो शु
 द्य हैं. कहीं मिळने नहीं. और ६ भाङ्गे मिळते हैं. सो कहते हैंः—१. द्विक संयोगी न
 वरा भाङ्गा क्षायिक और परिणामिक भाव वाला सिद्ध भगवन्त में पाता है. २ त्रीसं
 योगी पांचवा भाङ्गा उदय क्षायिक और परिणामिक भाव वाला—केवली भगवन्त में
 मिळता है. ३ और त्रिसंयोगी छटा भाङ्गा उदय क्षयोपशम परिणामिक वाला—दुसरा
 गुणस्थान छोड पहिले गुणस्थान से दशवे गुणस्थान तक—क्षयोपशम सम्यक्त्वी में मि
 लता है. ४ चौसंयोगी का तीसरा भाङ्गा—उदय उपशम क्षयोपशम परिणामिक भाव वा
 ला उपशम सम्यग् दृष्टि में मिळता है, ५ चौसंयोगी चौथा भाङ्गा—उदय क्षायिक क्ष
 योपशम परिणामिक भाव वाला—क्षायिक सम्यक्त्वी में मिळता है. और ६ पांच संयो-

१. भाङ्गा इयारवे गुणस्थान में मिलता है.

श्रेणिद्वार का बहुतही विस्तार से खुलासा प्रथम खण्डके ५वे लक्षण द्वारा में किया है सो सब यहां जानना

वेदे द्वार सो उदय में आये हुवे कर्म पुद्गलों का शुभा शुभ परिणाम को आत्म प्रदेशों कर चैत्यन्यता—उपयोग युक्त अनुभवे सो वेदना जानना. इसका विशेष खुलासा अन्य स्थान मेरे देखने में न आया इसलिये यहां संशेष मेंही लिखाहै. परन्तु रचना विशेषत्व उदय द्वार के जैसी देखाती है.

ऐसेही निर्जरा का भी खुलासा विशेष नकर सका परन्तु इसकी रचाना विषे-
त्व ऊदीरणा द्वार जैसी जानना.

दश करण द्वार का खुसासा

वन्धुकट करणं । सं संकम मोकद दीरणा सत्तं ॥

उदयुव समा मणिधत्ती । णिकाचणा होदिपडि पयडी ॥

गोम्पट सार कर्म काण्ड गो^० १४७

१. कर्मों का सम्बन्ध होना अर्थात्—मिथ्यात्वा परिणामों से जो पृद्गलद्रव्य का ज्ञानवरणीयादि रूप होकर परिणमन करने से ज्ञानादि को आवरण करना सो बन्ध करण है. २ कर्मों का स्थिति तथा अनुभाग का बढ़ाना सो — उत्कृष्टण करण है. ३ बन्ध रूप प्रकृति का दुसरी प्रकृति रूप परिणमना सो संक्रमण करण है. ४ स्थिति तथा अनुभाग का कम होना सो “ अपकर्षण करण ” है. ५ जिसके उदय का अ-
भि समय नहुवा. ऐसे जो कर्म द्रव्य उसको अपकर्ष के बलसे उदया वली बलमें प्रा-
प्त करना सो—“ऊदीरणा करण” है. ६ जो पृद्गल कर्म रूप रहे सो सत्ता करण है. ७ जो कर्म अपनी स्थिति को प्राप्त होवे. अर्थात्—फलदेने के समय को प्राप्त होवे. सो “ उदय करण ” है. ८ जो कर्म उदयावली में प्राप्त नहीं किया जाय, अर्थात्—ऊदी-
रणा अवस्थाको प्राप्त नहीं होसके, सो “ उपशान्त करण ,, है. ९ जो कर्म उदयाव-
ली में भी प्राप्त नहोसके, और संक्रमण अवस्थाको भी प्राप्त नहो सके सो “ निधात्त
करण ,, है. और १० जिस कर्म की ऊदीरणा, संक्रमण, उत्कृष्टण, और अपकर्षण,
यह चारोंही अवस्थाओं नहो सके सो—निकाचित करण है. अवस्था वाला कहते है ॥

इन दशोंही करणों में से—आयुष कर्म में तो संक्रमण करण विना नव करण पाते हैं। और बाकी के सातोंही कर्णों में दशोही करण पाते हे। इसका विशेष खुलासा यह है कि—उपशान्त कपाय गुणस्थान में—मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का संक्रमण करण होता हे, अर्थात्—इन दोनों के कर्म प्रमाणुओं सम्यक्त्व मोहनीय रूप परगम जाते हैं। और बाकी की प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है। दही करण होते हैं। वन्ध करण और उत्कर्षण करण यह दोनों प्रकृतियों अपनी २ वन्ध व्युच्छितिके स्थान होती हैं और प्रकृतियों अपनी २ जाति की जहां वन्ध से बुच्छिति है। वहां संक्रमण करण होता। अयोगी के ८५ सत्ता की प्रकृतियों का, सयोगी के अन्त समय तक अपकर्षण करण होता है। तथा क्षीण कपाय गुणस्थान में सत्ता से व्युच्छेद हुइ १६ प्रकृति। और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में सत्ता से व्युच्छेद रूप हुवा जो सूक्ष्म लोभ, यो २७ प्रकृतियों का क्षय देश पर्यन्त अपकर्षण करण जानना। वो क्षयदेश काल यहां पर एक समय अधिक आवली मात्र है। क्योंकि—यह १७ प्रकृतियों स्वमुखो दयी है। *। देवायु का अपकर्षण करण उपशान्त कपाय पर्यन्त है। मिथ्यात्वादि तीनों अनिष्टात्ति, करण में क्षय हुइ १६ प्रकृतियों इनके क्षय देश। ÷ (अन्त काण्डा के अन्त काली पर्यन्त अपकर्षण करे है। और क्षपक अवस्था में—अनिष्टात्ति करण में क्षय हुइ जो ८ कपाय से लेकर २० प्रकृतियों है, उनका भी अपने २ क्षय देश पर्यन्त अपकर्षण करण है। उपशम श्रेणि में उपशान्त गुणस्थान पर्यन्त मिथ्यात्वादि तीनों दर्शन मोहनीय और नर्क द्विकादि १६ इन प्रकृतियों अपकर्षण करण है। तथा ८ कपायादि को का अपने २ उपशम करने के स्थान तक अपकर्षण करण है। अन्तानु वन्धि चौक का असंयतादि चारों गुणस्थानों में यथा संभव जहां विसंयोजना (अन्य रूप परिणमन) होवै, वहां तकही अपकर्षण करण है। तथा नर्कायु के असंयति गु-

* प्रकृतियों दो प्रकार की होती है:—१. स्वमुखोदयी सो-अपनेही रूप उदय फल देकर नाश होजाय। इसका काल एक समयाधिक आवली प्रमाण है, वही क्षय देश-क्षय होनेका स्थान है। और २ परमुखोदयी सो- जो प्रकृति अन्य प्रकृति रूप उदय फल देकर नष्ट होजाय इसके अन्न काण्ड की अन्तफली सो क्षय देश है।

= जिस स्थान में क्षय हुवा हो सो क्षय देश होता है।

णस्थान तक और तिर्यचायु के देश संयति गुणस्थान तक—ऊदीरणा, सता, उदयय है तीनों करण प्रसिद्ध हैं. क्योंकि—पहिले कहे हैं. । उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुवे जीवके—मिथ्यात्व गुणस्थान के अन्त में एक समयाधिक आंवली काल पर्यन्त मिथ्यात्व प्रकृति का उदीरणा करण होता है. उतनेही काल तक उसका उदय है. और मूक्ष्म लोभका सूक्ष्म सम्पराय में ही ऊदीरणा करण है, इसके आगे उदय नहीं. ॥ जो कर्म उदया वलीमें प्राप्त नहीं किया जावे अर्थात्—जिसकी निर्जरा नहोसके जो ऊदीरणा रूप भी नहोसके और संक्रमण रूप भी नहो सके उत्कर्षण और चपकर्ष भी नहो सके, चारों किरिया नहो सक्ति हो ऐसे क्रमसे उपशान्त करण विधत्ति करण और निका चित करण यह तीनों करण अपूर्व करण गुणस्थान तक ही होते हैं. इसके ऊपरयथा संभव उदयावली आदि प्राप्त होनेकी सामर्थ्य वलेही कर्म प्रमाणू पायेजातेहै.

गुण श्रेणीका झूलासा

जैसे कोइ दुर्बल रोगिष्ट अतिवृद्ध अवस्था कर जीर्ण शरीर को प्राप्त हुवा पुरुष प बोटे कुहाडे से खेरके वबूल के काष्ठ को महा परिश्रम कर थोडा भाग छेद सक्ता है. और कोइ जन्म से अरोग्य प्रबल तरुण पुरुष तीक्षण फरसी फरसी कर सूके हुवे आकडे के थता एरन्ड के काष्ठ को थोडेही परिश्रम से और थोडेही काल में बहुत कट डालता है. चकना चूर कर डालता है. तैसेही जो मिथ्यात्वी जीवों है. वो कर्म रूप रोग की प्रबलता का वीर्यहीन—जीर्णहुवे अपने अत्यन्त चीकने कर्म रूप काष्ठ को वाल तपश्चरणादि बोटेशस्त्र कर बहुत काल तक महा कष्ट सहन करही अल्प-थोडे कर्मों की निर्जरा कर सक्ते है. और जो सम्दग् दृष्टि जीवों हैं. ज्ञानादि आत्माके निज गुणों कर वलिष्ट हुवे, शुभ परिणामों की वृद्धि रसघात स्थितिघात कर, निःसार हुवे कर्मों को अपूर्व करणादि तीक्षण शस्त्रकर थोडे काल में और थोडेही प्रयास कर बहुत कर्मों का चकना चूर कर डालते है. वो कैसी तरह से कौन २ जीवों हीनाधिक कर्मों को निर्जर कैसी तरह से करते हैं. जिसका स्वरूप अनुक्रम से १.१ गुणश्रेणि में दर्शाया है सो यहां कहते हैं:—

१. प्रथम सम्यक्त्व के निमित्त ग्रन्थि भेद करते तथा दूसरा अपूर्व करण करते—स्थिति घात रसघात गुणश्रेणि और अपूर्व बन्धन इन चारों का योंको करत—धति

समय असंख्यात गुण निर्जरा की वृद्धि होती है. तैसही अपूर्व निवृत्ति करण में भी जानना. और सम्यक्त्व प्राप्त हुवे बाद भी सम्यक्त्व प्रत्यय कर अन्तर मुहूर्त प्रमाण वाकी रहे कर्मों के दलकों खपाने गौपृच्छ के संस्थान जैसी दलोंकी रचना करे सो प्रथम सम्यक्त्व गुण श्रेणि जाणना. यह आगे कहेगे उन दूसरी श्रेणियों की अपेक्षा कर सम्यक्त्व प्रत्यायिक मन्द विशुद्धि वेदने के वासते दीर्घ अन्तर मुहूर्तमें वेदने लायक और अल्प पदेशों की गुणश्रेणि होती है.

२ इससे देशविरति निमित्त अपूर्व करण करता पहिली गुणश्रेणि के संख्यात गुणहीन ऐसे अन्तर मुहूर्त वेदने लायक और पूर्वकी श्रेणिले संख्यात गुणवृद्धि प्रदेश दलकी रचना से देश विरति गुण प्रत्यायि श्रेणि सो प्रथम गुणश्रेणि की निर्जरा से असंख्यात गुण निर्जरावन्त दूसरी श्रेणी है.

३ उस देश विरति गुणसे अनन्त गुण विशुद्धि में वृद्धि पाते सर्व विरति की लायि निमित्त अपूर्व करण करता सर्व विरति गुण प्रत्यायिक देश विरति गुणश्रेणि के अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुणहीन ऐसी अन्तर मुहूर्त में वेदने योग्य असंख्यात गुणवृद्धि प्रदेशात्मक असंख्यात गुण निर्जरा हेतु ऐसी सर्व विरति रूप तीसरी सर्व विरति गुण श्रेणि होती है.

४ इससे अनन्त गुण वृद्धि अनन्तान बन्धि कपाय की विसंयोजना कर्ता सर्व विरति गुण श्रेणि के अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुणहीन अन्तर मुहूर्त वेदने लायक असंख्यात गुण वृद्धि दलिक ऐसी चौथे गुण श्रेणि जाणना.

५ इससे भी अत्यन्त विशुद्ध परिणाद्य से पहिले की गुण श्रेणी के अन्तर मुहूर्त के संख्यात गुण हीन अन्तर मुहूर्त में वेदने लायक असंख्यात गुण वृद्धि दलिक तीनों दर्शन मोहनिय खपाने के लिये गुण श्रेणिकरे सो क्षायिक सम्यक्त्व प्रत्यायिक असंख्यात गुण निर्जरा रूप पांचवी गुण श्रेणि होती है.

६ इससे भी संख्यात गुणहीन ऐसी अन्तर मुहूर्त वेदने लायक असंख्यात गुण वृद्धि दलिक असंख्यात गुण निर्जरा हेतु चारित्र मोहनीय को उपशमाते अपूर्व करण अनिवृत्ति करण गुणस्थान छठी गुणश्रेणि करे.

७ इससे अनन्त गुण विशुद्धि उपशान्त मोह प्रत्यायिक संख्यात गुणहीन मुहूर्त में वेदने योग्य असंख्यात गुण वृद्धि दलिक उमशान्त मोह गुण श्रेणी.

८ इससे भी अनन्त गुण विशुद्धि संख्यात गुणहीन मुहूर्तमें वेदने योग्य असं-

ख्यात गुण वृद्धि दलिक असंख्यात गुण निर्जरा से वृद्धि पाते चारित्र मोहनीय ख पाते आठवे और दशवे गुणस्थान में दलिक रचना करे.


९ इससे अत्यन्त विशुद्ध संख्यात गुणहीन अन्तर मुहूर्त में वेदने योग्य असंख्यात गुण वृद्धि दलिक क्षीणमोह गुणस्थान प्रत्यायि की करे.

१० इससे संख्यात गुणहीन अन्तर मुहूर्त में वेदने लायक असंख्यात गुण वृद्धि दलिक संयोगी केवली के असंख्यात गुणी निर्जरा हेतु दलिक रचन करे सो दशवी श्रेणि. और

११ इससे भी इतर अयोगी केवली गुणस्थान कर्म खपाने निमित्त संयोगी गुणश्रेणि के अन्तर मुहूर्त से संख्यात गुणहीन अन्तर मुहूर्त वेदने योग्य असंख्यात गुण वृद्धि दलिक कर्मदल रचना करे सो ११ वी गुण श्रेणी. यों इयारेही गुणश्रेणिकी रचना कर बहुत काल में वेदने योग्य कर्मों की थोड़ेही काल में निर्जरा कर डालते हैं. अर्थात्-गुणा कारणसे कर्म दलको वेदकर निर्जरा अर्थ कर्म दलको व्यवस्थासेस्थापन करना. उपर की स्थिति से उतार २ कर उदयावली स्थिति के समय २ स्थिति में असंख्यात गुण वृद्धि पाता संक्रमावते जोदल श्रेणीसो गुणश्रेणि कहना. यों थोडे काल में बहुत कर्मदल निर्जरा है, । इसमें प्रथम गुण श्रेणि का काल अपूर्व करण और अनिष्टात्ति करण के काल से किंचित विशेष अन्तर मुहूर्त प्रदाने जाणना. उस वेद्यमान अन्तर मुहूर्त से उपर की स्थिति के दलिये उतार २ कर वेद्यमान स्थिति के उदय प्रति समय असंख्यात गुण २ वृद्धिपाता अन्तिम समय तक संक्रमाता है अर्थात्-उपर की स्थिति का उतारा हुआ जो दल उसमें पहिले समय थोडा संक्रमावे, उससे दूसरे समय असंख्यात गुणा संक्रमावे. उससे तीसरे समय असंख्यात गुणा संक्रमावे, यों समय २ असंख्यात गुण वृद्धि कर्ता अन्तर मुहूर्त के अन्तिम समय सर्वोत्कृष्ट संक्रमाकर-भोगकर खपावे परन्तु गुणश्रेणि के काल में वृद्धि करे नहीं. ऐसी तरह से सब गुण श्रेणी का स्वरूप जाणना. परन्तु एकेक से श्रेणिका अन्तर मुहूर्त संख्यात गुण हीन २ पहिले की श्रेणिके अपेक्षा से होता है. और कर्म दल असंख्यात बढ़ता होता है. । इसमें देश विरति और सर्व विरति पणा प्राप्त कर्ता तो दो करण करे परन्तु तीसरा अनिष्टात्ति करण नहीं करे. तथा देश विरति से सर्व विरति से अ भोग पडा और फिर जो देशात्ति अङ्गीकार करे, उस वक्त भी दो करण करे, और अनाभोग पडातो उन करणों के किये बिनाही चडता है इन दोनों करणों कर देश-

व्रत गुण प्राप्त करेतो वो जीव अवश्य बृद्धमान परिणामी होवे वहां बृद्धमान परिणाम में किसी वक्त संख्यात गुण अधिक किसी वक्त असंख्यात गुण अधिक किसी वक्त संख्यात भाग अधिकी, कभी असंख्यात भाग अधिक दलकी रचना करे. और जोहाय मान परिणाम होवे तो इन चारों की हायमान दलिक रचना करे. और तुल्य परिणाम में तुल्य दलों की रचना होती है. परन्तु अपनी २ गुणश्रेणि का अन्तर सुहूर्त एकसाही होता है. और अनन्तानु बन्धिकी वीसंयोजना देवता मनुष्य और देवता पयार्सा अविरति सम्यग दृष्टि देशविरति और सर्व विरति। यह सब तीनों करणों कर करते हैं. जिसमें अपूर्व करण अनिष्टत्ति करण के काल में गुणश्रेणि करे. इसमें प्रथम की तीनों गुणश्रेणि सम्यक्त्वी देशविरती सर्व विरति सहसात्कारे पडता हुवा कितनेक काल में मिथ्यात्व गुणस्थान में आवे. ऐसी तरह गुणश्रेणि की रचना जानना.

✽ इति कर्मा रोहण नामक द्वितीय खण्ड ✽



जैनधर्म विद्यालय प्रसिद्ध आचार्य १००८ पूज्यश्री
 रघुनाथजी महाराज पं० रामजी शंभुनाथजी
 महाराज एति श्रीसुशालाचन्द्रजी म०श्री जयचन्द्रजी



* तृतीय खण्ड-संसार रोहण *

संसार रोहण के ४१ द्वारोंका अर्थ.

१-३ गतीद्वार जिसमें जीवों गता गत (जाना आना) करे सो गति चार है; (१) “नर्क”—अन्धकार मयस्थान है. सो “नर्कगति” (२) तिर्यच तिरछे बहुत दे या तिरछे लोक में अधिकांश पावे सो तिर्यच. (३) मनुष्य मनकी होंश पुरी कसकै सो मनुष्य गति. और (४) “देव” दिव्य प्रकांश वन्त सो देवगति. इन चारों गति में से किसी एकगति में दुसरे स्थान से आकर जीवों उत्पन्न होवें सो “आगति” उत्पन्न हुवे उसिगति में स्थिर बने रहे सो “पागति” और मरकर आगे दुसरे स्थान जावे सो “जागति” यह गति आश्रिय ३ द्वार. ४-६ “जाति द्वार” जिससे जीवों का स्वरूप जाना जावे सो जाति—५ है:—(१) जिसके फक्त एक स्पर्शेन्द्रिय

चारों गति का स्वरूप गोमटसार ग्रन्थ के जीव कान्ड में ऐसा बताया है.

गाथा—णरमन्ति जदो णिच्चं । दव्व खेतय काल भावेय ॥

अणोण हिय जम्हा । तम्हा ते णारया भणिया ॥१४६॥

अर्थ—जो जीवों को एसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का संयोग बना है कि जिससे उनका मन रमण नहीं करता है. अमन्योग लगते हैं. और सदा जहां अन्धकार मय स्थान है सो नर्क गति कही जाती है.

गाथा—तिरियंती कुटिल भावं । सुव्विउल सणाणि गिहः मणाणा,
अच्चन्त पाव वहला । तम्हा तिरिच्छया भणिया ॥१४७॥

होवेसो—'एकेन्द्रिय जाति' (२) जिसके—रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, दोनों होवे सो—वेन्द्रिय जाति. (३) जिसके घ्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, और स्पर्शेन्द्रिय, तीनों होवेसो तेन्द्रिय जाति. (४) जिसके—चक्षुरेन्द्रिय, घणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, चारों इन्द्रिय होवेसो चौरुन्द्रिय जाति. और [५] जिसके श्रेतेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय यह पांचोंही इन्द्रिय होवे सो पचेन्द्रिय जाति. इसके ३ द्वार. ७-९ 'काया द्वार'—जिस आकार में जीवोंका शरीर परिणमे सो काया ६ है:—[१] जिसका कठिण शरीर हो सो 'पृथ्वी काय.' (२) जिसका-पतला शरीर हो सो अपकाय. (३) उष्ण शरीर होसो 'तेजकाय.' (४) जिसका सूक्ष्म शरीर होवे सो 'वायु काया.' (५) जिसका विचित्राकार का शरीर होवे सो वनस्पति काया. और (६) जिसको. त्वास (दुःख) हुवा प्रत्यक्ष जानने में आवे सो 'त्वस काया.' जाति मुझव काया के भी ३ द्वार जानने.

११-१२ दण्डक द्वार—बहुत जीवों का समोह होकर जहां रहे सो दण्डक

स्थावार जाति के ५ दण्डक, तीनों विह्वेन्द्रिय जीवों के ३ दण्डक, तिर्यच पचेन्द्रिय का १ दण्ड मनुष्य का १ दण्डक, वाण व्यन्तर देवका १ दण्डक, जोतिषी देवका १ दण्डक, और विमानिक देवका १ दण्डक,

१३ सामान्य (संक्षेप में) जीवके भेद १४ हैं—१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ वादर एकेन्द्रिय, ३ वेन्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, ५ चौरिन्द्रिय, ६ असजी पचेन्द्रिय, और ७ सजी पचेन्द्रिय, इन सातों के अपर्याप्ता और पर्याप्ता यों १४ भेद.

१४ विशेष (विस्तार में) जीवों के ५६३ भेद होते ते हैं सो कहते हैं नर्क के १४ भेद—७ नर्क के नाम [१] घम्मा, [२] वंशा, (३) शील्ला (४) अजना (५) रिट्टा, [६] मया, और [७] मायवड इन सातों के गोत्र—(१) रत्नप्रभा, (२) शर्कर प्रभा, (३) बालु प्रभा. (४) पंख प्रभा, (५) धुम प्रभा (६) तम प्रभा, ७) तम्रतमा प्रभा, इन सातों का पर्याप्ता और अपर्याप्ता, यों १४ नर्क के भेद । तिर्यच के ४८ भेद—प्रयत्रीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय. इन ४ को सूक्ष्म वादर पर्याप्ता और अपर्याप्ता इन चारों से चांगुने करने में $४+४=१६$ भेद हुवे. वनस्पति के ६ भेद—सूक्ष्म, साधारण, और प्रत्यक, इन तीनों का पर्याप्ता और अपर्याप्ता. यों एकेन्द्रिय तिर्यचक २२ भेद हुवे. । वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय इन तीनों विह्वेन्द्रिय के पर्याप्ता अपर्याप्ता यों ६ भेद, तिर्यच पचेन्द्रिय, के—जलचर, थलचर, खेचर, उरपर, और भुजपर, यह ५ सजी और ५ असजी यों, १० इन १०, के पर्याप्ता, और १२ का, अपर्याप्ता यों २० भेद होते हैं. । सब तिर्यच के ४८ भेद हुवे. ॥ मनुष्य के ३० ३ भेद कहते हैं—१ भरत, १ ऐरावत, १ महा विदेह, यह तीनों कर्मा भूमि मनुष्य के क्षेत्र जंबु द्वीपमें हैं. २ भरत, २ ऐरावत, २ महाविदेह, यह ६ क्षेत्र कर्मा भूमिके धातकी खण्ड द्वीप में हैं. और ऐसेही ६ क्षेत्र कर्म भूमिके पूष्करार्थ द्वीपमें हैं. यों १५ क्षेत्र कर्मा भूमिके हैं. । १ हेमवय, १ एरणवय, १ हरीवास, १ रम्यकवास, १ देवकुरु, १ उत्तरकुरु, यह ६ क्षेत्र अकर्म भूमि (युगल) मनुष्य के जंबु दीपमें हैं. और येही दो दो क्षेत्र यों १२ क्षेत्र धातकी खण्ड द्वीप में है. और ये ही १२ क्षेत्र पुष्करार्थ द्वीप में हैं. यों ३० क्षेत्र अकर्म भूमि मनुष्य के हैं. और जंबु द्वीपमें भर्त क्षेत्र की मर्यादा का करने वाला चूलहेम वन्त पर्वत, ऐरावत क्षेत्र की मर्यादा का करने वाला शिखरी पर्वत, इन दोनों पर्वतों के दोनों खूनो से दो दो दाढ़ों निकली हैं. यों दोनों पर्वतों, की ८ दाढ़ों हैं. और एकेक दाढ़ों पर सात द्वीप (डों-

गरीयों) हैं, यों ५६ द्वीप भी अकर्म भूमि मनुष्य हैं. सब १.९+३०+५६+१.०१. क्षेत्र मनुष्य के हैं, इनके पर्यासा और अपर्यासा यों २०२ भेद, और इनी १.०१. मनुष्य के १.४ स्थान कों में समृद्धिम जीव उत्पन्न होते सो, अपर्यासाही मरण पाते हैं १.०१. भेद यों ३०३ भेद मनुष्य के ॥ और देवताके १.१.८ भेदः—१. असुर कुमार २. नाग कुमार, ३ सुवर्ण कुमार, ४ विद्युत् कुमार, ५ आग्नि कुमार, ६ उदधी कुमार ७ दिशा कुमार, ८ द्वीप कुमार, ९ पवन कुमार, १० स्थानित कुमार, (यह १२ भवन पति देव) १.१ अम्बे. १.२ अम्बे रसे, १.३ शाम, १.४ सवय, १.५ रुहे, १.६ महारुहे, १.७ काळ, १.८ महाकाळ, १.९ अरुक्षीपत्त, २.० धनुष. २.१ कुम्भीण, २.२ बालु, २.३ वेतरणी, २.४ खरस्वर. और २.५ महाधोप (यह १.५ पृथ्वीधामी देवभी भवन पतिकी असुर कुमार जातिमें समावेश होता है.) २.६ पिशाच, २.७ भूत, २.८ यक्ष, २.९ राक्षस, ३.० किंचर, ३.१ किंपुरुष, ३.२ महोर्ग, ३.३ गन्धर्व, ३.४ इसीच, ३.५ भुङ्ख, ३.६ आणपत्नी, ३.७ पाणपत्नी, ३.८ कन्दिद्य, ३.९ महाकन्दिद्य, ४.० कोहल, ४.१ पाण्डेव. (यह १.६ वाण व्यन्तर देव) ४.२ आण क्षमक, ४.३ पाण क्षमक, ४.४ लेण क्षमक, ४.५ सेण क्षमक, ४.६ वत्थ क्षमक, ४.७ फल क्षमक, ४.८ फूल क्षमक, ४.९ फल क्षमक ५.० आग्नि पतिया क्षमक, ५.१ बीज क्षमक (यह १.० विक्षमक देवों का भी वाण व्यन्तर देवों में समावेश होता है.) ५.२ चन्द्र, ५.३ सूर्य, ५.४ ग्रह, ५.५ नक्षत्र, ५.६ तासा. और ५.७—६.१ येहा ५ स्थिर (यह १.० जोतिषी देव) ६.२ तीन पलिये, ६.३ तीन सांगरीये, ६.४ तेरे सांगरीये. (यह ३ किलविपी देव) ६.५ साहच, ६.६ आदित्य, ६.७ वरण, ६.८ वन्हि, ६.९ गदतोय, ७.० तुषित, ७.१ अरिठ, ७.२ अगिच्छ, ७.३ अज्या वाध. (यह १. लोकान्तिक देव) ७.४ सुधर्मी, ७.५ इशान, ७.६ सन्त कुमार ७.७ मोहन्द्र ७.८ ब्राह्म, ७.९ लान्तक, ८.० महशुक्र, ८.१ सहसार, ८.२ आण ८.३ पाण, ८.४ अरण, ८.५ अचुत, [यह १.२ देवलोक] ८.६ भेदे, ८.७ सुभेदे, ८.८ सुजाये, ८.९ सुमान से, ९.० सुदंशण, ९.१ प्रियदंशण, ९.२ आमोण, ९.३ पृथीभेदे. ९.४ जसोधरे (यह १. श्रीवक) ९.५ विजय, ९.६ विजयन्त, ९.७ जयन्त, ९.८ अपराजित, और ९.९ अवार्थि किल्ह. (यह ५ अनुत्तर मिमान) यों सब ९.९ जातिके देवताओं हैं. इनके पर्यासा और अपर्यासा यों दुगुणे करने से सब १.१.८ देवताके भेद होते हैं. ॥ और सब मिल ५६३ जीवों के भेद होते हैं. ॥

१.५ जीवाग्नेनी द्वार सो—जिसका वर्ण अम्बे रस स्पर्श एकसा मिलता आ

कर्म काजल की कूपली की तरह ठसो ठस भरे हैं। सो सुक्ष्म कहे जाते हैं। और जो आंखो देखने में आवै ऐसे बडे शरीर के धारक छेही काया के जीवों है। सो वादर कहे जाते हैं।

१८ तस स्थावर द्वारः—जो “आडय”-अण्डे से उत्पन्न होवे-पक्षी प्रमुख “पोयया”-कोथली से निकले हाथी प्रमुख. “जराउया” जडसे होवे गौ प्रमुख, “रसमा”-रसया उत्पन्न होवे कीडे प्रमुख, “सेसयया” पशीने से उत्पन्न होवे ज्युं प्रमुख, “समुच्छिमा”समुच्छिम (सहजही)उत्पन्न होवे भक्खी प्रमुख, “उम्भीया”, जमीन फोडकर निकले तीड प्रमुख, “उववाइया”उत्पन्नही होवे नर्क देव यह सब तस जीवों. इनके लक्षणः-अपने शरीरको-संकोच सके प्रसार सके, रुदन करे. भय भीत होवे, त्रास पावे. भग जावे, इत्यादि लक्षण जिनके देखने में ओव सो तस जीवों. और जो एकस्थान स्थिर रहे पृथ्वी, पाणी, अग्नि हवा + वनस्पति, यह पांचों स्थावर जीवों जाणना.

१९ सञ्जी असञ्जी द्वारः—जिन जीवों का शरीर मात पिता के संयोग से नर्क के बिलों में × और देवता की लैय्या में उत्पन्न होवे सो सञ्जी जीव इनके मन (ज्ञान) होता है. और जो समुच्छिम (सहजही) उत्पन्न होवे पांचो स्थावर तीनों विक्लेन्द्रिय और ऐसे पचन्द्रिय तिर्यच ÷ मनुष्य को असञ्जी जीवों जानना. इनके मन नहीं होता है.

+ श्री उत्तराध्यायन जी सूत्र के ३६ वे अध्याय में चालित गुणानुसार तेउ और वायु को भी तस कहे हैं.

× कोइ नर्क के बिलों में और कोइ नर्क की कुंभीयों में नर्क के जवियों की उत्पत्ति फरमाते हैं.

÷ मनुष्यके शरीर से उत्पन्न हुवे-उच्चार-बडीनीत, (विष्टा) पासवण-लघुनीत(मूत्र) खेल-खेकार, संवेण-सेडा (नाकका मेल) उत्ते-उलटी, पित्ते-पित,सूप-राद, पुए-रक्त, सुक्के-वीर्य, सुक्के पुगल पडी सारे-वीर्य आदि पुद्रल सूक कर पीछे भीजे उस में. मृत्युक शरीर, स्त्री पुरुष के संयोग, नगर के नाले. और लोक में रहे सर्व अशुची स्थानों में अन्तर मुहूर्व वाद असंख्यात समुच्छिम (असञ्जी) मनुष्यों उत्पन्न होते हैं.

२० भापक अभापक द्वारः—जो पर्याप्त विवेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रिय मनु-
प्य नर्क देव बोलते हैं. सो भापक कहे जाते हैं और सब अभापक जानना.

२१ आहारक अनाहारक द्वारः—जब जीवों एक शरीर छोडकर दुसरे श-
रीर में जाते हैं. तब रस्तमें केवल समुत्थात करती वक्त चौथे पांचवे समयमें और मो-
क्ष के जीवों तो अनाहारिक ही रहते हैं. वाकी के सब जीवों आहारिक ही होते हैं.

२२ ओजादि आहार द्वारः—जो उपजति वक्त में जीवों आपने नजीक
में रहे हुवे शुभा शुभ अहार गृहण करते हैं. जैसे सजी मनुप्य तिर्यच माता का रुद्र
और पिता का शुक्र भोगवे, सो ओज आहार. २ जो शरीर जारी जीवों समय-प्रति वा-
यु आदि स्पर्शादि होते पदार्थों को गृहण करे, सो रोम आहार. और ३ जो असन पा-
नादि मुख द्वारा आहार गृहण करे सो कण्ठ आहार किया जाता है. ऐसे तीन प्रकार
के आहार होते हैं.

२३ सचितादि आहार द्वारः १. दृष्ण फल बीजादि सजीव वस्तु का अ-
हार किया जावे सो सचित्त आहार. २ निर्जीव किये हुवे अन्न पाणी आदि भोगनेमें
आवे सो अचित्त आहार, और ३ कुछ सचित्त कुछ अचित्त ऐसे दोनों प्रकारके मिले
पदार्थों भोगने (खाणे) में आवे सो मिश्र आहार यह भी ३ आहार.

२४ दिशी आहार द्वारः—ऊर्ध्व—ऊंची, अधो—नीची, और चारों तरफ की
दिशाओं तिरछी, यों भी तीन दिशी गिनी जाती है और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
ऊंची, और नीची यों ६ दिशी भी गिनी जाती है. इसमेंसे पांचों स्थावरों सूक्ष्म जो
सर्व लोक में टसोठस भरे हैं, उनमें के कितनेक लोक के अन्त में एक कोन में रह है
वो लोक के तरफ की तीनों दिशामें रहे पुद्गलों का तो आहार गृहण करते हैं परन्तु
अलोक की तरफ से आहार गृहण नहीं करते हैं, क्योंकि—अलोक में पुद्गल हेही नहीं
इस अपक्षा से जयन्य तीन दिशी आहार गृहण करे. और उत्कृष्ट लोकके मध्य रहे
सर्व संतारी जीवों छेही दिशी का आहार गृहण करते हैं.

२५—२६ पर्याप्ता पर्याप्त द्वारः—१ प्रथमही आकर जिसस्थान में जीवों उ-
त्पन्न होते हैं वो नजीक में रहे शुभा शुभ पुद्गलों को आहार रूप से गृहण करते हैं.
सो आहार पर्या. २ वो गृहण किया हुवा आहार सेही शरीर का बन्ध-आकार होता
है, सो शरीर पर्या. ३ एकेंन्द्रियादि जिस जाति में उत्पन्न हुवा हो उतनी इन्द्रियों का
जिसमें आकार बन्धे सो इन्द्रिय पर्या. ४ उन इन्द्रियों के द्वार (छिद्रों) द्वारा जो वा-

यु का आवा गमन होवे सो श्वाशोश्वास पर्या. ५ मुखेन्द्रिय द्वारा व्यक्त अव्यक्त श-
ब्दो चारण की शक्ति सो भाषा पर्या. और ६ विचार शक्ति सो मन पर्या. इन ६ प-
पर्या. में से अहार, शरीर, इन्द्रिय, और श्वाशोश्वास, यह ४ पर्या तो एकेन्द्रियों के
होती है, त्रिकेन्द्रिय के और असन्धी पचेन्द्रिय तिर्यच के भाषा पर्या अधिक होने से
पांच पर्या होती है. और सन्धीपचेन्द्रियकेवही पर्या होती है. परन्तु नर्क और देव मन
और भाषा का बन्ध साथही करते हैं, इसलिये पांच पर्या कहते हैं, तोभी छेही पर्या
पाती है. । इनछे पर्या में से जितनी पर्या जिसमे पाती है, उतनी पूरी नहीं बन्धे वहां
तक अपर्याप्ता कहना. जो पर्या बन्धता पूरी पर्या क्रिया बिना अपर्याप्ता ही बरजावे
उसे लब्धि पर्याप्ता कहना. और जो पूरी पर्या बान्धले उसे पर्याप्ता कहना. अपर्याप्ता
तो फक्त अन्तर सुदूर्तही रहता है. फिर इन्द्रियादि प्रगट नहोवे तो भी सत्ता रूप स-
ब होजाती है.

२७ प्राण द्वारः—जिसके आधार से जीव रहे उसे प्राण कहते हैं. सो द-
श प्राण हैंः—१ श्रोतेन्द्रिय बलप्राण, २ चक्षुन्द्रिय बलप्राण, ३ घणेन्द्रिय बलप्राण,
४ रसेन्द्रिय बलप्राण, ५ स्पर्शन्द्रिय बलप्राण, ६ मन बलप्राण, ७ वचन बल प्राण,
८ कायाबल प्राण, ९ श्वाशो श्वास बल प्राण, और १० आयुष्य बलप्राण,

२७ इन्द्रिय द्वारः—१ अगोचरी, २ गोचरी, ३ दुम्मुइ, ४ चरपरी, और
५ अनमानि. (यह पांचों इन्द्रिय के नाम) और १ श्रोतेन्द्रिय, २ चक्षुइन्द्रि, ३ घणे
न्द्रिय ४ रसेन्द्रि, और ५ स्पर्शेन्द्रिय, (यह पांचों इन्द्रिय के गोत्र) [१.] जो अ-
गोचर-विनदेखे पदार्थों के भावको गृहण करे. सो अगोचरी और श्रुतज्ञान की वृद्धि
करे या श्रोत्र छिद्ररूप होवे जीवका अजीवका और मिश्र शब्द ग्रहण करे सो श्रोते
न्द्रिय. इसकी अभ्यन्तर अवघेणा अङ्गलके अंतस्ख्यातवे भाग और बाह्य संटाग कदम
के पुष्प जैसा, इसकी विषय असन्धी तिर्यच पचेन्द्रिके ८०० से धनुष्य की, और स-
न्धी तिर्यच पचेन्द्रिय के १२ योजन की अर्थात्—इतनी दूरका शब्द गृहण कर सकवे

× प्रथम की तीनों पर्य पुरी किये बिना तो कोइ मरताही नहीं, क्यों कि-आहार शरी
र और इन्द्रिय पर्या पुरी हुवे बाद ही परभव का आयुष्य बन्ध होत है. और आयुबन्ध
हुवे बाद ही जीव मरता है. इसलिये चौथी पर्यापबन्ध तेही अपर्याप्ता मरता है.

हैं। (२) गोवरी जो देखे हुये पदार्थों को ग्रहण करने से आंखों का नाम गोचरी है। अन्तःकरण लक्ष समुत्पन्न करे सो कृष्ण नील रक्त, पित्त, शुक्ल वर्णको ग्रहण करेसो चक्षुइन्द्रिय गोत्र है, इसकी अभ्यन्तर अवयवणा अंगुलके अंख्यातवे भाग, और बाह्य संस्थान चन्द्रमा व मसूर की दाल जैसा, यह इन्द्रि चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय दानोंके होती है। जिसमें चौरिन्द्रिय की चक्षुइन्द्रिय की विषय २१५४ धनुष्यकी, असन्नी पचेन्द्रिय की ५१०८ धनुष्यकी और सन्नीपचेन्द्रिय की ४७२६३ योजनकी, अर्थात् इतनीदुर का रूप ग्रहण करेहै। [३] दुम्भइ-जिसके दो मुख (दोस्वर) हैं। इसलिये नाकका नाम दुम्भइ है, और जो घ्राण दुर्गच्छा समुत्पन्न होवेसो घ्राणेन्द्रिय गोत्र है। यह सुगन्ध दूगन्ध दोनोंको ग्रहण करे, इसकी अभ्यन्तर अवयवणा अङ्गुलके अंख्यातवे भाग, और बाह्य संस्थान धमण जैसा यह इन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय के होती है। जिसमें-तेन्द्रिय की घ्राणेन्द्रिय की विषय १०० धनुष्य की चौरिन्द्रिय की २०० धनुष्य, की असन्नी पचेन्द्रिय की ४०० धनुष्यकी और सन्नीपचेन्द्रियकी १२ योजन की, अर्थात्-इतने दुर से वात ग्रहण करे सकते हैं। (४) जो चरपर २ चले सो जवानका नाम चरपरी और कटु मधु तक्षिण अमल कथित रस को ग्रहण करेसो रसेन्द्रिय गोत्र है। इसकी अभ्यन्तर अवयवणा अङ्गुल के अंख्यातवे भाग, और बाह्य संस्थान छरपले (उस्तरे) जैसा, यह इन्द्रिय वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय के पाती है। इसमें वेन्द्रिय की रसेन्द्रिय की विषय ६४ धनुष्य की तेन्द्रिय की १२८ धनुष्य, चौरिन्द्रियकी २५६ धनुष्य, असन्नी पचेन्द्रियकी ५१२ धनुष्य, और सन्नीपचेन्द्रियकी १२ योजन की अर्थात् इतनी दूर रहा हुवा पदार्थ का स्वाद लेसकते हैं। (५) जिसके मन नहीं होवे ऐसे शरीर का नाम अनमनी है। और शीत, उष्ण, ऋक्ष, चीकन को मल, कठिन, गुरु लघुस्पर्शों को ग्रहण करनेके सबबसे स्पर्शेन्द्रिय कही जाती है। इसका संस्थान विचित्र प्रकार का है। यह इन्द्रिय एकेन्द्रिय से लगा पचेन्द्रिय तक सब जीवों के होती है। इसमें एकेन्द्रिय की स्पर्शेन्द्रिय का विषय ४०० धनुष्य, वेन्द्रिय की ८०० धनुष्य, तेन्द्रिय की १६०० धनुष्य, चौरिन्द्रिय की ३२०० धनुष्य, असन्नी पचेन्द्रिय की ६४०० धनुष्य, और सन्नीपचेन्द्रिय की १० योजन, अर्थात् इतनी दूर का स्पर्श समझ सकती है।

२१ इन्द्रि विषय द्वारः—१ श्रोतेन्द्रिय की-१ जीव शब्द, २ अजीव शब्द और मिश्रशब्द, ये ३ विषय और इन तीनों को शुभ अशुभ से दुगुने करके ६ होते

है. और इन ६ को राग द्वेष से दुगुने करने से १२ वीकार होते हैं. (२) चक्षुःइन्द्रिय की कृष्ण, हरित, रक्त पित और श्वेत यह ५ विषय. और इन ५ को सचित्त आचित्त मिश्र इन तीनों से तीगुने करने से १५ और इन शुभ अशुभ से दुगुने किये ३० और इन ३० को राग द्वेष से दुगुने किये ६० वीकार होते हैं. (३) घनेन्द्रिय की सुर्भिगन्ध, दुर्भिगन्ध, यह २ विषय. इन २ को सचित्त आचित्त मिश्र इन तीनों से तीन गुने करने से ६, और इन ६ को, रागद्वेष से दुगुने करने से १२ वीकार होते हैं. (४) रसेन्द्रिय की कट्टू मिष्ट, तीक्ष्ण, आम्लन, क्षारा, यह ५ विषय. इनको सचित्त आचित्त और मिश्र से तीगुने करने से १५ और इन १५ को शुभ अशुभ से दुगुने किये ३०, और इन ३० को रागद्वेष से दुगुने करने से ६० वीकार होते हैं. (५) स्पर्शेन्द्रिय की गुरु, लघु, शीत, उष्ण, रुक्ष, चीकन, कठिण, सुकुमाल, यह ८ विषय इन ८ को सचित्त आचित्त मिश्र से तीगुने करने से २४ हुवे, और इन २४ को शुभ अशुभ से दुगुने करने से ४८ हुवे, और इन ४८ को रागद्वेष से दुगुने करने से ९६ वीकार होते हैं, ५ इंद्रियकी सर्व २३ विषय और २४ वीकार होते हैं.

३० सज्ञा द्वारः—१. आहार सज्ञा-४ कारण से उत्पन्न होवे;—(१) अशक्ति से, (२) क्षुधा वेदनी के उदय, (३) आहार का स्थान देखने से और (४) आहार की वात सुनने चिंतवने से. २ भय सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होवे;—(१) अशक्ति से, (२) भय मोहनीय के उदय, (३) भयके स्थान गये. और (४) भयकी वात सुने चिंतवे से ३ मैथुन सज्ञा ४ कारण से उत्पन्न होवे;—(१) रक्त मांस की पुष्टि से, (२) मैथुन मोहनीय के उदय, (३) मैथुन के स्थान गये, और (४) मैथुन की वात सुने चिंतवे. और ४ परिग्रह सज्ञा ४ कारण होवे—(१) परिग्रह के संग्रह से, (२) परिग्रह मोहनीय के उदय. (३) परिग्रह के स्थान गये. और (४) परिग्रह की वात सुनने चिंतवने से। नर्क में भय सज्ञा अधिक । तिर्यच में आहार सज्ञा अधिक । वनुष्य में मैथुन सज्ञा अधिक और देवता में लोभ सज्ञा अधिक होती है.

३१ वेद द्वारः—१ जिस के योनी कुचादि अङ्गो पाङ्ग होवै, और जो पुरुष का सङ्गम इच्छे सो स्त्रीवेद. २ जिस के लिङ्ग मूछ आदि अङ्गोपाङ्ग होवे, और जो स्त्रीके सङ्गम की इच्छा करे सो पुरुष वेदे. ३ जिस के स्त्री चिन्ह व पुरुष चिन्ह निर्बीज होवें और, स्त्री पुरुष दोनों के संयोगकी इच्छा करे सो नपुंसक वेद.

३२ कषाय द्वारः—जिन परिणामों का कष (रस) आवे सो कषाय

चार प्रकार की;—(१) प्रकृति को करूर बनावे सो क्रोध कषाय. (२) जो प्रकृति को करडी बनावे सो 'मान' कषाय, (३) जो प्रकृति को बक्र (वाँकी) बनावे सो माया कषाय और (४) जो प्रकृति को विस्तारे फैलावे सो 'लोभ' कषाय.

३३ लेशा द्वारः—जिन परिणामों कर आत्मा कर्मों कर लेपावे (भरावै) सो लेशा ६ प्रकार की;—(१) कृष्ण वर्ण, दुर्गंध, कटुरस तीक्ष्ण स्पर्श सो द्रव्य कृष्णलेश्या, और पांचों आश्रवों आप सेवन करे, दुसरे के पास सेवावै. तीनों जोगों और पांचों इन्द्रियों को यथेच्छ छुट्टी प्रवर्तने दे, तात्र परिणामों से आरंभ करे, हिंसा कर्ता-अवकाय नहीं. क्षूद्र परिणामी, दोनों लोक के दुःख से डरे नहीं. इत्यादि लक्षण वाले को भाव कृष्ण लेशी जानना. (२) हरावर्ण दुर्गन्ध तीक्ष्णरस और खरखरा स्पर्श सो द्रव्य नील लेश्या. इर्षान्त, दूसरों के गुणोंको सहन कर सके नहीं. आप तपश्चर्या करे नहीं. दुसरों को करने देवे नहीं, तैसे ही ज्ञानाभ्यास भी आप करे नहीं दूसरों को करने देवे नहीं. नीचड कषयी. लज्जा रहित, रस गृद्धि, महा आलसी, फक्त आपहीका सुख चहावै इन लक्षणों युक्त होवे सो भाव नील लेशा वाला जानना, (३) ऊदावर्ण, दुर्गंध, रस कषायला और स्पर्श कठित सो द्रव्ये कापूत लेश्या, और बाँका धोले, बाँका (सेच्छा) चले, अपने दुर्गुणों को ढके, दुसरे के प्रकट करे. कठोर बचनी, चोर, दूसरों की सम्पती देखकर झूरे इन लक्षणों वाले को 'भाव' कपोत लेशी जानना. (४) वर्णरक्त, दुर्गंध, रस खट भिठा, स्पर्श नरम सो द्रव्य तेजु लेश्या और न्याय वन्त, स्थिर स्वामी, शरल, क्रितुहळ रहित, विनीत, ज्ञानी, दमित इन्द्रिय, दृढ धर्मी, प्रिय धर्मी, पाप करते हुवे उसके फल भुक्तने का डर रखे सो भाव तेजु लेशी जानना. (५) पीत वर्ण, सुगंध, मीठारस और कोमल स्पर्श सो द्रव्य पद्म लेश्या और, चारों कषायों पतली कर सदा उपशांत चित्त रहे, त्रियोगों स्ववश में रखे, थोडा बोले, इन्द्रियों का दमन धर्म मार्ग में करे, सो भावे पद्मलेशी जानना. और (६) शुक्ल वर्ण, सुगंध, मधुर, रस और सुकुमाल स्पर्श होय सो द्रव्ये शुक्ल लेश्या और, आर्त ध्यान रौद्रध्यान को छोड धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को ध्यावे, राग द्वेष को पतले किये या सर्वथा निवृत्ते. इन्द्रियों को स्ववश में कर, समिता समंता गुप्ति गुप्ता रहे, सरागी तथा वीतरागी चरित्र वंत. इन लक्षणों वालों को भावे शुक्ल लेशी जानना,

३४ जोग द्वारः—जो दुसरो से संबंध करे—जुड सो जोग तीन प्रकार के है;—१

जो अंत करण में विचार उत्पन्न होवे सो मान जो वचन बोले सो वचन और जो प्रत्यक्ष में दिखे शरीर रूप होवे सो काया जोग जानना.

३५ शरीर द्वारः—औदारिक शरीर सो—औदर—प्रधान श्रेष्ठ अर्थात्—(१) इस की भव धारणीय शरीर की अवघेणा सब शरीरोंसे बडी है. (२) तीर्थकर चक्रवर्ति बलदेव वासुदेव घणधर केवल ज्ञानी, साधु श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषों इसी शरीर में होते हैं. (३) और मोक्ष भी इसी शरीर से पाते हैं. इत्यादि गुण निष्पन्न इसका नाम आदारिक शरीर—उत्तम शरीर दिया है. यह शरीर हाड मांस रूधीर सूत्र भेज नाशे आदि सप्त धातु का पूतला होता है, मनुष्य तीर्थचडी इस शरीरके श्वामी होते हैं. (नर्क स्वर्ग के जीवोंके यह शरीर नहीं होता है) यह शरीर के छे संघयण और छेडी प्रकार के संस्थान में होता है, इसकी अवघेणा भवधार नी की जघन्य अङ्गल के असंख्यातवे भाग. उत्कृष्ट १००० योजन झाजेरी होती है. और उत्तर विक्रय + करे तो जघन्य अङ्गल के संख्यातवे भाग, उत्कृष्ट १००००० योजन की कर सकते हैं. और इस शरीर धारी जीवों है तो सर्व लोक में भरे हुवे परंतु चारण मुनिवरों ते रवे रुचक द्वीप तक जा सकते हैं इसलिये इसकी विषय रुचक द्विस्पतक ही गिनी जाती है. और इस का प्रयोजन मोक्ष साधने का है. २ वैक्रिय शरीरः—एक रूप के अनेक रूप और अनेक तरह के रूप बनावे इसलिये इस का नाम वैक्रिय शरीर है. इस शरीर के श्वामी नरक और स्वर्ग के जीवों होते हैं. नरक के जीवों का शरीर दुर्गंधि विद्रूप अशुभ पुद्रलका पूतला होता है. और देवता का शरीर महा दिव्य तेजस्वी सुरूप सुगंधि पूतला होता है. यह शरीर = असंघयणी और प्रथम अन्तिम संस्थानी होता है, इसकी भवधारणीय शरीर की अवघेणा जघन्य अङ्गल के असंख्यात भाग, उत्कृष्ट ५०० धनुष्य × की, और उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्य अङ्गल के

+जिनको तपादि के ग्रभावसे लब्धि उत्पन्न हुई होवे वो मनुष्य तीर्थच वैक्रिय शरीर बना सकते हैं. जवांचरणा और विद्याचरण चारण मुनि दो तरह के होने हैं.

= संघयण हडीयोका होता है, और नरक देव के शरीरमें हडीयो नहीं होनेसे असंघयणी कहे हैं. परंतु है महापरकमी. देवताके समचतुरस्र संस्थान और नर्क के हुंड संस्थान है.

× सातमी नरक में ५०० धनुष्य की है.

संख्यातवे भाग उत्कृष्ट १००००० योजनकी इसका विषय अक्षय्यात द्विप समुद्रों तक है, और इस शरीरका प्रयोजन इच्छित रूप बनानेका है. ३ आहारक शरीर:— यह शरीर आहारिक (आहार करने वाले) जीवों के होता है इसलिये आहारक शरीर कहा जाता है. यह एक दात भरका पुतला प्रथम संस्थानवन्त अत्यन्त सूक्ष्म दिव्य पुद्गलोंका होता है. इसके स्वामी चन्द्र पृथ्वीवारी मुनीराज होते हैं. इसकी विषय अद्विष्टिप प्रमाणों और प्रयोजन संशय छेदन व समस्त शरण के दर्शनका. ४. तेजस शरीर:— तेज अग्निके जैसा दाहक-पाचक गुणका धारक गृह्यत क्रिये हुवे आहारादि पदार्थों को पचाकर रस बनाता है इसलिये तेजस शरीर कहा जाता है, इसका प्रयोजन आहार पचानेका है. और ५ कार्मण शरीर जो जिन पुद्गलों का तेजसने रस बनाया है, उन पुद्गलोंको द्रव्ये तो शतु अदिका जैसा शरीर होवे उस पणे और भावे ज्ञानावरणी आदि कर्मोंकी प्रकृति पणे परिणामवे-परगमावे-हिस्ता कर बाटे देवे सो कार्मण शरीर, इसका प्रयोजन संसारमें रूखानेका, यह तेजस और कार्मण इनदोनों शरीरके स्वामी सर्व संसारी जीवों हैं. और यह दोनों सूक्ष्म-अन्तरिक शरीर होवे इसका बाह्य में कुछ संशयण संस्थान नहीं होता है, परन्तु इन दोनों शरीरके धारक प्राणीयों छेही संशयण और छेही संस्थानों युक्त होते हैं. इन दोनों की अववेणा जयन्व अङ्गल के अक्षय्यातवे भाग की उत्कृष्ट सर्व लोक प्रमाणों ÷ और विषय भी सम्पूर्ण लोक प्रमाणों जानना.

इदसंशयणद्वार १ वज्र वृषभ नारच संशयण-जो दोनों हडियोंकी सन्धि स्थिर करने पटीये जैसी तीसरी हडी होती है उसे परिवेष्टित पट्ट वज्र कहतेहैं. और उन तीनों हडीयोंको कर सन्धिकों द्रव कर ऐसी चौथी हडी कील रूप होवे उसे ऋषभ कहते हैं, और जिस स्थान दोनों हडियों एकेक हडी के साथ आँकडी से आँकडी मिलावे वो फिर किसी उपाव से टूटे नहीं ऐसा दोनों हडीयों का आपात में दृढ बन्यन करने वाला म.

÷ केवल समुद्र दात होती वक्त चौथे समय में केवला भगवन्त सम्पूर्ण लोक व्यापी बनते हैं. तब तेजस और कार्मण दोनों शरीर के धारक होते हैं. इसलिये दोनों शरीर की अववेणा सम्पूर्ण लोक प्रमाण कही है.

रकट बन्ध होवे = सा नारच, + एसा तरह से जो संयुक्त हड्डियों होती है जिसे संघयण. "सो दोनो तरफ की हड्डियों मरकट बन्ध कर बन्ध होवे, उसपर ऋषभ नाम क हड्डिने वेष्टित किया हो, उस में इनतीनों हड्डियों भेदी हुई कीली होवे, जिस से सर्व शरीर अत्यन्त स्थिर बलकट मजबूत बंधा हुवा होवे सो बज्र ऋषभ नारच संघयण. २ "ऋषभ नारच संघयण" सो जिस मे उपरोक्त सर्व रचना होवे फक्त बज्र की कीली नहीं होवे. ३ "नारच संघयण" सो पटीया और कीली दोनो नहोवे, फक्त मरकट बंध से हड्डियों बंधी होवे ४ "अर्थ नारच संघयण" सो आधा-एकही तरफ मरकट बंध होवे, और दुसरी तरफ सादी कीली होवे ५ "कीलीक संघयण" फक्त सादी कीलीयों से ही हड्डियों की सन्धि का मिलाप होवे और ६ "छेवट संघयण" सो कीली बिना फक्त एकेक हड्डी के आश्रय से दुसरी हड्डियों रही होवे. धक्का लगतेही छूटपड़े-

३२ 'संस्थान द्वार':-जिस आकार में शरीर परिणाम हो उसे संस्थान कहते हैं सो ६ प्रकार हैं:- १. 'सम चउरस्र संस्थान' सो सम-वरोवर, चउ-चारों, अस्र-खोने, अर्थात्-पद्मासन से बैठे हूवे का शरीर दोनों पगों के घुटने का अन्तर और दोनो स्कन्धों का अन्तर इन चारों का अन्तर मध्य भाग वरोवर होवे, और सामुद्रिक शास्त्र के कथनानुसार प्रमाणोंपेत उत्तम लक्षण व्यंजन युक्त होवे सो सम चउ र-स्र संस्थान २ "न्यग्रोध परि मंडल संस्थान" सो न्यग्रोध नाम बड के झाड के जैसा, उपर का सर्वंग सुंदर प्रति पूर्ण शोभित होवे और नीचे बडवाइयों लूटने से अशोभनिक दिखे. तैसे कम्पर के नीचे के शरीर का विभाग विद्रूप होवे. ३ "सादि संस्थान" सादि-आदि नीच का शरीर उत्तम प्रमाणोंपेत होवे, और कम्पर के उपर का शरीर अशोभनिक होवे. ४ "कुब्ज संस्थान" कु-खराव, बज-तरह, अर्थात् जिस के हाथ पग पेट ग्रीवा इत्यादि शरीर के अवयव उत्तम होवे, और हृदय पृष्ठ पेट ही न होवे पीठपर छात्ती पर कुब्ज-हड्डीका टेकरा होवे सो कुब्ज संस्थान. ५ 'वावन संस्थान':-५२ अङ्गल प्रमाणों ठेंगणा शरीर होवे, मध्य का शरीर ठीक होवे और

= जैसे बन्दरी का बच्चा बन्दर को फलांग भरती वक्त उस के हृदय को दृढ ग्रहण करता है. तैसा ही जिन हड्डियों द्रढ बन्धन होवे उसे मरकट बन्ध कहा जाता हैं. मरकट नाम बन्दर का है.

+ बज्र-ऋषभ-नारच-यह तीनों शब्द समय भाषा के हैं जिसका ऐसा अर्थ होता है!

हाथ पांव छोड़े होवे सो वावत स्थान, और ६ 'हुंड संस्थान' सो जिस के सब अङ्गो पाङ्ग खराव आये जले मुरेदे जैसे खराव होवें सो हुंड संस्थान.

३८ मरण द्वारः—मरती वक्त में आत्म प्रदेश दो तरह से निकल ले हैं;—१ जो कीडीयों की नाल की तरह समय २ धीरे २ थोड़े २ प्रदेशों निकल कर जिस गति में जाना हो वहां का ताता बाना बान्धे, पीछे से ८ रुचक प्रदेशों के साथ आत्मा गमन करे उसे समोया कहते हैं. और २ जो बंदूक के भडाकेकी माफिक एकदम सब प्रदेशों साथ ही निकल जावे उसे असमोया मरण कहते हैं.

३९ विग्रह गति द्वारः—वरकर प्रथम शरीर त्याग जीवों दुसरि गति में दो तरह से जाते हैं; १ जो जीव प्रथम शरीर को छोड़े बाद सीधा एक समय मात्र में नियमित गति में जाकर उत्पन्न हो जावे सो ऋजु गति. और २ जो शरीर छोड़े बाद रत्ता भूलकर इधर उधर चल जावे सो जीव जवन्य एक मोड, मध्यम दो मोड और उत्कृष्ट तीन मोड तक खाता है, जितनी मोड खाता है, उतने ही समय अनाहारिक रहता है, फिर अनुपूर्वी नामक कर्म उसे खेंचकर नियमित गति में ले जाते हैं, उसे विग्रह गति कहते हैं.

४० सर्ग मर्याद द्वारः—सर्ग (देव लोक) २६ हैं;—१ सुधर्मा, २ इशान, ३ सनत कुमार, ४ महेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६ लान्तरु, ७ महाशुक्र, ८ महसार, ९ आण, १० पाण, ११ अरण, और १२ अचुत (इन १२ को देवलोक या कल्प कहते हैं, क्योंकि इन में रहने वाले देवताओं के मालक-राजा इन्द्र हैं. उन ले कल्प मर्यादा बन्धी है, उस मर्याद प्रमाणें सर्व देवताओं चलते हैं. इसलिये इन १२ को कल्प भी कहते हैं.) १३ भदे, १४ सुभदे, १५ सुजाये, १६ सुमान ले, १७ सुदंशणे, १८ प्रियइतणे, १९ आमोह, २० सुपाडिभदे, २१ यजोधरे, (इन ९ को ग्रीवक कहते हैं क्योंकि यह स्थान पुहवाकार लोक के ग्री-ग्रीवा-गरदन के स्थान हैं) २२ विजय, २३ विजयंत २४ जयन्त, २५ अपराजित, और २६ सर्वार्थ सिद्ध. (इनों को अनुत्तर विज्ञान कहते हैं. क्योंकि यहनव दीमाणों में अनुत्तर-प्रयान-श्रेष्ठ हैं. और उपर के १४ सर्ग को कल्पतीत कहते हैं, क्योंकि—यहां देवता के शिरपर कोई मालक-इन्द्र नहीं है. इसलिये यह स्वच्छे चारी हैं परन्तु यहां फक्त जैन लिङ्गी साधू ही उत्पन्न होते हैं इसलिये यह अमर्यादित कृतव्य कदापि नहीं करते हैं.)


४१. षटस्थान हानी वृद्धि द्वारा;—यथा दृष्टान्त असत्य कल्पना से जैसे-पाव भ गुड, शेर भर शकर और मण भर मिश्री. इन पदार्थों में भाग (वजन) की अपेक्षा ३ गुड संख्यात गुण, शकर असंख्यात गुण, और मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुणा. तै साही गुण (मिठाम) में—गुड संख्यात गुण मिष्ट, शकर असंख्यात गुण मिष्ट और मिश्री अनन्त गुण मिष्ट. यह ३ बोल भाग आश्रिय और ३ गुण आश्रिय मिलकर ६ बोल वृद्धि आश्रिय कहै. तैरे ही इन ६ बोलो को उलट गिन ने से ६ हानी के बोल होते हैं. यो बड गुण हानी वृद्धि के १२ बोल जानना

इति संसारा रोहण नामक तृतीय खंड






चतुर्थ खंड-धर्मा रोहण



धर्मा रोहण के ३३ द्वारोंका अर्थ.



१. मूल उपयोग द्वारः— मूल उपयोग दो हैंः— १ “ साकार बहुता ” सोज्ञान. अर्थात्-अकारादि स्वर और क कारादि व्यंजन से अक्षर श्रुत रूप आकार होवे और जो वस्तुका बाह्य स्वरूप आकार जाने, इस विपेश ज्ञानको साकार बहुता कहते हैं, और १ अनाकार बहुता सो दर्शन. अर्थात् ज्ञानसे जानी हुई वस्तुका सामान्य रूप गुण का जो अन्तःकरण में भाप होवे सो दर्शन निराकार उपयोग है

२. विपेश उपयोग १२ हैं. जिसमें सकार बहुताके ८ भेदः— १ मतिज्ञान सो बुद्धि निर्मल होय । २ श्रुतिज्ञान सो शास्त्र सम्बन्धि जानपना. ३ अवधिज्ञान मर्याद प्रमाणें दूरवर्ती पदार्थोंको देखे. ४ मन पर्यवज्ञान अहीद्रुपके अन्दरके जीवोंके मनकी बात जाने, और केवल ज्ञान सो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भावको जाने (यह ५ ज्ञान) और अवल कहे तीनों ज्ञानोंसो मिथ्यामति कर विपरीत भाप हाणे लगे इसलिये उन तीनोंको १.मतिअज्ञान, २श्रुतिअज्ञान, ३ विभङ्गज्ञान, कर बोले जाते हैं. यह पांच ज्ञान और तीन अज्ञान मिल सकार बहुता उपयोगके ८ भेद हुवे. ॥ और अनाकार बहुताके चार भेदः— १ आखोंसे देखे हुवे पदार्थके गुण अन्तःकरण में भाप होवे सो ‘चक्षु दर्शन’ २ आखोंविन चारों इन्द्रियोंसे और मनद्वार गृहण किये पादार्थका अन्तःकरण में भाप होवे सो ‘अचक्षु दर्शन’ ३ अवधी ज्ञानसे गृहण किये पदार्थोंका

रत्नकी, और ९ मोटी पट्टि. इनका स्वरूप:— १ चक्र रत्न सों. छेशे खण्ड साधणे का रस्ता बतौव. २ 'छत्ररत्न' १२ योजन में छांहकरे शीत ताप पाणी से बचौव. ३ 'दण्डरत्न' वेताड पर्वत की गुफाके क्रमाड खोले, रस्ता सम करे- ४ 'खड्गरत्न' हजारों कोश दूर रहे शत्रुकी भी घातकरें [यहचारों चक्रवर्तिकी आयुध शाळामें उत्पन्न होते हैं.] ५ 'मणिरत्न' बारह योजनमें चन्द्रमाके जैसा प्रकाश करे. ३ कांगुणिरत्न सोनारके ऐरण के जैसा चारों तरफ चार २अङ्गुल होता है, इससे तमस गुफाम आर खण्ड प्रापात गुफामें एकेक योजनके अन्तरसे गोलचन्द्रमा जैसे मण्डल अलेखते हैं. जिससे चक्रवर्ती जीते रहे, वहांतक उत रस्तमें प्रकाश बना रहता है, और ७ 'चरम-रत्न' शंगा सिन्धु जैसे बडी छोटी नदीयों में डालनेसे १२ योजनकी नावारूप बन जाता है जिसमें सर्व सेना युक्त चक्रवर्ती स्वारहो पार हो जाते हैं. तथा खेतरूप बन सर्व प दार्थ लिपजा देता है (यह तीनों लक्ष्मी भंडारमें उपजते हैं) (यह ७ एकेन्द्रियरत्न) ८ 'सेनापतिरत्न' भरत क्षेत्र में के बीचमेंके दोनों खण्ड छोडकर बाकीके चारों खण्डों का साधन करे. ९ 'गाथापति' चरम रत्नको खेतस्वरूप बना उत्तमें अनाज मेवे म-शाले बावे, वो एक प्रहर में सब तैयार हो जावे, उने दुसरे पहर में रान्ध कर-पका कर तीसरे पहर में सब सेना को जीमा देवे. १० 'बडाइ रत्न'—चक्रवर्ती का जहां प-ढाव होवे वहां बारह योजन लम्बा नव योजन चौडा राज मेहल पोपध शाळा सहित एक मुहुर्त मानमें नगर बसा देवे ११ 'पूरोहित रत्न'महुर्त शकुन स्वप्न फल सामुद्रिका दि बता वे. शान्ति पाठ पढे. (यह चारों रत्न चक्रवर्ती की नगरी में उत्पन्न होते हैं.) १२ 'स्त्री रत्न'—श्री देवी-वेताड पर्वत पर उत्तर दिशा की विद्या धरों की श्रेणि में राज कन्या महा दिव्य रूप वन्त परमाणों पेत उत्तम लक्षण व्यजन सम्पन्न होनी है, कुमारी का की तरह सदा योवन वन्वि रहती है. १३-१४ अश्व रत्न और गज रत्न दोनों वेताड पर्वत के मुल में उत्पन्न होते हैं. खुद चक्रवर्ती को सवारी में काम आते हैं. (यह ७ पचेन्द्रिय रत्न] (यह १४ ही रत्ना चक्रवर्ती राजा के होते हैं. इनकी ए-केक के एकेक हजार देव अधिष्टायक होते हैं.) १५ 'तीर्थकर' चारों तीर्थोंके स्थाप क सर्व जगत्के पूज्य महन धर्म गुरु सर्वज्ञ सर्व दर्शी होते हैं. १६ 'चक्रवर्ती' सपूर्ण भरत क्षेत्र के स्वामी, हजारों देवों के पूज्य, महा ऋद्धि वन्त महाराजा होत हैं. १७ 'वासुदेव' आधे भरत के स्वामी चक्रवर्ती से आधी रुद्धि वाले होते हैं. १८ 'बलदेव' व-सुदेव के बडे भाइ होते हैं, परन्तु रुद्धि आधीही पाते हैं. (यह ४ उत्तम पुरुष) १९

केवली' सर्वज्ञ सर्व दर्शी, महाज्ञानी महात्मा. २० 'साधु' २७ गुण युक्त. २१ श्रावक-
२१ गुणयुक्त. २२ 'सम्यक दृष्टि'-शुद्ध श्रद्धावन्त और २३ मंडलिक राजा-एक देश
का अधिपति. (यह ९ महा पट्टी.)

१.२ आत्मा द्वारः—जो खुद जीव द्रव्य है सो द्रव्यात्मा. २ उसकी क्रोधादि क-
षाय मय प्रणति परिण में सो कषायात्मा, ३ मनादि जोग में प्रणति परिण में सो
जोगात्मा. ४ शुभाशुभ उपयोग में परिण में सो उपयोगात्मा. ५ ज्ञान में परिण में सो
ज्ञानात्मा, ६ दर्शन देखने में परिण में सो दर्शनात्मा. ७ चारित्र रूप परिणमा परि
ण में सो चारित्रात्मा. और ८ शुभाशुभ कृत्यों में धीर्य वन्त उद्यम वन्त होवे सो 'वी
र्यात्मा.'

१.२ ध्यान द्वारः—सो ध्यान ४ प्रकार के होता है:—१. अर्त ध्यान, २ रौद्र-
ध्यान (यह दोनों ही खराब हैं. सो छोड ने योग्य हैं. और) ३ धर्म ध्यान, ४ शुक्ल
ध्यान (यह दोनों अच्छे हैं सो आदरणीय है.)

१.३ ध्यान के पाये द्वारः—चारों ध्यान के १६ पाये होते हैं: प्रथम आर्त ध्य-
न के ४ पाये:—(१) अनिष्ट के संयोग से, (२) इष्ट के वियोग से, (३) रोग के उद्भव
ने से. और (४) भोग की इच्छा से जो विचार होवे सो आर्त ध्यान +। दुसरा रौद्र
ध्यान के ४ पाये—(१) हिंसा की (२) झूठकी (३) चोरी की और (४) विषय के संरक्ष
ण की इन चारों की अनुमोदना कर ते जो विचार होवे सो रौद्र ध्यान. ×। तीसरे
धर्म ध्यान के ४ पाये:—(१) आणा विचय:—जिनाज्ञा में रहने का, (२) अपाय विचय
कर्मों के नाश का, (३) विपाक विचय-कर्मोंके फल का. और (४) संस्थान विचय-

+ आर्त ध्यान के ४ लक्षण-१. आक्रन्द करे, २ शोग करे, ३ रुदन करे, और ४
विलापात करे.

÷ रौद्र ध्यान के ४ लक्षण-१. थोडा दोष लगावे, २ बहुत दोष लगावे. ३ अज्ञानी, ४
अविचारी.

× धर्म ध्यान के ४ लक्षण-१. जिनाज्ञा आराधने की, श्रुत चारित्र धर्म आराधनेकी
३ शास्त्र श्रवणकी और ४ उपदेश ग्रहण करनेकी—इन चारोंकी रुची वाला होवे। धर्म ध्या
नी के ४ आलम्बन-१. सूत्रादि धर्म ग्रन्थों का पठन करे, २ संशय निवार ने प्रश्न पूछे. ३
असंखलित करने पर्यटना करे, और ४ धर्म वृद्धि करने धर्म कथा कहे. धर्म ध्यानी की ४

लोक के संस्थान का. विचार होवे सो धर्म ध्यान ÷ । चौथा शुद्ध ध्यान के ४ पाथे-
(१) पृथक्त्व वीतर्क-अलग २ पर्यायों को वीतर्क सहित विचारे, (२) एकत्व वीतर्क-एक ही पर्याय को वीतर्क सहित विचारे विचार-पलटे नहीं. (३) सूक्ष्म क्रिया अप्रति पाति फक्त इर्यावही क्रिया. और अपडवाइ होवे. और ४ 'व्युच्छिन्न किरिच्छि अन्निवृत्ति ध्याता' सर्व क्रिया रहित मोक्ष मार्ग में अखण्ड प्रवर्तक.

१४ 'द्रव्य द्वार'-द्रव्य ६ प्रकार के:- १ धर्मास्ति, २ अधर्मास्ति, ३ आकास्ति, ४ काल, ५ जीवास्ति, और ६ पुद्गलास्ति.

गाथा-परिणाम जीव मुक्ता । सपएसा एग खित्त, किरियाए ॥

णिच्चं कारण कत्ता । सब्व गइ इयर अपवेसा ॥१॥

अर्थ-छेहो द्रव्यों में से 'परिणाम' जीव और पुद्गल अन्य द्रव्यों में परिणम ने से परिणामी हैं. और चारों द्रव्यों निज स्वभाव में ही रहनेवे अपरिणामी हैं. 'जीव जीवतो चेतन्यादि लक्षण युक्त जीव है और पांचों निर्जीव हैं. 'मुक्ता'-पुद्गल देखने में आते हैं सो मूर्ति है. और पांचो अमूर्ति है. 'सपएसा'-काल है सो अप्रदेशी है और पाचों सप्रदेशी है, जिस में आकास्ति और पुद्गल आस्ति तो अनन्त प्रदेशी है. बाकी तर्नों असंख्यात प्रदेशी हैं. 'एगे'-छहों द्रव्यों में-धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाशस्ति यह तीनों एक एक द्रव्य हैं. और काल जीव पुद्गल अनन्त हैं. 'खित्त'-आकाश तो सब जीवों को अवगहा (स्थान) देता है, इसलिये क्षेत्र हैं. और पांचों द्रव्य आकाश रूप क्षेत्र में रह ने से क्षेत्री हैं. 'किरियाय' जीवके और पुद्गल के संयोग से

अनुप्रेक्षा-१. पुद्गलिक वस्तु अनित्य जाने. २ संसार का सम्बन्ध असार जाने, ३ आत्माको एकली जाने, और ४ संसार को दुःख का कारण जाने.

÷ शुद्ध ध्यानी के ४ लक्षण:- १. बाह्य अम्यन्तर संयोग से सदा अलग रहै. २ राग द्वेष नाश करे या पतले करे. ३ तीनों योगों को स्थिरा भूत करे. और ४ सर्वथा मोहका नाश करे. ३ शुद्ध ध्यानी के ४ आलम्बन:- १ शान्त स्वभावी होवे. २ निर्लोभी होवे, ३ शरल स्वभावी होवे. और ४ निर्भिमाना होवे. । शुद्ध ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षा-१. पाचों आश्रय को अपाय का कारण जाणे. २ अनन्त संसार की प्रवृत्ति से निवृत्ते. ३ अशुभ की उत्पात्तिसे दूर रहै. और ४ पुद्गलों के स्वभाव मे परिणम नहीं.

हरेंक क्रिया निपजती है. और चारों द्रव्य अक्रिय हैं. 'णिचं' पुद्गलों की पर्यायका पल्य होता ही रहता है। जिस से अनित्य है. और पाचों द्रव्य नित्य हैं. कारण— जीव के पांचों द्रव्य काम में आवे इसलिये पांचों कारणी, जीव अकारणी. 'कृत्ता'— जीव ज्ञान युक्त है इसलिये सब कार्यों का कर्ता है. पांचों अकर्ता हैं. "सव्वगइ इयर अपेवसा" और सर्व स्थान एक आकाश द्रव्य भारा है.

१.५ 'परिणाम द्वार'—सो जो घटते जावे—पढते जावे उसे ह्यमान परिणाम क हते हैं. जो बढते जावे सो वृद्धमान. और जो सदा काल एकसे बने रहै घटे बढे नहीं सो अचुटीया परिणाम.

१.६ वीर्य द्वार—सो १ जो अज्ञानी अत्रि जीवों उद्यम करते हैं. पराक्रम फोडते, हैं, सो वालवीर्य. २ जो श्रावक जन कुछ धर्म मार्गमें और कुछ संसार मार्गमें दोनों तरफ पराक्रम फोडते हैं सो वाल पण्डित वीर्य. और ३ जो मुनिराजों एकान्त धर्मार्थ पराक्रम फोडते सो पण्डित वीर्य

१.७ 'तीर्थ तीर्थ द्वार'—जो संसार समुद्र के किनारे आ रहे ऐसे मोक्षगामी सा धु साधी श्रावक श्राविका को तीर्थ कहे जाते हैं. और चारों सिवाय जो जीवों है. वे अतीर्थी कहे जाते हैं.

१.८ साम्यकत्व द्वार:— सो सम्यकत्व ५ हैं;— १ उपशम, २ क्षयोपशम, ३ सास्वादने, ४ वेदक, और ५ क्षायिक, इनका स्वरूप (१) किसी जीवको पहिली किसी भी वक्त साम्यकत्वकी प्राप्ति न हुइ. वो जीव काललब्धि परिपक्व होते स्वभावसे ही अकाम [परवश्य] निर्जराकर आयुष्य कर्म+विना सातों कर्मोंकी स्थिति १ कोडाकोडी सागरोंपम में पल्यो पमके अक्षरख्यातवे भाग कम करे. और कदापि नहीं बन्ध करे तो भी इतनी स्थितिके अन्दर काहीं करें, परन्तु ज्यादा नहीं करें ऐसे कर्म हलके होने से जीव मिथ्यात्व मोहनीय के दल को उदय भावसे निवार सात्तमें दल स्थापन करे. जैसे— कीचडसे डोहले हुवे पाणीमें केतकका बीज डालनेसे कीच जम जाता—नीचे बैठ जाता है तैसे अनन्तानवन्य चाँक और तीनों मोहनीयको उपशमावे उसवक्त मिथ्यात्व रस नहीं हो शक्ता है सो उपशम सम्यकत्व. जैसे वो पाणी हलनेसे पीछा गदलाहो जाता है, तैसे इस सम्यकत्व वाले के अन्तर मुहूर्त बाद पीछा उदयहो जाता है. (२) क्षयोपशम सम्यकत्व सो पहिली १ प्रकृतियों तो प्रदेश उदय मेही है और १ सम्यकत्व मोहनीय विपाक उदय में है. इसलिये इसमें चल मल और अवगाढ तीनों दोषो रहतेहैं.

जैसे वृद्ध पुरुष आश्रय निमित्त जैष्ठिका [लकडी] गृहण करता है परन्तु उसे द्रव भी गृहण नहीं कर सकता है, और छोड़ता भी नहीं है, तैसेही इस साम्यकत्व वाले तीनों तत्वों की शुद्ध श्रद्धा तो रखते हैं परन्तु इस लोकके सुखार्थ उनका भजन सेवन करें पुद्गलिक सुख की वांछा करे. इनने मिथ्यात्वकी वर्गणा उदय में आइ उसका क्षय किया परन्तु साम्यकत्व मोहरूप कुछ अंश रहगया सो क्षयोपशम साम्यकत्वी. (३) सास्वादन सम्मकत्वी सो - उपरकही हुइ उपशम और क्षयोपशम साम्यकत्वमें वर्तते अनन्तान वन्धिका उपशम क्रियाथा उसका पुनः उदय होनेसे मिथ्यात्वकी तरफ जीव गमन करें, वो अन्तरालवर्ती रहे वहां तक सास्वादन साम्यकत्व रहती है. (४) 'वेदक साम्यकत्व - क्षयोपशम साम्यकत्व में उपशमाइ हुइ प्रकृतियों सर्वथा क्षयकर आगे वडे, और क्षायिक साम्यकत्व प्राप्त नहीं कर सके उसके बीच में उन सत्तों प्रकृतियों को क्षपाने के लिये १. समय मात्र वेदे सो वेदक साम्यकत्व. (२) 'क्षायिक साम्यकत्व' ऊपरोक्त सातों प्रकृति का सर्वथा नाश होनेसे सर्व दोषों रहित अत्यन्त विशुद्ध निर्दोष जो गुणकी प्राप्ति होवे सो क्षायिक साम्यकत्व. यह सादि अनन्त होती है.

१९ "संयता संयति द्वारः"—जो सर्व विरति साधु होवे सो संयति जिनके बहु त व्रत होवै और कुछ आगर होवे सो श्रावक संयातासंयति. और जिनके कुछ भी व्रत नहोवे सो असंयति.

२० लिङ्ग द्वारः—जिस भेष को देख लोको को परतीत होवे की यह अमुक (गृहस्थ या साधु) पुरुष हैं. उसे लिङ्ग-चिन्ह कहा जाता है. सो तीन प्रकार के होते हैं:—१ जो रजुहरण मुहपति आदि जैन मुनिके भेषके धारकसो स्वलिङ्ग, जोचिमटाघोटा भगवे वस्त्र आदि बाबा जोगी भेषके धारक सो अन्य लिङ्ग, और इपगडी अङ्गरखा आदि गृहस्थ का भेष सो गृहलिङ्ग.

२१ चारित्र द्वारः—चारों गतिसे उद्धार कर आत्मा को पञ्चम मोक्षगति में पहुँचावे तथा चारों कापाय आत्मा में उद्धार कर शान्त दान्त आदि गुण प्रगटोवे सो चारित्र के ५ प्रकारः—१ सामायिक चारित्र—द्रव्य से तावद्य (पाप कारी) योगों की प्रवृत्ति और भावसे रागद्वेष मन्दहो परिणामों में सुख दुःख के विपवाद रहित जो स मगुण की प्राप्ति होवे सो सामायिक चारित्र, इसके दो भेदः—(१) प्रथम और चरम तीर्थंकरों के मुनीवरों अवल सामायिक चारित्र धारण करतेहै. फिर उनको जघन्य ७ दिन वाद, मध्यम ४ महीने वाद, और उत्कृष्ट ६ महीने वाद छेदोस्थापनीयचारित्र

में आरोपण किये जाते हैं। सो 'इतरीय सामायिक चरित्र' × और (२) मध्यके २२ तीर्थकरों के साधु जाव जाव पर्यन्त सामायिक चारित्र वन्तही रहते हैं। सो अवकाहीय सामायिक चारित्र २ छेदो स्थापनीय चारित्रसो जैसे छिदे फटे हुवे वस्त्र को जो ड कर (सीकर) वरोवर करते हैं, तैसेही चारीवीयो दोषित आत्मा को फिर विशुद्ध करे सो छेदोस्थापनीय चारित्र इसके दो भेदः—१ प्रथम चरम तीर्थकरों के वारेमे के साधुओं मूलगुण पंच महाव्रतों उत्तर गुण समिती गुप्ति प्रत्याख्यानादिमें अना चीर्ण लगाकर धातिक होवे उनको पुनः संयम में स्थापन करने नवेसिर महाव्रतों का आरोपण करे, जितसे पूर्व पर्याय का विच्छेद होवे सो सअतीचार छेदोस्थापनी. और इतरीये सामायिक चारित्रीये को किसी भी दोष के विन सेवन कियेही ७ वे दिन ४ महीना या ६ महीने में जो महाव्रतों का आरोपण किया जावे सो तथा तीर्थकरों का स्मरण का संक्रमण होते अवस्थित कल्प से स्थितित कल्प अङ्गिकार करे निर्दोषो को भी छेदोस्थापनी किये जाते हैं. + सो निरती चार छेदोस्थापनी ३ परिहार विशुद्ध चारित्र सो उत्तम तप, उत्तम परिणाम, उत्तम पर्याय से सदा शुद्ध व्रति रहे सो परिहार विशुद्ध चारित्र, इसके दो भेदः—(१) परिहार विशुद्ध चारित्र में प्रवेश करते मुनिको निरविभमान कहते हैं यह और (२) तपने निवृत हुवे मुनिको निरविवृकाय कहते हैं, यह परिहार विशुद्ध चारित्र प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों की वक्तमें तीर्थकर विराज मान होते हैं उसही वक्त होता है. २२ तीर्थकरों के वारे में महाविदेह क्षेत्र मै या तीर्थकर मोक्ष गये बाद यह चारित्र नहीं होता है. और जिनोंने पहिले परिहार विशुद्ध चारित्र अङ्गिकार किया हो उनही के पास दुसरे परिहार विशुद्ध अङ्गिकार कर सक्ते हैं. दुसरे के पास नही यथा दृष्टान्त जैसे १ साधु ओं परिहार विशुद्ध चारित्र पालने प्रवर्त हुवे. उनमें से एक साधुतो कल्पास्थित होवे. उनके समित्य आठों साधु समाचारी का वाहन करें, उन आठ साधुओंमें से चार साधु तप करे।

× कितनेक आचार्या गृहस्थ की सामायिक को इतरीय सामायिक चारित्र कहते हैं. और साधु की सामायिक का अवकाहीय सामायिक चारित्र कहते हैं.

+ जैसे श्रीमहावीर स्वामी के सासण की प्रवर्ति हुवे बाद पार्थ नाथजी के संतानीये केशी श्रमणको गोतम स्वामी ने छे दो स्थापनीय चारित्र दे भेले किये.

सो परिहारिक साधु कहे जाते हैं. और चार साधु उनकी वैयावच्च करें सो अपरिहारिक साधु कहे जाते हैं. ६ महीने हुवे बाद परिहारिक (तपश्वी) साधु ओं तो अपरिहारिक वैयावच्ची बनते हैं. और अपरिहारिक परिहारिक बनते हैं. फिर छे महीने हुवे बाद जो पहिले एक साधु कल्प स्थित रहेथे वो परिहारिक बनतेहैं. और आठों उनकी वैयावच्च करते हैं. अबजो परिहारिक साधु तप करते हैं वो उष्ण ऋतु में जघन्य चौथ. (१. उपवास) मध्यम छट्ट [वेला] उत्कृष्ट अठम (तेला) करे, शीत ऋतुमें जघन्य छट्ट (वेला) मध्यम अठम(तेला)उत्कृष्ट दशम(चौला) और वृषा ऋतुमें जघन्य अठम(तेला) मध्यम दशम(चौला)उत्कृष्ट द्वादशम(पचौला)करे, और जो अपहारिक साधु यद्यपि नित्य आहारिक रहते हैं, तद्यपि अंजिल करते हैं. यों १८ महीने हुवे बाद जो इच्छा हो ती पूर्वोक्त परे पुनः तपकरे, और नहीं तो पीछे गच्छमें मिलजावे, ऐसी तरह तप करेसो परिहार विमुद्ध चारित्र कहा जाताहै. यह चारित्र छेदोस्थापनीय चारित्र यों केहीहोता है. दुसरे के नहीं और २९वर्ष की वय हुवे बादही अङ्गीकार किया जाताहै क्यों कि-२. वर्ष की वय हुवे बाद तो दीक्षा गृहण करे और २० वर्ष की दीक्षा हुवे बाद स्थिर पणा प्राप्त होवे तबही परिहार विमुद्धि होसकते हैं. ४ 'सूक्ष्म सम्पराय चारित्र' सूक्ष्म अत्यन्त पतली, सम्पराय कषाय अर्थात् फक्त संज्वल का किंचित मात्र लोभ रूप कषाय रहगइ है ऐसे दशवे गुणस्थान वर्ती मुनिको सूक्ष्म सम्परायी चारित्री कहते हैं. इसके दो भेदः-(१) उपशम श्रेणि से गत इग्यारवे गुणस्थान से पडते हुवे दशवे गुणस्थान में आवे उनके संकेशमय परिणामों की वृद्धि होने से संकेश मान सूक्ष्म सम्परायी कहे जाते हैं, और (२)नववे गुणस्थान में विषय कषाय रहित हो दशवे गुणस्थान में आये हैं, सूक्ष्म लोभ रहा है. उसे उपशमाने तथा क्षपाने के उद्यमीहै अन्तर मुहूर्त बाद उपशम कषायी वीतरागी होने वालेहैं. सो विमुद्ध मान चारित्री. ५ यथाख्यात चारित्र यथा जैना. ख्यात फरमाया अर्थात् श्रीतीर्थंकर भगवान ने शास्त्र, द्वारा जैसा आचार गोचार फरमाया है, वैसाही बरोवर किंचितही न्युन्या धिकता रहित वीतरागी भाव से पाले सो यथा ख्यात चारित्र, इसके दो भेदः-(१) उवशान्त मोह गुणस्थान वर्ती वर्तमान में सर्वथा कषाय का उपशम कर शान्त स्वरूपी-यथाख्यात चारित्री हुवे हैं. परन्तु उनके कषाय सत्ता रूप बनी है सो उनको निश्चय से गिरावेगा इसलिये उसे पडवाइ यथाख्यात चारित्र कहना. और (२) बारवे तरवे चउदवे गुणस्थान वर्ती सर्वथा कषाय का मूलमें ने नाश कर अकषाइ वीतरागी बने वो

पीछे कदापि पडे नहीं सो अपडवाइ यथाख्यात चारित्रि.

२२ नियंटा द्वारः—कर्म रूपी ग्रन्थी-(गाँठ) से छुटने वाले होवे सो निग्रन्थ ६ प्रकार के होते हैं.—१ 'पुलाक निग्रन्थ'—यथा दृष्टान्त—जैसे खेत में से शाली नामक धन्य के वृक्षों को काट कर एकस्थान ढग किया, उस में-धान्य-अनाज तो थोडा और कचरा (घांस) बहुत होता है. जिन में चारित्र के गुण तो अनाज जैसे थोडेही पाते हैं. और दोष बहुत बड पावे हैं. ऐसे निग्रन्थ के दो भेदः—(१) लब्धि पुलाक सो जो पुलाक लब्धि के योग से कोपायमान हुवे चक्र वृति की सेना का चूर्ण कर डाले, और (२) दुसरे प्रति सेवना पुलाक के दो भेदः—(१) मूल गुण पुलाक सो महा व्रत का भङ्ग करे, और (२) उत्तर गुण पुलाक के ९ भेदः—एक-ज्ञान पुलाक सो ज्ञान की विराधना करे, दुसरे दर्शन पुलाक सो-सम्यक्त्व का भङ्ग करे, तीसरा-चारित्र पुलाक सो-दश पञ्चखाण समिति गुप्तिका भङ्ग करे. चौथा-लिङ्ग पुलाक सो साधु के धेप का पलटा करे, और पांचवा-यथा सूक्ष्म पुलाक सो-अन्तः करण में कषायदि की प्रवृत्तता रहै. । २ बुकस नियंटा सो-यथा दृष्टान्त-उस शाली वृक्ष के ढग में से घास-पराल निकाल अलग डाले तब भी उस शाली के ढग में पूर्व की अपेक्षातो कचरा बहुत कम होगया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा है, तैसे ही-गुण थोडे और दुर्गुणों की विशेष ता होवे सो बुकस निग्रन्थ-इनके दो भेदः—(१) शरीर बुकस सो हाथ पांव पखाले, शरीर की विभूषा करे. और (२) उपकरण बुकस सो वस्त्र पत्र शुशोभित रखवे. और भी बुकस निग्रन्थ के-५ भेदः (१) अभोग बुकस सो-ज्ञानके दोष लगावे. (२) आना भोग बुकस सो-अनजान में दोष लगावे (३) सबुड बुकस सो छिपकर दोष लगावे. (४) असबुड बुकस सो-प्रगट दोष लगावे. और (५) यथा सूक्ष्म बुकस सो-अन्तः करण में कषाय की तीव्रता रखवे. यों अतीचारों कर संयम गुणों को कावरे बनावे सो बुकस निग्रन्थ जानना. । ३ प्रति सेवना निग्रन्थ सो यथा दृष्टान्त-जैसे उस शाल के ढग को खले में डाल बेलोंके पग से चगदा हवा में उडा-उफण उस में का कचरा दूरकर शाल का एक तरफ ढग करे, उस में किंचित मटी, कुछ फोंतरे आदि कचरा होनेसे अनाज की और कचरे की तुल्यता हीतीहै, तैसे ही-जिन मुनि के गुण अवगुण की तुल्यता होवे सो-प्रति सेवना निग्रन्थ इन के दो भेदः (१) प्रति सेवना कुशील सो किंचित दोष सेवन करे, जिसके ५ भेदः—(१)ज्ञान प्रति सेवना सो ज्ञान के १४ अतिचार लगावे. अल्प ज्ञाताके योग से हीनाधिक पठन उ-

ए ए पंच पम्माया । जीवा पडन्ति संसारे ॥ १ ॥

अर्थ.—१. मदः—मद-मदीरा के नशे में मनुष्य वे भान होते हैं तैने ही-(१) जति मद, (२) कुल मद, (३) वल मद, (४) रूपमद, (५) तप मद (६) सूत्र मद, (७) लाभमद, (८) इश्वरी मद. इन मद में से एक मद मे छका हुआ आत्म वे वश्यहो जा ता है, तो जो आठोंही मद मे छक जाता है उसुकी क्या दशा ! । २ विषय जैसे-विष जेहर खाने से प्राणी की अकाल मृत्यु निपजती है. सो (१) श्रुत इन्द्रियकी ३ विषय (२) चक्षुइन्द्रिय ५ विषय (३) घणेन्द्रिय की २ विषय (४) रसेन्द्रिय ५ विषय (५) स्पर्शेन्द्रिय की ८ विषय यों ५ इन्द्रियों की २३ विषय में से किसी भी एक भी विषय में लुब्ध होने से अत्म गुणों की अकाल मृत्यु होती है, तो जो २३ ही विषय के वशमे लुब्धे उनकी क्या दशा ! ? ३ 'कपाय, जो कर्मों के कष रसकों खेंच कर आत्मा के प्रदेशों पर लपटावे और आत्मा को गुरु (भारी) बनाकर संसार में डूवावे सो कपाय चार प्रकार की है (१) क्रोध, (५) मान (३) माया (४) लोभ, इन चारों मे से किसी भी एक कपाय में रमण करने वाला आत्मा संसार में डूव जाता है, तो जो चारों कपायों में गरक हैं, उनकी क्या दशा ! । ४ निन्दा जो निन्दनीय वस्तु सो निन्दा दो प्रकार कहते हैं. (१) निद्रा के वश में आत्मा वे वश होताहै. और, (२) निन्दा दुसरों के अव्रण वाद बोलने से भी आत्मा मोक्ष से विमुख होता है. ५ विकहा-विकया खोटी कथा (व्यर्थ बातों) चार प्रकार की होती है;-(१) स्त्रीयों के श्रुंगार की कथा, (२) भोजन भक्ष बनाने की स्वाद की कथा (३) राजाओं के वैभव परा क्रमादि की कथा और (४) देशों के रीवाजो की कथा, इन चारों में से किसी एक भी कथा करने से भी वज्र कर्म बन्ध होने का प्रसङ्ग आता है, तो जो चारों विकथा करें उनकी क्या दशा ! ! इन पांचो प्रमाद के वशमे पड आहारक शरीर धारीसु नि भी नरक गामी होजाते हैं. एस भगवतीजी सुव के शतकन्ध उदेश में फरमायाहै.

२६ सरागी वीतरागी द्वारः—जो रागद्वेष मय परिणामों संयुक्त होवे सो सरागी और राग द्वेष रहित द्वेषसो वीतरागी वीतरागी कहनेसे फक्त राग रहित द्वेषही नहीं समझना. क्योंकि पनवणा जीमें फरमाया है. कि-राग जहां द्वेषाकी नीमा (जरूर होवे) और द्वेष जहां राग की भजना अर्थात्-होवे और नहीं भी होवे इसलिये जिनने रागका नाश किया उनने द्वेषका भी नाश जरूरही किया, जिससे उने वीतरागी कहे हैं.

२७ पडवाइ अपडवाइ द्वारः-जो गुणस्थानरोहण कर (चड) पीछे पड जावे सो पडवाइ, और पडे नहीं सो अपड वाइ जानना.

२८ छब्रस्त केवली द्वारः-जिनके ज्ञानके ज्ञानादि आत्मिक गुण कर्मो कर अच्छादित होवे सो छब्रस्त और (२) जिनो के घन घतिक कर्म रूप अच्छादन (ढक्कन) दर होने से पूर्ण तोर से आत्मीक गुण प्रगट होवे सो केवली.

२९ समुद्रघात द्वारः-जो आत्म प्रदेशों का मथन हो किभी प्रकार के गुणाव गुणका घात होवे सो समुद्रघात ७ हैः-१ वेदनी समुद्रघात असाता वेदनीय का उदय होने से जीव हायत्राहा करे सो, २ कषाय समुद्रघात क्रोधादि उत्पन्न हुवे पतलेसे मनुष्य को ५-७ मनुष्य संभाले तो भी संभले नहीं सो, ३ मरणातिक समुद्रघात सो मरती वक्त आत्म प्रदेशों निकलकर जिस स्थान उत्पन्न होना होवे वहां जमे और फिर आत्मा ८ ऋचक प्रदेश के साथ जावे तब क्रोडा क्रोड गुणी वेदना होवे सो, ४ वैक्रय समुद्रघात सो एक रूपके अनेक रूप बनाते प्रदेशों का मथन करेसो, ५ तेजस समुद्रघा, त सो तेजुलेशा प्रगट कर उत्कृष्ट साडी सोल देश वालकर भस्म करेसो, ६ आहारक समुद्रघात सो चउदे पूर्वके पढे हुवे मुनि राज आहारक लब्धि वन्त सन्देह निवारने या समदसरण की रचना देखने आत्म प्रदेशका पुतला बनाकर तीर्थिकर व केवल ज्ञानी के वहां भेज इच्छा पूर्ण करेसो, और केवल समुद्रघातसो केवली भगवन्त के आमुष्य कर्म रहे थोडे और वेदनीय कर्म रहे ज्यादा, तब दोनों को बरोबर करनेके वास्ते आठ समयमें समुद्रघात होती हैः-प्रथम समय आत्म प्रदेश का सातवी नर्क कीर्नाचे से लगा ऊपर मोक्ष तक लम्बा दण्ड रूप होवे दूसरे समय वो दण्ड के पूर्व पश्चिम में कपाट रूप होवे, तीसरे समयमें उन पट्टियोंका उत्तर दक्षिणमें मथन चूरा रूप होवे-चौथे समय में सर्वलोक में अन्तर पूरे (तब सर्व जगत् व्यापी बने) पांचवे समय में अन्तर सहार (भेला) कर पुनः मथन रूप बन जावे, छठे मयमसें मथन सहार कपाट रूप बनजावे सातवे समयमें कपाट सहार दण्ड रूप बनजावे और आठवे समयमें दण्ड सहार कर मूल रूप (अवल थे वैः) बनजावे, उसके बाद कितनेक तो अ इ उ ऋ लृ इन पांचों अक्षरो के उचार में जितनी देर लगे उतेन काल बाद मोक्ष पधार जावे और कितनेक उत्कृष्ट ६ महीने बाद तो जरुरही मोक्ष पावे. x

x दी गम्बरी के तत्वार्थ सूत्र की टीका में लिखा हैकि-जिनका आयुष्य फल ६-

३० देवद्वारः— श्री भगवति सूत्रके शतक उदेशाभे ५ प्रकारके देव फरमाये हैं।

१ 'भवीद्रव्यदेव'— जो जीवों मनुष्य तिर्यच के भवमें देव गतिका आयुबन्ध कर बैठे हैं (मरकर देवता होंगे) वो भवी द्रव्य देव कहे जाते हैं। यह जुगलिये मनुष्य तिर्यच और सर्वार्थ सिद्धके देवता सिवाय+सर्व स्थानसे आकार उत्पन्न होते हैं। और मरकर देव गति मेंही जाता है। इनकी स्थिति जघन्य अन्तर मुहूर्त की उत्कृष्ट ३३ सागरकी होती है। २ 'नरदेव' चौरासी २लक्ष हाथी घोडे रथ. छिन्नू क्रोड पायदल सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के महाराज चक्रवर्ती होते हैं, सो नरदेव कहे जाते हैं। यह चारों जातिके देवता और प्रथम नरकसे आकर उत्पन्न होते हैं और मरकर नर्क में जाते हैं। ÷ इनकी स्थिति जघन्य ७०० वर्ष की, उत्कृष्ट ८४ लक्ष पूर्वकी होती है। ३ 'धर्मदेव' पाच महाव्रत के पालक साधुजी महाराज सो धर्म देव कह जाते हैं, यह छही सातवी नर्क, मनुष्य तिर्यच युगलिया, तेउवायु इन स्थान सिवाय सर्व स्थानके आये हुवे होते हैं। और मरकर देव लोक में तथा मोक्ष में जाते हैं। इनकी स्थिति जघन्य अन्तर मुहूर्त की उत्कृष्ट क्रोड पूर्वकी होती है। ४ 'देवाधिदेव' जो अनन्त चतुष्टयके धारक सर्व जगत् के पूज्य श्री तीर्थकर भगवन्त सो देवाधिदेव. यह प्रथमकी तीन नर्क और वीमानीक देवता के आकर उत्पन्न होते हैं और मोक्ष पधारते हैं। इनकी स्थिति जघन्य ७२वर्षकी उत्कृष्ट ८४ लक्ष पूर्वकी होती है। ५ 'भावदेव' जो भवनपति, वाणव्यन्तर, जोतिपी, वीमानी, इन चारों जातिके देवों (जो देवता के भाव में विराजमान हैं उन) को भाव देव कहे जाते हैं। यह सज्ञी मनुष्य तिर्यच पंचेन्द्रिय से आकर होते हैं। और मरकर प्रथ्वी पाणी वनस्पति मनुष्य तिर्यच में जाते हैं। इनकी स्थिति जघन्य दशहजर वर्षकी उत्कृष्ट ३३ सागर की। इन पांचो देवों में से सब से थोडे नरदेव १२ ही होते हैं। इनसे देवाधिदेव संख्यात गुणों क्योकी २४ होते हैं। इनसे धर्म देव संख्यात गुणा क्योकी उत्कृष्ट नव-

महीनेही बाकी रहा होय उनको केवल ज्ञान की प्राप्त होवे, वोही समुद्र घात करतेहैं। अन्य नहीं। परन्तु यह बात मिलती नहीं। क्योकि तीर्थकर के भी हेता है

÷ क्योकि—युगलिया मरकर तो फक्त देवताही होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धके देव मनुष्य हो मोक्ष में ही जाते हैं।

+ चक्रवर्ती जो संयम लेवेतो स्वर्ग मोक्षमें जाते हैं। परन्तु तत्र नर देव नहीं रहतेहैं। धर्म देव या देवाधी देव होते हैं।

हजार क्रोड होते हैं। इनमें भवीद्रव्य असंख्यात गुणे क्योंकि असंख्यात मनुष्य तीर्थच देवायुबन्ध कर रहे हैं, और इनमें भाव देव असंख्यात गुणे क्योंकि चारों जातिके देवता असंख्याते हैं।

३१. जीव परिणामी द्वारः— जिसवक्त जीव निज स्वभाव में परिणमें उसवक्त परिणाम शुद्ध होवे, ओर परस्वभावमें परिणमें उसवक्त अशुद्ध होवे, जिससे जो भाव जीवोंके उत्पन्न होवे उसे जीव परिणाम है। (यहाँ कारण को मुख्यतासे कर कार्य का उपचार किया है) इसके भगवति सूत्र में ३९ बोल कहे हैं।

गाथा—गइ इन्द्रिय कषाय । लेसा जोए उव ओगे ॥

णाणा णाण दिट्ठी । चरित्त वेए परिणामि ॥

अर्थ—४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, ६ लेश्या, ३ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दृष्टि, ५ चारित्र और ३ वेद।

३२ 'करण द्वार'—जो जीवों के कर्म संयोगों में कारय भूत होते सो करण के भगवती सूत्र में ५९ बोल कहे हैं।

गाथा—दव्व सररि इन्दि । मण वयण क साय लेसा ॥

समुघाइ सान्ना दिट्ठी । वेय असाव पंच (करणं) ॥

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव यह ९ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन के योग, ४ वचन के योग, ४ कषाय, ६ लेश्या, ७ समुघात, ४ सज्ञा, ३ दृष्टि, ३ वेद और ५ आश्रव।

३३ निवृत्ति द्वार—जिन वावतोंसे आत्मा निवृत्ति भाव को प्राप्त होवे सो निवृत्ति जिसके भगवतीजी सूत्र में ८२ बोल फरमाये हैंः—

गाथा—कम्म सररि इन्दि । भासा मण कसाय वणादि ॥

संठाण सन्ना लेसा । दिठ्ठी णाणा णाणे जोग उवोगे ॥

अर्थ—८ कर्म, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ भाषा के योग, ४ मनके योग, ४ कषाय, ५ वर्ण, २ गन्ध, ९ रस, ८ स्पर्श, ६ संठाण, ४ सज्ञा, ६ लेशा, ३ दृष्टि, ५ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ जोग और २ उपयोग।

३४ आश्रव द्वारः—जिस रस्ते कर जीवों को कर्म आकर लगे उने आश्रव कहे जाते हैं, जिस के ४२ भेद फरमाये हैं:—५ अत्रत, ५ इन्द्रियों का अनिग्रह, ४ कपाय की प्रवृत्ति, और २५ किरिया.

३१ वे, ३२ वे, ३३ वे और ३४ वे द्वारों में कहे हुवे सब बोलों का खुलासा पीछे होगया है, इसलिये यहां संक्षेप में ही लिखे हैं,

३५ संवर द्वारः—जो कर्म आने का रस्ता है उसे रोक सो संवर के ५६ बोल सूत्र में कहे हैं:—१ इर्या समिती-रस्त में चलती वक्त आगे १ धनुष्य देखे, रस्ता छोड़कर चले नहीं, रात को विन कारण स्थानक के बाहिर जावे नहीं, पांचों इन्द्रिय की विषय का ध्यान, और पांच प्रकार की सज्जाय ÷ करे नहीं. २ भाषा समिति-कर्कस, कठोर, छेदक, भेदक, दुःख कर्ता, सावद्य, हिंसक, मिश्र इत्यादि वचन बोले नहीं, पहर रात गये बाद दिन उगे वहां तका जोरसे बोल नहीं. सदा उपयोग युक्त बोले, ३ एषणा समिती. आहार वस्त्र पात्र और स्थानक ४२ दोष टाल गृहण करे, आहार दो कोस से ज्यादा लेजाकर भोगवे नहीं. पहिले पेहर में लाया चौथे पेहर में भोगवे नहीं. पांच मण्डल के दोष टाल आहार करे, ४ आदान निक्षेपना समिती-भंड पात्रे उपकरण वस्त्र पाट आदि यत्नासे गृहण करे और यत्ना रक्खे, गृहस्थ के घर रक्खकर विहार करे नहीं. दोनों वक्त (शुभे शाम) प्रति लेखना (देखा) करे, और 'परिठावणिया' समिती:—विष्टा पेशाव मेल नख केश शरीर आदि वस्तु यत्नासे परिठावे. दुगच्छा निन्दा होवे वहां परिठावे नहीं. दिनको देख के और दिनको देखी भूमि का में रातको परिठावे. (यह ५ समिती) ६ मन गुप्ति ७ वचन गुप्ति ८ कायागुप्ति (इन वचन काया के योगों को सारम्भ समारम्भ आरम्भसे निवारेसो तीन गुप्ति) ९—३० वावीस परिसह पीछे कहे सो) ३१ खन्ति-क्षमां, ३२ मुर्ति-निर्लोभता, ३३ अज्जव-शरलता, ३४ महव-निर्मिमान, ३५ लाघव-लघुत्व, ३६ सच्चे-सत्य, ३७ संयम-आत्म गृहण, ३८ तवं-तप, ३९ चेइए-ज्ञाना भ्यास, और ४० वंभ-ब्रह्मचर्य. (यह १० याति धर्म) ४१ अनित्य भावना-पुद्गलिक पदार्थ सर्व अनित्य (विनाशीक) जाने. ४२ असरण भावना-इस संसार में कोइ भी शरण दाता नहीं है. ४३ संसार भावना-अनं-

त संसार परि भ्रमण किया है, ४४ 'एकत्वभावना'-आत्मा सदा एकली है. ४५ अन्य-
त्व भावना-शरीर से आत्मा अलगहै, ४६ 'अशुचि भावना' शरीर अशुची का भंडार
है. ४७ आश्रव भावना-आश्रव से कर्म आते हैं. ४८ संवर भावना-संवर कर्म को रो-
कते हैं. ४९ निर्जरा भावना-निर्जरा से कर्म क्षय होते हैं. ५० लोक भावना-लोक
सुपड्ड पुरुषाकार है. ५१ बोध भावना-बोध बीज सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनी दुर्लभ है.
और ५२ धर्म आवना-धर्म ही तारण शरण है. (यह १२ भावना) और ५३-५७-
पांच चरित्र (इन का वरणन पीछे होगया है.)

३६-३७ निर्जरा द्वारः—जो श्री वीतरागके आज्ञा बाहिर सूत्र से विधिसे रहि-
त स्ववश या परवश पणे धर्मार्थ या संसारार्थ कष्ट सहे. उससे अकाम निर्जरा
होती है. जिसका फल मोली (काष्ठ काट कर बेंचने वाले) व्यापारी के जैसा कष्ट तो
बहुत और लाभ थोडा, तैसा होता है. और २ जो वीतराग की आज्ञा में रहकर सू-
त्र विधिके अनुसार निर्वद्य करणी मोक्षार्थ करे जिस से सकाम निर्जरा होवे. जिस
का फल जोहरी के व्यापार जैसा होता अर्थात् कष्ट थोडा और नफा बहुत. सकाम
निर्जरा दो तरह से होती है. (१) बाह्य (प्रगट) और (२) अभ्यन्तर. (गुप्त) इस में—
(१) 'अन्नसन) आहार के त्याग, (२) जगोदरी-आहार उपाधी कम रखे. (३) भि-
क्षाचरी-गोचरी कर वस्तु ला भोगवे. (४) रस परित्याग-दूध दही घी तेल मीठा के
त्याग करे, (५) कायाक्लेश-धर्मार्थ कायको कष्ट दे, (६) प्रति सालिनता-इन्द्रियो कपा-
य योग का निरुधन करे. (यह ६ बाह्य तप) और (७) प्रायच्छिद-पाप निवारणे तप
करे, (८) विनय-सदा नम्र हो रहे, (९) वैयावच्च-भक्ति करे, (१०) सज्जाय-शास्त्र के
मूल पाठ की स्वध्याय करे, (११) ध्यान-सूत्रार्थ का चिन्तन करे. और (१२) कड
संग-का युत्सर्ग करे. (यह ६ अभ्यन्तर तप) यों १२ भेद तपसे निर्ज राहोती है.

३८ करणी फल द्वारः—पुन्य रूप मिष्ट फल और पाप रूप कटु फल दो
नों संसार वृद्धिके कारण है, सो सफल करणी कही जातो है सम्यक्त्व दृष्टि. यह चहाते
नहीहं. और मोक्षार्थ जो करणी करते हैंसो अफल गिनी जातीहै. नुयगडांग जी सूत्र
में फरमाया है.

गाथा—जेय बुद्धा महा भागा । वीराऽसम्मत दंसीणो ॥

अशुद्धं तेसिं परिकृत्ता । सफल होइ सव्व सो ॥१॥

जेय बुद्धा महा भागा । वीरा सम्मत दंसीणो ॥

सुद्धं तेसिं परिकत्ता । अफल होइ सब्वसो ॥२॥

अर्थ—जो निर्बुद्धी हत भागी कू-कार्य में वीर मिथ्यात्वी हैं उनको अशुद्ध की हुई करणी सर्व सफल होती है. और जो कुट्टि वन्त महा भाग्य सू-कार्य सूरवीर सम्यक्त्वी सत्पुरुष हैं उनकी की हुई शुद्ध करणी सर्व अफल होती है.

३९ हेय ज्ञेय उपादेय द्वार—हेय-सो त्याग ने-छोडने योग्य, ज्ञेयसो-जान ने योग्य, और उपादेय सो-आदरने योग्य.

४० तीर्थकर गोत्र बन्ध द्वारः—जो प्राणी बीस बोलों में से किसी भी एक दो चार या अधिक बोलों का आराधन करता है, और उसकी परमोत्कृष्ट रसायण आती है तब तीर्थकर गोत्र की उपार्जना होती है—ऐसा श्री ज्ञाताजी सूत्र में फरमाया है.

गाथा—अरिहन्त सिद्ध पव्वयण । गुरु थेरे बहूसूए तवसीसु ॥

वच्छलाय ते सिं । अभिख नाण मुवगये ॥१॥

दंसण विणय आवसय । सीलवय निरायारो ॥

खिणालव तव चेइए । वैयावच्च समाहीए ॥२॥

अपुव्व नाण गाहणे । सुयभत्ति पव्वणे पभावणीए ॥

एत्थेही कारणे ही । तित्थयरे तं लहे जीवो ॥ ३ ॥

अर्थ—१ अरिहन्त, २ सिद्ध, ३ शास्त्र, ४ गुरु, ५ स्थिवर, ६ बहुसूत्री, ७ तपस्वी-इन सातों के गुणानुवाद करनेसे, ८ ज्ञान में वरम्भार उपयोग लगानेसे, ९ सम्यक्त्व निर्मल पालने से. १० गुरुवादि पूज्य जनोंका विनय करनेसे. ११ सदा दोनों वक्त प्रतिक्रमण करने से, १२ शील आश्रित निरति चार पालने से, १३ सदा निवृत्ति भाव रखनेसे. १४ वारा प्रकार तप करने से, १५ सृपात्र दान देने से, १६ गुरु रोगी तपस्वी नवी दिक्षीत की वैयावच्च करनेसे. १७ क्षमा करने से, १८ अपूर्व ज्ञान पढनेसे. १९ जिन वचन बहुमान पूर्वक सुण ने श्रद्धनेसे और २० जैन धर्म को तन मन धन कर दीपानेसे.


४१. तीर्थकर गुणस्थान स्पर्शनाद्वारः— श्री तीर्थकर भगवान गत भवसे चौथा गुणस्थान सेही आते हैं. इसलिये पहिले के तीन तो यह छूटे. और पंचवा गुणस्थान कायर नरोंका हैं. [जो संयम लेने समर्थ न होंसो] इसलिये उत्तम पुरुषों पाचवा गुणस्थान भी स्पर्शते नहीं हैं. और इग्यारवा गुणस्थान तो पडवाइ होता हैसो स्पर्शत हैं. श्री तीर्थकर भगवान पडवाइ नहीं होते हैं. इसलिये १-२-३-४-११ इन पाचों गुणस्थान स्पर्शन की मना है. वाक्कीके १ गुणस्थान स्पर्शते हैं.

४२ मोक्षद्वारः— चारों वावतो की अनुक्रम से आराधना करने से मोक्ष मिलती हैः— १. प्रथम सम्यक ज्ञान करके जीवोंका यथार्थ स्वरूपका जान होवे. २ नन्तर जीवादि पदार्थो को जैसे जाने हैं, वैसेही सम्यक दर्शन कर उनको यथा श्रद्धे. (यों ज्ञान और दर्शन का जोडा है, अर्थात् यह दोनोंही साथही रहते हैं) ३ जो जीवादि पदार्थो को सम्यग ज्ञान कर जाने, सम्यग दर्शन कर श्रद्धे उनमेंसे जीव अजीव पुण्य तीनोंको जाने पाव अथवा बन्ध इन तीनोंको सर्वथा त्यागे, और संवर निर्जरा मोक्ष इन तीनों को पूर्ण पणे समाचारे सो सम्यग चरित्र. और जैसी तर सम्यग चरित्र द्वारा तीनों वावतो समाचारी है वैसी तरह जावो जीव तावे. उमर तक पूर्ण तोरस आराधे पाळे स्पर्श सां सम्यग तप. जैसे ज्ञान दर्शन का जोडा है तैसे ही चारित्र तपका भी जोडा है. इन चारों का यथा विधी अनुक्रम से आराधन पालन स्पर्शन जावो जीवतक करने से आत्मा पमानन्दी परम सुखी होता है.



परम पूज्य श्री कहान जी ऋषिजी महाराज के स-
 म्प्रदाय के महन्त मुनिश्री खूबाऋषिजी म-
 हाराजके शिष्यवर्य आर्य मुनिश्रीचे
 ना ऋषिजी महाराजके शिष्यः
 श्री केवल ऋषिजी महाराज
 के आश्रित बाल ब्रम्हचारी
 मुनिश्री अमालेख ऋषि
 जी महाराज रचित
 मुक्ति सोपान गुणस्थान रोहण
 अष्टीशत द्वारिका प्रथम
 अर्थ काण्ड





मुक्ती-सोपान

श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारी

द्वितीय-मूल काण्ड.

प्रवेशिका

गाथा—चंदामि सिरि जिणवर । भणामि वितीय मूल खण्ड ॥

चउदश गुण टणस्स । रोहण अदीसित द्वारा ॥ १ ॥

अर्थ—श्री जिनेश्वर भगवन्त को नमस्कार कर के “मुक्ति सोपान,”—“गुणस्थाना रोहण अदीशत द्वारा” ग्रन्थका दूसरा मूल खण्ड कहता हूं इस में अर्थ काण्ड में कहे हूवे २५२ दारों को अब मूल चउदेही गुणस्थानों पर अलग २ संक्षेप से उतार ते हैं प्रथम अर्थ काण्डके पठन से सब दारों का अर्थ-मतलब समझ में आगया जिससे इस काण्ड में १४ गुणस्थानों पर उतारे हूवे २५२ दारकी समझ सुलभता से हो सकेगी.

प्रथम खण्ड-मूल द्वारा रोहण

मूल ३२ द्वारों के नाम

१ नाम द्वार, २ अर्थ द्वार, ३ प्रवेश द्वार, ४ लक्षण द्वार, ५ दृष्टान्त द्वार, ६ गुण द्वार, ७ अवघेणा द्वार, ८ उत्पत्ति द्रव्य प्रमाण द्वार, ९ पावति द्रव्य प्रमाण द्वार, १० स्वपति द्रव्य प्रमाण द्वार, ११ क्षेत्र प्रमाण द्वार, १२ क्षेत्र स्पर्शन द्वार, १३ काल प्रमाण (स्थिति) द्वार, १४ काल प्राप्त द्वार, १५ भाव प्रमाण द्वार, १६ निरन्तर गुण द्वार, १७ गति मार्गणा द्वार, १८ अगति मार्गणा द्वार, १९ परस्पर गति मार्गणा द्वार, २० परस्पर अगति मार्गणा द्वार, २१ भवरोह उवरोह द्वार, २२ चडपड गति दृष्टान्त द्वार, २३ अन्तर द्वार, २४ विरह द्वार, २५ शाश्वता श्वत द्वार, २६ पढमापढम द्वार, २७ एक भवाश्रिय स्पर्शना द्वार, २८ बहुत भवाश्रिय स्पर्शना द्वार, २९ परस्पर स्पर्शना द्वार, ३० परभव गमन द्वार, ३१ भव संख्या द्वार, ३२ अल्पा बहुत द्वार.

अब आगे इन तैंतीस ही द्वारों का चउदह गुणस्थानों पर पृथक २ (अलग २) विवेचन (वरणन्-उत्तरा) किया जाता है.

१ पहिला "नाम द्वार" *

चउदे ही गुणस्थानों के नाम-१ पहिला-मिथ्यात्व गुणस्था-

* इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्डके पृष्ठ १४ वा.

१, २ दुसरा-सा स्वादन गुणस्थान, ३ तीसरा मिश्र गुणस्थान, (अपर नाम) सम मिथ्या गुणस्थान, ४ चौथा-अधिरति-सम्यग दृष्टि गुणस्थान, ५ पांचवा देश विरति (श्रावक का) गुणस्थान, ६ छठा प्रमत्त-संयति (साधु का) गुणस्थान, ७ सातवा अप्रमत्त संयति गुणस्थान, ८ आठवा नियति वादर गुणस्थान, (अपर नाम) अपूर्व करण गुणस्थान, ९ नववा अनियति वादर गुणस्थान (अपर नाम) अनिवृत्ति करण गुणस्थान, १० दशवा सूक्ष्म-संपराय गुणस्थान, ११ इग्याखा उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, १२ बाखा क्षीण मोहनीय गुणस्थान, १३ तेखा संयोगी-केवली गुणस्थान, १४ चउदवा अयोगी केवली गुणस्थान, और इस के आगे अन्तिम खास मुक्ति-स्थान मोक्षस्थान-सिद्धि स्थान.

दुसरा-अर्थ द्वार *

चउदेही गुणस्थानों के नाम का अर्थ:—

१ मिथ्या=खोटे+गुण का+स्थान=ठिकाणा, अर्थात्-जो खोटे गुण (दुर्गुणों) के रहने का निवासस्थान होवे सोही मिथ्यात्व गुण स्थान.

२ सा=प्रथम के+स्व स्थान को+आदन=आवे. अर्थात्-पहिले गुणस्थान को पीछा आने वाला (रस्तागिर) सो सास्वादन गुणस्थानी.

३ मिश्र=दोनों की मिलावट रूप गुणस्थान, अर्थात्-मिथ्यात्व की और सम्यक्त्वकी एकत्रता-सेल भेले होवे सो मिश्र गुण स्थानी.

४ अविरति=व्रत रहित, और सम्यग दृष्टि=सम्यक्त्व युक्त अर्थात्-सर्वज्ञ प्रणित निश्चय और व्यवहार नय को साध्य साधक भाव से माने परन्तु प्रत्याख्यानावर्णिय कर्मोदय से इन्द्रियोंके सुख का त्याग नहीं कर सके सो अविरति-सम्यग दृष्टि गुणस्थानी.

५ देश=थोड़े+विरति=व्रत वन्त. अर्थात् सर्व विरति साधुओं की अपेक्षा कर थोड़े व्रत का धारण करने वाला सो देश विरति गुणस्थानी.

६ प्रमत्त=प्रमाद युक्त+संयति=साधु. अर्थात् सर्व विरति साधुतो हुवे परन्तु प्रमादी-आलसी हो सदोषित रहते हैं सो प्रमत्त संयति गुणस्थानी.

७ अप्रमत्त-प्रमाद रहित+संयति=साधु, अर्थात् सर्व विरति रूप साधु की क्रिया को प्रमाद रहित पाले सो अप्रमत्त संयति गुण स्थानी.

८ नियति=निवृत्ते+बादर-बड़ी कषाय से. अर्थात्-दर्शन मोहनीय रूप बड़ी कषाय से निवृत्ति धारण करी सो नियति बादर गुण स्थानी. और इसही गुणस्थान का दुसरा नाम-अपूर्व-पाहिले नहीं हु इ ऐसी× करण-कषाय की मन्दता करिसो अपूर्व करण गुणस्थानी

९ अनियति-निवृत्ते नहीं, बादर-बड़ी चारित्र मोहनीय कषाय से×साफ निवृत्ते नहीं, थोड़ी सी कषाय और भी बाकी रही है.

+ यह अपेक्षा वचन है अर्थात्-आठवे गुण स्थान में तो चरित्र मोहनीय की अपेक्षा से दर्शन मोह को बड़ा गिना, और इस नववे गुणस्थान में सात कर्मों की अपेक्षासे चारित्र मोह की सर्व था निवृत्ति न होनेके सबवसे अनियति बादर इसका नाम है:-तत्त्व केवलगिम्य.

सो नियत्री वादर गुणस्थानी और इसही गुणस्थान का दुसरा नाम अनिवृति-निवृते नहीं-करण-कषाय की मन्दता से अर्थात्-जो कषायों की मन्द (कर्मी) करने श्रेणी प्रारंभ करी है. उस से पीछे हटे नहीं आगे बढ़ते ही जायँ, सो अनिवृति करण गुणस्थानी.

१० सूक्ष्म-बहुत ही थोड़ी-सम्यराय-कषाय, अर्थात् फक्त संज्वलन के लोभ रूप यत्किंचित मात्र-सोभी बहुत पतली कषायका उदय सो सूक्ष्म संपराय गुणस्थानी.

११ उपशान्त-उपशमाया (दृक्का)×मोह-मोहनीय कर्म, अर्थात् मोहनीय कर्म की सर्व २८ ही (कषायों) प्रकृतियों को सर्वथा प्रकार से उपशमन किया-दृक दिया सो उपशान्त मोह गुणस्थानी.

१२ क्षीण-क्षय किया×मोह-मोहनीय कर्म, अर्थात्-मोहनीय कर्म की २८ ही प्रकृतियों का सर्वथा क्षय-नाश किया सो क्षीण मोह गुणस्थानी.

१३ सयोगी-योग सहित-केवली-केवल ज्ञानी. अर्थात् मन वचन कायाके शुभ अवलम्बन वन्त केवल ज्ञानी जिनेश्वर सो संयोगी केवली गुणस्थानी.

१४ अयोगी-योग रहित-केवली केवल ज्ञानी. अर्थात्-मनादि योगों जो कर्म पुद्गल रूप वर्गणा को ग्रहण करने कारण भूत आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन) उस से रहित, और केवल ज्ञान के धारक सो अयोगी केवली गुणस्थानी.

३ तीसरा प्रश्नोत्तर द्वार ×

१ प्रश्न मिथ्यात्व को भी गुणका स्थानक कहने का क्या सबब? उत्तर (१) जो इस जगत में अचैतन्य (जड) पदार्थ हैं, उस से ऊंच पक्ति का अनन्त ज्ञानादि गुण का धारक-अधिक शक्ति वन्त चैतन्य जीव का रहना का यह मूल स्थान है, यह ही इसमें गुण है, (२) बहुत से जीवों इस ही स्थान में रहे हुवे-मिथ्या-ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप का आराधन पालन कर अनेक गुणवन्तों के भी परम पुज्य बनते हैं. यों व्यवहार की भी शुद्धि होनेसे यह गुणका स्थान है. (३) अभव्य जीवों सदा इसही स्थान में रहते हैं वो द्रव्ये ज्ञानादि गुणों का पालन कर नववी ग्रीवेग (२१वे स्वर्ग) तक जाते हैं. यह भी गुण है. (४) और भी कितनेक व्यवहार तो मिथ्यात्वी देखाते हैं. परन्तु अन्तर में मिथ्यात्व मोहनी आदि प्रकृति यों का उपशम होगया सम्यक्त्वादि गुणों का स्पर्श किया है. तो भी मिथ्यात्वी कहे जाते हैं. इत्यादि गुण इस स्थान में पाने से इसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहा जाता है.

२ प्रश्न—सास्वादन गुणस्थान वाले तो पडवाइ होते हैं, उसे गुणका स्थान कहने का क्या सबब? उत्तर—इस गुणस्थान का स्पर्श ने वाला जीवने कर्म ग्रन्थी का भेद कर सम्यक्त्व का स्पर्शन किया है इसलिये यह पडवाइ है तो भी उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार परि भ्रमण कर निश्चय से सम्यक्त्व का स्पर्शन कर मोक्ष पावेगा. इसलिये यह गुणका स्थान ही—गुणस्थान है.

३ प्रश्न-मिश्र गुणस्थान में मिथ्यात्व का और सम्यक्त्व का

* मिथ्यात्व गुणस्थान से खोटे गुणका स्थान ऐसा अर्थ अर्थ धारमे किया है, परन्तु जो मिथ्यात्व गुणस्थान को मिथ्यात्व ही गुणका स्थान ऐसा अर्थ करते हैं, उनके नमाधान लिये यह प्रश्नोत्तर है

सेल भेल (गडबड) है उसे गुण का स्थान कैसे कहा जावे? उत्तर क्यों नहीं कहा जावे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानता था वो सत्य को तो सत्य जानने लग गया. तो कभी असत्य को असत्य भी जानने लग जायगा.

४ प्रश्न—जो सम्यक् दृष्टि हो व्रतों के फल को जान कुछ व्रत धारे नहीं आविरति सम्यग दृष्टि ही रहे तो उस से क्या फायदा ? उत्तर—जो जानेगा कि इस मकान में उपद्रवी व्यन्तर देव (भूत) रहता है. और उस में कभी जाने का प्रसङ्ग भी आगया तो वां डरेगा. ऐसेही सम्यग दृष्टि भी पाप करते डरेंगे जिससे जिन के चिक्कन कर्म बन्ध नहीं होगा. यथार्थ जानना ही मुशकिल है. कहा है कि “सद्धा परम दुल्लहा.” जाना येही बडा गुन है.

५ प्रश्न—जो संसार सम्बन्धि आरंभ के अनेक कृतव्य कर यदि यत्किंचित व्रत धारण करभी लिया तो उस से क्या फायदा? उत्तर—देश विरति शब्द तो साधुओं के सर्व विरती पने की अपेक्षा से है, परन्तु किंचित व्रत नहीं जानना. क्योंकि-इनोंने सर्वलोक के महारंभ महा परिग्रह की क्रिया का निरुंध कर, फक्त यत्किंचित अटकते कार्य को चला ने जितनी ही छुट्टी रखी है, और सो भी सर्वथा त्याग ने अभिलाषी हैं, इसलिये. तथा परिणामों से सर्वथा अव्रत की क्रिया उत्तर गइ है, येही जबरफायदा है. इसलिये यह गुणस्थान है.

६ प्रश्न—जो संयति (साधू) होकर ही प्रमाद का सेवन करे तो फिर क्या फायदा? उत्तर—बडा फायदा तो यह हुवा कि-अविरत की क्रिया साफ रुक गइ, और यद्यपि अप्रमादी ही सदा रहने का खप करते हैं. तद्यापि कर्म की प्रबलता से जो कुछ प्रमाद

मय परिणती परिणमती है. उसे रोककर भी ज्ञान ध्यान तप आदि वृद्धि कर लाभोपार्जन करते हैं, सो फायदा ही है.

७ प्रश्न-जब पांचोंही प्रमादोंका क्षय किया तब सब दुर्गुणोंका क्षय हुवा, फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? उत्तर-इनमें बाह्य वृत्ति में पांचों प्रमाद का अभाव करने से अप्रमदी बने हैं. परन्तु अन्तर करण में तो एक यह प्रमाद का तो सर्वथा अभाव हुवा है, और यत्किंचित बने हैं सो भी आगे नाश करने परिव्रत हुवे हैं वो सब नाश होंगे जब ही केवलज्ञान पावेंगे इस से अप्रमादी कहना.

८ प्रश्न-निवृत्ति वादरका क्या अर्थ होता है? उत्तर-वादर(बडी) कपायों से निवृत्ति पागये. चपालता का अभाव हुवा.

९ प्रश्न-आठवे का नाम निवृत्ति वादर और नववे का नाम अनिवृत्ति वादर यह भी कैसा आश्चर्य! गुण वृद्धि के बहल उलट गुणहानी के दोषा रोपण होता है. इसका क्या सबब? उत्तर-आठवे गुणस्थान में श्रेणी प्रारंभ होती है, इसलिये यहां उत्तेजन देने का संभव है कि अब कपायों से निवृत्ते हो इसलिये शीघ्र आगे बढ़ो, और इस स्थान में सावधान-किया है कि होंशार रहे! जो थोडा भी विषय कपाय का अंश रहा है वह छल नहीं लेवे ! और आठवे गुणस्थान में तो १७ कपाक का नाश किया था यहां २१का नाश किया है. इसलिये गुणाधिक ही जानना.

१० प्रश्न-सूक्ष्म सम्पराय का क्या अर्थ? उत्तर सब क्रिया २५ हैं, जिस में २४ सम्परायिक क्रिया है सो कर्मों का बन्ध कर ने वाली है, इस गुणस्थानी २३ क्रिया का तो सर्वथा अभाव कर दिया और पेजवती क्रिया है उस के दो भेद (माया और लोभ) जिस में से

गायाका भी नाश कर दिया और लोभ के चार भेद में से फक्त एक अन्तिम संज्वलका ही लोभ रहा सो भी अत्यन्त सूक्ष्म, इसलिये सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहा है.

११ प्रश्न-उपशान्त मोह गुणस्थान में मोहकी सर्व २८ ही प्रकृति का उपशम किया. और उन प्रकृतियों का प्रगट होने का भी कारण नहीं है, फिर पडवाइ क्यों होते हैं? उत्तर इस स्थान में प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ है, इसलिये वो अन्दर रही हुई प्रकृतियों वाष्पकी माफक उछाला देने से और इस स्थान से आगे बढ़ने के रस्ते के अभाव से पडवाइ होते हैं.

१२ प्रश्न-क्षीण मोह गुणस्थान में सर्वथा मोहका क्षय हुआ फिर यहां ही केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है; उत्तर-कारणसे कार्य निपजता है. इस स्थान घातीये कर्म का नाश होता है तब आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. परन्तु निश्चय नयके मतसे तो यहां ही केवल ज्ञानी गिने जाते हैं.

१३ सजोगी केवली कहे सो केवल ज्ञानीके योग क्या काम आते हैं? उत्तर-अनुत्तर विमान के देवों को प्रश्नका उत्तर देने द्रव्य मन, देशना देने में द्रव्य वचन जौर जिन पुद्गलों को स्पर्शने वाकी रहे हैं उने स्पर्श ने काया के योगकी प्रवृत्ति होती है. इसलिये सयोगी हैं, परन्तु निश्चय से तो अयोगी समझना-क्योंकि-वो इच्छासे-ऊपत कर योग की प्रवृत्ति नहीं करते हैं.

÷ पांचों अनुत्तर विमान वासी देवों अपने स्थान में ही रहे हुवे साविनय प्रश्न मुछतेहै. उनको केवल ज्ञानी प्रश्नका उत्तर मनके द्रव्य पणे प्रगमा कर देतेहैं. क्योंकि ज्ञान अरूपी है उसे अवधी ज्ञानी ग्रहण नहीं सकते है, और मन रूपी चौ फरसी है. उसे ग्रहण कर लेते हैं.

१४ अयोगी गुणस्थान स्पर्शने बाद ही योगों का निरुंधन होता है फिर इस स्थान को अयोगी कैसे कहना? उत्तर—भगवन्त का फरमान है कि—“करे माणे करे” अर्थात् जो काम करना सुर किया उसे किया ही कहना, वो योगों का निरुंधन तुर्त ही कर डालते हैं. और यहां ही योग रहित हो फिर मोक्ष पधारते हैं.

प्रश्न—योग रहित हुवे बाद मोक्ष जाने की क्रिया कैसे करते है? उत्तर—पूर्व के प्रयोग से कुम्मार के चक्रवत्, कर्म सङ्ग रहित होने से निर्लेप तुम्बीवत्, प्रति बन्ध छेद होनेसे एरण्ड बीजवत्, और जीवका उर्द्ध गमन के स्वभाव से अग्नि शिखावत् मोक्ष में पधारते हैं.

प्रश्न—जब जीव का उर्द्ध गमन स्वभाव है तो फिर मोक्ष स्थान के आगे क्यों नहीं जाता है? उत्तर गति में सहायता करने वाली धर्मास्ति काया का आगे अभाव होने से अलोकमें आत्मा गमन नहीं कर सकती है.

४ प्रवेश द्वार *

१ प्रायः सर्व संसारी जीवों का प्रथमस्थ येही स्थान है, और सम्यक्त्व व चास्त्रिसे पडे जीवोंभी मिथ्या स्थानमें प्रवेश करते हैं

२ आगे कहेंगे उस चतुस्थान में प्रवृत्त ता हुवा जीव क्षयोपशम तथा उपशम सम्यक्त्व में घुनः लगने से अर्थात् अनन्तान बन्धि कषायों का उदय होनेसे भ्रष्ट हो नीचे पडकर मिथ्यात्वकी तरफ आने लगा उसके मिथ्यात्व का तो उदय नहीं हुवा, परन्तु

मिथ्यात्व की सह चारिणी (साथ रहने वाली) अनन्तान बन्धि कपाय का उदय हुआ है, सो सास्वादन में प्रवेश करते हैं।

३ मिथ्यात्व की पर्याय हायमान होती जाती है-बढती जाती है, और सम्यक्त्व की वृद्धमान होती है-बढती जाती है, सो जीव मिश्र गुणस्थान का प्रवेशी जानना।

४ चौथे गुणस्थान में दो तरह से जीवों प्रवेश करते हैं:—
 (१) निसर्ग से अर्थात्—स्वभाव से और (२) अधीगम से अर्थात्—गुरु के सद्वोध से. (१) जो भव्य जीवों सत्री पचेन्द्रिय पर्याप्तवस्था की पर्याय को प्राप्त हुआ सो पहिले अनन्तान बन्धि चौकडी का प्रथम यथा प्रवृत्ति करण से, फिर दूसरे अपूर्व करण में स्थिति घात-रस घात-गुणश्रेणी-गुण संक्रम और अन्य स्थिति बन्ध से तीसरा अनिवृत्ति करणसे, और चौथा उपशान्त अद्धासे, दर्शन त्रिक-मिथ्यात्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय युक्त उपशम कर-उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशमकर-क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयकर क्षायिक सम्यक्त्व, इन तीनोंमेंसे किसी एक सम्यक्त्वकी प्राप्ति करता है, सो अधीगम से प्रवेशी जानना. (२) और निश्चय से तो अधीगम हूवे ही, व्यवहार में-आर्य क्षेत्र-उत्तमकुल-दीर्घायु-पूर्णोन्द्रिय-निरोग्यता-सुखोप जीवी-इत्यादि सुसामग्री युक्त को सदगुरु-निग्रन्थ का संयोग मिलने से सर्वज्ञ प्रणित धर्म श्रवण कर तत्पार्थ का श्रद्धान होवे सो निसर्गः से प्रवेशी जानना।

५ पांचवे गुणस्थान में तीन तरह से प्रवेश करते हैं:—चौथे गुणस्थान में अनन्तान बन्धि चौकडी और दर्शन त्रिक इन ७ स सम्यक्त्व मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपशम करने से प्रवेश हुआ, और इस गुण स्थान में सात तो वोही और अप्रत्याख्याना-

वरणीय कषाय की ४ चौकड़ी (यह ४ चारित्र मोहनीय की प्रकृति) यों ११ प्रकृतियों में से—(१) सातों प्रकृतियों का क्षय करे और चारों प्रकृतियों का क्षयोपशम करे, सो क्षायिक प्रवेशी. (२) सातों प्रकृतियों का ओपशम करे और चारों का क्षयोपशम करे, सो ओपशमिक प्रवेशी. (३) और दशों प्रकृतियों का क्षयोपशम करे और एक सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहे सो क्षयोपशमिक प्रवेशी, तथा दशों प्रकृतियों का प्रदेशोदय और सम्यक्त्व मोह का विपाकोदय रहे सो भी क्षयोपशमिक प्रवेशी जानना.

६ छठे गुणस्थान में भी तीन तरह से प्रवेश करते हैं:—उपर कही सो ११ प्रकृतियों और प्रत्याख्यानावरणीय चौकड़ी यों १५ प्रकृतियों में से यथा प्रवृत्ति करण कर—(१) सात सम्यक्त्व मोहनीय की प्रकृतियों का क्षय करे, और ८ चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का क्षयोपशम करे सो क्षायिक प्रवेशी (२) पन्दरेही का उपशम करे सो उपशम प्रवेशी, (३) और ७ का उपशम करे और औदयिक रहे सो क्षयोपशमिक प्रवेशी जानना.

७ सातवे गुणस्थान में भी छठे की तरह ही १५ प्रकृतियों और संज्वलका मान यो १६ प्रकृतियों को (१) क्षय, (२) उपशम, और (३) क्षयोपशम कर तीनों तरह प्रवेश करते हैं. विशेषमें पांच प्रमाद-मद-विषय-कषाय-निन्दा और विकथा इनका त्यागीर्ह इस गुणस्थान का प्रवेशी जानना.

८ आठवे गुणस्थान में दो तरह से प्रवेश होता है:—(१) उपशम श्रेणिगत, और (२) क्षपक श्रेणिगत. (१) उपशम श्रेणि प्रवेशी क सो उपर कही सो १६ प्रकृतियों और संज्वलकी माया यों १७ प्रकृतियों को अपूर्व करण कर उपशमावे, जो बन्ध में नहीं आवे ऐ

सी अशुभ प्रकृतियों को प्रावृत्त (पलटा) कर अपूर्व गुण संक्रम और अपूर्व करणद्रा का संख्यातवा भाग जाने बाद निद्र और प्रचला यह दोनों दर्शनावरणीय की प्रकृतिका व्यच्छेद होते वहूत स्थिति खण्ड का सहश्रोंका अतिक्रम करते बाकी एकही भाग रहे तब स्थिति खण्ड प्रथक्त्व जावे तब उपशमश्रेणि प्रवेशी जानना. यह इग्यारवे गुणस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमने से के तो पडता है, या मरता है, परन्तु आगे नहीं चडता है) और (२) क्षपक श्रेणि प्रवेशिक सो-८ वर्ष से अधिक वयवाला, वज्र वृषभ नारच संघयणी, क्षायिक सम्यक्त्वी, विशुद्ध संयमी, चौदह पूर्व का पाठी शुक्ल ध्यानी होता है, सोही क्षपक श्रेणि में प्रवेश कर सकती है. यह चरित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों-का क्षय करने का उद्यम यहां से सुरु करता है. (आगे के गुणस्थानों में क्षय करता है.) यथा प्रवृत्ति आदि तीनों करणों को फिर से सुरु करता है, और ऊपर कही १७ ही प्रकृतियों की ऐसी तरह क्षय करता है कि जिसका स्थिति अनिवृत्ति करण अद्रा के प्रथम समय में ही पत्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र रह जाय, सो क्षपक श्रेणि प्रवेशी. (यह वृद्धमान परिणामी अपडवाइ (पडता नहीं) इग्यारवा गुणस्थान को छोड सीधाही उपर जाता है और निश्चय से मोक्ष पाता है.)

९ नववे गुणस्थान में भी दोनों तरह ही प्रवेश करता है:-
 (१) उपशम श्रेणिगत और (२) क्षप श्रेणिगत. आठवे गुणस्थान में कही सो १७ प्रकृतियों और संज्वलका लोभ तथा तीनों वेद-यों २१ प्रकृतियों के अनिवृत्ति करण कर, जिन प्रकृतियों का उदय काल होवे वहा ही से श्रेणि आरंभ कर प्रकृतियों का उदय

तो नहीं है परन्तु बन्ध है उनका अन्त करण दल और जिन का उदय तथा बन्ध दोनों ही नहीं हैं उनका अन्त करण दल पाहिले की स्थिति में नहीं मिलाते-दुसरी स्थिति में मिलाकर, उपशम श्रेणि वाला तो उपशय के अन्त में अश्वकरणद्धा और किट्टि करण द्रा इन दोनों कर उपशमावे, और क्षपक श्रेणि वाला-अश्वकरणद्धा किट्टि करणद्धा और किट्टि करण वेदना कर क्षय करे-सो नव-वे गुणस्थान का प्रवेशी जानना.

(आठवे गुणस्थान में जो उपशम श्रेणि करी हो वो यहा भी उपशम श्रेणि करता है और क्षपक श्रेणि करी होसो क्षपक श्रेणि करता है.)

१० दशवे गुणस्थान में भी दो ताह से प्रवेश होता है:—
(१) उपशम श्रेणिगत, और (२) क्षपक श्रेणिगत. जो उपर कही हूइ २१ मोहनीय की प्रकृतियों और हाँस षटक (हाँस-रति-अस्ति-भय-शोक-जुगुप्सा) इन २७ प्रकृतियों को सूक्ष्म सम्परांय अद्धकर वेदकर उपशम श्रेणि वाला उपशमावे और क्षपश्रेणि वाला खपावे सो ही दशवे गुणस्थान के प्रवेशी जानना.

११ इग्यारवे गुणस्थान में एक ही तरह प्रवेश करता है, दशवे गुणस्थान में कही हूइ २७ प्रकृति यों और संज्वल का लोभ यों सब मोहनीय कर्म की २८ ही प्रकृतियों का सर्वथा प्रकार से उपशम कर ने वाला—दक ने वाल उपशांत मोह गुणस्थान का प्रवेशी जानना.

१२ बार वे गुणस्थान में एक क्षपक श्रेणी वालाही प्रवेश करता है, इग्यारवे गुणस्थान में कही हूइ मोहनीय की २८ ही प्रकृतियों का सर्वथा क्षय किया फिर बाकी रहे-ज्ञानावर

णीय, दर्शनावरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका स्थिति घात-गुण श्रेणि और गुण संक्रमण कर पहिले की तरह उस क्षीण कषायद्धा के संख्याते भाग जावे वहां लग प्रवृत्ति करेसो क्षीण कषाय गुणस्थान का प्रवेशी जानना.

१३ तेरवे गुणस्थान मे-चारवे गुणस्थान के प्रथम समय तो सर्वथा मोहका नाश किया, और अन्तिम समय बाकी रहे तीनों घन घातिक कर्मों का नाश किया, यों चारों घातिक कर्मों का नाश होतेही सयोगी केवली गुणस्थान में प्रवेश करते ही सर्वज्ञ सर्व दर्शी होते हैं.

१४ चउदवे गुणस्थान में-तेरवे गुणस्थान में प्रवृत्ता हूवा सूक्ष्म क्रियना में शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये की समाप्ति होते व्युपरीत क्रिया अप्रति पाति नामे चौथा पायकी प्राप्ति होवे अयोगी केवली गुणस्थान में प्रवेश होता है.

और चउदवे गुणस्थान के अन्त में बाकी रहे चारों अघातिय कर्म-वेदनीय-आयु-नाम-और गौत्र का नाश कर शुद्ध-हलकी आत्मा वन-१ धनुष्य मुक्त वाण वत्-पूर्व संयोगसे, २ निल्लेप तुम्बीवत असंगी होने से, ३ एरन्ड बीजवत्-बन्धन मुक्त होने से-और ४ अग्नि शिखावत्-स्व स्वभाव से उर्द्ध गमन कर लोकके अन्तिम भाग में जो मुक्ति स्थान है उसमें प्रवेश कर परम परमात्म वन अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं.

पांचवा लक्षण द्वार *

इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्ड का पृष्ठ ४४ वा.

१ पहिले मिथ्यात्व गुणस्थानी के लक्षणः—१ अव्यक्त मिथ्यात्व, २ व्यक्त मिथ्यात्व, २ अभिग्रह मिथ्यात्व, ४ अनभिग्रह मिथ्यात्व, ५ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, ६ संशयिक मिथ्यात्व, ७ अनाभोग मिथ्यात्व, ८ लोकीक देवगत मिथ्यात्व, ९ लोकीक गुरुगत मिथ्यात्व, १० लोकीक धर्मगत मिथ्यात्व, ११ लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, १२ लोकोत्तरगुरु मिथ्यात्व, १३ लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व, १३ कुप्रावचनी देवगत मिथ्यात्व, १४ कुप्रा वचनी गुरुगत मिथ्यात्व, १५ कुप्रा वचनी धर्मगत मिथ्यात्व, १६ सर्वज्ञ प्रणित सूत्रों से कभी परुपणा मिथ्यात्व, १७ सर्वज्ञ प्रणित सूत्रोंसे अधिक परुपणा मिथ्यात्व, १८ सर्वज्ञ प्रणित सूत्रों से विप्रित परुणा मिथ्यात्व; १८ धम्म अधम्म सन्ना मिथ्यात्व, १९ अधम्म धम्म सन्ना मिथ्यात्व, २० साहु असाहु सन्ना मिथ्यात्व, २१ असाहु साहुसन्ना मिथ्यात्व, २२ जीव अजीवसन्ना मिथ्यात्व, २३ अजीव जीवसन्ना मिथ्यात्व, २४ मग्ग उमग्गसन्ना मिथ्यात्व, २५ उमग्ग मग्गसन्ना मिथ्यात्व, २६ रुवी अरुवी सन्ना मिथ्यात्व, २७ अरुवी रुवी सन्ना मिथ्यात्व, २८ अविनय मिथ्यात्व, २९ असातना मिथ्यात्व, ३० अकिरिया मिथ्यात्व, ३१ अज्ञान मिथ्यात्व, ३२ प्रवर्तन मिथ्यात्व, ३३ परिणाम मिथ्यात्व, और ३४ प्रद्वेश मिथ्यात्व. इन ३४ मिथ्यात्वों में का किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व श्लेवे सो मिथ्यात्वी.

२ दुसरा सास्वादन गुणस्थान का लक्षण-मोहोदधि, आर्त रौद्र ध्यानी, हायमान परिणामी, मूर्छित मति, दुर्मति, विपयी, कपायि, प्रमादि, पडवाइ इत्यादि लक्षण का धारक सो सास्वादन गुणस्थानी.

३तीसरे मिश्र गुणस्थानीके लक्षण-मिश्र गुणस्थानी सर्वज्ञ प्र

णित तत्वोंको भी माने और, अज्ञानीयों कथित बातों को भी माने, दोनोंही के वचनों तत्व रूप माने-आस्तिक्य बने. मिश्र मोह-के उदय कर सत्या सत्य का निर्णय करने की दरकार ही नहीं रखे सो मिश्र गुणस्थानी.

४ चौथा अत्रति सम्यग् दृष्टि गुणस्थानके लक्षण--“तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग दर्शनम्”=अर्थात्- १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रय, ६ संवर, ७ निर्जरा, ८ बन्ध, और ९ मोक्ष. इन नवों ही तत्वों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंकर तथा निश्रय और व्यवहार के स्वरूप कर सर्वज्ञ प्रणितानुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न २ यथा बुद्धि जानकर श्रद्धान करने वाले,

और व्यवहार सम्यक्त्व के ७७ लक्षण युक्त होते हैं:-१ परमार्थ के जान की संगति करे, २ परमार्थ का जान होवे, ३ सम्यक्त्व-धर्म का वमन किये की संगति नहीं करे, और ४ पाखंडियों का परिचय नहीं करे. (यह ४ श्रद्धान) ५ विषयानुरागी की तरह जिन वचन का अनुरागी होवे, ६ क्षुधातुर इष्ट भोजन का आदर करे त्यों जिन वचन का आदर करे, और ७ विद्यार्थी की तरह जिन वचन ग्रहण करे (यह ३ लिंग) ८-१७-अरिहंत-सिद्ध-आचार्य उपाध्याय स्थविरं-कुलं-गणं-संघ-स्वधर्मी-और क्रियावन्त-इन दशों का विनय करे (यह १० विनय) १८-२० अर्हत धर्मानुयायियों को-मनसे अछे जाने-वचन से कीर्ती करे और काया से

१. वृद्ध बयवाले, बहू सूत्रा-पूराणे दीक्षित इन तीनोंकी स्याविर कहते हैं. २. एक गुरु के बहुत शिष्यों के समुदाय को कुल कहते हैं. ३. सम्प्रदाय को गण कहते हैं. ४. साधु-साध्वी-श्राविक-श्राविका इन चारों को संघभी कहते हैं और तीर्थ भी कहते हैं:—

सुख उपजावे (यह ३ शुद्धता) २१ समभाव रखे, २२ वराग्य भाव रखे, २३ आरंभ परिग्रह कम करे, २४ दुःखी की अनुकम्पा करे और २५ जिन वचन का पुक्त आस्ति क्या होवे (यह ५ लक्षण) २६ जिन वचन में शंका नहीं करे, २७ परमत की वांछा नहीं करे, २८ करणी के फल का सन्देह नहीं करे, २९ पाखण्ड की महिमा नहीं करे, और ३० पाखण्डिका संग नहीं करे, (यह ५ दोष टाले) ३१ धैर्य वन्त, ३२ धर्मोन्नति कर्ता, ३३ धर्मात्मका भक्ति वन्त, ३४ चार तीर्थों के गुण का जान, ३५ चारों तीर्थोंकी वृद्धि कर्ता, (यह ५ भूषण) ३६ सर्व शास्त्र का जान, ३७ निशंक बोध कर्ता, ३८ यथार्थ संवाद कर्ता, ३९ अनुमानादि से त्रिकालज्ञ होवे, ४० वीकट तपस्वी, ४१ अनेक विद्या (इल्म) का जान. ४२ प्रसिद्धि में ब्रत धारे, और ४३ कवित्व कर धर्म दीपावे (यह ८ प्रभाव) ४४-४९-राजा-ज्ञाति-मावित्र-गुरु-बलवन्त-और देव इनका हुकम से धर्म विरुद्ध कार्य का आगारी (यह ६ आगार) ५०-५५ धर्मात्माओंसे एक वक्त बोले-वारम्बार बोले, इच्छित वस्तु दे-सन्धान करे, गुणाणुवाद करे, और नमस्कार करे. (यह ६ यत्ना) ५६ धर्म वृक्ष का सम्यक्त्व मूल जाने, ५७ धर्मा भूषण की सम्यक्त्व लन्दूक जाने, ५८ धर्म नगर का सम्यक्त्व कोट जाने, ५९ धर्म मेहल का सम्यक्त्व पाया जाने, ६० धर्म पदार्थों का सम्यक्त्व कोठार जाने, और ६१ धर्म भोजन का सम्यक्त्व भाजन जाने. (यह ६स्थान) ६२ आत्मा की आस्ति माने, ६३ आत्मा शाश्वति माने, ६४ आत्मा को कर्ता माने, ६५ आत्माको ही कर्म भुक्ता माने, ६६ मोक्ष की आस्तिमाने, और ६७ ज्ञानादि रत्न को मोक्ष का साधन माने (यह ६ भावना) इन ६१ लक्षणों युक्त अविरति सम्यग् दृष्टि

ने से यहा मद, विषय, कषाय, निन्दा और वीकथा इन पांचों प्रमादोंके निवासस्थान होने के सबब से तथा योगोंकी, दृष्टि की, भाषा की और भावोंकी इन चारोंकी चपलता होनेसबबसे बहुदा कृष्णादि तीनों अशुभ लक्ष्या परिणती में परिणम ने सै मूल गुणों उत्तर गुणों में सुक्ष्म वादर अनेक प्रकार के दोषों लगते हैं उन से बचने सदा प्रयत्न वन्त रहते हैं, और लगे दोषों से शुद्ध होने सदा प्रति क्रमण प्रायश्चितादि करते रहते हैं सो प्रमत्त संयति गुण स्थानी जानना.

७ सातवे अप्रमत्त संयति गुणस्थान के लक्षण—यहा पाचों प्रमाद का अभाव होने से यह जीवों-मन्दाभिमानी, मन्द विषयी, मन्द कषायी, सदा उद्यमी, अल्प भाषी, गुणानुवादी, गम्भीर्य, एकाकान्त धर्म ध्यानी, ज्ञानी शान्त दान्त आदि उत्तम गुण संयुक्त कोवे सो अप्रमत्त संयति गुणस्थानी.

८ आठवे निवृत्ति वादर गुणस्थान के लक्षण—यह वादर दुसरे के जानने में आवे ऐसी क्रोधादि कषायों की प्रणति में नहीं परिणमते हैं, अचपल, स्थिर स्वभावी शुद्ध ध्यानी वन पण्डित वीर्य को अवरण-अच्छा दन करने वाली प्रकृतियों को क्षय करने तीव्र वेगमय परिणामोंकी धारा समय २ प्रति वृद्धि करते हैं, सो अपूर्व करण गुणस्थानी.

९ नववे निवृत्ति वादर गुणस्थान के लक्षण—इन के सूक्ष्म क्रोधी मान माय और तीनों वेदों के विकार का अभाव हुवा जिस से-अक्रोधी, अमानी, अमायि, निर्विषयी, अनुभव किये हुवे देखाते सुनाते भोगों की संपूर्ण वांछा रूप संपूर्ण संकल्प विकल्प रहित अपने परयात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चल एकाग्र परिणम

प्रभावक, २१ अर्हत के शिष्य,

यों सब ५३ लक्षणके धारक होवे सो देश विरति गुणस्थानी
 ६ छठे प्रमत्त संयति गुणस्थानी के लक्षण—१ अहिंसा, २ स
 त्ये, ३ दत्त (अचारी,) ४ ब्रम्हचर्य और ५ निष्परिग्रही. (यह ५ महा
 व्रत) ६-१० श्रोतेन्द्रि-चक्षुरेन्द्रि-घणेन्द्रि- रसेन्द्रि और स्पर्शेन्द्रिय इन
 पांचों का निग्रह करे. ११-१४ क्रोध-मान-माय लोभ-इन चारों क
 पाय को जीते, १५-१९ ज्ञानाचार-दर्शनाचार--चारित्राचार-तपाचा
 र और वर्त्याचार इन ५ आचार को आराधे, २०-२४ इयार्समति,
 भाषा समिति-ऐषणा समिति-आदान-निक्षेपना समिति-और परि
 ठावणीया समिति. इन पांच समित युक्त सदा प्रवृत्ते. २५-२७ मन
 वचन-और काया इनको स्ववस्य करे. २८-३६ मकान-कथा-आस
 न-प्रेक्षन-सुणन-स्मरण-सरस अहार-अधिक अहार और सिणगार, य
 ह नव ही कामें. विषय उत्पन्न होवे वैसे त्यागे. यों ३६ लक्षण के
 धारक होते हैं.

१७ प्रका संयम पाले:—पृथ्वी-पाणी-अग्नि-वायु-वनस्पति वेन्द्रिय
 तेन्द्रिय-चौरिन्द्रिय-पचेन्द्रिय और अजीव काय, इन दशोंकी यत्ना क
 रे, प्रेक्षना-पमार्जना-उत्प्रेक्षा-और परिठावणीय यह काम यत्ना
 निमित्त करे, मन वचन और काय को धर्म मार्गमें संलग्न करे.

१२ प्रकार के तप—१ अनसन, ८ ऊणोदरी, भिख्याचरी ४
 रसपरि त्याग ५ काया क्लेश, और ६ प्रति सलिनता (यह ६ बाह्य
 तप) ७ प्रायश्चित, ८ विनय ९ वैयावच्च, १० सज्जाय ११ ध्यान
 और १२ कायू-त्सर्ग. यह १२ प्रकारका तप सदा करे.

यह ६१ गुण के नाम कहे ऐसे अनेक उत्तम लक्षण के धार
 क प्रमत्त संयति होते हैं, परन्तु इस गुणस्थान का नाम परमत्त हो

ने से यहा मद, विषय, कषाय, निन्दा और बीकथा इन पांचों प्रमादोंके निवासस्थान होने के सबब से तथा योगोंकी, दृष्टि की, भाषा की और भावोंकी इन चारोंकी चपलता होनेसबबसे बहुदा कृष्णादि तीनों अशुभ लेश्या परिणती में परिणम ने से मूल गुणों उत्तर गुणों में सुक्ष्म बादर अनेक प्रकार के दोषों लगते हैं उन से बच ने सदा प्रयत्न वन्त रहते हैं, और लगे दोषों से शुद्ध होने सदा प्रति क्रमण प्रायश्चितादि करते रहते हैं सो प्रमत संयति गुण स्थानी जानना.

७ सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान के लक्षण—यहा पाचों प्रमाद का अभाव होने से यह जीवों-मन्दाभिमानी, मन्द विषयी, मन्द कषायी, सदा उद्यमी, अल्प भाषी, गुणानुवादी, गम्भीर्य, एकाकान्त धर्म ध्यानी, ज्ञानी शान्त दान्त आदि उत्तम गुण संयुक्त कोवे सो अप्रमत संयति गुणस्थानी.

८ आठवे नियति बादर गुणस्थान के लक्षण—यह बादर दुसरे के जान ने में आवे ऐसी क्रोधादि कषायों की प्रणति में नहीं परिणमते हैं, अचपल, स्थिर स्वभावी शुद्ध ध्यानी बन पण्डित वीर्य को अवरण-अच्छा दन करने वाली प्रकृतियों को क्षय करने तीव्र वेगमय परिणामोंकी धारा समय २ प्रति वृद्धि करते हैं, सो अपूर्व करण गुणस्थानी.

९ नववे निवृति बादर गुणस्थान के लक्षण—इन के सूक्ष्म भी क्रोध मान माय और तीनों वेदों के विकार का अभाव हुवा जिस से-अक्रोधी, अमानी, अमायि, निर्विषयी, अनुभव किये हुवे देखाते सुनाते भोगों की संपूर्ण वांछा रूप संपूर्ण संकल्प विकल्प रहित अपने परयात्म स्वरूप के ध्यान में निश्चल एकाग्र परिणम

से क्षीण में क्षय करने में नहीं आती ये वर्ण तथा अवयव रचना का भेद होनेपर भी जो अनिवृत्ति करणी रहते हैं, सो अनिवृत्ति करणी गुणस्थानी जानना.

१० दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान के लक्षण—किसी के भी जानने में न आवे ऐसे किञ्चित मात्र स्वभाविक ही लोभ अन्तःकरण में रहने सिवाय बाकी सर्व विषय कषाय नष्ट होने से यह निष्कषायी, निर्लोभी महा गम्भीर्य, महा वैरागी, निश्चिन्त स्वात्मरूप परमात्मा के ध्यान में एकान्त एकाग्रता से निर्मग्न सर्व प्रकार की वांछाते निर्मुक्त महा मुनि सो सूक्ष्म सम्परायी गुणस्थानी,

११ इग्यास्वे उपशान्त मोह गुणस्थानी के लक्षण—यह कषाय को उपशान्त कर हायमान परिणामी होनेसे पडते हैं, जिसके दो प्रकारः— (१) एकतो भव के क्षय होने से पडते हैं सो, और (२) स्थिति के क्षय होने से पडते हैं सो. (१) जो भव के क्षय होनेसे पडवाइ-पतीत होते हैं सो उन का इग्यास्वे गुणस्थान स्पर्शवाद आयुष्य पूर्व होने से उसी वक्त वो मनुष्य भव का क्षय कर मरकर नियमा से पांचों अनुत्तर विमानों में के किसी भी एक विमान में जाकर उपजते हैं. वहां उस ही समय बन्ध संक्रमण आदि आठों ही कारणों का उद्यम प्रवृत्ति हो इग्यास्वे गुणस्थान के पडे हुवे सीधे चौथे गुणस्थान मे आकर ठेहरते हैं. बीच में के गुणस्थान किञ्चित मात्र ही स्पर्शा ते नहीं हैं, उपशम सम्यक्त्व से पडते वेदक सम्यक्त्व का स्पर्शन कर क्षायिक सम्यक्त्वो बन जाते हैं, सो भव क्षय पडवाइ जानना (१) और जो जीवों इस गुणस्थान की जघन्य एक समय की उत्कृष्ट अन्तर मूर्हत की स्थिति है वो सम्पूर्ण होने से आगे जाने के रस्ते के स्वभाव के अभाव से तुर्त वहां से पीछे गिरते

और जहां जहां उदय उदीरणा प्रकृतियों का व्यव छिन्न पना वा हो उनको पीछी आरंभते अर्थात्-जैसी तरह से उपशमाइ थी सी ही तरह से पीछी उदय भाव में लाते वो पडते हुवे आठवे गुणस्थान में तो नियमासे आते हैं. उसमें से कितनेक जीवों तो आठवे गुणस्थान में आकर उपशम श्रेणि त्याग कर पीछी क्षपक श्रेणि का प्रारंभ कर नववे दशवे गुणस्थान को स्पर्श वारवे चले जाते हैं. वो निश्चय से उस ही भव में मोक्ष पाते हैं. और कोइ क्षायिक सम्यक्त्वी होकर पीछा श्रेणिका आरंभ नहीं करे और आठवे में नहीं संभले वो चौथे में आकर ठेहरते हैं. इस से नीचे नहीं उतरते हैं. और उपशम सम्यक्त्वी आठवे में नहीं संभले तो सातवे छठे पांचवे चौथे आकर ठेरे, और जो कभी चौथे में भी नहीं संभले तो दुसरे होकर पहिले आवे; मिथ्यात्वी बन जावे ÷ परन्तु नियमानहीं. कितनेक नहीं भी आते हैं. ऐसी तरहसे जो गमन गमन करे उनको उपशान्त मोह गुणस्थानी जानना.

१२ वारवे क्षीण मोह गुणस्थानी के लक्षण—इन के सर्व कषाय का क्षय होने से सर्व कर्मों की प्रकृतियों का संख्यातवा भाग में से बाकी एक ही भाग रहे उस वक्त-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, ५ अन्तराय, और दो निन्द्रा, इन १६ प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति सर्व अपवर्तना से अपवर्त कर (घटाकर) क्षीण कषाय की अद्धा जैसी करे, परन्तु निद्रा द्विक को स्थिति स्वरूप की अपेक्षासे एक समय हीन करे, और सर्व कर्मों रूप से बराबर होवे ज

÷ यह उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि चारिव मोहकी प्रकृतियों को उपशमाने खपाने में होती है, परन्तु सम्यक्त्व मोहनी की नहीं.

व क्षीण कषायद्धा अनन्तर मुहूर्त प्रमाण रहे. उस वक्त उन १६ प्रकृति का रसघात विराम पावे (दूसरी बाकी रही प्रकृतियों का रस घात अभीतक विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतियों को उदय ऊदीरणादि से वेदते २ एक समय अधिक अवलि का मात्र रह वहां तक वेदे, फिर ऊदीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आवलिका मात्र उदय कर वेदे, वो जावत् क्षीण कषाय के द्वी × चरम समय तक वेदे, फिर उस द्वी चरम समय में निद्रा और प्रचला का लक्षस्त पनमें ही घात करे-अर्थात् निद्राद्विक स्वरूप सत्ता की अपेक्षासे क्षय होये फिर ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मों की १४ प्रकृतिाय का भी घात करे, सो मोह गुणस्थानी.

१३ तेरवे सयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण—यह संजोगी होनेके सबव से इन के बाह्य चलोपकरण—आहार विहारादि कार्यार्थ गमना गमनादि शुभ चेष्टा युक्त होते हैं, और—१ सयोगी २ सशरीरी, ३ शुक्ल लेशी, ४ क्षायिक सम्यक्त्वी, ५ यथाख्यात चारित्री, ६ पण्डितवीर्य ७ शुक्लध्यानी, ८ केवल ज्ञानी, ९ केवल दर्शनी और १० शैलशी अवस्था को प्राप्त होते हैं, और जो पहिले तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना करी होतो यहां अष्ट प्रतिहार्य, ३४ अतिशय, ३५ वणीगुण, मुनिन्द्र-नरेन्द्र-सुरेन्द्र के वंदनीय पूजनीय होते हैं.

१४ अयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण—यह योग रहित होने से स्थिति घातादि रहित हुवे हैं, जितनी उदयवति प्रकृतियों हे उन्हे वेदते हुवे-क्षय करते हैं, और, जिन प्रकृति का उदय

हीं है फक्त सत्ता में रही है उस के दालिक स्तिबुक + संक्रम कर
 ादयवति प्रकृतियों है उन्हे वेदे, वेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक दि
 वरम समय लग करने से चारों ही अघातिक कर्म का यहां
 नाश होता है, वो अयोगी, अशरीरी, अलेशी, परम शुक्ल ध्यानी
 पण्डित वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान,
 केवल दर्शन इन गुणों सहित होते हैं. सो अयोगी केवली गुण-
 स्थानी जानना.

अन्तिम मुक्ति स्थान के परम परमात्मा के लक्षण केवल
 ज्ञान केवल दर्शन, निराबाध, क्षायिक-सम्यक्त्व, अजरामर, अरूप,
 अगुंरुलघु. अनन्त शक्तिवन्त, येही सिद्धत्व के लक्षण है.

६ छद्म दृष्टान्त द्वार. *

१ मिथ्यात्व गुणस्थानी—जैसे जन्मान्व मनुष्य जन्म मात्र
 से किसी भी वस्तु के दर्शन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य
 जान शक्ता नहीं है, तैसे जीवादि नवों पदार्थों को जानने नहीं
 हैं, और जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे धतुरा पान करने से या
 पीलीये के रोग से अच्छा दित हुवा मनुष्य वस्तु को विपरीत-अ
 न्य तरह से देखता है, तैसे मिथ्यात्वी जीवों भी नव ही पदार्थों को
 विपरीत. अन्य तरह से श्रद्धते हैं. ३६३ पाखाण्डियों की माफिक
 जानना.*

इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्ड का पृष्ठ ९ वा.

+काच्य-मिथ्यात्वे ना लीड चित्तानितातं । तत्त्वा तत्त्वं जानते नैव जीवाः ।

किंजात्यन्याः कुव चिद वस्तु जाने । रम्या रम्यं वक्त मासादयेयुः ॥१॥

व क्षीण कपायद्धा अनन्तर मुहूर्त प्रमाण रहे. उस वक्त उन १६ प्रकृति का रसघात विराम पावे (दुसरी बाकी रही प्रकृतियों का रस घात अभीतक विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतियों को उदय उद्दीरणादि से वेदते २ एक समय अधिक अवलि का मात्र रह वहां तक वेदे, फिर उद्दीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आवलिका मात्र उदय कर वेदे, वो जावत क्षीण कपाय के द्वा. चरम समय तक वेदे, फिर उस द्वा. चरम समय में निद्रा और प्रचला का लक्षस्त पनमें ही घात करे-अर्थात् निद्राद्विक स्वरूप सत्ता की अपेक्षासे क्षय होये फिर ज्ञानावर्णीय आदि तीनों कर्मों की १४ प्रकृतिाय का भी घात करे, सो मोह गुणस्थानी.

१३ तेरवे सयोगी केवली गुणस्थानी के लक्षण—यह संजोगी होनेके सबब से इन के वाह्य चलोपकरण—आहार विहारादि

नहीं है फक्त सत्ता में रही है उस के दालिक स्तिबुक + संक्रम कर उदयवति प्रकृतियों है उन्हे वेदे, वेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक द्वि चरम समय लग करने से चारों ही अघातिक कर्म का यहां नाश होता है, वो अयोगी, अशरीरि, अलेशी, परम शुक्ल ध्यानी पण्डित वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन इन गुणों सहित होते हैं. सो अयोगी केवली गुण-स्थानी जानना.

अन्तिम मुक्ति स्थान के परम परमात्मा के लक्षण केवल ज्ञान केवल दर्शन, निराबाध, क्षायिक-सम्यक्त्व, अजरामर, अरूप, अगुंरुलघु. अनन्त शक्तिवन्त, येही सिद्धत्व के लक्षण है.

६ छद्म दृष्टान्त द्वार. *

१ मिथ्यात्व गुणस्थानी—जैसे जन्मान्ध मनुष्य जन्म मात्र से किसी भी वस्तु के दर्शन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य जान शक्ता नहीं है, तैसे जीवादि नवों पदार्थों को जानने नहीं हैं, और जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे धतुरा पान करने से या पीलीये के रोग से अच्छा दित हुवा मनुष्य वस्तु को विपरीत-अन्य तरह से देखता है, तैसे मिथ्यात्वी जीवों भी नव ही पदार्थों को विपरीत. अन्य तरह से श्रद्धते हैं. ३६३ पाखाण्डियों की माफिक जानना.*

~~इस~~ इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्ड का पृष्ठ १ वा.

+काव्य—मिथ्यात्वे ना लीड चित्तानितातं । तत्त्वा तत्त्वं जानते नैव जीवाः ।

किंजात्यन्थाः कुत्र चिद् वस्तु जाने । रम्या रम्यं वक्त मासादयेयुः ॥१॥

२ सास्वादन गुणस्थानी—(१) जैसे कोई मनुष्य ऊँचे प्रसाद पर चढ़ नीचे देखने से चकर आया सो गिरा, परन्तु जमीन तक पहुँचा नहीं. तैसेही जीव सम्यक्त्व रूप महलपर चढ़ परस्वभाव रूप पृथ्वी का अवलोकन कर्ता कषायोदय रूप चक्र आनेसे पड़ा, परन्तु मिथ्यात्व तक पहुँचा नहीं सो सास्वादनी. (२) जैसे किसी ने खीर सक्कर का आहार किया और वान्ती (उलटी) होगइ, फिर मुह में थोडासा गुलचटा स्वाद बना रहता है, तैसेही सास्वादनी सम्यक्त्व का वमन किया बाद जरा से भाव रहते हैं. (३) जैसे घड़ियाल पर डंक्का मारने से अबल बुलन्द अवाज हो फिर मन्द पडता जाता है तैसे सास्वादनी के परिणाम हायमान होते हैं. और (४) जैसे अम्ब वृक्ष से टुटा फल पृथ्वी पर नहीं आया, तैसे जीव रूप अम्ब परिणाम रूप डाल, सम्यक्त्व रूप फल, मोह रूप हवा चलने से टुटा, परन्तु मिथ्यात्व रूप पृथ्वी पर नहीं पडा सास्वादनी.

३ मिश्र गुणस्थानी—(१) जैसे दही और सक्कर दोनों भेले कर खाने से खट्टा और मीठा मिला हुआ दोनों तरहका स्वाद आता है तैसे खट्टे समान मिथ्यात्व का भी स्वाद लेते हैं, और मीठे समान सम्यक्त्व का भी स्वाद लेते हैं. (२) कोई मिश्र दृष्टि मुनि राज के दर्शन करने गया, वहां मुनि राज का अभाव होनेसे बाव जोगी फकीर जो मिला उस के ही दर्शन कर उतना ही धर्म मान लिया सो मिश्र दृष्टि जानना.

४ अविरति सम्यग् दृष्टि गुणस्थानी—(१) जैसे नदी में पडा हुआ फत्थर पानी के आवा गमन से-अन्य पत्थरों से अथडा २ कर-धिसा २ कर स्वभाव से ही गोठ साफ-चिक्कणा-चमकदार बन जाता है; तैसे यह जीव संसार रूप नदी में, जन्म मरण रूप आ-

गमन से, क्षुधा-तृषा-शीत-ताप-ताडन-भेदन-आदि अनेक कष्टों सहन करने से, यथा प्रवृत्ति करण कर कोमल बना, अपूर्व करण कर उज्वल बना और अनिवृत्ति करण कर-निर्मल बना. सम्यक्त्वी हुआ. (२) जैसे महा मेघकी घटा से अच्छा दित हुआ सूर्य वायु के प्रयोग से वो बदल पतले पडने से कुछ तेज का प्रकाश करता है. तैसे अनादि कर्म पटलों से कर्म पडलों कर अच्छा दित हुआ आत्मा का तीनों करण रूप वायु से कर्म पतले पडने से ज्ञानादि ज्योति का कुछ प्रकाश हुआ, जिससे सर्वज्ञ प्रणित तत्वों का श्रद्धान हुआ, उन तत्वोंकी प्रभावना करे देव दानव मानव के किये मरणातिक संकट से भी सम्यक्त्व से परिणाम चलित नहीं करे, द्रष्ट धर्मी प्रिय धर्मी होवे कृष्ण वासुदेव श्रेणिक राजा आदिवत्

१ देश विरति गुणस्थनी—जैसे अफीम को जेहर जानता हुआ भी व्यश्न का प्रेरण हुआ कार्य साधन करने प्रमाण युक्त सेवन करता है, तैसे श्रावक भी आरंभ परिश्रम को खोटा जानते हुवे भी कर्म रूप व्यश्न के प्रेरण हुवे, आत्म कार्य साधन मर्यादके अन्दर सदा प्रवृत्ति करते हैं. (२) जैसे धाय माता-दुसरे के बच्चे को स्तनपान कराती-क्रिडा कराती भी उस बच्चे से विरक्त भाव रहती है. तैसे श्रावक भी शरीर सज्जन का पोषण करते विरक्त भावी रहते हैं. दशों श्रावकोवत्.

६ प्रमत्त संयति गुणस्थानी—(१) जैसे धनावा शेट अपने प्राण प्यारे देव दत्त पुत्र का घातिक विजय चोर के साथ (एकही खोडे मे) कर्म योग फस अपना कार्य साधन उदासीन भाव से उसे अहार का विभाग दिया. तैसे साधु भी आत्म गुण के घातिक शरीर रूप चौर के वश्य में पड, मोक्षार्थ साधन निर्वद्य उपचा

र से शरिर पोषते हैं. (२) जैसे लाभार्थी व्यापारी, थोडा द्रव्य का व्यय कर बहुत लाभोपार्जन करने खप करते हैं, त्यों साधु अपवाद मार्ग में प्रवृति रूप द्रव्य का व्यय कर, उत्सर्ग मार्ग की प्रवृति रूप लाभोपार्जन की खप करते हैं, धर्म रूचीजी के गुरु धर्म धोष जीवत्, या वृतमान साधूओं वत्.

७ अप्रमत्त संयाति गुणस्थानी—(१) जैसे उत्कृष्ट कामार्थि अपने दुसाध्य कार्य को साध ने तत्पर हुवा, उस के मध्य में आते हुवे महा विधानो की दरकार नहीं रखता, महा कष्टों को भी शुभ रूप मान, इष्ट कार्य की तरफ लक्ष विन्दु चौंटा कर कार्य साधता है, तैसे ही अप्रमत्त मुनिराज भी आत्मार्थ साधन में लक्ष विन्दू ए काग्रता से लगा, उपसर्ग परिसर्हों की दरकर नहीं रखते हुवे आत्म मोक्षार्थ का साधन करने में प्रवृति करते हैं, धन्ना अणगार, मेघ कुमर आदि मुनियोवत्.

८ नियट्टी वादर गुणस्थानी—(१) जैसे अनेक पंथानुगामी (रस्तागिर) अजान रस्ते में भ्रमित हुवे, पुनः रस्ते के जान होते ही उसे उत्सहा से उलंघते हुवे, उन में से जो राज पन्थ धारण करता है सो इष्ट स्थान प्राप्त करता है. और जो छन्डियों (अपूर्ण रस्ते) में पडता है उसे आगे रस्ता न होने से उसी रस्ते पीछा पलटना पडता है, तैसे ही अष्टम गुणस्थान वृति मोक्ष मार्ग में उत्सहासे गमन करते जो क्षपक श्रेणि रूप राज मार्ग धारण करते हैं वो मोक्षस्थान प्राप्त करते हैं, और जो उपशम श्रेणि रूप छन्डि का मार्ग धारण करते हैं वो पडवाइ होते हैं, प्रसन्न चन्दजी राज ऋषिवत्.

इहा—जो समदृष्टि भूवडा । करे कुटुम्ब प्रानिपाल ।

अन्तरसे न्याना रहे । ज्यो ध्याय खेलाववल ॥१॥

९ अनियंत्री वादर गुणस्थानी—जैसे क्षार के संजोगसे दूध लट जाने से वो घृत से निराश होता है, फक्त स्वभाविक चिक-पास की झलक रहती है, तैसे नववे गुणस्थान वृत्ति महात्मा के अन्तःकरण से निवृत्ति करण रूप क्षार कर के, विषय कषाय रूप घृत से निराश हुवा फक्त स्वभाविक संज्वल के रूप चिकपास रही, इरकेशी ऋषिवत्.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी—जैसे कामूवे के रंग से रंगति वस्त्र को क्षारादि से धो साफ किये बाद-श्वेत हुवे बाद भी उस में रंग की कुछ मोतीया झलक रहती है, तैसेही दशवे गुणस्थान वर्तियों ने आत्म रूप वस्त्र का कषाय रूप रंग को दूर करने चारित्र्य रूप पाणी, तप रूप अग्नि, और सूक्ष्म करण रूप क्षार (सावन) से धो उज्वल करी है तो भी सूक्ष्म संज्वल लोभ कषाय रूप झलक रहजाती है.

११ उप शान्त मोह गुणस्थानी—(१) जैसे अग्नि के प्रज्वलित अंगारे को राख कर ढक देने से उस का तेज छिप जाता है, परन्तु उसका कुछ नाश नहीं होता है, वायु का प्रयोग होते ही उपर ढकी हुई राख दूर होते ही उस अग्नि का तेज प्रगट होता है, तैसे ही इग्याखे गुणस्थान वृत्ति ने मोह कर्म रूप अंगार को उपशम भाव रूप राख कर ढकी थी, सो संज्वल के रूप वायु का झपटा लग ने से पुनः जरूर ही प्रगट होती है (जिस से वो पडवाख़ होता है, (२) जैसे चौतरफ मुद्रित कर एक ही दरखज्जे बली कोटडी में प्रवेश किया हुवा मनुष्य जिस रस्ते से प्रवेश किया था, उसी रस्ते से पीछा बाहिर आना पडता है-इ-सरी तरफ जा नहीं शक्ता है, तैसेही इग्याखे गुणस्थानवर्ति जिन

प्रकृतियों का उपशम कर प्रवेश कियाथा उन्ही प्रकृतियों का पीछा उदय होने से पीछे निकलते हैं. अर्थात् पडवाइ होते हैं. कुंड-रिक्वत्.

१२ क्षीण मोह गुणस्थानी—जैसे प्रज्वलित अग्नि अमोघमेघ धारा की वृष्टि कर शान्त शीतल होजाती है—साफ बुझ जाती है—फिर जिस मे उत्पन्न होने की शक्ति विलकूलहीं नहीं रहती हैं. तैसेही वारवे गुणस्थान वर्ती महात्माने मोहनीय रूप अग्नि-का परम शान्त रूप पाणी की अमोघ वृष्टिसे साफ बुझा कर—नि-रांकुर करी. सो पीछी कदापि उत्पन्न नहीं होती है, स्कन्धक मुनि

१३ सयोगी केवली गुणस्थानी—मेघ पटलोंका सर्वथा नाश होनेसे नभ मण्डल में संपूर्ण किरणो कर जाज्वल मान सूर्य क प्रकाश होता है. तैसे ही तेरवे गुणस्थान वर्ती के घन घातिक कर्म रूप आभ्रपटलों का नाश होते ही अनादि निधान केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप सूर्य का महान प्रकाश होता है, श्री महावी स्वामीवत् व. चौबीसी तीर्थकरोवत्.

१४ अयोगी केवली गुणस्थानी—जैसे सर्व पर्वतों में बडा सुदर्शन मेरु पर्वत एक हजार जोजन की जमीन नीव वाला ९९ हजार जोजन का उंचा उसको प्रलय काल होवे ऐसा पवन भी हला नहीं शक्ता है, तैसे चउदवे गुणस्थानी परमात्मा के भी मनादि त्रियोगों निष्क्रिय हो निष्कन्द स्थिरी भूत होजाते हैं वों कदापि चलिन् नहीं होते हैं. गजमुकुमालवत्.

अन्तिम—मोक्ष स्थानो प्राप्त करने के रीति—जैसे (१) पूर्व प्रयोग से—जैसे धनुष्य से छुटा हुवा वान पहिले प्रयोग-थके कर आगे को जाता है, तैसे आत्मा भी पहिले मुक्ति प्राप्त होनेके लिये प्र-

योग-उद्यम करता था उस प्रयोग के धके से मुक्ति तक जाता है। (२) असंग से सो-जैसे मट्टि और सण के लेपसे भारी हुवा तुम्बा पाणी में डूबा हुवा था, वो लेप गलकर छूटतेही तुर्त पाणी के उ-पर आजाता है, तैसे ही आत्मा कर्म वर्गणा के लेप कर संसार में डुब रहाथा, वो लेप गल के छूटने से संसार के अन्तिम विभाग में मोक्ष को प्राप्त होता है। (३) बन्ध छेद से सो-जैसे एरन्ड के फळ में बीज बन्धा हुवा था सो फल सूक कर फटते ही बीज ऊंचा उछल पडता है, तैसे ही आत्म कर्म बन्ध से छूटते ही उर्द्ध लो क को गमन करता है। (४) जैसे पवन रहित अग्नि की ज्वाला का स्वभाव से ही उर्द्ध गमन होता है, तैसे ही कर्म रहित आत्मा भी स्वभाव से ऊंची दिशा जाती है (५) जैसे पांचों रसों मे से घृत का किसीभी रस में कथन नहीं कर सके (स्वाद नहीं बता सके) त्यों सिद्ध के सुकों का भी वरणन न होसके।

७ सातवा-गुण द्वार. *

१ मिथ्यात्व गुणस्थान वाला—मिथ्यात्व बुद्धि-दुबुद्धि कर असत्य पदार्थों में सत्य भाव धारण कर. दुःख को सुख रूप मान पुद्गल परिणति में आपा स्थापन कर, अनेक प्रकार की आधि व्याधी उपाधीसे पिडित होता है, आगे चारों गति रूप चोहटे (चौ स्त) में जीव रूप गेन्द को, कर्म रूप दंडाका प्रहार कर मिथ्या-त्व रूप खेलाडू सदा परिभ्रमण करता ही रहेगा. जहां तक इस स्थान में संस्थित रहेगा वहां तक संसारका अन्त कदापि नहीं पा

पन्दरे भवों के अन्दर ही मोक्ष प्राप्त करलेता है।

५ देशव्रति गुणस्थान में आने वाले-संतोष रूप आनन्दके भुक्ता, सर्व जीवों के विश्वासनिय, माननिय, यशःश्री बने, और जो व्रतों का भंग नहीं करे तो-जघन्य पहिले देव लोक में उपजे, उत्कृष्ट बारवे देवलोक में उपजे, और जघन्य ३, उत्कृष्ट १५ भवमें मोक्ष प्राप्त करे।

६ प्रमत संयति गुणस्थान वाले--सर्व चिन्ता से निर्मुक्त, शील संतोष दया क्षमा आदि विभुति से भूषित, तपोधन, नरेन्द्र सुरेन्द्र के वंदनीय पूज्यनीय, ज्ञानानन्द के ध्यानानन्द में निर्मग्न रह आयुष्य समाप्ति बाद जघन्य प्रथम स्वर्ग उत्कृष्ट अन्तिम स्वर्ग सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जाकर उपजते हैं, और जघन्य ३ उत्कृष्ट १९ भव में मोक्ष पाते हैं।

७-१० अप्रमत संयति से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में प्रवृत्त ते, अप्रमादि निर्विषयी, निःकषायी आत्म ध्यानके परमानन्द में मग्न हूवे, आयुष्य के अन्त कल्पतीत देवों में जाकर उत्पन्न होवे, और उत्कृष्ट बीसरे भव में मोक्षकी प्राप्ति करे।

११ उपशान्त मोह गुणस्थान वाले-वीतरागी-यथाख्यात चारित्री, परम उपशान्त रस में निर्मग्न, आत्म ज्ञान के सहाजनन्द सुखों में रमण कर्ता, आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर विमान में उपजते हैं, और जघन्य उसी भव में, उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष पाते हैं।
१२क्षीणमोह गुणस्थान वाले-क्षपकश्रेणि, क्षायिकभाव क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक-यथाख्यात चारित्र, करण सत्य, जोग सत्य, भाव सत्य, अमायी, अकषायी, वीतरागी, भावनिग्रन्थ, संपूर्ण सम्बुड, सम्पूर्ण भवीतात्मा, महा तपश्री, महा सुशील, अमोही, अविकारी, महा-

(ज्यादा से ज्यादा) एक हजार जोजन प्रमाणें होती है

देशव्रति गुणस्थान वालों की जघन्य ९ अंगुल की, उत्कृष्ट २०० धनुष्य की अवधेणा होती है.

प्रमत अप्रमत गुणस्थान वालों की जघन्य १ हाथ की उत्कृष्ट पांचसो धनुष्य की अवधेणा होती है.

अपूर्व करण गुणस्थान से लगाकर अयोगी केवली गुणस्थान वालों की जघन्य २ हाथ की उत्कृष्ट ५०० धनुष्यकी अवधेणा.

और अन्तिम स्थान मुक्ति में जो परमात्माके शुद्धात्म प्रदेशों है उन की जघन्य एक हाथ आठ अंगुल, मध्यम चार हाथ सोले अंगुल, और उत्कृष्ट ३३३ धनुष्य ३२ अंगुल की अवधेणा होती है.

नववा-उत्पत्ति द्रव्य परिमाण द्वार =

एकही समय में जीवो उत्पन्न होवे तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जघन्य-१-२-३, उत्कृष्ट संख्याते असंख्याते और अनन्ते जीव.

सास्वादन, मिश्र, अविरति, और देश विरति-इन पांचों गुणस्थान में जघन्य -१-२-३, उत्कृष्ट-संख्याते असंख्याते जीवों पावे.

छट्टे प्रमत गुणस्थानमें जघन्य १-२-३-उत्कृष्ट ÷ प्रत्येक हजार सातवे अप्रमत गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सो.

अपूर्व करण, अनिष्टी वादर, और सूक्ष्म सम्पराय, इन तीनों गुणस्थान मे अलग जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट दोनों श्रेणि के मिल १६२ जीवों पावे.

= इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १०९ वा.

÷ दोभे लगाकर ९ तक की संख्या को 'प्रत्येक' नाम से बोलाते हैं.

उपशान्त मोह गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट ५४ जीवों
 और क्षीण मोह, संयोग केवली अजोगी केवली इन गुण

स्थानों में तथा अन्तिम मोक्ष स्थान में जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट १००
 जीवों उपजते हैं.

देशवा-पावति द्रव्य परिमाण द्वार. *

दृग्बन्ध-मिथ्यात्व गुणस्थान में-अनन्तांत जीवों पाते हैं.


साम्बादन और मिश्र गुणस्थान में-जघन्य-१-२-३, उत्कृष्ट

असंख्याते. अविगति और देशविरति गुणस्थान में-जघन्य थोड़े अ-
 संख्याते उत्कृष्ट बहुत असंख्याते जीव पावे.

६, उत्कृष्ट १०८ जीवों पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान मे पूर्व प्रवर्तन आश्रिय जघन्य,
१-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सो जीव पावे. वर्तमान प्रवृत्तन आश्रिय जघ-
न्य १-२-३, उत्कृष्ट १०८ जीवों पावे.

अन्तिम सिद्धस्थान में-सदा अनन्तांत जीवोंका निवासहै.=



इग्यारवा-क्षपति द्रव्य परिमाण द्वार.

एक समय में जीवोंचवे-खपे-मरें तो-१ मिथ्यात्व गुणस्थानमे
जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट-संख्याते असंख्याते अनन्ते.

२-५ सास्वादन से देशविरति गुणस्थान वाले जीवों एक
समय में चवेतो जघन्य १-२-३ उत्कृष्ट संख्याते असंख्याते.

६-७ प्रमत अप्रम गुणस्थान मे-जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सां.

✎ × इस द्वारके खुलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १०९ वा.

* दिगम्बर आमना के सुदृष्ट-तरगणी ग्रन्थ में गुणस्थानों में जीवों द्रव्य का
परिमाण इस्तरे बताया है:—पहिले गुणस्थान में-अनन्तान्त जीवों पावे दुसरे मे--तेरे
(१३) क्रोड जीवों पावे. तीसरे में-९२ क्रोड, चौथेमे-७०० सो क्रोड, पांचवे-में-१०४
क्रोड, छठे मे-५९३९८२०६, सातवे में-२९६९९१०३, ॥ उपशम श्रेणी आश्रिय
आठवे में-२९९, नववे में २९९, दशवे में, और इग्यारवे मे भी २९९, सर्व--१११६
और क्षपक श्रेणी आश्रिय-आठवे में-५९८, नववे में ५९८, दशवेमें ५९८ वारवे मे
भी ५९८, और चउदवे में भी ५९८ सव-२९९०, और तेरवे गुणस्थान में-केवल
ज्ञानी ८९८९०२ पाये, यों पहिला छोटतेरे ही गुणस्थान के मिल ८९९९९९९९
इतते जीव एकही वक्त में पाते हैं. यह बात बहुत ही विचार ने जैसी है किस अपे-
क्षासे लिखा है सो ग्रन्थ कर्ता जाने.

८-१० अपूर्व कर्ण-अनिर्था बाद और सूक्ष्म सम्पगय इन तीनों गुणस्थान में. जघन्य १-२-३. उत्कृष्ट दोनों श्रेणिके मिल क १३४ जीवों.

११ उपशान्त मोह में जघन्य १-२-३. उत्कृष्ट ५४ जीवमं
१२-१४ क्षीण मोह.संयोगी केवली और अजोगी केवली
गुणस्थान में. जघन्य १-२-३ जीवों चवं. उत्कृष्ट-१०८ जीवों एक स
मयमें मंग. और अन्तिम मिद्धस्थानमें स्वपति नहीं है-मदा वृद्धिर्हति

चारवा-क्षेत्र परिखाण द्वार *

- १ मिथ्यात्व गुणस्थान सर्व लोक में पावे.
- १-४ साम्बदन. मिश्र. और अविगति यह तीनों गुणस्थान
त्रस नाई मंही पावे.
- ५ देवाविगति गुणस्थान-तिग्छे लोक में और अधोलोक में.
- ६-१४ प्रमत से संयोगी केवली तक के ९ गुणस्थान वाले
जीवों अदाड द्वापमंही पातेहें.

तरवा-क्षेत्र स्पर्शना द्वार *

- १ मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीवों सर्व लोक स्पर्श.
- २ साम्बादनी-नीचे पंडग वन से छ्त्रा नमक तक स्पर्श उ-
पर अधोगामिनी विजय से नवाग्रियेक तकका क्षेत्र स्पर्श.
- ३ मिश्र गुणस्थान वाले-लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श.
- ४ अविगति गुणस्थानी-उपर अधोगामिनी विजय से चारह

देव लोक तक; और नीचे पडंगवनसे छठी नरक तकका क्षेत्रस्पर्श।


५ देहा विरति गुणस्थानी-अधो गामिती विजय से १२ दे-
वलोक तक स्पर्श।

६-११ प्रमत्त गुणस्थानी से लगा, उपशान्त मोह गुणस्थान
वाले जीवों अधोगामिनी विजय से लगाकर पांच अनुत्तर विमान
तक स्पर्श।

१२ क्षीण मोह गुणस्थान वाले लोक का असंख्यातवा भा-
ग स्पर्श।

१३ सयोगी केवली गुणस्थानी-सर्व लोक स्पर्श। =

१४ और अयोगी केवली गुणस्थानी-तथा सिद्ध भगवान
लोक का असंख्यात वा भाग स्पर्श।



चउदवा-काल परिमाण (स्थिति) द्वार. *

१ मिथ्यात्व गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार की:—(१) अ-
णाइया अपज्जवसिया” अर्थात्-आदि और अन्तरहित मिथ्यात्व अ-
भव्य जीवों का होता है, अभव्य कदापि सम्यक्त्व नहीं स्पर्शतेहैं।
(२) “ अणाइया सपज्जवसीया”—अर्थात् आदि तो नहीं परन्तु
अन्त आता है, ऐसा मिथ्यात्व भव्य जीवोंका होता है, किसीभी
वक्त मिथ्यात्व गुणस्थान का त्याग कर आगे वडते हैं। (३) सइ-
या सपज्जवसीया” अर्थात्-आदि और अन्त दोनों सहित. ऐसे

❀ * इस द्वारके खुलासा के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ ११९ वा.

= सर्व लोक केवल समुद्र घात करती वक्त स्पर्शते हैं

भिथ्यान्वी पडवाइ + सम्यग् दृष्टि जीव होते हैं. जिनकी स्थिति जवन्य अन्तर मुहूर्तकी, उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जितनी २ सास्यादन गुणस्थान की स्थिति—जवन्य एक समय की और उत्कृष्ट छे आवर्तक का और सात समय की, फिर भिथ्यान्व में जावे.

३ भिथ्र गुणस्थान की स्थिति—जवन्य उत्कृष्ट अंतर ही मुहूर्त की. ÷


४ अविगति सम्यकदृष्टि गुणस्थानकी स्थिति-जवन्य अन्तर मुहूर्त मुहूर्त की. उत्कृष्ट ६६ अंगद सागरंगम झाजंग की (कुल ज्यादा) ×

५-६-१३ देज विगति, गमत संयति और मयोगी केवर्ती इन तीनों गुण स्थानों की स्थिति-जवन्य अन्त मुहूर्त की. उत्कृष्ट-देज उगा (८ वर्ष कम) कोड प्रव की. ×

७-११-३ प्रमत्त गुणस्थानसे लगा उपशान्त मोह गुणस्थान तक पांचोंकी अलग २ स्थिति—जघन्य १ समय, उत्कृष्ट अन्तर मुदूर्त की.

१४ अयोगी केवली गुणस्थान की स्थिति पंच लघु अक्षर (अ. इ. उ. ऋ. ल.) इन के उच्चार में बक्त लगे उतनी.

और अन्तिम स्थानी सिद्ध भगवन्त की स्थिति दो प्रकार की—(१) “अणादिया अपंजवसिया” सो अन्त सिद्धोंका आदि और अन्त दोनों ही नहीं हैं. क्योंकि अन्त काल वीत गया और वीत जायगा और (२) “सआय अपज्जवसीया” सो कितनेक सिद्धों की आदि तो है जैसे महावीर प्रभू कार्तिक अमवस्य को मोक्ष पधारे परन्तु अन्त नहीं. अमर हैं.



पन्दरवा-काल प्राप्त द्वार

३—१२—१३ तीसरा-मिश्र, बारवा-क्षीण मोह, और तेरवा-संयोगी केवली इन तीनोगुण स्थानों में कोइभी जीव कदापि काल प्राप्त नहीं करता—मरता नहीं है.

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में अवस्य काल करता हैं.

१—११ बाकी दश गुणस्थानों में काल करने की ‘भजना’—अर्थात् कोइ मरे और कोइ नहीं भी मरे. उपर नीचे चला जाय. और सिद्धतो अमर ही हैं.

कर सकते हैं, सो कर्म भूमीही ब्रह्मण कर सकते हैं. उनकी उत्कृष्ट उमर क्रोडें पूर्व की ही होती है.

३ मिश्र गुणस्थान की गति मार्गणा तीनः—तीसरे गुणस्थान से—१ चौथे गुणस्थान जाय, २ पांचवे गुणस्थान जाय, औ सातवे जाये.

४ अविरति गुणस्थानी की गति मार्गणा दोः—चौथे गुणस्थान से (१) पांचवे जाय और (२) सातवे जावे.

५ देशविरति गुणस्थानकी गति मार्गणा एक-सातवे जावे.

६ प्रमत गुणस्थानीकी भी गति मार्गणा एक-सातवे जावे.

७ अप्रमत गुणस्थानी की गति मार्गणा एक आठवे जावे.

८ अपूर्व करण गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-नववेजावे

९नियति बादर गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-दशवेजावे.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान की गति मार्गणा दो इग्यारवे जावे.

११ उतपशान्त मोह गुणस्थानी की गति मार्गणा नहीं, क्योंकि-पडवाइ होता है,

१२क्षीण मोह गुणस्थानीकी गति मार्गणा एक-तेरवे जावे.

१२ संयोगी केवली गुणस्थानी की गति मार्गणा एक-चौदवे जावे.

१४ अयोगी केवली गुणस्थानीकी गति मार्गणा-मोक्ष जावे मोक्ष स्थान से गति मार्गणा नहीं सदा स्थिर रहते हैं.

उन्नीसवा उपमार्गणा द्वार

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में उपमार्ग नहीं, क्योंकि-पहिला ही

उत्कृष्ट वैराग्य दिशा प्राप्त होतेही सातवे गुणस्थान में चले जाते हैं, और फिर „देव भेट का जातरा पूरी हुई” इस दृष्टान्तानुसार वो पडकर छठेमें आते हैं.

वे और जां पडे तो-पाहिले-दुसरे-और-तीसरे-आवे.

५ देशविरति गुणस्थान छोड चडेतो-सातवे जावे. और पडेतो पाहिले दुसरे तीसरे और चौथे आवे.

३ प्रमत गुणस्थान छोड-चडेतो सातवे जावे, और पडेतो पाहिले दुसरे तीसरे चौथे और पाचवे आवे.

७ अप्रमत गुणस्थान छोड-चडेतो आठवे जावे, और पडेतो छठे आवे, और काल करेतो चौथे आवे.

८ अपूर्व करण गुणस्थान छोड चडेतो नववे जावे, और पडेतो सातवे आवे, और काल करे तो चौथे आवे.

९नियति वादर गुणस्थान छोड-चडेतो दशवे जावे, और पडेतो नववे आवे, और काल पूर्ण करेतो चौथे आवे.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान छोड-चडेतो उपशम श्रेणिवाला इग्यावे जावे. क्षपक श्रेणि वाला वारवे जावे, तथा पडेतो नववे आवे और कालपूर्ण करेतो-मेरेतो-चौथे आवे.

११ उपशान्त मोह गुणस्थान छोड-बेड नहीं. पडेतो दशवे और आवे मेरेतो चौथे आवे.

१२ क्षीण मोह गुणस्थान छोड-तेरवे जावे, पडे नहीं

१३ सयोगी केवली गुणस्थान छोड-चउदवे जावे, पडे नहीं.

१४ अयोगी केवली गुणस्थान छोड-मोक्ष जावे पडे नहीं.

और मोक्ष छुट्ही नहीं. कही जावेही नहीं सदा वाही बने रहें.

इक्कीसवा-परस्पर उपमार्गणा द्वार

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में-दुसरे तीसरे चौथे पांचवे और छठे

बावीसवा-अरोह अवरोह द्वार.

- १ मिथ्यात्व गुणस्थान वाले की एक आरोह-चडती गति.
 - २ सास्वादन गुणस्थानी की एक अवरोह-पडति गति.
 - ३-१० मिश्र गुणस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान वाले-अरोह अवरोह-चडति पडति दोनों प्रकार की गति करें.
 - ११ उपशान्त मोह गुणस्थानी की एक-अवरोह गति.
 - १२-१४ क्षीण मोहसे संयगी केवली तक एक-अवरोह गति.
- और सिद्धस्थान में दोनों ही गति नहीं-स्थिर हैं.

तेवीसवा चडाचड गति दृष्टान्त द्वार

- १ दादुर (मेडक,) २ परनाल, ३ ईलड, और ४ उलाल, इन चारों प्रकारकी गति में से.
- १ मिथ्यात्व गुणस्थानी की एक दादुर गति-फदक मारचडे,
- २ सास्वादन गुणस्थानीकी एक परनालगति-परनाल ज्यों पडे,
- ३ मिश्र गुणस्थानी की गति दो तरह-१ ईलड और उलाल.
- ४ अविरति गुणस्थानी चारों प्रकारकी गति करते हैं.
- ५ देश विरति गुणस्थानी तीन प्रकारकी गति करे-१ दादुर २ परनाल, और ३ उलाल.
- ६-९ प्रमत गुणस्थान से नियट्टि वादर गुणस्थानवाले तीन प्रकारकी गति करे-१ ईलडगति, २ परनालगति, और ३ उलालगति.
- १० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी चारोंही प्रकारकी गति करे
- ११ उपशान्त मोह गुणस्थानी दो प्रकारगति करे-१ परनाल और २ उलाल.

१२—१४ क्षीण मोह से संयोगी केवली गुणस्थान वाले तक एक इलड गति करते हैं, और सिद्ध परमात्माके एकही प्रकारकी गति नहीं है, सदा स्थिर हैं.

चौबीसावा अन्तर काल द्वार* =

एक जीव आश्रिय-मिथ्यात्व गुणस्थान का विरह पडे तो जघन्य अन्तर मुहूर्त का उत्कृष्ट ६६ सागर का अथवा १३२ सागर का = ज्ञाजेरा.

सास्वादन गुणस्थान से लगाकर उपशान्त मोह गुणस्थान तक का विरह पडेतो जघन्य अन्तर मुहूर्त अथवा पल्योपमके असंख्यातवे भाग जितना क्योंकि इतने काल विना उपशम श्रेणिकर पीछा पडे नहीं. और उत्कृष्ट अन्तर देश ऊणा अर्द्ध पूरूल परावर्तन का.

क्षीण मोहसे अजोगी केवली गुणस्थान का अन्तर पडे नहीं. पीछे अवे नहीं. और सिद्धस्थान का भी कभी अन्तर पडताही नहीं है.

* इस द्वाराके खुलासे के लिये देखीये अर्थ काण्डका पृष्ठ १०९ वा

= कच्छेसे आये गुणस्थान द्वारके थोकडे के अनुसार-दुसरे तीसरे गुणस्थान का अन्तर जघन्य १ समय का, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवे भाग का. आठवे नववे दशवे गुणस्थान का, उपशम श्रेणिवाले के ९ वर्ष का, और क्षपक श्रेणि वाले के ६ महीनेका, इग्यारवे में फक्त उपशम श्रेणि है सो ९ वर्ष का, और बारवे से चउदव गुणस्थान का अन्तर पडे ही नहीं.

÷ मिथ्यात्व छोड ६६ सागरोपम तक चौथे गुणस्थान में रहे वहांसे अन्तर मुहूर्त तीसरे गुणस्थान में रहे और, फिर चौथे गुणस्थान में आकर ६६ सागरोपम रहे और फिर मिथ्यात्व में चला जावे.

पच्चीसवावा-विरह काल द्वार.

इस लोकमेंसे-१ मिथ्यात्व, ४ अविरति, ५ देश विरति, ६ प्र-
मत संयति और १३सयोगी केवली इन पांचों गुणस्थानों का विरह
कदापि नहीं पडता है, यह गुणस्थान लोक में सदाही पाते हैं.

सास्वादन और मिश्र का विरह पडेतो जघन्य एक समय
का, उत्कृष्ट अन्तर मुहुर्त का.

अपूर्व करण, नियटि वादर, सूक्ष्म सम्पराय, उपशान्त मोह
क्षीण मोह और अयोगी केवली इन गुणस्थान का विरह पडेतो ज
घन्य अन्तर मुहुर्त का उत्कृष्ट छे महीनेका, फिर तो कोइ जीव ज
रूरही गुणस्थान स्पर्श होता है.

२६वा एक भव आश्रिय स्पर्शना द्वार.

एकही भव में-१ मिथ्यात्व गुणस्थान जघन्य १ वक्त, उत्कृ-
ष्ट ९०० वक्त स्पर्श. २सास्वादन गुणस्थान जघन्य एक वक्त, उत्कृ
ष्ट दो वक्त स्पर्श.

३-४ मिश्र और अविरति गुणस्थान जघन्य १ वक्त, उत्कृ
ष्ट प्रत्येक हजार वक्त स्पर्श.

५-७ देशविरति, प्रमत संयती और अप्रमत संयती गुणस्थान
१ जघन्य वक्त उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पर्श.

८-१० अपूर्व करण नियटि वाद और सूक्ष्म सम्पराय गुण-
स्थान जघन्य एक वक्त, उत्कृष्ट चार वक्त स्पर्श.

११ उपशान्त मोह गुणस्थान जघन्य १ वक्त उत्कृष्ट २ वक्त स्पर्श.
१२-१४ क्षीणमोह-सयोगी केवली-और अयोगी केवली यह तीनों गुण

स्थान एक ही वक्त स्पर्शों.

और सिद्ध स्थान भी एक वक्त स्पर्शों बाद छूटता ही नहीं है.

सत्तावीसवा—बहुतभव आश्रिय स्पर्शना.

बहुत भवों में-१ मिथ्यात्व गुणस्थान को जघन्य दो वक्त स्पर्शों. उत्कृष्ट-असंख्यात वक्त स्पर्शों.

२सास्वादन गुणस्थान जघन्य दो वक्त, उत्कृष्ट-५वक्तस्पर्शों.

३-४ मिश्र और अविरति गुणस्थान जघन्य-दो वक्त उत्कृष्ट असंख्यात वक्त स्पर्शों.

५ देश विरति गुणस्थान जघन्य-दो वक्त, उत्कृष्ट ९०००वक्त स्पर्शों.

६-७ प्रमत और अप्रमत गुणस्थान, जघन्य दो वक्त, उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पर्शों.

८-१० अपूर्व करण नियति वादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान जघन्य दो वक्त स्पर्शों. उत्कृष्ट ९ वक्त स्पर्शों

११ उपशान्त मोह गुणस्थान दो वक्त, उत्कृष्ट ५ वक्त स्पर्शों.

१२-१४ क्षीणमोह सयोगी और अयोगी गुणस्थान एकही वक्त स्पर्शों और सिद्ध स्थान भी एकही वक्त स्पर्शों.

अठातीसवा—परस्पर स्पर्शना द्वार

१ मिथ्यात्व गुणस्थानी-पहिला गुणस्थान तो नियमाही स्पर्शों, दूसरे गुणस्थानसे अलगकर इग्यारवे गुणस्थान तक स्पर्शों ने की भजना. ÷

= कोई स्पर्शों कोई नहीं स्पर्शों उसे भजना कहते है. और जरूर ही स्पर्शों उसे नियमा कहते हैं.

२ सास्वादन गुणस्थानी-पहिला दुसरा और चौथा यह ती-
नो तो गुणस्थानतो नियमा से स्पर्श. और तीसरे पांचवासे जावत
इग्यारवे तक स्पर्शने की भजना.

३ मिश्र गुणस्थानी-पहिला तीसरा और चौथा तो नियमां
से स्पर्श. बाकी दुसरा पांचवा छठा जावत इग्यारवे तक स्पर्श ने
की भजना.

४ अत्रिरति गुणस्थानी-पहिला और चौथा तो नियमा से
स्पर्श. बाकी दुसरा तीसरा पांचवा जावत इग्यारवे तक स्पर्श ने
की भजना.

५ देश विरति गुणस्थानी-पहिला चौथा और पांचवा तो
नियमासे स्पर्श. और दूसरा तीसरा छठा जावत इग्यास्वातक स्पर्श
ने की भजना.

६ प्रमत गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा और सातवा यह
तो नियमा स्पर्श, और दुसरा तीसरा पांचवा आठवा जावत इग्या
स्वा स्पर्श ने की भजना.

७ अप्रमत गुणस्थानी-पहिला चौथा और सातवा यह ३तो
नियमा स्पर्श. और दूसरा तीसरा पांचवा छठा आठवा जावत इ-
ग्यास्वा स्पर्श ने की भजना.

८ अपूर्व करण गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा और आ
ठवा यह ५तो नियमासे स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांचवा नववा द-
शवा और इग्यास्वा इन ६ गुणस्थान स्पर्शने की भजना.

९ नियट्टि वादर गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा आठ
वा और नववा यह ६तो नियमा से स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांच
वा, दशवा इग्यास्वा इन ५ के स्पर्श ने की भजना.

स्थान एक ही वक्त स्पर्शों.

और सिद्ध स्थान भी एक वक्त स्पर्शों बाद छूटता ही नहीं है.

सत्तावीसवा बहुतभव आश्रिय स्पर्शना.

बहुत भवों में-१ मिथ्यात्व गुणस्थान को जघन्य दो वक्त स्पर्शों. उत्कृष्ट-असंख्यात वक्त स्पर्शों.

२सास्वादन गुणस्थान जघन्य दो वक्त, उत्कृष्ट-५वक्तस्पर्शों.

३-४ मिश्र और अविरति गुणस्थान जघन्य-दो वक्त उत्कृष्ट असंख्यात वक्त स्पर्शों.

५ देश विरति गुणस्थान जघन्य-दो वक्त, उत्कृष्ट ९०००वक्त स्पर्शों.

६-७ प्रमत और अप्रमत गुणस्थान जघन्य दो वक्त, उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पर्शों.

८-१० अपूर्व करण नियति बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान जघन्य दो वक्त स्पर्शों. उत्कृष्ट ९ वक्त स्पर्शों

११ उपशान्त मोह गुणस्थान दो वक्त, उत्कृष्ट ५ वक्त स्पर्शों.

१२-१४ क्षीणमोह लयोगी और अयोगी गुणस्थान एकही वक्त स्पर्शों और सिद्ध स्थान भी एकही वक्त स्पर्शों.

अठातीसवा-परस्पर श्पर्शना द्वार

१ मिथ्यात्व गुणस्थानी-पहिला गुणस्थान तो नियमाही स्पर्शों. दूसरे गुणस्थानसे अलगकर इग्यारवे गुणस्थान तक स्पर्शों ने की भजना. ÷

= कोई स्पर्शों कोई नहीं स्पर्शों उसे भजना कहते है. और जरूर ही स्पर्शों उसे नियमा कहते हैं.

२ सास्वादन गुणस्थानी-पहिला दुसरा और चौथा यह ती-
नो तो गुणस्थानतो नियमा से स्पर्श. और तीसरे पांचवासे जावत
इग्यारवे तक स्पर्शने की भजना.

३ मिश्र गुणस्थानी-पहिला तीसरा और चौथा तो नियमां
से स्पर्श. बाकी दुसरा पांचवा छठा जावत इग्यारवे तक स्पर्श ने
की भजना.

४ अविरति गुणस्थानी-पहिला और चौथा तो नियमा से
स्पर्श. बाकी दुसरा तीसरा पांचवा जावत इग्यारवे तक स्पर्श ने
की भजना.

५ देश विरति गुणस्थानी-पहिला चौथा और पांचवा तो
नियमासे स्पर्श. और दूसरा तीसरा छठा जावत इग्यारवातक स्पर्श
ने की भजना.

६ प्रमत गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा और सातवा यह
तो नियमा स्पर्श, और दुसरा तीसरा पांचवा आठवा जावत इग्या
रवा स्पर्श ने की भजना.

७ अप्रमत गुणस्थानी-पहिला चौथा और सातवा यह ३तो
नियमा स्पर्श. और दूसरा तीसरा पांचवा छठा आठवा जावत इ-
ग्यारवा स्पर्श ने की भजना.

८अपूर्व करण गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा और आ
ठवा यह ५तो नियमासे स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांचवा नववा द-
शवा और इग्यारवा इन ६ गुणस्थान स्पर्शने की भजना.

९ नियट्टि वादर गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा आठ
वा और नववा यह ६तो नियमा से स्पर्श. और दुसरा तीसरा पांच
वा, दशवा इग्यारवा इन ५ के स्पर्श ने की भजना.

१० सूक्ष्म सम्परायी गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा आठवा नववा और दशवा यह तो नियमासे स्पर्शें. और दुसरा तीसरा पांचवा इग्यास्वा की भजना.

११ उपशान्त मोह गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा जावत इग्यास्वा यह तो नियमासे स्पर्शें, और दुसरे तीसरे पांचवेकी भजना

१२ क्षीण मोह गुणस्थानी-पहिला चौथा छठा सातवा आठवा नववा दशवा बारवा तेरवा और चउदवा यह १०तों नियमाते स्पर्शें. और दुसरा तीसरा पांचवा इग्यास्वा इन चारों की स्पर्श ने की भजना-

१३-१४ सयोगी केवली और अयोगी केवली गुणस्थानि-पहिला चौथा छठा सातवा आठवा नववा दशवा बारवा तेरवा और चउदवा यह १० तो नियमा से स्पर्शें और दुसरे तीसरे पांचवा इग्यास्वा गुणस्थान स्पर्श ने की भजना.

और सिद्ध परमात्मा के जीवों ने-पहिला चौथा सातवा आठवा नववा दशवा बारवा तेरवा और चउदवा इन ९ गुणस्थानका तो निश्चयसे स्पर्श किया बाकी के ५ गुणस्थान स्पर्शनेकी भजना

उन्नतीसवा पढम अपढम द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक पढम अपढम दोनो-अर्थात इन की पहिले स्पर्श ने वाला भी स्पर्शें और पहिली वार भी स्पर्शें. ऊपर के तीनो गुणस्थान एक-पढम एकही वक्त स्पर्शें.

३०वा शाश्वताशाश्वत द्वार

मिथ्यात्व, अविरति, देशविरति. प्रमत्त, कौरसयोगी केवली यह पांचों गुणस्थान शाश्वत-सदा पावे. बाकी क नव गुणस्थान अशाश्वत-किसी वक्त पावे किसी वक्त नहीं भी पावे.

३१वा-परभव गमन द्वार

मिथ्यात्व सास्वादन और अविरति यह तीनों गुणस्थानों तो पर भव में जाते हूवे जीवों के साथ जाते हैं. बाकीके ११ गुणस्थान स्पर्श होवे वहां ही रहजाने है.

बत्तीसवा भवसंख्या द्वार.

मिथ्यात्व मिथ्यात्व अनन्तान्त भव तक व साथ बना रहे, सास्वादन से लगाकर देश विरति गुणस्थान जघन्य १-२-३ भवत क लगोलग प्राप्त होवे, उत्कृष्ट सात तथा आठ भव तक लगोलग प्राप्त होवे. और प्रमत्त गुणस्थान से सजोगी केवली गुणस्थान तक फक्त एकही भव में ही साथ रहै.

तेतीसवा-अल्प बहुत द्वार.

सबसे थोड़े इग्यारवा उपशान्त मोह गुणस्थानमें प्रवर्तते जीवों-क्योंकि उपशम श्रेणिके आरंभमें एक समय ५४ जीवों पाते हैं.

इससे-चारवे क्षीण मोह गुणस्थान वाले जीवों संख्यत गुणे अधिक, क्योंकि क्षपक श्रेणिवाले एक समय में १०८ मिलते हैं, इस सबबसे इतने लिये नहीं तो इससे विपरीत जीवों पाते हैं.

इससे-इग्यारवा उपशान्तमोह, दशवा सूक्ष्म, संपराय-नववा-नियतिवाटर, और आठवा अपूर्व करण इन तीनों गुणस्थान वाले आपसमें तो

सम-तुल्य (बरोबर) और बारवे गुणस्थान से संख्यात गुणे अधिक होते हैं, क्योंकि-इन तीनों गुणस्थानों में उपशम और क्षपक दोनों प्रकारकी श्रेणि वाले जीवों एक ही वक्त में पाते हैं. इस लिये उपशम श्रेणिवाले ५४ और क्षपक श्रेणि वाले १०८, यों दोनोंही मिलकर प्रत्येक गुणस्थानमें अलग-अलग उत्कृष्ट पदे १६२जीवों पाते हैं.

इससे-तेरवे सयोगी केवली गुणस्थान वाले संख्यात गुणे अधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक क्रोड पाते हैं.

इस से सातवे अप्रमत्त संयति गुणस्थान वाले संख्यात गुण अधिक, क्योंकि-एक समय में प्रथक सो क्रोड पाते हैं.

इस से छठे प्रमत्त संयति गुणस्थानी संख्यात गुण अधिक क्योंकि एक समय में प्रत्येक हजार क्रोड पाते हैं. और अप्रमाद के कालसे प्रमादका काल संख्यात गुणा अधिक है.

इस से-पंचवे देश विरति गुणस्थान वाले असंख्यात गुण अधिक, क्योंकि सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय भी यहां पाते हैं.

इससे दूसरे सास्वादन गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अधिक क्योंकि-इस गुणस्थान वार्ति जीवों चारों गति मे पाते हैं.

इससे-तीसरे मिश्र गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अधिक क्यों कि—दुसरे गुणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात गुणी अधिक है.

इससे-चौथे अविरति सम्यग दृष्टि गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे अधिक, क्योंकि इस की स्थिति बहुत ज्यादा है.

इससे-चउदवे अजोगी केवली गुणस्थानी अनन्त गुणे अधिक, क्योंकि-अयोगी की अपेक्षासे सिद्ध भगवंत भी इसमें लिये.

इससे पहिले मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीवों अनन्त गुणे

अधिक हैं. क्योंकि-निगोद के जीवों में भी यह गुणस्थान पाताहै.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प्र

दायके बाल ब्रम्हहारी मुनि श्री अमोलख

ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान

रोहणअर्दीसतद्वारी ग्रंथके प्रथम

मूल काण्ड का प्रथम

मूलद्वारा रोहण

खण्ड.





द्वितीय खण्ड-कर्म द्वारा रोहण.

प्रथम प्रकरण-कर्मोत्पाति द्वार.

कर्मोत्पाति के ७ द्वार के नाम

१ किरिया द्वार, २ मूल हेतू द्वार, ३ मिथ्यात्व हेतू द्वार, ४ अविस्त हेतू द्वार, ५ कषाय हेतु द्वार, ६ योगे हेतु द्वार, और ७ समुचय हेतु द्वार.

३४, पहिला-किरिया द्वार. =

२५ किरिया के नाम-१ कायिकी, २ अधिकरणी, ३ पाउसिया, ४ परितावणिया, ५ पाणाइ वाय, ६ आरंभीया, ७ परिग्गहिया, ८ मायवतिया, ९ अपच्चखाण वंतिया, १० मिथ्या दंशण.

☞ = इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ कांडका पृष्ठ १५५ वा.

वतिया, ११ दिठीया, १२ पुठिया, १३ पाडुविया, १४ सामंतावेणि
या, १५ नेसथिया, १६ सहथिया, १७ अणवणिया, १८ विदारणिया,
१९ अणव २० अनाभोगा, कंखकतिया, २१ अनापउगी, २२ सामुदाणी, २३
पेजवतिया, २४ दोषवतिया, २५ इर्यावहीया किरिया. इन २५
क्रिया में से:

मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थानी के २४ क्रिया लगे, २५
में से-इर्यावही टली.

सास्वादनी और अविरति गुणस्थानी के २३ क्रिया लगे,
२४ मेंसे मिथ्य दंशणवतिया टली.

देश विरति गुणस्थानी के २२ क्रिया लगे, २३ मेंसे-अपच्चं
खाणिया टली.

प्रमत्त संयति के गुणस्थानी २१ क्रिया लगे, -२२ मेंसे परि-
ग्गहीया टली.

अप्रमत्त संयति से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी तक
के २० क्रिया लगे-उपर २२ कही उससे-आरंभिया क्रिया टली. ÷

उपशान्त मोह से लगा कर सयोगी केवली गुणस्थान के
१ इर्यावही लगे.

अयोग केवली गुणस्थानी और सिद्ध भगवन्त के क्रिया
विलकूलही नहीं लगे.

३५ दूसरा-मूल हेतू (कारण) द्वार *

कर्म बन्धके मूल हेतू कारण ५ हैं:-१ मिथ्यात्व, २ अविर-
ति, ३ प्रमाद, ४ कषाय, और ५ योग. इनमें से.

* इस द्वारके खुलासे के लिये देखिये अर्थ काण्डका पृष्ठ १९७ वा.

मिथ्यात्व गुणस्थान में पांचोंही कारण पावे.

सास्वादन मिश्र अविरत और देश विरति गुणस्थानी के ४ कारण, ५ मेसे मिथ्यात्व टला.

प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानी में तीन कारण, ४ मे से अविरति टली.

अपूर्व करण, नियति बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानी में दो कारण प्रमाद टला.

उपशान्त मोह, क्षीण मोह, और सयोगी केवली गुणस्थानी में एक कारण योग.

अयोगी केवली गुणस्थानी में और सिद्ध में कर्म बन्ध का कारण नहीं पावे.

३६, तीसरा मिथ्यात्व हेतूद्वार. *

५ मिथ्यात्व के नाम-१ अविग्रह, २ अनाविग्रह ३ अभिनिवेशिक ४ संशयिक और ५ अनाभोग इन में से:—

मिथ्यात्व गुणस्थान में पांचों ही मिथ्यात्व पावे, बाकी सास्वादन से लगाकर चउदवे अयोगी केवली गुणस्थान तक मिथ्यात्व नहीं पाताहै.

३७, चौथा-अविरति हेतू द्वार *

१२ अविरति के नाम-५ पांच इन्द्रियकी, १ मनकी और ६ कायाकी. मिथ्यात्वसे अविरति गुणस्थानतक १२ प्रकारकी अविरति लगे.

देशविरति गुणस्थान में-त्रसकायकी अविरति विना ११ लगे.
प्रमत्तसे अजोगी केवली गुणस्थानाके अविरति नहीं लगती है.

३८ पांचवा-कषाय हेतु द्वार ÷

२५ कषाय के नाम-४ अनन्तान वन्धि चौकड़ी, ४ अप्रत्याख्यानावरणीय चौकड़ी, ४ प्रत्याख्यानावरणीय चौकड़ी ४ और संज्वलन की चौकड़ी, यों १६, और १ हांस्य २ रति, ३ अरति, ४ भय, ५ शोक, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुष वेद, और ९ नपुंसक वेद. यों सब २५ हुई.

मिथ्यात्य और सास्वादन गुणस्थान में-कषाय पावे २५ ही.

मिश्र और अविरति गुणस्थान में-कषाय पावे २१, अनन्तान वन्धिक चौक टला.

देश विरति गुणस्थानी में-१७ कषाय, २१ मेंसे-अप्रत्याख्यानावरणीका चौकड़ी टली.

प्रमत्त अप्रमत्त और अपूर्व करण गुणस्थानी में १३ कषाय, १७ मेंसे प्रत्याख्यानावरणी चौक टला.

अनियति वादर गुणस्थानी में ७ कषाय. १३ मेंसे-हॉस्यादि ६ प्रकृति टली.

सूक्ष्म सत्प्रराय गुणस्थान में एक कषाय संज्वलका लोभ.

उपज्ञान्त मोहसे अजोगी केवली गुणस्थान तक और सिद्धों में कषाय नहीं

३९, छठा-योग हेतु द्वार. ÷

१५-४ मनके (१) सत्यमन, (२) असत्यमन, (३) मिश्रमन और (४) व्यवहारमन, ४ वचनके (१) सत्यवचन (२) असत्यवचन (३) मिश्रवचन और ४ व्यवहारवचन (७) कायाके- (१) औदारिक, (२) औदारिक मिश्र, (३) वैक्रिय (४) वैक्रिय मिश्र (५) आहारक (६) आहारक मिश्र और (७) कर्मण, यों १५ योगोंमेंसे.

मिथ्यात्व सास्वादन और अविशति गुणस्थान में-१३ जोग पावे, १५ में से आहारिक के दोनों घटे, क्योंकि इन में मुनिराज न हीं पाते हैं.

मिश्र गुणस्थान में-४ मनके, ४ वचन के, १ उदारिक, १ वैक्रिय, यह १० योग पावे.

देशाविशति गुणस्थानमें-२ आहारकके दो, और १ कर्मणका इन ३ विन १२ योग पावे.

प्रमत्त संयती गुणस्थान में कर्मण विना १४ जोग पावे.

अप्रमत्त संयति गुणस्थानमें- औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक कर्मण इन ४ विना ११ योग पावे.

अपूर्व करण से क्षीण मोह गुणस्थान तक-४ मनके, ४ वचनके, औदारिक, यह ९ योग पावे

सयोगी केवली में-१ सत्यमन, २ व्यवहारमन, ३ सत्य भाषा, ४ व्यवहार भाषा, ५ औदारिक ६ औदारिक मिश्र, और ८ कर्मण, यह ७ योग पावे.

अयोगी केवली और सिद्धों में एकही योग नहीं पावे.

= आहारक और वैक्रिय मिश्र जोगलब्धि फोडती वक्र पाता है और लब्धि फोडना यह प्रमाद अवस्था है, इसलिये तीनों मिश्र योगों अप्रमत्त गुणस्थानमें नहीं पाते हैं आहारक शरीर निपजे बाद अप्रमत्त हो जाते हैं.

सातवा समुचय हेतू द्वर.

५ मिथ्यात्व, १२ अविरति, + २५ कषाय, १५ जोग, मिलकर
१० हेतु सब होते हैं,

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में—५ मिथ्यात्व, १२ अविरति, २५
कषाय और १३ जोग यों ओघ (सब जीवों और सर्वाकाल आ-
श्रिय) ५५ हेतु पाते हैं. इसमें से एक जीव की अपेक्षा से-एक स
मय में जघन्य १० हेतु पाते हैं:—१ पांचों मिथ्यात्व में का एक
मिथ्यात्व, १ छे काया के बध में का एक काया का बध, ३ पाचों
इन्द्रियों की विषय में की एक की विषय, ४ तीनों वेदोंमें का १ वेद,
हांस्य और रति शोक और अरति इन दोनों युगलों में का एक
युगल, = अप्रत्याख्यानी चौकडी में की एक कषाय, < प्रत्याख्या
नी चौकमें की एक कषाय, ९ संज्वलन चौकडीमें की एक कषा
य, १० और ४ मनके, ४ वचन के ÷ १ औदारिक, १ और वै-

+ मूल हेतु ५ कहे और यहां चारों लिये-प्रमाद नहीं लिया इसका सबव
पांच प्रमाद में से मदका समावेश तो मान में होता है, विषयका समावेश अविरत में.
कषाय में, निन्दा विक्रथा का जोग में समावेश होता है.

= यहां फक्त तीनों कषाय ही लेने का सबव यह है कि-क्रोदादिक का उदय
विरोधी है अर्थात्-क्रोध के उदय में मानाधि का उदय नहीं होता है इसलिये एकही
ली, यह और अनन्तान वन्धि चौकडी छोडनेका सबव यह है कि-उपशम श्रेणिमें अनं-
तान वन्धि की वीसे योजना करते उसकी सत्ता टलती है. वहांसे पड जो यहां
आये बाद मिथ्यात्वो दय भये फिर अनन्तान वन्धि का उदय नहीं होता है. इसलि-
ये यहां जघन्य पद में फक्त तीनों कषाय का ही ग्रहन किया है.

÷ मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतान वन्धि के उदय बिना मरण नहीं होता है,
इसलिये अपर्याप्ता के अभाव से औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, और कार्मण, यह
तीनों जोगों ग्रहण नहीं किये.

क्रिय, इन १० जोगों में का एक जोग, यों १० हेतू पाते हैं. और उत्कृष्ट १८ पाते हैं:—१० तो उपर कहे सोही. और ११ अनन्तान बन्धि चौकडी में की एक कषाय. १२ भय, १३ मत्सर, १८ पांचों कषाय का बध उत्कृष्ट यह १८ हेतू एक जीव के एक समय में पाते हैं.

२ सास्वादन गुणस्थान में—१२ अव्रत, २५ कषाय और १३ योग. यों औघसे (सर्व जीवों और सर्व काल आश्रिय) ५० हेतू पाते हैं. और एक जीव के एक समय में जघन्य १० हेतू पावे ऊपर जो १० हेतू कहे हैं. उस मेंसे १ मिथ्यात्व तो घटाना, और अनन्तान बन्धि चौकडी की १ कषाय बढाना और उत्कृष्ट १७ हेतू पाते हैं:—सो १० तो येही और ५ कायाका बन्धि, तथा भय और मत्सर यों उत्कृष्ट १७ हेतू एक जीव के एक समय में पाते हैं.

३ मिश्र गुणस्थान में—१२ अव्रत, २१ कषाय, और १० जोग, यों औघसे ४३ हेतू पाते हैं. और एक जीव के एक समय में जघन्य ९ हेतू पावे:—उपर १० कहे, उस में से १ कषाय की कषाय कमी करना. और उत्कृष्ट १६ हेतू पाते सोही ७ अधिक यहां जानना.

४ अविरति सम्यग् दृष्टि गुणस्थान में—२२ अव्रत, २३ कषाय और १३ योग्यों औघसे ४६ हेतू पाते हैं और एक जीव के एक समय में जघन्य ९ और उत्कृष्ट १७ हेतू तीसरे गुणस्थान में कहे सोही यहां पाते हैं.

५ देशविरति गुणस्थान में— ११ अव्रत, १७ कषाय और १२ योग यों औघसे ४० हेतू पावे—और एक जीव के एक समय में उत्कृष्ट १७ उपरोक्त हेतू पाते हैं.

६ प्रमत्त संयाति गुणस्थान में—१३ कषाय और १४ जोग यों औघसे २७ हेतु पावे. और एक जीव के एक समय में जघन्य ५:—तीन वेदों में का १ वेद, संज्वल की चौकडी में की १ कषाय, दोनों युगल में का १ युगल, और १३ जोग में का १ जोग, यों, ५ और उत्कृष्ट ७ पावे-आहारक के दोनों योगों बडे.

७ अप्रमत्त गुणस्थानमें-१३ कषाय, और ११ योगों, यों २४ हेतु औघ से पाते हैं, इस में से एक जीव के एक समय में - ५ पाते हैं. छटे गुणस्थानकी माफिकही, विशेष इतनाही की यहां ७ योग में का योग लेना. और उत्कृष्ट ६ पाते हैं. १ आहारक योग अधिक हूवा.

८ अपूर्व करण गुणस्थान में १३ कषाय और ९ = जोग यों २२ हेतु औघसे पाते हैं. और जघन्य ५ पाते हैं:- अप्रमत्त में कहेसो ही.

९ नीयटि वादर गुणस्थान में-७ कषाय और ९ जोग यों १६हेतु औघसे पातेहैं, और जघन्य एक जीव की अपेक्षासे दो पाते हैं:-१कषाय और १ योग.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान में-१ कषाय और ९ जोग यों १० हेतु औघ से पावे. और जघन्य दो-पावे १ जोग, १कषाय.

११-१२ उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-फक्त ९ जोग के ९ हेतूही औघ पाते है. और जघन्य फक्त १ जोग ही पाता है.

१३ सयोगी केवली गुणस्थान में फक्त ७ जोग के ७ हेतु

= पक्त औदारिक जोग वालाही श्राणि प्रारंभ करता है. इसलिये यहां दोनों जोग घट गये.

ही पाते हैं, और जघन्य एक जीव की अपेक्षा-से एक जोगही पाता है.

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में जोग के अभावसे हेतु एक ही नहीं पाता है.

❀ इति कर्मोत्पत्ति नामक प्रथम प्रकरणम्. ❀

द्वितीय प्रकरण कर्म बन्ध द्वार.

कर्म बन्ध के २७ द्वार के नाम.

१ चार बन्ध द्वार, २ समुचय मूल कर्म बन्ध द्वार, ३ ज्ञानावरणीय कर्म बन्ध द्वार, ४ दर्शनावरणीय कर्म बन्ध द्वार, ५ वेदनीय कर्म बन्ध द्वार, ६ मोहनीय कर्म बन्ध द्वार, ७ आयुष्य कर्म बन्ध द्वार, ८ नाम कर्म बन्ध द्वार, ९ गौत्र कर्म बन्ध द्वार, १० अन्तराय कर्म बन्ध द्वार, ११ ध्रुव कर्म बन्ध द्वार, १२ ध्रुव कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, १३ अध्रुव कर्म बन्ध द्वार, १४ अध्रुव कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, १५ सर्व घातिक कर्म बन्ध द्वार, १६ सर्व घातिक कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, १७ देश घातिक कर्म बन्ध द्वार, १८ देश घातिक कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, १९ अघातिक कर्म बन्ध द्वार, २० अघातिक कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २१ शुभ (पुण्य) कर्म बन्ध द्वार, २२ शुभ (पुण्य) कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २३ अशुभ (पाप) कर्म बन्ध द्वार, २४ अशुभ (पाप) कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २५ समुचय कर्म प्रकृति बन्ध द्वार, २६ कर्म बन्ध व्यच्छेद द्वार, २७ कर्म प्रकृति बन्ध व्यच्छेद द्वार.

४१, प्रथम चार बन्ध बार. *

१ प्रकृति बन्ध, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, और ४ प्रदेश बन्ध. ६ इन में १-१० पहिले मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर, दशवे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक चारों बन्ध पाते हैं.

११-१३ उपशान्त मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली, गुणस्थानमें दो प्रकार के बन्ध, प्रकृतिबन्ध और २प्रदेश बन्ध.

१४ अयोगी केवली गुणस्थानमें बन्ध नहीं.

४२, दुसरा-समुचय कर्म बन्ध बार.

मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर अप्रमत्त गुणस्थान तक बी चक्रा तीसरा मिश्र गुणस्थान छोड कर बाकी के ६ गुणस्थान में आयुष्य कर्म का बन्ध करे तब आठोंही कर्मोंका बन्ध होताहै और आयुष्य नहीं बन्धे उस वक्त सात कर्मों का बन्ध करे.

मिश्र अपूर्व करण, और अनियति वादर इन तीन गुणस्थानों में आयु कर्म का बन्ध नहीं होता है, इसलिये सातही कर्मों बंधतेहैं.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में शुद्ध परिणाम होने से आयुष्य और मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होताहै, इसलिये छेही कर्मोंका बंध करते हैं.

उपशान्त मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली, इन तीनों गुणस्थान में फक्त एक वेदनीय कर्म बन्धतेहैं.

अयोगी केवली गुणस्थान में कर्म बन्ध नहीं करतेहैं.

४३ तीसरा-ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति बन्ध द्वार.

१ मतिज्ञानावरणी २, श्रुतज्ञानावरणी, ३ अवाधि ज्ञानावरणी
४ मनपर्यव ज्ञानावरणी और ५ केवल ज्ञानावरणी. मिथ्यात्व गुणस्था-
नसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक ज्ञानावरणीय की पांचों
प्रकृति का बंध होता है, उपर एक ही नहीं बन्धाती है.

४४, चौथा-दर्शनावरणीय कर्म प्रकृति बन्ध द्वार

१ चक्षु दर्शनावरणीय, २ अचक्षु दर्शनावरणीय, ३ अवाधि द
र्शनावरणीय, ४ केवलदर्शनावरणीय, ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रच-
ला, ८ प्रचला प्रचला, और ९ थिण्डी निद्रा. इन दर्शनावरणीय के
९ प्रकृतिमें से,

१-२ मिथ्यात्व सास्वादन गुणस्थानमें दर्शनावरणीयकी ९ही
प्रकृतिका बन्ध होता है.

१-८ मिश्र गुणस्थान से लगाकर आठवे अपूर्व करण गुण-
स्थान तक थिण्डी त्रिक×१निद्रानिद्रा, २प्रलचा प्रचला, और ३थिण्डी
निद्रा इन३का बन्ध नहीं होता है. इसलिये छेही प्रकृति बन्ध होता है.

९-१० नियटि बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-१
निद्राका और २ प्रचला का बन्ध नहीं होने से चार ही का बन्ध हो-

× इन तीनों निद्रा का बन्ध अनन्तान बन्धि कषायके उदय में होता है. औ-
र यहां इसका उदय नहीं है जिससे टली है.

ता है, ऊपर इसका बन्ध नहीं होता है.

४५, पांचवा-वेदनीय कर्म प्रकृतिबंधद्वार

वेदनीय कर्म की दो प्रकृतिः—१ सात वेदनीय, और २ असाता वेदनीय.

१-६ मिथ्यात्वसे प्रमत गुणस्थान तक दोनों प्रकृति बंधती है.

७-१० अप्रमतसे-सूक्ष्म संपराय तक एक संज्वलकी कपाय + और साता वेदनीय बन्धाती है.

११-१३ उपशांत मोह से-सयोगी केवली तक ए साता वेदनी ही बन्धाती है.

१४ अयोगी केवली में वेदनीय का बन्ध नहीं होता है.

४६, छठा मोहनीय कर्म प्रकृति बंधद्वार

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतिः—४ अनन्तान बन्धि आदि चारों चौकडी की १६ कपाय, हाँस्यादि ९ नो कपाय, और-१ मिथ्यात्व मोहनीय, इन २६ में से.

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में २६ ही प्रकृति का बन्ध होता है.

२ सास्वादन गुणस्थान-१ मिथ्यात्व मोहनी और नपूंसक वेद इन दो बिना २४ का बंध होता है.

३-४ मिश्र और अविगति गुणस्थान में-४ अनन्तान बंधि

+ असाता वेदनीय का बन्ध प्रमादके उदय में होता है. और यहां प्रमाद नहीं है. जिससे टली.

= मोहनीय कर्म की सब २८ प्रकृति हैं. जिस में से १ मिश्र मोहनीय, २ और सम्यक्त्व मोहनीय का बन्ध योग नहीं है. इसलिये यह २ छेड कर यहां बंध की २६ ही प्रकृति ग्रहण करी है. मिथ्या मोह का आधार से मिश्र मोहका स्वल्परस सम्यक्त्व मोहमें होता है.

चौकडी और स्त्रीवेद विना १९ का बन्ध होता है.

५ देश विरति गुणस्थान में—अप्रत्याख्यानावरणीय की चौकडी विना १५ का बन्ध होता है.

६ प्रमत्त गुणस्थान में—प्रत्याख्यानावरणीय चौकडी विना ११ प्रकृति का बन्ध होता है.

७-८ अप्रमत्त और अपूर्व करण गुणस्थान में शोक और अरति विना ९ प्रकृतिका बन्ध होता है.

९ नियति बादर गुणस्थान में—हांस्य, रति भय और मत्सर इन ४ विना ५ का बन्ध होता है.

आगे मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होता है.

सातवा आयुष्य कर्म प्रकृति बंध द्वार

आयुष्य कर्म की ४ प्रकृति-१ नरकायु, १ तिर्यचायु, ३ मनुष्यायु, और ४ देवायु इन ४ मेंसे.

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में—चारों गतिके आयुष्यका बंध होता है.

२ सास्वादन गुणस्थान में—नरक विना तीनों गतिका आयुर्वन्ध होता है.

मिश्र गुणस्थान में आयुर्वन्ध नहीं होता है. ÷

४ अविरति गुणस्थान में-१ मनुष्यायु और २ देवायु दोनों का बन्ध होता है.

५-७ देशविरति, प्रमत्त, और अप्रमत्त गुणस्थान में-१ देवा-

÷ मिश्र गुणस्थानी मध्यस्थ परिणामी है. तथा आयुर्वन्ध काल जितनी इन्की स्थिति नहीं है इसलिये यहां आयु बन्ध नहीं है.

युकाही बन्ध होता है—

ऊपर आयु बन्ध विलकूल नहीं है.

४८, आठवा नाम कर्म प्रकृति बंध डार.

नाम कर्म की ६७ प्रकृति बन्धाती है:—४ गति, ५ जाति, ५ शरीर, ÷ ३ अंगोप्रांग, ६ संघयण, ६ संठाण, ४ × वर्ण चतुष्क, ४ अनुब्रुव्वा, २ विहायोगति, १ पराघात नाम, १ उश्वासनाम, १ आताप नाम, १ उद्योत नाम, १ अगुल्लघु नाम, १ तीर्थकर नाम, १ निर्माण नाम, १ उपघात नाम, १ त्रस नाम, १ वादरनाम, १ पर्याप्ता नाम, १ प्रत्येकनाम, १ स्थिर नाम, १ शुभनाम, १ सौभाग्य नाम, १ सुस्वरनाम, १ आदेय नाम, १ यशःकीर्ति नाम, १ स्वाचरनाम, १ सूक्ष्म नाम, १ अपर्याप्ता नाम, १ साधारण नाम, १ अस्थिर नाम, १ अशुभ नाम, १ दौर्भाग्य नाम, १ दुस्वर नाम, १ अनादेय नाम, १ अयशःकीर्ति नाम. यह ६७ इनमेंसे.

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में- २ आहारक द्विक और तीर्थकर

= आयु बन्ध सालम्बिके होता है. ऊपरके गुणस्थानी निरालम्बध्यानी है.

÷ नाम कर्म की सब २३ प्रकृतियों हैं, जिनमेंसे बन्ध स्थान में ६७ही प्रकृतियों ग्रहण करी जितका सबबः—शरीर नाम कर्म में अपना २ बन्धन और संघात यह दोनों अविना भात्री हैं, अर्थात्-शरीरके बिना यह दोनों नहीं होसकते, इस लिये पांच बन्ध और पांच संघात यह १० प्रकृतिये बन्ध तथा उद्दय रूप में शरीर के भेली ही गिनी गइ है. जुदी नहीं गिनी. और ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८स्पर्शयह २० प्रकृतियों का भी, १वर्ण, २ गंध, ३ रस, और ४स्पर्श इन चारों में ही समावेश हुवा है क्योंकि यह अभेदी है इतलिये बीसोंका चारों में ही समावेश होजाता है. यों १० शरीर की और १६ वर्णादिकी मिल २६ प्रकृतियों २३ मेंसे कपी करनेके वाकी ६७ प्रकृतियेका बन्ध की रहती हैं.

नाम इन ३ विना ६४ प्रकृति का बन्ध होता है.

२ सास्वादन गुणस्थान में-३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्प
१ स्थावर नाम, १ सूक्ष्म नाम, १ अपर्याप्ता नाम, १ साधारण ना
१ आताप नाम, १ हुंडक संस्थान, और १ छेवटा संघयण इन १४ प्र
कृति मिथ्यात्वीही बान्धता है, इसलिये इस में बन्ध नहीं होने से
बाकी ५० का बन्ध यहां होता है.

३ मिश्र गुणस्थान में-१ तिर्यच १ तिर्यचानुपूर्वी, १ अशुभ विहायौ
ति, १ दौर्भाग्य नाम, १ दुस्वर नाम, १ अनादेय नाम, ४ बीचके
चार संघयण, ४ बचिके ४ संठाण, इन १४ प्रकृति का बन्ध संकेश
अनन्तान बन्ध के उदय में होता है, सो यहां न होने से बाक
रही ३६ प्रकृति का बन्ध यहां होता है.

४ अविरति गुणस्थान में:—ऊपरोक्त ३६ और १ जि
नाम यों ३७ का बन्ध होता है.

५-६ देश विरति और सर्व विरति गुणस्थान में:—१ मनु
ष्य गति, २ मनुष्यानुपूर्वी, ३ औदारिक शररि, ४ औदारिक आंगे
पाग, और ५ बज् वृषभ नारच संघयण, इनके न होता है, क्यों कि
यह देवायु ही बान्धते है इसलिये इन ५ विना बाकी रही ३२ प्रकृ
ति का बन्ध यहां होता है.

७-८ अप्रमत और अपूर्व करण गुणस्थान में—अशुभ ना
म, १ अस्थिर नाम, और ३ अयशःकीर्ति नाम यह तीन, प्रमाद के
योग से बन्धाती है सो यहां नहीं होने से यह ३ घटी, तब २९ रही
और विशुद्ध परिणाम की अधिकता होने से आहारक और आहार
क अंगोपांग इन दो का बन्ध बढने से ३१ प्रकृतिबन्धते हैं.

९-१० अनीयटी बादर और सूक्ष्म सम्पराय में—यशः कीर्ती

का बन्ध होता है.

ऊपर के गुणस्थानों में नाम कर्म का बन्ध नहीं होता है.

४९, नववा-गौत्र कर्म बन्ध द्वार.

गौत्र कर्म की दो प्रकृति-१ उंच गौत्र और नीचे गौत्र. इसमें से:-

१-२ मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थानों में दोनों गौत्र का बन्ध होता है.

३-१० मिश्र गुणस्थानसे लगा सूक्ष्म सम्परायतक एक उंच गौत्रका ही बन्ध होता है.

५०, दशवा-अन्तराय कर्म बन्ध द्वार.

अन्तराय कर्मकी पांच प्रकृति-१ दानान्तराय, २ लाभान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उपभोगान्तराय, और ५ बलवीर्यान्तराय, इन ५ अन्तरायमें से:-

मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक पांचों प्रकृतिका बन्ध होता है. ऊपर अन्तराय का बन्ध नहीं.

५१, इग्यारवा-ध्रुव कर्म बन्ध द्वार.

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणी, मोहनीय, नाम, और अन्तराय यह ५ कर्म ध्रुव बन्धी हैं:- इनमें से.

मिथ्यात्व गुणस्थान से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक पांचों ही कर्मोंका बन्ध होता है, उपर के गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं.

५२, बारवा-ध्रुव कर्म प्रकृति बन्ध द्वार.

ध्रुव बन्ध प्रकृति के खलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २०० वा.

ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीय ९, मोहनीय की १ (चारों कषायकी चौकडी, भय, मत्सर और मिथ्यात्व मोहनी) नामकी-४ वर्ण चतुष्क, १ तेजस, १ कार्मण, १ अगुरुलघु, १ निर्माण, १ उद्योत, येह ९ और अन्तराय की ५ यों सब ४७ प्रकृति ध्रुव बन्धी हेता है इस मेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-४७ ही प्रकृतिका बन्ध होता है.

सास्वादन गुणस्थान में-मिथ्यात्व मोहनी विना ४६ प्रकृतिका बन्ध होता है.

मिश्र और अविाति गुणस्थान में-अनन्तान बन्धि चौकडी और थीणदी त्रिक विना ३९ प्रकृतिका बन्ध होता है.

देशविरति गुणस्थान में-अप्रत्याख्यानी चौकडी विना ३५ का बन्ध होता है.

प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में प्रत्याख्यानी चौकडी विना का ३१ बन्ध होता है.

अपूर्व करण गुणस्थान में-दोनों निद्रा विना २९ का बन्ध होता है
अनीयदी बादर गुणस्थान में-भय मत्सर और नाम कर्म
+ प्रकृति विना १८ प्रकृतिका बन्ध होता है.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में- संज्वल की चौकडी विना १४ प्रकृति का बन्ध होता है.

उपर के गुणस्थानों में ध्रुव बन्ध नहीं होता है.

अध्रुव बन्ध कर्म प्रकृति के खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २०१ वा
+ वर्ण चतुष्क, ५ तेजस, ६ कार्मण, ७ वर्ण चतुष्क, ८ अगुरु लघु, १ निर्माण

५३, तेरवा-अध्रुव कर्म बन्ध द्वार

वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गौत्र यह ५ अध्रुव बन्धि कर्म है.

मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर अप्रमत्त गुणस्थानतक बीच का मिश्र गुणस्थान छोड़ बाकीके ६ गुणस्थानों में ५ही कर्म बंधतेहै.

मिश्र अपूर्व करण, अनियति वादर, इन तीनों गुणस्थानोंमें आयुष्य कर्म विना चार कर्मोंका बन्ध होता है.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में आयुष्य और मोहनीय विन तीन कर्म का बन्ध होता है.

उपशान्त मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थानवालों के एक वेदनी का बन्ध होता है.

अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं.

५४, चौदवा-अध्रुव कर्म प्रकृति द्वार.

वेदनीय की २, मोहनीयकी छे३ वेद, १ हांस्य, १ रति, शोक, येह ६, आयुष्य की४, नामकी १ शरीर ३, अंगोपांग ३, संघ-यण ६, संठाण ६, गति ४, जाति ५, अणुपूर्व्वी ४, विहायोगति २, श्वाशोश्वास १, आताप १, उद्योत १, पराघात १, त्रसदशका ११, स्थावर दशका १०, तीर्थकर नाम १, यह ९९. और गौत्र की २, यों सब ७३ अध्रुव बंध की प्रकृतियों होती है. इसमें से.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-आहारक द्वीक और तीर्थकर नाम विना ७० प्रकृति बन्धते हैं.

सास्वादन गुणस्थान में-३ नरकत्रिक, ४ जाति चतुश्क ४ १ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, १ साधारण १ आताप, १ छवटो

संघयण और १ हुंड संस्थान, इन १४ विना बाकी रही १६ प्रकृति बन्धते हैं।

मिश्र गुणस्थान में-४ आयुष्य की, ४ बीचके चार संघयण ४ बीचके चार संस्थान, १ अशुभ विहायोगति, १ स्त्रीवेद, २ तिर्यच द्विक, १ दौर्भाग्य, १ दुःस्वर, १ अनादेय, और १ नीच गौत्र इन २० विना ३६ प्रकृति बन्धाती है।

अविरति गुणस्थान में-१ तीर्थकर नाम और मनुष्यायु, १ देवायु, यह ३ प्रकृति बढने से ३९ का बन्ध होता है।

देशविरति और अप्रमत गुणस्थान में-१ वज्र ऋषभ चारुच संघयण, १ मनुष्यगति, १ मनुष्यायु पूर्वी, १ मनुष्यायु, २ औदारिक द्विक, यह ६ विन २३ बन्धते हैं।

अप्रमत गुणस्थान में-१ शोक, १ अरति, १ अस्थिर, १ अशुभ, १ अयशः कीर्ति, इन ५ प्रकृति विना २८ का बन्ध होता है।

अपूर्व करण गुणस्थान में-१ देवद्विक, १ पत्रेन्द्रियजाति, १ शुभविहायगति, १ त्रस दशके से की यशकीर्ति विना नव, २ वैक्रियद्विक, २ आहारक द्विक, १ सम चउरस संस्थान, १ उश्वास, और १ पराघात इन २० विना ८ का बन्ध होती है।

अनीयटी वादर में-१ साता वेदनी, २ यशकीर्ति, ३ ऊंच गौत्र और ४ पुरुषवेद यह ४ बन्धेती है।

सूक्ष्म सम्पराय में-पुरुष वेद विना तीन प्रकृति बन्धती है।
उपशान्त मोहसे सयोगी केवल गुणस्थानतक-१ साता वेदनी बंधे।
अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं।

५५, पंद्रवा सर्व घातिक कर्म बन्ध द्वार

सर्व घातिक ३ कर्मः—१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय और ३ मोहनीय.

मिथ्यात्व से अप्रमत्त गुणस्थानतक तीनों कर्म बन्धते हैं और अपूर्व करण से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक मोहनी विनादो कर्म बन्धते हैं. उपर सर्व घातिका बन्ध नहीं.

६५,—सोलवा सर्व घातिक कर्म प्रकृति द्वार

१ केवल ज्ञानावरणीय, १ केवल दर्शनावरणीय, १ निद्रा १२ संज्वलकी चौकडी विना तीनों चौकडी की ११ कषाय, और १ मिथ्यात्व मोहनीय. यह २० सर्व घातिक प्रकृति है. इसमें से.

मिथ्यात्व गुणस्थान में २० ही प्रकृति बन्धाती है.

सास्वर्दिन में—१ मिथ्यात्व मोहनीय विना १९ प्रकृति बन्धाती है.

मिश्र औा अविरति गुणस्थान में ४ अनन्तान बन्धि चौकडी और २ शीणद्री त्रिक इन ७ विना १२ प्रकृति बन्धाती है.

देशविरति गुणस्थान में—अप्रत्याख्यानी चौकडी विना ८ प्रकृति बन्धती है.

प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान में—१ केवल ज्ञानावरणीय, १ केवल दर्शनावरणीय, और दो निद्रा, यह ४ प्रकृति बन्धती है.

अपूर्व करण गुणस्थान के दूसरे भाग से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक— १ केवल ज्ञानावरणीय और २ केवल दर्शनावरणीय २ प्रकृति बन्धाती है.

आगेके गुणस्थानों में सर्व घातिक प्रकृति का बन्ध नहीं.

५७. सत्तरवा देशघातिक कर्म बंध द्वार

देशघरातिक ४ कर्मः-ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय.

मिथ्यात्वसे अनीयटी बादर गूणस्थानतक चारोंही कर्म बन्धाते हैं. सूक्ष्म संपरायके आदि भागमें मोहनीय विना तीनोंकर्म बन्धाते हैं सूक्ष्म सम्परायके अन्तिम भागसे ऊपर देशघातिक कर्मका बंध नहीं

५८ अठार देशघातिककर्म प्रकृति बंधद्वार

देश घातिक कर्मोंकी २५ प्रकृति-ज्ञानावरणीय की ४, दर्शनावरणीयकी ३, हांस्य षटक, ३ वेदनीय, ४ संज्वलकी चौकडी, और अन्तराय की ५, यों २५ में से मिथ्यात्व गूणस्थान में २५ ही प्रकृति का बन्ध होता है.

सास्वादन गूणस्थान में नपुंसक वेद विना २४ बन्धाती है.

मिश्रसे प्रमत गूणस्थानतक स्त्रीवेद विना २३ प्रकृति बाधाती है.

अप्रमत और अपुर्व करणमें-शोक अरति विना २१ प्रकृति बन्धाती है

सूक्ष्म सम्पराय में-पुरुषवेद और संज्वलके चौक विना १६ प्रकृति बन्धाती है.

और सूक्ष्म सम्परायके अन्त में १२ ही का क्षय होनेसे अगे बन्ध नहीं होता है.

५९ उन्निसवा—अघातिक कर्मबंध द्वार.

अघातिक कर्म ४ हैं. १ वेदनीय, २ आयुष्य, ३ नाम और ४ गौत्र, इनमेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थानतक बीच का मिश्र गुणस्थान छोड़ कर बाकीके ६गुणस्थानोंमें चारोंही कर्म बन्धतेहैं.

मिश्र, अपूर्व करण, से सूक्ष्म सम्परायतक आयुष्यविन तीनों कर्म बन्धते है.

उपशान्त मोहसे सयोगी केवली गुणस्थान तक एक वेदनीय कर्म बन्धता है.

आयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं.

६०, बीसवा अघातिक कर्म १५ धार.

अघाति प्रकृति ७५ होती है-२ वेदनीयकी, ४ आयुष्यकी, ६७ नाम की, २ गौत्रकी, यों ७५ मिथ्यात्व गुणस्थान में आहारक द्विक और जिन नाम विना ७२ का बन्ध होता है.

सास्वादन में ३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, १ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ साधारण, १ अपर्याप्ता, १ आताप १ हूँड संस्थान, १ छेवटा संघयण, इन १४ विना ५८ बान्धते हैं.

मिश्रमें-४ आयुष्यकी, २ तीर्थचट्टीक, ४ बीचके चार संघयण ४ बीचके चार संस्थान, १ अशुभ विहायोगति, १ दौर्भाग्य, १ दुःस्वर, १ अनादे, और १नीच गौत्र इन १९ विना बाकी की ३९ का बन्ध होता है.

अविरति में-१ तीर्थकर नाम, और २ गतिका आयुष्य यह ३ बढ़ने से ४२बन्धे.

देशविरति और प्रमत्त के १ बज्र वृषभ नारच संघयण, मनुष्य त्रिक, और २ औदारिकद्विक, यह ६ टलनेसे ३६ का बन्ध होता है, अप्रमत्तके-१ अस्थिर, अशुभ, १ अयशः १ नीच गौत्र येह ४

विना ३२ प्रकृति बन्धते हैं.

अपूर्व करणसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-१ यशकीर्ति, १ सत्ता-वेदनीय, और १ ऊंच गौत्र यह तीनों प्रकृति बन्धाती है.

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-१ सातावेदनीय बन्धाती है
अयोगी केवलीके बन्ध नहीं.

६१, इक्कीसवा पुण्य कर्म बंध द्वार

पुण्य कर्म ४ हैं:-वेदनीय, आयुष्य, ३ नाम, ४ और गौत्र. इनमेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थानतक बीचका मिश्र गुण स्थान छोडकर बाकी के ६ गुणस्थानों में-चारों ही कर्मों का बन्ध होता है.

मिश्र, अपूर्व करण, अनियती बादर और सूक्ष्म सम्पराय इन चार, गुणस्थानों में-आयुष्य विना तीन कर्मोंका बन्ध हाता है.

उपशान्त मोह क्षीण मोह और सयोगी केवली में १ साता वेदनीय का बन्ध हाता है.

अयोगी केवली के बन्ध नहीं.

६२, बाविसवा पुण्य कर्म प्राकृति बंध द्वार

पुण्य प्रकृति ४२ हाती है. १ साता वेदनीय, ३ नरकविना तीनों गति का आयुष्य, ÷ १ मनुष्यगति, १ मनुष्यानुपूर्वी, देवगति, १ देवानुपूर्वी, १ पचेन्द्रिय जाति, ५ शरीर ३ अंगोपांग, १ प्रथम संघयण, १ प्रथम संस्थान, ४ शुभवर्ण चतुष्क, १० त्रस दशका १ अगुरु लघू, १ पराघात, १ उश्वास, १ आताप, १ उद्योत १ शुभ विहायगति, १ निर्माण, १ तीर्थन्कर नाम और ऊंच गौत्र.

÷ तिर्यच युगलिये हाते हैं. इसलिये तिर्यचायु पुन्य प्रकृति में लिया है.

यह ४२ इनमें से.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-आहारक द्विक और तीर्थकर नाम विना ३९ बन्धते हैं.

सास्वादन गुणस्थानमें-आताप नाम विना ३८ प्रकृति बन्धते हैं.

मिश्र गुणस्थानमें-तीनों आयुष्य उद्योत नाम विना ३४ बन्धते हैं.

अविरातिमें-मनुष्यायु, देवायु, और तीर्थकरन नाम यह ३ बढने से ३७ बन्धते हैं.

देश विरति और प्रमत्त गुणस्थान में-३ मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक, और प्रथम संघयण इन ६ विना ३१ प्रकृति बन्धते हैं अप्रमत्त गुणस्थानमें-आहारक द्विक बढने से ३२ प्रकृति बन्धते हैं.

अपूर्व करण गुणस्थानके ९ भाग-उसमेंसे पहिले ६ भागों में-देवायु विना ३२ बन्धे, और पीछले तीन भागों में-उंचा गौत्र. २ सातावेदनीय, और ३ यशःकीर्ति नाम यह तीनों प्रकृति बन्धते हैं.

अनीयटी बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानीके-उपरोक्त तीनों प्रकृति बन्धाती है.

उपशांत मोहसे सयोगी केवल तक-१ साता वेदनीय बन्धते हैं.

अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं.

६३, तेबीसवा पाप कर्म बंध द्वार

आठोंही पाप कर्म हैं:-उसमेंसे.

मिथ्यात्व और से स्वादन गुणस्थान आठही कर्म बन्धते हैं.

मिश्रसे प्रमत्त गुणस्थानतक आयु और गौत्र विना ६ कर्म बंधते हैं.

अप्रमत्तसे अनियटी बादरतक वेदनीय विना ९ कर्म बंधे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में मोहनीय विना ४ कर्म बन्धे.

उपर के गुणस्थानों में पाप कर्म का बन्ध नहीं.

६४, चौबीसवा पाप कर्म प्रकृति बंध द्वार

पाप कर्मकी प्रकृति ८२ होती है. ५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीयकी, १ असातावेदनीय, १६ चार चौकडी की कषाय, ६ हांस्या दि, ३ वेद, १ मिथ्या मोह, १ नरक का आयुष्य. २ नरक द्विक २ तिर्यच द्विक ४ जाति चतुष्क, ४ वर्ण चतुष्क, ५ प्रथम संघयण विना ५ संघयण, ५ प्रथम संघाण विना ५ संस्थान, १० स्थावर दशका, १ अशुभ विहायगति, १ उपघात नाम १ नीच गौत्र, और ५ अन्तराय इन ८२ मेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-८२ ही प्रकृतिका बन्ध है.

सास्वादन गुणस्थान में-३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, ४ स्थावर चतुष्क, १ छेवटा संघयण १ हूंडक संस्थान. २ मिथ्यात्व मोह, और १ नपुंसक वेद, इन २५ विना ६७ प्रकृति बन्धते हैं.

भिन्न और अविरति गुणस्थान में- ४ अनन्तान बन्धि चौक, ४ संघयण, ४ संस्थान, २ तिर्यच द्विक, ३ थीणद्धी त्रिक, १ दौर्भाग्य, १ दुःस्वर, १ अनादेय, १ अशुभ विहायगति, १ स्त्रीवेद, और १ नीच गौत्र. इन २३ विना ४४ बन्धे.

देशविरति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानि चौकडी विना ४० बन्धते हैं, प्रमत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानी चौक विना ३६ प्रकृति बन्धाती है

अप्रमत गुणस्थानमें- शोक, १ अरति, १ अस्थिर, १ अशुभ १ अयशःऔर असाता वेदनीय इन ६प्रकृति विना ३० प्रकृति बन्धती है.

अपूर्व करण गुणस्थान के ९ भागोंमे से-पहिले के दोनों

भागोंमें तो उपरोक्त ३० काही बन्ध होता है. तीसरे से लगा छठे भागतक दो निद्रा विना २८ का बन्ध होता है. और अन्तिम तीनों भागोंमें-४वर्ण चतुष्क, और पराघात नाम, इन ५ प्रकृति विना २३ का बन्ध होता है.

अनियटी वादरके ५ भागोंमेंसे पहिले भाग में-१ हांस्य, १ रति, १ भय, और २ मत्सर, इन ५ विना १९ का बन्ध, दुसरे भाग में पुरुष वेद विना १८ का बन्ध, तीसरे में संज्वल के क्रोध विना १७ का बन्ध, चौथे में-संज्वलके मान विना १६ का बन्ध. पांचवे में-संज्वलकी माया विना १५ का बन्ध.

सूक्ष्म सम्पराय में-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, और ५ अन्तराय इन १४ प्रकृति का बन्ध होता है.

उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक पाप प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है.

६५, पच्चीसवा-परावर्तमान कर्मबन्ध द्वार

दुसरे के बन्धको और उदय को रोककर अपनाही प्रभाव दर्शावे ऐसे परावर्तमान कर्म ५ हैं:—१ दर्शनावरणीय, १ वेदनीय १ मोहनीय, १ आयु, १ नाम और १ गौत्र.

मिथ्यात्वसे अप्रमत्त गुणस्थान तक छेही कर्मोंका बन्ध.

अपूर्व करण में—दर्शनावरणीय और आयुष्य विना कर्मों ४ का बन्ध होता है.

अनीयटी वादर में—वेदनी, नाम और गौत्र इन ३ कर्मोंका बन्ध होता है.

परावर्तमान अपरावर्तमान कर्म प्रकृति के खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २०९ वा.

सूक्ष्म संपरायसे सयोगी केवलीतक-एक वेदनीयकाही बन्ध होताहै।
अयोगी केवली गुणस्थान में परावर्त मान का बन्ध नहीं।

६६. छुबीसवा परावर्तमान कर्म प्रकृति द्वार

परावर्तमान कर्मोंकी प्रकृति ९१ है:- १ निद्रा, २ वेदनी, ३ वेद, १ हांस्य, १ रति, १ अरति, १ शोक, १६ चारों चौकडी की कषाय, ४ आयुष्य, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ३ अंगोपांग, ६ संघयण, ६ संस्थान, ४ अनुपूर्वी, २ विहायोगति, १० त्रस दशका १० स्थावर दशका, १३ उद्योत, १ आताप, यों सब ९१.

भिथ्यात्व गुणस्थान में-आहारक द्विक विना ८९ का बन्ध.
सास्वादन गुणस्थान में-३ नरक त्रिक, ४ जाति चतुष्क, १ स्थावर १ सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, १ साधारण, १ हुंड संस्थान, १ छेवटा संघयण, १ आताप, और १ नपुंसक वेद इन १९ विना ७४ प्रकृति बन्ध.

मिश्र गुणस्थानमें-३ थीणद्वीत्रिक, ४ अनन्तान बन्धि चौक, १ स्त्रीवेद २ तिर्थचद्विक, ४ मध्य के चार संघयण, ४ मध्य के चार संस्थान, १ अशुभ विहायोगति, १ दौर्भाग्य, १ दूस्वर, १ अनादेय, ४ चारों आयु, १ नीच गौत्र, इन २७ विना ४७का बन्ध.
अविरति गुणस्थान में-१ मनुष्यायु, १ देवायु, दोनों, बढने से ४९ प्रकृति का बन्ध.

देश विरति गुणस्थान में-४ अपत्याख्यानी चौक, १ प्रथम संघयण, ३ मनुष्यत्रिक, २ औदारिक द्विक, इन १० विना-३९ प्रकृतिका बन्ध पावे.

प्रमत गुणस्थान में-प्रत्याख्यानी वरणिय चौक विना ३५का बंध

अप्रमत्त गुणस्थान में-१ शोक, १ अरति, १ अस्थिर, १ अशुभ, १ अयश, और १ असाता वेदनीय इन ६ विना २९का बन्ध अपूर्व करण में-१ निद्रा और १ प्रचला विना २७का बन्ध, अनियति वादर में-संज्वलका चौक, १ सातावेदनीय, १ यश कीर्ति, और उंच गौत्र इन ८ का बन्ध.

सूक्ष्म सम्पराय में-संज्वल के चौक विना ३ का बन्ध.

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-१ सातावेदनीयका बन्ध.

अयोगी केवली के परावर्तमान प्रकृति का बन्ध नहीं.

६७ सत्तावीसवा अपरावर्तमान कर्मबन्धद्वार

अपरावर्तमान ५ कर्म-१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणी, ३ मोहनीय ४ नाम और अंतराय.

मिथ्यात्व गुणस्थान से अपूर्व करण गुणस्थान तक-पांचों कर्मोंका बन्ध.

अनियत वादर और सूक्ष्म सम्पराय में-मोहनीय और नाम विना ३ कर्म का बन्ध.

उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-अपरावर्तमान कर्मोंका बन्ध नहीं होता है.

अठावीसवा अपरावर्तमान कर्म प्रकृतिबंधद्वार

अपरावर्तमान प्रकृति २९ है:-१ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, १ मिथ्यात्व मोहनीय, १ भय, १ मत्सर, ४ वर्ण चतुष्क, १ तेजस, १ कर्मण, १ अगुरु लघु, १ निर्माण, १ उपघात, १ पराघात, १ श्वासोश्वास, १ तीर्थकर नाम, और ५ अन्तराय.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें—जिन नाम विना २८ का बन्ध.

सास्वादन और मिश्रमें मिथ्यात्व मोहनियि विना-२७का बन्ध
अविरतिसे अपूर्व करण तक-जिन नाम सहित २८ का बन्ध.

अनियट्टि बादर और सूक्ष्म सम्परायमें-५ ज्ञानावरणीय, ४दर्श
नावरणीय, और ५ अन्तराय. यों १४ प्रकृतिका बन्ध.

उपशान्त मोह से अयोगी केवलीतक अपरात्रतमानका बन्ध नहीं.

६९, **उनतीसवा-भूयस्कार कर्म बन्ध द्वार**

उपशांत मोह गुणस्थान से पडता हुवा-एक वेदनीय का बन्ध क
र सूक्ष्म सम्पराय में छे कर्मोंका बन्ध करे सो प्रथम भूयस्कार बन्ध.

सूक्ष्म सम्पराय में छे कर्मोंका बन्ध कर, अनियट्टि बादरमें सात
कर्मोंका बन्ध करेसो दुसरा भूयस्कार.

अप्रमत्त गुणस्थानमें सात कर्मोंका बन्ध कर प्रमतादि गुण
स्थान में आठ कर्मों का बन्ध करे सो तीसरा भूयस्कार.

**७०, तीसवा-भूयस्कार कर्म प्रकृति
बन्ध द्वार.**

सामान्यपने-कर्म प्रकृति के बन्ध स्थान २९ होते हैं.-१ व
१७ का, १८ का, १९ का, २० का, २१ का, २२ का, २६ क
५३ का, ५४ का, ५५ का, ५६ का ५७ का, ९८ का, ९९ क
६० का, ६१ का, ६३ का, ६४ का, ६५ का, ६६ का, ६७ का, ६
का, ६९ का, ७० का, ७१ का, ७२ का, ७३ का और ७४ का, इ
२९ स्थानों में से भूयस्कार बन्ध के २८ स्थानक हैं.

६४ भूयस्कारादि चारों बन्धकी कर्म प्रकृतिके खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका
पुष्ट २०८वा.

१ उपशान्त मोह में-१ वेदनीका बन्ध कर, सूक्ष्म सम्परायमें-
 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीकी ४, अन्तराय की ५, ऊंच गौत्र १, य
 कीर्ती १, यों १७ प्रकृतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समय में
 बन्ध करती वक्त प्रथम भूयस्कार बन्ध.

वहां से पडता अनियट बादर गुणस्थानमें-संज्वल के लोभ
 युक्त १८ प्रकृति का बन्ध करे सो दुसरा भूयस्कार बन्ध. ३ इसी में
 संज्वलकी मायाके साथ १९ का बन्ध करेसो तीसरा भूयस्कार बंध.
 ४ इसी में संज्वलके मान के साथ २० का बन्ध करेसो चौथा भू-
 यस्कार बन्ध, इसीमें संज्वलके क्रोधके साथ २१ का बन्ध करे सो
 पांचवा भूयस्कार बन्ध, ६ इसीमें पुरुष वेदके साथ २२ का बन्ध
 करे सो छठा भूयस्कार बन्ध, ७ अपूर्व करण के सातवे भाग में हां
 स्य, रति, भय, और मत्सर, इन चारों का बन्ध करे सो सातवा भु
 यस्कार बन्ध, ८ अपूर्व करण के छठे भाग में-देवाप्रायोग २८ प्र-
 कृति का बन्ध करे सो ९३ का आठवा भूयस्कार बन्ध. ९ तीर्थकर
 नामका बन्ध करे सो ९४ का नववा भूयस्कार बन्ध, १० इसमें से-
 आहारक द्विक बन्ध करे सो ऊपरोक्त ९३ दोनों मिलाने से ९५का
 दशवा भूयस्कार बन्ध, ११ इसमें जिननाम का बन्ध करे सो ९६
 का इग्यारवा भूयस्कार बन्ध, १२ अपूर्व करण के प्रथम भागमें
 तीर्थकर नाम घटाकर, निद्रा और प्रचला का बन्ध करे सो ९७ का
 बारवा भूयस्कार बन्ध, १३ इस में-तीर्थकर नाम अधिक करनेसे ९८
 का तेरवा भूयस्कार बन्ध, १४ अप्रमत गुणस्थान मे-देवायु सहित
 ९९ का बन्ध करे सो चउदवा भूयस्कार बन्ध, १५ देशविरति गुण-

÷ देव प्रायोग्य बन्ध की प्रकृति २८ है. परन्तु यज्ञ कीर्ती नाम ऊपर कद

देने के सधव से यहां.

स्थान में देवा प्रायोगकी २८ प्रकृति का बन्ध करते-१ ज्ञानावरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी, १ वेदनीयकी १७ मोहनीयकी, २८ नामकी, १ गौत्रकी, और ५ अन्तराय की यों ६९ प्रकृतिका बन्ध करे सो पन्द्रहवा भूयस्कार बन्ध. १६ तीर्थकर नाम सहित ६९ का बन्ध करे सो सोलवा भूयस्कार बन्ध. १७ अविरति गुणस्थान में आयुष्य अबन्ध वक्त में देव प्रायोग्य नामकी २८ प्रकृतिका बन्ध करते-१ ज्ञानावरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी, १ वेदनीयकी, १७ मोहनीयकी, २८ नामकी १ गौत्रकी, और ५ अंतरायकी यों २३ का बन्ध करे सो सतरवा भूयस्कार बन्ध, १८ देवायु सहित ६४ का बन्ध करे सो अठारवा भूयस्कार बन्ध. १९ तीर्थकर नाम सहित ६५ का बन्ध करे सो उन्नीसवा भूयस्कार बन्ध. २० अविरति में देवता होवे उनके मनुष्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का बन्ध करते ६६ का बन्ध होवे सो बीसवा भूयस्कार बन्ध. २१ मिथ्यात्व गुणस्थान में-१ ज्ञानावरणीय, १ दर्शनावरणीय, १ वेदनीय, २२ मोहनीय, १ आयुष्य २३ नामकी १ गौत्रकी, और ५ अन्तराय की यों ६७ प्रकृति का बन्ध करे सो इक्कीसवा भूयस्कार बन्ध. २२ इसमें नामकी २५ प्रकृति करने से और आयुष्य की १ कमी करने से ६८ का बन्ध होवे सो तेबीसवा भूयस्कार बन्ध, २४ येही नाम कर्म की २६ प्रकृति साथ ७० का बन्ध होवेसो चौबीसवा भूयस्कार बन्ध, २५ येही आयुष्य सहित और नाम की २८ प्रकृति साथ ७१ का बन्ध करे सो पच्चीसवा भूयस्कार बन्ध. २६ येही २९ नामकी प्रकृति साथ बन्ध करेसो ७२ का छब्बीसवा भूयस्कार बन्ध, २७ येही आयुष्य सहित १३ का बन्ध करे सो सत्तावीसवा भूयस्कार बन्ध और २८ येही नामकी ३० प्रकृति का बन्ध करते-५ ज्ञानावरणीय, १ दर्शनावरणीय, १ वेदनीय, २२ मोहनीय, १ आयुष्य

हनीय, १ आयुष्य, ३० नामकी, १ गौत्रकी, और १ अंतरायकी यों ७४ का बंध करे सो अठावीसवा भूयस्कार बंध.+

७१, इकतीसवा अल्पतर कर्म बंध द्वार

प्रथमके गुणस्थानों में आयु कर्म का बन्ध करते सात कर्मों का बन्ध करे सो प्रथम अल्पतर बन्ध.

सात कर्मोंका बन्ध कर दशवे गुणस्थानके प्रथम समय मोहनीय विना छे कर्मोंका बन्ध करे सो दुसरा अल्पतर बन्ध.

और छे कर्मोंका बन्ध किये बाद आगे उपशान्त मोह क्षीण मोहादि गुणस्थान में एक वेदनीय का बन्ध करे सो तीसरा अल्पतर बन्ध.

७२ बत्तीसवा अल्पतर कर्म प्रकृति बन्धद्वार

जो उपर भूयस्कार बन्ध के २८ स्थान कहे हैं, उन्हीको उलट पढ़ने से अर्थात्-पहेल २८ वा, फिर २७ वा, फिर २६वा, यों-आठईस उलटाकर पढ़नासो अल्पतर बन्ध के २८ स्थान जानना.

७३, तैंतीसवा अवस्थित कर्म बंध द्वार.

प्रथम गुणस्थानोंमें आठों कर्मोंका बन्ध किये बाद आगेके गुणस्थान में सात कर्मोंका बन्ध करे उस वक्त प्रथम समयमें तो अल्पतर बन्ध जानना, और फिर वो बन्ध जितने कालतक वैसे-ही स्वरूप में कायम बनारहे उसे अवस्थित बन्ध कहते हैं.

+ यह २८ भूयस्कार बन्ध स्थान कहे इनके प्रकारान्त से अनेक भेद होते हैं सो स्ववृद्धि से काजियेजी.

७४, चौतीसवा-अवस्थितकर्म प्रकृतिबंधद्वार

बन्ध के २९ ही स्थानोंमें जिन २ प्रकृतियों के बन्ध करने का स्वरूप भूयस्कार बन्ध में कहा है. वो प्रकृतियों बन्ध किये बाद उतनीही उसही स्वरूपमें कायम रहे. उसे अवस्थिति बन्ध समझना.

७५, पैतीसवा अव्यक्त कर्म बंध द्वार

अव्यक्त बन्ध-सर्व कर्मों से अबन्ध-निर्मुक्त हो फिर बन्ध करे उसे कहते हैं, सो किसी भी गुणस्थान में नहीं पाता है, क्योंकि सर्व कर्मोंसे निर्मुक्त अयोगी केवली गुणस्थान के बाद होते हैं, और सीधा मोक्ष में चलें जाते हैं. परन्तु पडवाइ नहींज होते हैं. इसलिये यह बन्ध नहीं पाता है. एसाही अव्यक्त कर्म प्रकृति के सम्बन्ध में भी जानना.

७६, छत्तीसवा-समुचय कर्मप्रकृतिबन्धद्वार

१ मिथ्यात्व गुणस्थान में-ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीयकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २६, आयुष्यकी ४, नामकी ६४, गौत्र की २, और अन्तराय की ५, यों सब ११७ प्रकृति का बन्ध होता है.

२ सास्वादन गुणस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २४, आयुष्यकी ३, नामकी ५१, गौत्रकी २, और अंतरायकी ५, योंसब १०१ प्रकृति बन्धाती है.

३ मिश्र गुणस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयकी ६, वेदनीयकी २, मोहनीय की १९, नामकी ३६

गौत्रकी १, और अंतराय की ५, यों सब ७४ प्रकृति बन्धाती है.

४ अविरति सम्यग दृष्टि गुणस्थानमें-ज्ञानावर्णीयकी ५, दर्शनावर्णीय की ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी १९, आयुष्यकी, २, नामकी ३७, गौत्र की १, और अंतरायकी ५, यों सब ७७ प्रकृति बंधाती है.

५ देशविरति गुणस्थान में-ज्ञानावर्णीयकी ५, दर्शनावर्णीयकी ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी १५, आयुष्य की १, नामकी ३२, गौत्रकी १, और अंतरायकी ५, यों सब ६७ प्रकृति बंधाती है.

६ प्रमत संयाति गुणस्थान में-ज्ञानावर्णीय की ५, दर्शनावर्णीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीयकी ११, आयुष्य की १, नाम की ३२, गौत्र की १ और अंतरायकी ५, योंसब ६३ प्रकृति बंधाती है.

७ अप्रमत संयाति गुणस्थानमें-ज्ञानावर्णीय की ५, दर्शनावर्णीय की ६ वेदनीयकी १, मोहनीय ९,, आयुष्य की १, नाम की ३१, गौत्रकी १, और अन्तरायकी ५ यों सब ५९ प्रकृति बंधाती है.

८ अपूर्व करण गुणस्थान के सात भागों में से-पाहिला भाग में ज्ञानावर्णीय की ५ दर्शनावर्णीय की ६, वेदनीयकी १, मोहनीयकी ९, नामकी ३१, गौत्रकी १, और अंतरायकी ५ यों सब ५८ प्रकृति बन्धाती हैं. और दूसरे भाग से लगाकर छठे भाग तक मोहनीयकी २ प्रकृति कम होनेसे ५६ प्रकृति बन्धाती है. और सातवें भाग में नामकी ३० विना २६ बन्धाती है.

९ अनियट्टी वादर गुणस्थान के पांच भागों में से-पाहिले भाग में ज्ञानावर्णीय की ५, दर्शनावर्णीय की ४, वेदनीयकी १, मोहनीयकी ५, नामकी १, गौत्रकी १, और अंतरायकी ५, यों स-

व २२ प्रकृति बन्धाती है, आगे प्रत्येक भाग में एकेक मोहनीय की प्रकृति कमी होनेसे-दुसरे भागमें २१ तीसरेमें २०, चौथे में १९ और पांचवे में-१८ प्रकृति बंधाती है.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीय की ४, वेदनीय की १ नामकी, १, गौत्रकी १, और अन्तराय की ५ यों १७ प्रकृति बन्धाती है.

११-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह और सयोगी केवली के एक सातावेदनीय का बन्ध होता है.

१४ अयोगी केवली के किसीकाभी बन्ध नहीं होता है.

७७, सैंतीसवा-कर्मबन्ध व्युच्छेद द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानसे अप्रमत्त गुणस्थान तक मिश्र गुणस्थान छोड बाकी ६ गुणस्थानोंमें कर्म बन्धका व्युच्छेद नहीं आठों ही कर्म बन्धाते हैं.

मिश्र. अपुर्व करण. और अनियटी बादर गुणस्थानों में आयु बन्ध व्युच्छेद.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में आयुष्य और मोहनीय कर्म बन्ध व्युच्छेद.

उपशांत मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली इन ३ गुणस्थानों में एक वेदनीय कर्म विना सातों कर्म बन्धन का व्युच्छेद होता है.

और अयोगी केवली गुणस्थानमें सर्व कर्म बन्धका व्युच्छेद रहे.

७८, अठतीसवा कर्मप्रकृतिबंधव्युच्छेदद्वार

सब बंधकी १२० प्रकृति है. उसमेंसे:-

१ मिथ्यात्व गुणस्थानमें-नाम कर्मकी ३ प्रकृति का बंध व्युच्छेद होता है.

२ सास्वादन गुणस्थानमें-मोहनीय की २, आयुष्यकी १, और नामकी १६ यों सब १९ प्रकृतिका बंध व्युच्छेद होता है.

३ मिश्र गुणस्थान में-दर्शनावरणीयकी ३, मोहनीयकी ७ आयुष्यकी ४, नामकी ३१ और गौत्रकी १ यों सब ४६ का बन्ध व्युच्छेद होता है.

४ अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें-दर्शनावरणीयकी ३, मोहनीयकी ७, आयुष्य की २, नामकी ३० और गौत्रकी १ यों सब ४३ का बंध व्युच्छेद होता है.

५ देशविरति गुणस्थान में-दर्शनावरणीय की ३, मोहनीयकी ११, आयुष्य की ३ नाम की ३९, और, गौत्र, की १, यों सब ५३ का बंध व्युच्छेद होता है.

६ प्रमत्त गुणस्थान में दर्शनावरणीयकी, ३ मोहनीयकी १९, आयुष्यकी ३, नामकी ३५, और गौत्रकी १ यों सब ५७ का बन्ध व्युच्छेद होता है.

७ अप्रमत्त गुणस्थान में-दर्शनावरणीय ३, वेदनीय १, मोहनीय-१७, आयुष्य की ३, नामकी ३६ और गौत्रकी १, यों सब ६१ का बंध व्युच्छेद होता है,

८ अपूर्व करण गुणस्थान के सात भागोंमें से पहले भागमें दर्शनावरणीय की ३, वेदनीयकी १, मोहनीयकी १७, आयुष्यकी ४, नामकी ३६ और गौत्र की १, यों सब ६२ का बन्ध व्युच्छेद होता है. दूसरे भाग से छठे भाग तक-दर्शनावरणीयकी ५ वेदनीयकी १, मोहनीय की १७, आयुष्यकी ४, नामकी ३६ और गौत्र की

१, यों सब ६० का बन्ध व्युच्छेद होता है. और सातवे भाग में नाम की ३० प्रकृति का बंध घटने से ९० का बन्ध व्युच्छेद होता है.

९ अनियट्टि वादर गुणस्थानके पांच भागों में से पहिले भाग में—दर्शनावरणीय की ५ वेदणीयकी १, मोहनीयकी २, आयुष्य की ४, नामकी ६६, और गौत्रकी १ यों सब ९८ प्रकृतिका बंध व्युच्छेद होता है, आगे चार भागों में मोहनीय की एकेक बधाने से—दूसरे भाग में ९९, तीसरे में १००, चौथे में १०१ और पांचवें में १०२ प्रकृतिका बंध व्युच्छेद होता है.

१० सूक्ष्म सम्पराय में—दर्शनावरणीयकी ५, वेदनीयकी १ मोहनीयकी २, आयुष्यकी ४, नामकी ६६ और गौत्रकी १, यों सब १०३ का बंध व्युच्छेद होता है.

११-१३ उपशान्त मोह, क्षीण मोह, और सयोगी केवली, इन ३, गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ५, वेदनीय की १, मोहनीयकी २, आयुष्य की ४, नरमकी ६७ और गौत्रकी १ यों सब १२९ का बंध व्युच्छेद होता है, और अयोगी केवली गुणस्थान में १२० प्रकृति काही बन्ध व्युच्छेद होता है.

इति कर्म बंध नामक द्वितीय प्रकरण

समाप्त.

तृतीय प्रकरण-कर्मोदय द्वार.

कर्मोदयके-३४ द्वारोंके नाम.

१ समुचय कर्मोदयद्वार, २ ज्ञानावरणीयोदयद्वार, ३ दर्शनावरणीयोदयद्वार, ४ वेदनीयोदयद्वार, ५ मोहनीयोदयद्वार, ६ आयुष्य

दयद्वार, ७ नमोदयद्वार, ८ गौत्रोदयद्वार, ९ अन्तरायोदयद्वार, १० ध्रुवकर्मोदयद्वार, ११ ध्रुवकर्मप्रकृतियोदयद्वार, १२ अध्रुवकर्मोदयद्वार, १३ अध्रुवकर्म प्रकृतियोदयद्वार, १४ पुण्यकर्मोदयद्वार, १५ पुण्य कर्म प्रकृतियोदयद्वार, १६ पाप कर्मोदयद्वार, १७ पापकर्म प्रकृतियोदयद्वार, १८ क्षेत्र विपाक कर्मोदयद्वार, १९ क्षेत्रविपाककर्म-प्रकृतियोदयद्वार, २० भव विपाककर्मोदयद्वार, २१ भवविपाक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, २२ जीवविपाक कर्मोदयद्वार, २३ जीव विपाककर्म प्रकृतियोदयद्वार, २४ पुद्गल विपाक कर्मोदयद्वार, २५ पुद्गल विपाक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, २६ सर्वघातिक कर्मोदयद्वार, २७ सर्वघातिक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, २८ देशघातिक कर्मोदयद्वार, २९ देशघातिक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, ३० अघातिक कर्मोदयद्वार, ३१ अघातिक कर्म प्रकृतियोदयद्वार, ३२ समुचय कर्म प्रकृतियोदयद्वार, ३३ कर्मोदय व्युच्छेदद्वार और ३४ कर्मप्रकृतियोदय व्युच्छेदद्वार.

७९, प्रथम-समुचय कर्मोदय द्वार.=

मिथ्यात्व गुणस्थान से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक आठोंही कर्मोंका उदय पाता है.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थानमें मोहनीय विना ७कर्मोंका उदय पाताहै, और सयोगी केवली. अयोगी केवली इन दोनों गुणस्थानोंमें-१वेदनीय, २ आयूष्य, ३ नाम, और ४गौत्र इन चार कर्मोंका उदय पाताहै.

८०, दुसरा-ज्ञानावरणीयोदय द्वार.

= क्योंकि धीणद्वी त्रिकका उदय स्थूल प्रमादीके होता है सो यहां नहीं है.

उदय द्वारोंके खुलासे के लिये अर्थ कांडका २१४ वा पृष्ठ देखीये.

मिथ्यात्वगुणस्थानमें-आहारकद्विक, और तीर्थकर नाम विना ६४ प्रकृतिका उदय पाता है.

सास्वादन गुणस्थानमें-३ सूक्ष्मत्रिक, १ आताप नाम, १ नस्कानुपूर्वी विना ५९ प्रकृति का उदय.

श्रिमगुणस्थानमें-४ जाति चतुष्क, १ स्थावरनाम, ३ अनुपूर्वी विना ५९ का उदय.

अविरति सम्यग्दृष्टिमें-४ चारों गतिकी अनुपूर्वी अधिक होनेसे ५५ प्रकृति का उदय.

देशविरतिमें-१ मनुष्यानुपूर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी, २ वैक्रियद्विक, २ देवद्विक, २ नरकद्विक, १ दौर्भाग्य, १ अनादेय, १ अय-

क्योंकि १ आहारक द्विक उदय तो चउदय पूर्व धारी मुनिके होता है और तीर्थकर नामोदय चौथे गुणस्थान से चौदवे तक होता है.

२ सूक्ष्मादि चारोंका उदय तो निश्चय से मिथ्यात्वके होता है, और नरकानुपूर्वीका उदय वक्र गति कर नरक में जाने वालेके पाता है और औपशमिक सम्यक्त्वका वमन करते नरक में नहीं जाता है. फक्त मिथ्यात्वके उदय में ही जाता है. सास्वादन वर्ती मनुष्य और तिर्यच जिस वक्त वक्रगति कर नरक में जाता है उसवक्त मनुष्य होवेतो मनुष्यका और तिर्यच होवेतो तिर्यचायु का उदय वर्तता है. फिर सम्यक्त्वका वमन करे बाद नरकानुपूर्वी का उदय होता है. और फिर नरकायुका उदय होता. इसलिये मिथ्यात्वी होकर ही नरक में जाता है. फिर नरकमें पर्याप्ता हुवे बाद उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है. फिर उसे वमन करे तब सास्वादन गुणस्थान पाता है. और उसी वक्त नरकायु का उदय पाता है. क्षायिक सम्यक्त्वी तो श्रेणिक राजा की तरह सम्यक्त्व सहित नरक में जाता है. और सास्वादन औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक्त्वका वमन कर नरक में जाता है. इसलिये इनका भी अनुदय है.

३ यहां आयु वन्ध नहीं होनेसे अनुपूर्वीका उदय नहीं पाता है.

४ यहां आयु वन्ध होनेसे चारों अनुपूर्वी का उदय पाता है.

शः, इन ११ विना ४४ का उदय.

प्रमत्तके-? तीर्थचगति और २ उद्योत नाम, यह २ तो घटना और २ आहारक द्विक बढ़ाने से ४४ का उदय होता है.

अप्रमत्तके-आहारक द्विक विना ४२ प्रकृति का उदय.

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-अन्तिम ३ संघयण विना ३९ प्रकृति का उदय.

क्षीण मोह और सयोगी केवली में-? वृषभ नारच और २ नारच संघयण विना ३७ रही. और १ तीर्थकर नाम आधिक करने से ३८ का उदय पाता है.

और अयोगी केवली गुणस्थान में- ३ त्रसत्रिक, ३ शुभगत्रिक, १ मनुष्यगति, १ पंचेन्द्रिय की जाति, और कितनेक जीवों के तीर्थकर नाम इन ९ प्रकृतिका उदय रहता है.

८६, आठवा-गौत्रकर्मोदय द्वार

मिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक दोनों गौत्रका उदय पाता है.

६ भव धारणी वैक्रिय शरीर न होनेसे वैक्रिय उदय वर्जा है.

७ देवता और नरक में यह गुणस्थान नहीं पाने से दोनों द्विक वर्जा है.

८ यहां पूर्व घर मुनि होते हैं. जिससे आहारक शरीर पाता है.

९ आहारक लब्धि फोडने वाले साधुओं उत्सुकता के वस्य से अवस्य प्रमादी होते हैं. इसलिये यहां आहारक का उदय नहीं लिया है. परन्तु प्रमत्त साधुओं आहारक समुद्र घात किये बाद अप्रमत्त गुणस्थान में जाते हैं. इसलिये किसी आचार्यने यहां इसका उदय गिना है.

१० इन तीनों संघयण वाले श्रेणि पारंभ नहीं करते हैं.

११ इन दोनों संघयण वाला क्षपक श्रेणि नहीं करता है.

मिथ्यात्वगुणस्थानमें-आहारकद्विक, और तीर्थकर नाम विना ६४ प्रकृतिका उदय पाता है.

सास्वादन गुणस्थानमें-३ सूक्ष्मत्रिक, १ आताप नाम, १ नस्कानु-पूर्वी विना ५९ प्रकृति का उदय.

श्रिमगुणस्थानमें-४ जाति चतुष्क, १ स्थावरनाम, ३ अनुपूर्वी विना ५१ का उदय.

अविरति सम्यग्दृष्टिमें-४ चारों गतिकी अनुपूर्वी अधिक होनेसे ५५ प्रकृति का उदय.

देशविरतिमें-१ मनुष्यानुपूर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी, २ वैक्रियद्विक, २ देवद्विक, २ नरकद्विक, १ दौर्भाग्य, १ अनादेय, १ अय-

क्योंकि १ आहारक द्विक उदय तो चउदय पूर्व धारी मुनिके होता है और तीर्थकर नामोदय चौथे गुणस्थान से चौदवे तक होता है.

२ सूक्ष्मादि चारोंका उदय तो निश्चय से मिथ्यात्वके होता है, और नरकानुपूर्वीका उदय वक्र गति कर नरक में जाने वालेके पाता है और औपशमिक सम्यक्त्वका वमन करते नरक में नहीं जाता है. फक्त मिथ्यात्वके उदय में ही जाता है. सास्वादन वर्ती मनुष्य और तिर्यच जिस वक्त वक्रगति कर नरक में जाता है उसवक्त मनुष्य होवेतो मनुष्यका और तिर्यच होवेतो तिर्यचायु का उदय वर्तता है. फिर सम्यक्त्वका वमन करे बाद नरकानुपूर्वी का उदय होता है. और फिर नरकायुका उदय होता. इसलिये मिथ्यात्वी होकर ही नरक में जाता है. फिर नरकमें पर्याप्ता हुवे बाद उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है. फिर उसे वमन करे तब सास्वादन गुणस्थान पाता है. और उसी वक्त नरकायु का उदय पाता है. क्षायिक सम्यक्त्वकी तो श्रेणिक राजा की तरह सम्यक्त्व सहित नरक में जाता है. और सास्वादन औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक्त्वका वमन कर नरक में जाता है. इसलिये इनका भी अनुदय है.

३ यहां आयु बन्ध नहीं होनेसे अनुपूर्वीका उदय नहीं पाता है.

४ यहां आयु बन्ध होनेसे चारों अनुपूर्वी का उदय पाता है.

५ श्रावक फक्त देवगतिमें ही जाते है. इसलिये यहां दोनों अनुपूर्वीका उदय नहीं है.

शः, इन ११ विना ४४ का उदय.

प्रमत्तमें-१ तीर्थचगति और २ उद्योत नाम, यह २ तो घटाना और २ आहारक द्विक बढ़ाने से ४४ का उदय होता है.

अप्रमत्तके-आहारक द्विक विना ४२ प्रकृति का उदय.

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-अन्तिम ३ संघयण विना ३९ प्रकृति का उदय.

क्षीण मोह और सयोगी केवली में-१ वृषभ नारच और २ नारच संघयण विना ३७ रही. और १ तीर्थकर नाम अधिक करने से ३८ का उदय पाता है.

और अयोगी केवली गुणस्थान में- ३ त्रसत्रिक, ३ शुभगत्रिक, १ मनुष्यगति, १ पचेन्द्रिय की जाति, और कितनेक जीवों के तीर्थकर नाम इन ९ प्रकृतिका उदय रहता है.

८६, आठवा-गौत्रकर्मोदय द्वार

मिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक दोनों गौत्रका उदय पाता है

६ भव धारणी वैक्रिय शरीर न होनेसे वैक्रिय उदय वर्जा है.

७ देवता और नरक में यह गुणस्थान नहीं पाने से दोनों द्विक वर्जा है.

८ यहां पूर्व धर मुनि होते हैं. जिससे आहारक शरीर पाता है.

९ आहारक लब्धि फोडने वाले साधुओं उत्सुकता के वस्य से अवस्य प्रमादी होते हैं. इसलिये यहां आहारक का उदय नहीं लिया है. परन्तु प्रमत्त साधुओं आहारक समुद्र घात किये बाद अप्रमत्त गुणस्थान में जाते हैं. इसलिये किसी आचार्यने यह इसका उदय गिना है.

१० इन तीनों संघयण वाले श्रेणि पारंभ नहीं करते हैं.

११ इन दोनों संघयण वाला क्षपक श्रेणि नहीं करता है.

प्रमत्तसे अयोगी केवली गुणस्थानतक एक ऊंच गौत्र का ही उदय रहता है.

८७, नववा-अन्तरायकर्मोदय द्वार

मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुणस्थानतक पांचों अन्तरायका उदय.

सयोगी केवली और अयोगी केवलीके गुणस्थान में अन्तराय कर्म का उदय नहीं.

८८, दशवा-ध्रुव कर्मोदय द्वार

ध्रुवोदयी ५ कर्म:-१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय, ३ मोहनीय, ४ नाम, और ५ अन्तराय.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-पांचोंही कर्मोंका ध्रुवोदय पाता है. सास्वादनसे क्षीणमोहगुणस्थानतक मोहनीय कर्मविना चारों कर्मों का उदय पावे.

सयोगी केवली गुणस्थानमें एक नाम कर्म का ध्रुवोदय पावे. अयोगी केवली गुणस्थानमें ध्रुवोदयतो नहीं फक्त नाम कर्म पाताहै.

८९, इग्यारवा ध्रुवकर्म प्रकृतियोदय द्वार

ध्रुवोदयी २७ प्रकृति:-ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयक ४ (५ निद्रा विना) १ मिथ्यात्व मोहनीय, १ निर्माण, १ स्थिर, १ अस्थिर, १ शुभ, १ अशुभ, ४ वर्ण चतुष्क, १ अगुरुलघु, १ तेजस, १ कर्मण, (यह १२ नामकी) और अन्तरायकी ५, यों २७.

मिथ्यात्व गुणस्थान में २७ ही प्रकृतिका उदय पावे.

ध्रुव अध्रुवोदय द्वारोंके खलासे के लिये अर्थ कांडका २.१.४ वा पृष्ठ देखीये.

सास्वादन से क्षीण मोह गुणस्थानतक-मिथ्यात्व मोह विना २६ का उदय.

सयोगी केवली गुणस्थानमें नाम कर्मकी १२ प्रकृतिका उदय.

अयोगी केवलीके ध्रुवोदय नहीं. फक्त नामकी १२ प्रकृतिका उदय ही पाता है.

१०, चारवा अध्रुव कर्मोदय द्वार.

अध्रुवोदयी ६ कर्म-१ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, ३ मोहनीय, ४ आयुष्य, ५ नाम और ६ गौत्र.

मिथ्यात्वसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक छेही कर्मोंका उदय पाता है. उपशान्तमोह और क्षीणमोहगुणस्थानमें मोहनीय विना पांचों कर्मों के उदय पाता है.

सयोगी केवली और अयोगी केवली गुणस्थान में दर्शनावरणीय विना चार कर्मोंका उदय.

११, तेरवा अध्रुव कर्मप्रकृतियोदय द्वार.

अध्रुवोदयी १५ प्रकृति-निद्रा ५, वेदनीय २, मोहनीय २० (मिथ्यामोह विना) आयुष्य की ४ और नामकी ५५ (६० में से १२ ध्रुवोदयकी विन) यों सब १५ प्रकृतिमेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-२ मोहनीय, २ आहारक द्विक, १ तीर्थकर नाम इन ५ विना १० का उदय.

सास्वादनमें गुणस्थानमें सूक्ष्म, अपर्याप्ता साधारण, आताप, नरकानुपूर्वी इन ५ विना ८ का उदय.

मिश्र-गुणस्थानमें ४ अनन्तान बन्धि चौक, ४ जाति चतुष्क,

३ अनूपूर्वी, और स्थावर नाम यह १२ घटाना और १ मिश्र मोहनी बढाने से ७४ का उदय पावे.

अविरतिमें-७४ में से मिश्र मोह घटाना और सम्यक्त्व मोह, ४ अनुपुर्वी बढाने से ७८ का उदय पावे.

देशविरति गुणस्थानमें-१ मनुष्यानुपुर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी, २ त्रैकियरद्विक, ३ देवत्रिक, ३ नरकत्रिक, १ दौर्भाग्य, १ अनादेय, १ अयशः, ४ अनंत नवन्धी चौक इन. १७ विना ६१ का उदय.

प्रमत्त संयति गुणस्थानमें-१ तिर्यचगति, १ तिर्यचानुपूर्वी, १ उद्योत नाम १ आताप नाम, १ नीच गौत्र, और ४ अप्रत्याख्यानांवरणीय चौक इन प्रकृति ९ विना ५२ का उदय.

अप्रमत्त में ३ थीणद्धी त्रिक, १ आहारक शरीर इन ४ विना ४ पावे. अपूर्व करणमें-१ सम्यक्त्व मोह, और अन्तिम संघयण इन ४ विना ४९ का उदय पावे.

अनियट बादर में ६ हांस्य षटक विना ३९ का उदय पाता है. सूक्ष्म सम्परायमें ३ वेद, और संज्वलत्रिक इन ६ विना, ३३ का उदय पावे.

उपशान्त मोहमें-संज्वलके-लोभा विना ३२ का उदय पावे. क्षीणमोह गुणस्थान में-दो संघयण विना ३० का उदय पावे. सयोगी केवलीमें-दो निद्रा विना २८, और जिन नाम मिला नेसे २९ उदय पावे.

अयोगी केवलीमें-उपर कहीसो ही-१२ प्रकृतिका उदय पाता है.

९२. चौदवा पुण्यकर्मोदय द्वार.

मिथ्यात्व से अयोगी केवली गुणस्थानतक चारोंही पुण्य कर्म

का उदय पाता है.

९३, **पन्दरवा-पुण्यकर्म प्रकृतियोंद्वय द्वार**
पुण्य कर्मोंकी ४२ सब प्रकृति में से.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-२ आहारकद्विक, और तीर्थकर नाम विना ३९ का उदय पावे.

सास्वादन गुणस्थानमें-आताप नाम विना-२८ प्रकृतिका उदय पावे.
मिश्रगुणस्थानमें-१ मनुष्यानुपूर्वी, १ देवानुपूर्वी इन २ विना ३६ का उदय पावे.

अविरति गुणस्थानमें-१ मनुष्यानुपूर्वी, १ देवानुपूर्वी बढने से ३८ का उदय पावे.

देशविरति गुणस्थान में-२ वैक्रियद्विक ३ देवत्रिक, १ मनुष्यानुपूर्वी इन ६ विना ३२ का उदय पावे.

प्रमत संयतिमें-तियाँचानुपूर्वी, उद्योत नाम घटा, और आहारकद्विक बढा जिससे ३२ का उदय पावे.

अप्रमतसे क्षीण मोह गुणस्थानतक-आहारक द्विक विना ३० का उदय पावे.

सयोगी केवली गुणस्थान में-तीर्थकर नाम अधिक होनेसे ३१ का उदय पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान में-१ सातषेदनी, १ तीर्थकर नाम, १ त्रस, १ बादर, १ प्रत्येक, १ शुभग, १ आदय, १ यशकर्ता, १ पचेन्द्रियजाति, १ मनुष्यगति, १ मनुष्यानुपूर्वी, और १ ऊंच गौत्र इन १३ प्रकृति का उदय रहता है.

९४ **सोलवा पाप कर्मोंद्वय द्वार**

मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक आठों कर्मोंका उदय पावे
 क्षीणमोह गुणस्थानमें-मोहनीय विना सातों कर्मों का उदय पावे.
 सयोगी. अयोगी केवली गुणस्थान में वेदनीय, आयु, नाम, गौत्र
 इन ४ कर्मोंका उदय पावे.

९५, सतरवा पापकर्म प्रकृतियोदयद्वार

पाप कर्मों की ८२ प्रकृतियों में से,

मिथ्यात्व गुणस्थान में-८२ ही प्रकृति का उदय पाता है.

सास्वादन में-४ स्थावर चतुष्क, १ मिथ्यात्व मोहनीय इन

५ विना ७७ का उदय पावे.

मिश्र गुणस्थान में-४ अनन्तान बन्धि चौक, ३ विकेन्द्रिय
 त्रिक, १ नस्कानुपूर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी और १ अपर्याप्ता नाम
 इन १० विना ६७ प्रकृतिका उदय पावे.

अविरति गुणस्थान में-१नस्कानुपूर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी, इन
 २ बहने से ६९ का उदय पावे.

देशविरति गुणस्थान में-४ अप्रत्याख्यानावरणीय चौक, ३
 नरक त्रिक, १ तिर्यचानुपूर्वी, १ दौर्भाग्य, १ दुःस्वर, और १ अय
 शः कीर्ति इन ११ विना ५८ का उदय पावे,

प्रमत गुणस्थान में-४ प्रत्याख्यानी चौक, १ तिर्यचगाति, १
 नीच गौत्र ६ इन विना ५२ का उदय.

अप्रमत गुणस्थानमें-३ थीणद्वी त्रिक विना ४९ प्रकृतिका उदय.

अपूर्व करण गुणस्थानमें-प्रथमके तीन संघयण विना ४६का
 उदय पावे,

अनीयट वादर गुणस्थानमें-हांस्य षट्क विना ४० का उदय पावे.

सूक्ष्म सम्परायमें-३ वेद और संज्वलन त्रिक विना ३४ प्रकृति का उदय पावे.

उयशान्त मोहमें-संज्वलनके लोभ३३ विना का उदय पावे.

क्षीण मोहमें-दो संघयण और दो-निद्रा विना २९ का उदय पावे.

सयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, और

५ अन्तराय. इन १४ विना १५ उदय पावे.

अयोगी केवलीके-फक्त दोनों वेदनीयोंमेंसे एकका उदय रहता है.

९६, अठारवा क्षेत्रविपाक कर्मोदय द्वार.

क्षेत्र विपाकी फक्त १ नाम कर्म है सो, मिथ्यात्व सास्वादन, अविरति, तीनोंमें क्षेत्र विपाकी नाम कर्म का उदय है.

मिथ्र, देशत्रतिसे जावत् अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षेत्र विपाकी कर्मोदय नहीं है.

उन्नीसवा क्षेत्रविपाककर्मप्रकृतियोदय द्वार

क्षेत्र विपाक प्रकृति चार सो-चारोंगतिकी अनुपूर्वी जानना-मिथ्यात्व और अविरति गुणस्थानमें चारों अनुपूर्वीका उदय पावे. सास्वादन गुणस्थानमें-नरकानुपूर्वी विना तीन अनुपूर्वीका उदय.

मिथ्र देशत्रतिसे अयोगी केवली गुणस्थानतक क्षेत्र विपाकी कर्मकी प्रकृति का उदय नहीं होता है.

९८, बीसवा भवविपाक कर्मोदय द्वार

भव विपाकी एक आयुष्य कर्म है सो.

मिथ्यात्वसे अयोगी केवली गुणस्थानतक भव विपाक कर्मका उदय है

९९ इक्कीसवा भवविपाक प्रकृतियोदयद्वार

भव विपाककी प्रकृति ४ सो-चारों गतिका आयुष्य जानना.

मिथ्यात्व अविरति गुणस्थानतक चारों आयुष्य का उदय पावे.

देशविरति गुणस्थान में-मनुष्य और तिर्यंच आयुका उदय पावे.
प्रमत्त गुणस्थानसे अयोगी केवलीतक-एक मनुष्य आयुका उदय.

१००, बावीसवा-जीवविपाकीकर्मोदयद्वार

आयुष्य विना सातोंही कर्मों जीव विपाकी हैं.

मिथ्यात्वसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक सातोंही कर्मोंका उदय.
उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना छे कर्मों
का उदय.

सयोगी केवली और अयोगी केवलीके वेदनी, आयू, नाम, और
गौत्र इन चारों कर्मोंका उदय.

तेरवीसवाजीवविपाककर्मप्रकृतियोदय द्वार

जीव विपाकी प्रकृति ७८ होती है:—५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावर
णीय, २ वेदनीय, २८ मोहनी, ४ गति, ५ जाति, १त्रस१,बादर, १
पर्याप्ता, १स्थावर, १सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, १ सुभग, १ सुस्वर, १ आ-
देय, १ यशः, १ दुभग, १ दुस्वर, अनादेय, १ अयशः, १ श्वासो-
श्वास, १ तिर्यंकर, २ खगति, यह २७ नामकी) २ गौत्र की, और
५ अन्तराय की. यों सब ७८ प्रकृतिमेंसे:—

मिथ्यात्व गुणस्थान में-१ सम्यक्त्व मोह, १मिश्रमोह, और १

जिननाम विना ७५ का उदय.

सास्वादन में-१ सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, और १ मिथ्यामोह इन ३ विना ७२ का उदय.

मिश्रमें-४ अनन्तान बन्धि चौक, १ जाति, १ स्थावर नाम यह घटी जब ६३काही उदय रहा. और १ मिश्रमोह बढा तब ६४ प्रकृतिका उदय पावे.

अविरति सम्यग्दृष्टिमें-मिश्रमोह घटा, और सम्यक्त्व मोह बढा तब ६५काही उदय रहा.

देशविरति गुणस्थान में-४ अप्रत्याख्यानी चौक, १ नरकगति, १ देवगति, १ दौर्भाग्य १ अनादेय, और १ अयशःकीर्ती इन ९ विना ५५ का उदय पावे.

प्रमत गुणस्थान में-४ प्रत्याख्यानी चौक, १ और तिर्यंच गति इन ९ विना ५० का उदय पावे.

अप्रमत गुणस्थान में-३ थीणद्वी त्रिक, विना ४७ का उदय पावे.

अपूर्व करण गुणस्थानमें-सम्यक्त्वमोहनीय विना ४६का उदय पावे.

अनीयटी बादर गुणस्थान में-हांस्य षटक विना ४० का उदय पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-३वेद और संज्वलन त्रिक इन ६ विना ३५का उदय पावे.

उपशान्त मोह गुणस्थान में-संज्वलके लोभ विना २३का उदय पावे.

क्षीणमोह गुणस्थान में-निद्रा और प्रचला विना ३१का उदय पावे.

सयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणी, ९ दर्शनावरणी, ५ अन्तराय इन १४ विना १७ का उदय पावे.

अयोगी केवली के-नाम कर्मकी ११ प्रकृति पहिले कही उनका ही उदय.

१०२, चौबीसवा-पुद्गलविपाकीकर्मोदय द्वार

पुद्गल विपाकी फक्त १ नाम कर्म ही है.

मिथ्यात्वसे अयोगी केवलीतक पुद्गल विपाकी कर्मोदय होता है.

पच्चीसवापुद्गलविपाककर्मप्रकृतियोदयद्वार

पुद्गल विपाकी प्रकृति ३६ होती है:—५ शरीर ३.अंगोपांग

६ संघयण, ६ संस्थान, ४ वर्ण चतुष्क, १ निर्माण, १ अस्थिर, १

स्थिर, १ अशुभ १ शुभ, १ अगुरुलघू, १ उपघात, १ पराघात, १

प्रत्येक, १ साधारण यह ३६. इनमेंसे

मिथ्यात्व गुणस्थान में-आहारक द्विक विना ३४ का उदय पावे.

सास्वादन, मिश्र और अविरतिमें-१ आताप, और १ साधारण ना-

म इन विना विना ३२ का उदय पावे.

देशविरति में-वैक्रिय द्विक विना ३० का उदय पावे.

प्रमत संयतिमें-उद्योत नाम घटनेसे २९ रही और आहारक द्विक

बढ़नेसे ३१ का उदय पावे.

अप्रमत संयति में-आहारक द्विक विना २९ का उदय पावे.

अपूर्व करणसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-अन्तिम, ३संघयण विना

२६ का उदय पावे.

क्षीण मोह और सयोगी केवली के-दोनों संघयण विना २४ का

उदय पावे.

अयोगी केवली के शरीर के अभाव से पुद्गल विपाकी प्रकृति का

उदय नहीं पाता है.

१०४ छब्बीसवा सबघातिक कर्मोदयद्वार

भिथ्यात्व से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक सर्व घातिक तीनों कर्मों का उदय पावे.

उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना दो कर्मों का उदय.

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें-घातिक कर्मों का उदय नहीं पाताहै.

सत्तावीसवा सर्वघातिककर्मप्रकृतियोदयद्वार

बंधमें कहे मुझवही सर्व घातिक तीनों कर्मोंकी २० प्रकृतिहै, उसमेंसे भिथ्यात्व गुणस्थानमें-२० ही प्रकृति का उदय पावे.

सास्वादन गुणस्थानमें-भिथ्यात्व मोह विना १९ प्रकृतिका उदय पावे भिश्च और अविरति गुणस्थान में-४ अनन्तान बन्धि-चौक विना १९ का उदय पावे.

देशविरति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानी चौक विना ११का उदयपावे प्रमत संयति गुणस्थानमें-प्रत्याख्यानी चौक विना-७का उदय पावे. अप्रमतसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-थीगद्दी त्रिक विना ४ का उदय पावे.

क्षीणमोह गुणस्थानमें-निद्रा और प्रचला विना ४ का उदय पावे. सजोगी और अजोगी केवलीमें-सर्व घातिक प्रकृतिका उदय नहीं.

अठावीसवा देशघातिक कर्मोदय द्वार.

भिथ्यात्वसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक देश घातिक चारों कर्मोंका उदय पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-मोहनिय विना तीन कर्मोंका उदय पावे.

सयोगी और अयोगी केवलीके देशघातिक कर्मोंका उदय नहीं.

उन्नतीसवा देशघातिककर्मप्रकृतियोदयद्वारा

बन्धमें कहे मुझबही देशघातिक चारों कर्मोंकी प्रकृति २७ है उसमेंसे मिथ्यात्व, और सास्वादनमें-सम्यक्त्व मोह और मिश्र मोह विना २५ का उदय पावे.

मिश्रगुणस्थानमें-मिश्रमोह अधिक होनेसे २६ का उदय पावे.

अविरतिमें-सम्यक्त्व मोह बढ़नेसे और मिश्रमोह घटनेसे २६ काही उदय रहा-

देशविरतिसे अपूर्व करण गुणस्थानतक-सम्यक्त्व मोह विना २५ का उदय पावे.

अनियत बाहर गुणस्थानमें-हांस्य षट्क विना १९ का उदय पावे.

सूक्ष्म संपराय गुणस्थानमें-३ वेद और संज्वलन त्रिक विना १३ का उदय पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह में-संज्वलन के लोभ विना १२ का उदय पावे

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें घातिक कर्म प्रकृति का उदय नहीं पाता है.

१०८, तीसवा अघातिक कर्मोदय द्वार.

मिथ्यात्वसे अयोगी केवली गुणस्थानतक अघातिक चारों कर्मोंका उदय पाता है.

इकतीसवा अघातिककर्म प्रकृतियोदयद्वार

दोनों तरह के घातिक कर्मों की ४७ प्रकृति छोड़ बाकी १५ रही सो अघाति अघातिककर्म की प्रकृति जाननी इनमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थान में २ आहारकद्विक और १ जिननाम विना ७३ का उदय

सास्वादनमें—सूक्ष्म, १ अपर्याप्ता, १ साधारण, १ आताप, और १ नर कानुपूर्वी इन ५ विना ६८ उदय.

भिश्च गुणस्थानमें ४ जातिचतुष्क, ३ अनुपूर्वी १ स्थावर नाम, इन ८ विना ६०, का उदय.

अविरतिमें—चारों अनुपूर्वीका उदय बढ़ने से ६४ उदय.

दोशविरति—३ देवत्रिक, ३ नरकत्रिक, २ वैक्रियद्विक, १ मनुष्यानुपूर्वी १ तिर्यचानुपूर्वी, १ दौर्भाग्य, १ अनादेय, और १ अयशः कीर्ती इन १३ विना ५१ का उदय.

प्रमतमें—२ तिर्यचद्विक, १ उद्योत, १ निच गौत्र इन ४ विना ४७ का उदयरहा और आहारक द्विक बढ़ने से ४९ का उदय पाता है.

अप्रमतमें—आहारक द्विक विना ४७ का उद.

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक अन्तिम तीनों संघयण विना ४४ का उदय.

क्षीणमोहमें—१ वृषमनारच, और १ नारच संघयण विना ४२ का उदय सयोगी केवलीके जिननाम अधिक होनेसे ४३ का उदय.

अयोगी केवली के—पहिले कही सोही नामकर्म की १२ प्रकृत्तिका उदय पाता है.

बत्तीसवा-समुचय कर्म प्रकृतियोदय द्वार.

१ मिथ्यात्व में—५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीय की, २ वेदनीय की, २६ मोहनीयकी, ४ आयुष्य की, ६४ नामकी, २ गोत्रकी और ५ अन्तराय की यों सब ११७ का उदय पावें.

२ सास्वादन में—५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी २

वेदनीयकी २५ मोहणीयकी ६ आयुष्य की ५० नामकी २ गोत्रकी और ९ अन्तरायकी यों १११ उदय पावे.

३ मिश्रमें—५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २२ मोहनीयकी ४ आयुष्यकी, ५१ नामकी, २ गोत्रकी और ९ अन्तरायकी यों १०० का उदय पावे.

४ अविरतिमें—५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी २२ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, ५५ नामकी, २ गोत्रकी और ५ अन्तरायकी यों सब १०४ का उदय पावे.

५ देशविरतिमें—५ ज्ञानावरणीयकी ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १८ मोहनीयकी, २ आयुष्यकी, ४६ नामकी, २ गोत्रकी और ५ अन्तरायकी यों ८७ का उदय पावे.

६ प्रमत्तमें—५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १४ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ४३ नामकी, २ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी यों सब ८१ का उदय पावे.

७ अप्रमत्तमें—५ ज्ञानावरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १४ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ४२ नामकी, १ गोत्रकी और ५ अन्तरायकी यों सब ७६ का उदय पावे.

८ अपूर्व करण में ५ ज्ञानावरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १३ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ३९ नामकी, १ गोत्रकी, और ५ अन्तरायकी, यों सब ५२ का उदय पावे.

९ अनियद्विवादमें, ५ ज्ञानावरणीयकी ६ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी, ३९ नामकी, १ गोत्रकी और ५ अन्तरायकी यों सब ६६ का उदय पावे.

१० सूक्ष्मसम्प्रायमें—५ ज्ञानावरणीयकी ६ दर्शनावरणीयकी

२ वेदणीयकी १ मोहनीयकी १ आयुष्य ३९ नामकी, १ गौत्रकी, और ५ अन्तरायकी यों सब ६० का उदय पावे.

११ उपशान्त मोह गुणस्थानमें--५ ज्ञानावरणीकी, ६ दर्शनावरणीकी, २ वेदनीयकी, १ आयुष्यकी, ३९ नामकी, १ गौत्रकी और ५ अन्तरायकी यों सब ५९ का उदय पावे.

१२ क्षीणमोह गुणस्थानमें--५ ज्ञानावरणीयकी, ४ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १ आयुष्यकी, ३१ नामकी, १ गौत्रकी, और ५ अन्तरायकी यों ५७ का उदय पावे.

१३ सयोगीकेवलीके--२ वेदनीय, १ आयु, ३८ नाम, १ गौत्र, यों ४२ का उदय पावे.

१४ अयोगीकेवलीके--१ वेदनीयके, १ आयुकी, ९ नामकी १ गौत्रकी, यों १२ का उदय पावे.

तीसवा-समुचय कर्मोदय व्युच्छतिद्वार
मिथ्यात्व से सूक्ष्म-सम्परायतक व्युच्छति नहीं आठोंका उदय पाताहै
उपशान्त मोह और क्षीण मोह में--मोहनीय कर्म उदय की व्युच्छति, सजोगी और अयोगी केवली केवली ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों कर्मोंके उदयकी व्युच्छति होती है.

चौतीसवा-कर्मप्रकृतियोदय व्युच्छतिद्वार
१ मिथ्यात्व से २ मोहनीयकी और ३ नामकी यों ५ का विच्छेदहै
२ सास्वादनमें ३ मोहनीयकी और ८ नामकी यों ११ उदयक विच्छेद
३ मिश्रमें ६ मोहनीयकी और ६ नामकी यों १२ का उदय विच्छेदहै.
४ अविरतिमें ६ मोहनीयकी, और १२ नामकी यों १८ का उदय विच्छेद.

५ देशविरतिमें-१० मोहनीय, २ आयु, २३ नामकी, यों ३५ का उदय विच्छेद है.

६ प्रमतमें-१४ मोहनीयकी, ३ आयुकी, २४ नामकी, यों ४१ का उदय विच्छेद.

७ अप्रमतमें ३ दर्शनावरणीयकी, १४ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २५ नामकी, १ गौत्रकी यों सब ४६ का उदय व्युच्छेद है

८ अपूर्व करणमें ३ दर्शनावरणीयकी, १५ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २८ नामकी और १ गौत्रकी यों ५० का उदय व्युच्छेद होता है.

९ अनीयट बादरमें ३ दर्शनावरणीयकी, २१ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २८ नामकी, १ गौत्रकी, यों ५६ का उदय का व्युच्छेद.

१० सूक्ष्मसम्परायमें ३ दर्शनावरणीयकी, २७ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २८ नामकी और १ गौत्रकी यों ६२ का उदय व्युच्छेद.

११ उपशान्त मोहमें-३ दर्शनावरणीयकी, २८ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २८ नामकी, और १ गौत्रकी, यों ६३ का उदय व्युच्छेद होता है.

१२ क्षीणमोहमें-५ दर्शनावरणीयकी, २८ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी ३० नामकी, और १ गौत्रकी यों ६५ का उदय व्युच्छेद होता है.

१३ सयोगी केवलीमें-९ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीयकी, २८ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी २९ नामकी, १ गौत्रकी, और अन्तराकी यों सब ८० का उदय व्युच्छेद है.

१४ अयोगी केवली गुणस्थानमें-९ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी, १ वेदनीयकी, २८ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, ५८ नाम

की १ गौत्र की, और ९ अन्तरायकी, यों सब ११० प्रकृति के उद-
य का व्युच्छेद होता है.

इति कर्मोदय नामक तृतीय प्रकरण समाप्तम्,

चतुर्थ प्रकरण-कमुदीरणा द्वार.*

कर्म ऊदीरणाके १२ द्वारों के नाम.

१. समुचय कर्म उदीरणा द्वार, २ ज्ञानावरणीय उदीरणा द्वार,
३ दर्शनावरणीय ऊदीरणा द्वार, ४ वेदनीय उदीरणा द्वार, ५ मोहनीय उदी
रणा द्वार, ६ आयुष्य ऊदीरणा द्वार, ७ नाम ऊदीरणा द्वार, ८ गौत्र
ऊदीरणा द्वार, ९ अन्तराय ऊदीरणा द्वार, १० समुचय कर्म प्रकृति ऊ
दीरणा द्वार, ११ कर्म ऊदीरणा व्युच्छेद द्वार, और १२ कर्म प्रकृति
ऊदीरणा व्युच्छेद द्वार.

११२, पहिला-समुचय कर्म उदीरणा द्वार

मिथ्यात्व, सास्वाद, अविरति, देशविरति, और प्रमत्त इन ५
गुणस्थानोंमें, आयुष्य विना सात कर्मोंकी ऊदीरणा होती है, और
कोइक १ आवली मात्र बाकी रहे तब आयुष्य कर्म की ऊदीरणा
करेतो आठ कर्मोंकी ऊदीरणा होती है.

मिश्रगुणस्थान में-तो आयुष्य विना सातोंही कर्मोंकी ऊदीरणा
है. क्योंकि यहां मरता नहीं है.

अप्रमत्त, अपूर्व करण और अनिट्ट बादर इन तीनों गुणस्थानमें-
वेदनीय + और आयुष्य विना छः कर्मोंकी ऊदीरणा होती है.

* उदीरणाके द्वारों का खुजाता देखीये अर्थ काण्ड का पृष्ठ २१७ वा.

+ वेदनीय कर्मकी उदीरणी संकेश परिणाम से होता है और आगे के गुण-

सूक्ष्म सम्भराय गुणस्थानमें-पहिले तो ऊपरोक्त छेही कर्मकी ऊदीरणा करे फिर एक आवली बाकी रहे तब मोहनीय विन पांच कर्मोंकी उदीरणा करे.

उपशान्त मोह गुणस्थान में-उपरोक्त पांचोंही कर्मों की उदीरणा होती है.

क्षीण मोहके-पहिले भागमें तो उपरोक्त पांचों कर्मोंकी उदीरणा होती है. और फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका उदय होजाने से इनकी उदीरणा न होते फक्त नाम और गौत्र इन दोनों कर्मोंकी उदीरणा होती है.

सयोगी केवली के नाम और गौत्र दोनों ही कर्मोंकी उदीरणा है अयोगी केवली गुणस्थानमें उदीरणा नहीं. ×

११४, दुसरा-ज्ञानावरणीय उदीरणाद्वार

मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुणस्थान तक ज्ञानावरणीय की पांचों प्रकृति की उदीरणा.

सजोगी और अजोगी केवलीके ज्ञानावरणीयकी उदीरणा नहीं.

११५, तीसरा-दर्शनावरणीय उदीरणाद्वार

मिथ्यात्वसे प्रमत्त गुणस्थानतक दर्शनावरणीयकी ९ ही प्रकृति की उदीरणा.

स्थान में अध्यात्मिकता प्रकट होनेसे संकेश भावन ही रहते है. फक्त जो उदयावली में कर्म ला रखे हैं सो उदय में आते हैं.

× यहां करण वीर्यका अभाव है. सर्व ग्रस उदय आगया है जो १२ प्रकृति का दल विद्यमानता है. परन्तु आविधा सत्तागत नहीं है कि जिसको आकर्ष कर उस की उदीरणा करनी पडे.

अप्रमत से क्षीण मोह के प्रथम भागतक थीणद्वी त्रिक विना ६ की उदीरणा.

क्षीण मोह गुणस्थान के अन्तिम भाग में निद्रा, प्रचला विना ४ की उदीरणा.

सयोगी और अयोगी केवलीके दर्शनावरणीयकी उदीरणा नहीं होती

११६, चौथा-वेदनीय उदीरणा द्वार.

अनेक जीवों की अपेक्षा कर मिथ्यात्व गुणस्थानसे लगा कर प्रमत गुणस्थान तक दोनों वेदनीयकी की उदीरणा होवे.

ऊपर के गुणस्थानोंमें वेदनीयकी उदीरणा नहीं है.

११७, पांचवा-मोहनीयकी उदीरणा द्वार.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व मोह और मिश्र मोह विना २६ की उदीरणा होवे.

सास्वादन गुणस्थान में मिथ्यात्व मोह विना २५ की उदीरणा होवे

मिश्र और अविरति गुणस्थानमें ४ अनन्तान बन्धि चौक १ सम्यक्त्व मोह और १ मिथ्यात्व विना २२ का उदीरणा पावे.

देशविरति गुणस्थानमें-अप्रत्याख्यानीके चौक विना १८की उदीरणा

प्रमत अप्रमत गुणस्थानमें-प्रत्याख्यानी के चौक विना १४ की उदीरणा होवे.

अपूर्व करण गुणस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय विना ११ की उदीरणा होवे.

अनियट्ट बादर गुणस्थान में हांस्य षट्क विना ७की उदीरणा होवे

सूक्ष्म सम्पराय में ३ वेद और ३ संज्वलन त्रिक विना १ की उदीरणा होवे.

उपशान्त मोह से अयोगी केवली गुणस्थान तक मोहनीय की उदीरणा नहीं होती है।

११८, छुटा-आयु उदीरणाद्वार

मिथ्यात्व से अविरति गुणस्थान तक चारो गति के आयुष्य की उदीरणा।

देश विरति में मनुष्य और तिर्यंच दोनों आयुष्य की उदीरणा होवे।

प्रमत्त गुणस्थान में एक मनुष्य के आयुष्य उदीरणा होवे।

अप्रमत्त से अजोगी केवली तक आयुष्यकी उदीरणा नहीं। +

११९, सातवा-नाम उदीरणा द्वार

मिथ्यात्व में २ आहारक द्विक और १ तीर्थंकर नाम विना ६४ की उदीरणा।

सास्वादन में ३ सूक्ष्म द्विक, १ आतापनाम, १ नरकानुपूर्वी विना ५९ की उदीरणा।

मिश्र में ४ जातिचतुष्क, ३ अनुपूर्वी, १ स्थावरनाम, इन विना ५१ की उदीरणा।

अविरति में चारों गति की अनुपूर्वी की उदीरणा वदने

+ मनुष्याय की उदीरणा प्रमत्त योग करके होती है, जो बहुत काल में वेदने योग्य है उसे थोड़े काल में वेदकर अप्रवर्तन करण विशेष कर वेदता है, उससे ही सोपक्रम आयुष्य होता है, जिसे अकाल मरण कहते हैं, और अप्रमत्तादि गुणस्थान में अकाल मरण नहीं होता है, और साता वेदनीय असाता वेदनीयकी उदीरणा भी प्रमत्तपनेही होती है, (उदयतो चउदेही गुणस्थानोंमें पाता है,] इसलिये पीछे कहीसो २ वेदनीय और यहां कहीसो मनुष्य आयुष्य इन तीनोंकी उदीरणा कसत्तम गुणस्थानसेही व्यच्छेद किया है।

से ५५ की उदीरणा.

देशविरति में १ मनुष्यानुपूर्वी, १ तिर्यचानुपूर्वी, २ वैक्रियदिक, २ देवदिक, २ नरकदिक, १ दौर्भाग्य, १ अनादेय १ अयशः इन ११ विना ४४ की उदीरणा.

प्रमत में १ तिर्यच गति और १ उद्योतनाम यह दो तो घटाना, और आहारक दिक बडाना तब ४४ कीही उदीरणा होवे.

अप्रमत में आहारक दिक घटाने से ४२ की उदीरणा होवे.

अपूर्व करण से उपशान्त मोह तक क्षीणद्वी त्रिक विना ३९ की उदीरणा.

क्षीण मोह और सयोगी केवलीके निद्रा और प्रचलाविना ३७ की उदीरणा.

अयोगी केवली गुणस्थान में नाम कर्म की उदीरणा नहीं होतीहै

१२०, आठवा-गौत्र उदीरण द्वार.

भिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक दोनों गौत्रकी उदीरणा पावे प्रमत से सयोगी केवली गुणस्थान तक एक उँव गौत्रकी उदीरणा अयोगी केवली गुणस्थान में गौत्र कर्मकी उदीरणा नहीं होतीहै.

१२१, नावव-अन्तराय उदीरणा द्वार.

भिथ्यात्व से क्षीण मोह तक अन्तरायकी पांचों प्रकृतिकी उदीरणा सयोगी और अयोगी केवली के अन्तराय की उदीरणा नहीं.

१२२, दवशा-समुचयकर्मप्रकृती उदीरणा द्वार

भिथ्यात्व में ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, ४ आयुष्य, ६४ नाम, २ गौत्र, और ५ अन्त-

राय यों सब ११७ प्रकृति की उदीरणा.

सास्वादन में ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, २५ मोहनीय, ४ आयुष्य, ५९ नाम, २ गौत्र, और ५ अन्तराय यों १११ की उदीरणा होवे.

मिश्रमें-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, २२ मोहनीय, ४ आयुष्य, ५१ नाम, २ गौत्र, और ५ अन्तराय. यों १०० की उदीरणा होवे.

अविरतिमें-५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, २२ मोहनीय, ४ आयुष्य, ५५ नाम, २ गौत्र, और ९ अन्तराय की यों १०४ की उदीरणा होवे.

देशविरति में-२ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, १८ मोहनीय, २ आयुष्य, ४४ नाम, २ गौत्र, और ५ अन्तराय यों ७८ की उदीरणा होवे.

प्रमतमें ५ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ९ वेदनी, १४ मोहनीय, १ आयुष्य, ४४ नाम, १ गौत्र, और ५ अन्तराय यों ८१ की उदीरणा होवे.

अप्रमतमें-२ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय, ४१ मोहनीय, ४२ नाम, १ गौत्र और ५ अन्तराय यों सब ७३ प्रकृतिकी उदीरणा होवे.

अपूर्व करणमें-२ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय, १३ मोहनीय, ३९ नाम, १ गौत्र, और ५ अन्तराय यों सब ६९ की उदीरणा होवे.

अनियति वादरमें-२ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय, ७ मोहनीय, ३९ नाम, १ गौत्र, और ५ अन्तराय यों ६३ की उदीरणा होवे.

सूक्ष्म सम्परायमें-२ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय, १ मोहनीय, ३९ नाम, १ गौत्र, और ५ अन्तराय यों सब ९७ की उदीरणा होवे.

उपशान्त मोहमें-५ ज्ञानावरणी, ६ दर्शनावरणीय, ३९ नाम, १गौ-
त्र और ५ अन्तराम. यों सब ५६ प्रकृतिकी उदीरणा होती है.

क्षीण मोहमे ५ ज्ञानावरणायि, ४ दर्शनावरणीय, ३७ नाम,
१ गौत्र, और ५ अन्तराय यों सब ५२ प्रकृति की उदीरणा होवे.
सयोगी केवलीके ३८ नामकी और १ गौत्रकी यों ३९ की उदीरणा
अयोगी केवली के कर्म प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती है.

१२३, इग्यावा-उदीरणा व्युच्छिद्द्वार

मिथ्यात्वसे प्रमत गुणस्थान तक कर्म उदीरणा की व्युच्छिती नहीं.
अप्रमतसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक १वेदनी, और १आयु की
उदीरणाका विच्छेद होती है.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह में १ वेदनीय, १ मोहनीय,
और १ आयुष्या इन तीनों कर्मों की उदीरणा की व्युच्छिती है.
सयोगी केवली के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनी
य आयुष्य, और अन्तराय इन ६ कर्मों की उदीरणा की व्युच्छि-
ति होती है.

अयोगी केवली के आठों कर्मोंकी उदीरणा की व्युच्छिती होती है.

१२४बारवा कर्मप्रकृतिउदीरणाव्युच्छिद्द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थाण में-२ मोहनाय की और ३ नामकी यों
५ प्रकृति का विच्छेद होती है.

सास्वादन गुणस्थान में-३ मोहनीय की और ८ नाम की
यों ११ का विच्छेद.

मिश्रगुणस्थानमें ६मोहनीयकी, और १६नामकी, यों २२काविच्छेद
अविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थान में-६ मोहनीयकी, और १२ नामकी

यों १८ का विच्छेद.

देशविरति में १० मोहनीय, २ आयुष्यकी, और २३ नामकी यों ३५ का विच्छेद.

प्रमत्तमें १४ मोहनीयकी, ३ आयुष्यकी, २३ नामकी, और १ गौत्रकी यों ४१ का विच्छेद.

अप्रमत्तमें ३ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १४ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, २५ नामकी, और १ गौत्रकी, यों सब ४९ प्रकृति का विच्छेद.

अपूर्व करण में ३ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, १५ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, २८ नामकी, और १ गौत्रकी यों सब ५३ प्रकृति का विच्छेद.

अनिटी बादरमें ३ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २१ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, २८ नामकी, और १ गौत्रकी, यों सब ५९ का विच्छेद.

सूक्ष्म सम्पराय में ३ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २७ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, २८ नामकी, और १ गौत्रकी, यों सब ६५ का व्युच्छेद.

उपशान्त मोह में ३ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २८ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी २८ नामकी और १ गौत्रकी यों सब ६६ का विच्छेद.

क्षीण मोह में ५ दर्शनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २८ मोहनीयकी, ४ आयुष्यकी, ३० नामकी, और १ गौत्रकी, यों सब ७० का व्युच्छेद होता है.

सयोगी केवली में ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २ वे

दनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुष्य, २९ नामकी, १ गौत्रकी और
५ अन्तरायकी यों सब ८३ का विच्छेद.

इति कर्म उदीरणा नामक चतुर्थ प्रकरण समाप्तम्

पञ्चम प्रकरण कर्मसत्ता द्वार.

समुचय कर्म सत्ताद्वार, २ ज्ञानावरणीय सत्ताद्वार, ३ दर्श-
नावरणीय सत्ताद्वार, ४ वेदनीय सत्ताद्वार, ५ मोहनीय सत्ताद्वार, ६
आयुष्य सत्ताद्वार, ७ नाम सत्ताद्वार, ८ गौत्र सत्ताद्वार, ९ अन्त-
राय सत्ताद्वार, १० ध्रुव कर्म सत्ताद्वार, ११ ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता-
द्वार, १२ अध्रुव कर्म सत्ताद्वार, १३ अध्रुव कर्म प्रकृति सत्ताद्वार,
१४ सर्व घातिक कर्म सत्ताद्वार, १५ सर्व घातिक कर्म प्रकृति सत्ता
द्वार, १६ देशी घातिक कर्म सत्ताद्वार, १७ देश घातिक कर्म प्रकृति
सत्ताद्वार, १८ अघातिक कर्म सत्ताद्वार, १९ अघातिक कर्म प्रकृति
सत्ताद्वार, २० समुचय कर्म प्रकृति सत्ताद्वार, २१ कर्म सत्ता व्युच्छ-
तिद्वार, और २२ कर्म प्रकृति सत्ता व्युच्छति द्वार.

१२५, पहिला-समुचय सत्ता द्वार

मिथ्यात्वसे उपशान्तमोह गुणस्थानतक आठोंही कर्मोंकी सत्ता पावे
क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना सात कर्मोंकी सत्ता.

सयोगी और अयोगी केवली के वेदनी, आयु, नाम, और
गौत्र त्र, इन कर्मोंकी की सत्ता.

१२६, दूसरा ज्ञानावरणीय द्वार.

मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुणस्थान तक ज्ञाना वरणीय की
पांचों प्रकृति की सत्ता.

सयोगी और अयोगी केवली की ज्ञानावरणीय की सत्ता नहीं.

१२७, तीसरा-दर्शनावरणीय द्वार

मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्रेणिवाले के ९ प्रकृति की ही सत्ता.

अविरति से अनियत बादर गुणस्थान के पहिले भाग तक क्षपक श्रेणि वाले के ९ की ही सत्ता.

अनियत बादर के दूसरे भागसे क्षीण मोह गुणस्थान के पहिले भाग तक थीणद्धी त्रिक विना ६ प्रकृति की सत्ता पातीहै.

क्षीण मोह के दूसरे भागमें दौनों निद्रा विना ४ की सत्ता. और क्षीण मोह के अन्ति भागसे ऊपर के गुणस्थान में दर्शनावरणीयकी सत्ता नहीं है.

१२८, चौथा-वेदनीय सत्ता द्वार.

मिथ्यात्वसे अयोगी केवलीके प्रथमभाग तक दोनों वेदनीयकी सत्ता अयोगी केवलीके अन्तिम भागमें दोनोंमेसे एक वेदनीयकी सत्ता

१२९, पांचवा-मोहनीय सत्ता द्वार.

मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशमसम्यक्त्व और उपशम चाग्निवाले के मोहकी २८ ही प्रकृति सत्ता *

अविरति गुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक्त्व और उपशम श्रेणिवाले के अनन्तान वान्धि चौक

* क्योंकि उपशम श्रेणिवाला पडवाइ होकर पीछा मिथ्यात्व गुणस्थानमें आताहै

और दर्शनत्रिक इन ७ विना २१ की सत्ता. ×

और क्षपक श्रेणिवाले के + नववे गुणस्थान के पहिले भागमें उपरोक्त २१ की ही सत्ता, दूसरे भागमें ४ अपत्याख्यानी चौक, और ४ प्रत्याख्यानी चौक, यों ८ प्रकृति टलनेसे १३ की सत्ता. तीसरे भागमें नपुसक वेदविना १२ की सत्ता, चौथे भाग में स्त्री वेदविना ११ की सत्ता, पांचवे भागमें हाँस्य पटक विना ६ की सत्ता. छठे भागमें पुरुष वेद विना ५ की सत्ता. सातवे भागमें सज्वलन क्रोध विना ४ की सत्ता. आठवे भागमें सज्वलन मान विना ३ की सत्ता. नववें भागमें सज्वल की माया विना २ की सत्ता और सूक्ष्म सम्परायमें १ सज्वल के लोभ की सत्ता. उपर मोह की सत्ता नहीं.

१२९, छठा-आयुष्य सत्ता दर.

मिथ्यात्व से उपशान्त मोह गुणस्थान तक जो पहिले आयुवन्ध किया हो तो चारों गतिके आयुकी सत्ता, + और आयुवन्ध न करे तो १ मनुष्यायु की सत्ता.

अविरति से अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षपक श्रेणिवालेके १ मनुष्यायु की सत्ता.

× उपशम भाव में मोहनीयका उदय तो नहीं है परन्तु सत्ता रहती है.

+ उपशम और क्षपके श्रेणी आठवे गुणस्थान में ही प्रारंभ होती है. इमलिये यहाँ ९वे गुणस्थान में ही ग्रहण किया है.

+ पाठान्तर अनन्तान वन्धी की विभंयोजना (क्षयकी प्रकृति मिथ्यात्व प्रत्यय कर फिर वन्ध करना,) होती है तब नरकायु और तिरिचायुकाभी, विभंयोजना होती है. तब ही उपशम श्रेणीका प्रारंभ होता है. इमलिये उपशम श्रेणीके ८ -१-१० और ११ इन चारों गुणस्थानमें दोनों आयुकी सत्ता नहीं पाती है. ऐसा भी एक मत है

१३१, सातवा-नाम सत्ता द्वार

मिथ्यात्व से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्रेणि-
वालेके ९३ * की ही सता.

अविरति गुणस्थान से अनियट बादर के पहिले भाग तक
९३ प्रकृति की सता.

अनियट्ट बादर के दूसरे भागसे सयोगी केवली गुणस्थान
तक १ नरकगति, १ नरकानुपूर्वी, १ तिर्यचगति, १ तिर्यचानुपू-
र्वी, ४ जातिचतुष्क, १ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ आताप, १ उद्योत,
और १ साधारण इन १३ विना ८० की सता.

अयोगी केवली के अन्तिम भागमें १ मनुष्यगति, १ पचे-
न्द्रियकी जाति, १ त्रस, १ बादर, १ पर्याप्ता, १ यशःकीर्ती, १ आ-
देय, और १ सोभाग्य. इन ९ की प्रकृति सता रहती है.

१३२, आठवा-गौत्र सत्ता द्वार.

मिथ्यात्व से अयोगी केवली गुणस्थान के पहिले भागतक
दोनों गौत्र की सता.

अयोगी केवली गुणस्थानके अन्तिम भागमें १ उंच गौत्र की सता.

१३३, नववा-अन्तराय सत्ता द्वार.

÷ तीर्थकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव दुसरा तीसरा गुणस्थान नहीं स्प-
ता है. और मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थकर नाम, कर्म की सत्ता फक्त अन्तर मुहूर्त
पर्यन्त ही पाने का संभव है. क्योंकि किसी क्षयोपशम सम्यक्त्वने पहिले मिथ्यात्व
अवस्था में नरकायुका बन्ध किया फिर सम्यक्त्व प्राप्तकर तीर्थकर नामकी उपार्जन
करी, वो मरण समयमें सम्यक्त्वका वमन करके मिथ्यात्वमें जावे. (परन्तु दुसरा ती-
सरा गुणस्थान में वहाँ अन्तर मुहूर्त रहकर फिर सम्यक्त्व प्राप्त करे इस-
लिये मिथ्यात्व नाम की सत्ता पातीहै.

मिथ्यात्वसे क्षीण मोह गुणस्थानतक अन्तराय की पांचों प्रकृति की सता.

सयोगी अयोगी केवली के अन्तराय की सता नहीं.

१३४, दशवा-ध्रुव कर्म सत्ता द्वार.

आयुष्य विना सतों कर्म ध्रुवसता वाले हैं.

मिथ्यात्व से क्षीण मोह गुणस्थान तक सातों कर्मों की सता.

सयोगी और केवली के वेदनी नाम और अन्तराय तीनोंकी सता.

१३५, इग्यारवा ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता द्वार

ध्रुवसता की २६ प्रकृति—५ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनावरणीयकी २ वेदनीयकी, २६ मोहनीयकी, (मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह विना) १ तिर्यंचगति, १ तिर्यंचानुपूर्वी, ५ जाति, १ औदारिक शरीर, १ तेजस शरीर, १ कर्मण शरीर, १ औदारिकका अंगोपांग, ३ बंधन, ३ संघातन, ६ संघयण, ६ संटाण, २० वर्णादि, २ विहायोगति, १ पराघात, १ उद्योत, १ आताप, १ उश्वास, १ अगुरुलघु, १ आपघात, १० त्रसदशका, १० स्थावर दशका, १० १ निर्माण नाम, (यों नामकी ७८) १ नीच गौत्र, ५ अन्तरायये १२६ मिथ्यात्व से उपशांत, मोह गुणस्थानतक उपशम श्रेणीवाले के १२६ कीही सत्ता.

अविरतिसे अनियती वादर के पहले भागतक क्षपक श्रेणिवाले के भी १२६ कीही सत्ता.

अनियति वादरके दूसरे भागमें ३ शीणद्वीत्रिक, १ स्थावर १ सूक्ष्म १ आताप, १ उद्योत, १ साधारण, १ तिर्यंचगति, १ तिर्यंचानुपूर्वी, और जाति चतुष्क, इन १४ विना ११२ की सत्ता. तीसरे भा-

गमें-४ अप्रत्याख्यानी चौक, और ४ प्रत्याख्यानी चौक विना १०४ की सत्ता, चौथे भाग में नपुंसक वेद विना १० की सत्ता पांचवे भाग में स्त्रीवेद विना १०२ की सत्ता, छठे भाग में-हांस्यो पटक विना ९६ की सत्ता, सातवे भाग में-पुरुषवेद विना ९५ की सत्ता, आठवे भाग में-संज्वलन क्रोधविना, ९४ की और नववे भाग में-संज्वल मान विना. ९३ की सत्ता.

सूक्ष्म संपरायमें, संज्वलनके लोभ विना ९२ की सत्ता.

क्षीण मोह गुणस्थानके द्वि चरम-समय संज्वलके-लोभ विना ९१ की सत्ता, और अन्तिम समय में निद्रा और प्रचला विना ८९ की सत्ता.

सजोगी केवली जौर अयोगी केवलीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय, ५ अंतराय इन १४ प्रकृति विना ७५ की सत्ता.

अयोगी केवलीके अन्तिम समय १ पचेन्द्रिय की जाति, १ वेदनी इन २ की सत्ता रहती.

१३६, बारबा-अध्रुव कर्मसत्ता द्वार

अध्रुव सत्ताके ४ कर्मः—१. मोहनीय, १. आयुष्य, १. नाम, और ४. गौ... मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपशम श्रेणीवालेके चारों कर्मोंकी सत्ता.

अविरति से अयोगी केवलीतक क्षपक श्रेणीवाले के मोहनीय विना तीनों की सत्ता.

१३७, तेरबा-अध्रुव कर्मप्रकृतिसत्ता द्वार

ध्रुव सत्तामें कही उनसे बाकी रही अध्रुव सत्ताकी २२ प्रकृतिः—मिश्रमोहनीय, १ सम्यक्त्व मोहनीय, चारों गतिका आयु-

ष्य, ३ तिर्यंचानुपूर्वी विन तर्निं अनुपूर्वी, १ आहारक शरीर, १ आहारक अंगोपांग, १ आहारक बन्धन, १ आहारक संघातन, १ वैक्रिय शरीर, १ वैक्रिय अंगोपांग, १ वैक्रिय बन्धन, १ वैक्रिय संघातन, १ तीर्थकर नाम, ३ गति, १ ऊंच गौत्र, यह २२.

मिथ्यात्वसे उपशांत मोह गुणस्थानतक २२ कीही सत्ता.

क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक १ मनुष्यायु, १ जिननाम, १ और ऊंचगौत्र, इन ३ की सत्ता.

१३८, चउदा सर्वघातिक कर्मसत्ता द्वार

मिथ्यात्वसे उपशांत मोह गुणस्थानतक-सर्व घातिक तीनों कर्मों की सत्ता.

क्षीणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना-दो कर्मोंकी सत्ता.

सयोगी अयोगी केवली के सर्व घातिक कर्मोंकी सत्ता नहीं.

पंद्रवा-सर्वघातिक कर्मप्रकृतिसत्ता द्वार.

मिथ्यात्व से उपशांत मोहगुणस्थानतक उपशम श्रेणीमें सर्व घातिक ३० ही प्रकृति की सत्ता.

क्षपक श्रेणीसे अनियट वादर गुणस्थान के पहिले भागतक तो २० ही प्रकृति की सत्ता.

अनिट वादर के दूसरे भागसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक ३ थीणद्री त्रिक और १ मिथ्यात्व मोह विना १६ की सत्ता.

क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त में-दो निद्रा विना १४ की सत्ता.

सयोगी और अयोगी केवलीके सर्व घातिक की सत्ता नहीं.

१४०, सालवा-देश घातिककर्म सत्ता द्वार

मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-देशघातिक चारों कर्मों की सत्ता.

क्षीणमोह गुणस्थानमें-मोहनिय विना तीनों कर्मोंकी सत्ता.

सयोगी और अयोगी केवलीके देशघातिक कर्मोंकी सत्ता नहीं.

१४१, सत्तरवा-देश घातिककर्म प्रकृतिद्वार

मिथ्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपशम श्रेणि वाले के २७ कीही सत्ता.

क्षपक श्रेणिवालेके-अविरति से अपूर्व करण गुणस्थानतक २७ प्रकृति कीही सत्ता.

अनियट बादरके पहिले दुसरे और तीसरे भागमें-१ सम्यक्त्व मोह और मिश्र मोह विना, २५ की सत्ता चौथे भाग में नपुंसक वेदविना २४ की सत्ता, पांचवे भाग में-स्त्रीवेद विना २३ की सत्ता छठे भागमें-हांस्य पटक विना २७ की सत्ता. सातवे भाग में-पुरुष वेद विना १६ की सत्ता, आठवे भाग में-संज्वलके क्रोध विना १५ की सत्ता, नववे भागमें-संज्वलके मान विना १४ की सत्ता.

सूक्ष्म सन्पराय गुणस्थानमें-संज्वलकी माया विना १३ की सत्ता.

क्षीणमोह गुणस्थानमें-संज्वलके लोभ विना १२ की सत्ता. सयोगी और अयोगी केवलीके देशघातिक की सत्ता नहीं है.

१४२, अठारवा-अघातिककर्म सत्ता द्वार

मिथ्यात्वसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-अघातिक चारों कर्मों की सत्ता.

उन्नीसवा-अघातिक कर्मप्रकृतिसत्तापाती

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-अघातिक १:१ प्रकृतिकी सत्ता पाती है।
सास्वादन और मिश्रगुणस्थानमें-१ तीर्थनाम विना १:०० की सत्ता
अविगतिसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक-उपशम श्रेणिमें १:०१ की सत्ता
क्षपक श्रेणिमें-अविगतिसे अनियत वादर के प्रथम भाग में
तीनों आयुष्य की सत्ता विना १:७ की सत्ता।

अनियत वादर के दुसरे भागसे अयोगी केवली गुणस्थान
के प्रथम भागतक १ तिर्यचगति, १ तिर्यचानुपूर्वी, १ नरकगति, १
नरकानुपूर्वी, १ स्थावर, १ सूक्ष्म, १ आताप, १ उद्योत, ४ जाति
चतुष्क, और १ साधारण इन १:३ विना ८४ की सत्ता।
अयोगी केवलीके अन्तिम भागमें फक्त १:३ की सत्ता रहती है।

१:४४, बीसवा समुचय प्रकृति सत्ता द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-५ ज्ञानावरणीय, १ दर्शनावरणीय, २ वे
दनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुष्य १३ नाम, २ गौत्र, और १ अं-
तराय, यों १:४८ की ही सत्ता।

सास्वादन और मिश्र गुणस्थानमें-तीर्थकर नाम विना १:४७ की सत्ता।
अविगतिसे उपशान्त मोहतक, उपशम श्रेणीवाले के उपरोक्त १:४८
की ही सत्ता।

अविगतिसे अप्रमसंयतितक-उपशमश्रेणिगत क्षायिक सम्यक्त्वकी
के ५ ज्ञानावरणीयकी, १ दर्शनावरणयिकी, २ वेदनीयकी, २१
मोहनीय ४ आयुष्यकी, १३ नामकी, २ गौत्रकी, और ५ अन्तरा
यकी यों १:४१ प्रकृतिकी सत्ता।

अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक-उपशम श्रेणी और क्षायिक
सम्यक्त्वकी के-५ ज्ञानावरणीयकी, १ दर्शनावरणीय की २ वेदनी-

यकी २१ मोहनीय, २ आयुष्यकी ३३ नामकी, २ गौत्रकी और ५ अन्तरायकी यों १३१ प्रकृतिकी सत्ता.

अविसति से अप्रमत्त गुणस्थानतक क्षपक श्रेणिगत क्षयोप-
शम सम्यक्त्विके ५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीयकी, २ वेद-
नीय, की, २० मोहनीय की १ + आयुष्यकी, ३३ नामकी, गौत्रकी
और ५ अन्तरायकी यों १४५ की सत्ता.

अविरति से अनियत वादर के पहिले भागतक-क्षपक श्रेणि-
गत क्षायिक सम्यक्त्विके-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीयकी,
वेदनीय की, २१ मोहनीय की, १ आयुष्यकी, ३३ नामकी, २ गौत्र
५ अन्तरायकी, १३८की सत्ता.

अनियत वादर के-दुसरे भागमें ५ ज्ञानावरणीय की ६ दर्शना-
वरणीयकी, २ वेदनीयकी, २१ मोहनीयकी, १ आयुष्यकी ८० नाम
की, २ गौत्र की और ५ अन्तरायकी यों १२२ की सत्ता, तीसरे भा-
गमें मोहनीयकी १३ प्रकृति होनेसे ११४की सत्ता, चौथे भागमें-मोह-
नीयकी १२ प्रकृति होनेसे ११३ की सत्ता पांचवे भाग में-मोहनी-
यकी ११ प्रकृति होनेसे ११२ की सत्ता. छठे भाग में-मोहनीयकी
प्रकृति होनेसे १०६ की सत्ता, सातवे भागमें मोहनीय की ५ प्रकृ-
ति होनेसे १०५ की सत्ता.. आठवे भाग में मोहनीयकी ३ प्रकृ-
ति होनेसे १०४ की सत्ता, और नववे भाग में मोहनीय की २ प्र-
कृति होनेसे १०३ की सत्ता.

सुक्ष्म सम्पराय में-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दर्शनावरणीयकी
२ वेदनीयकी १ मोहनीयकी १ आयुष्यकी, ८० नामकी २ गौत्र

→ क्षपक श्रेणि करने वाला निश्चयसे चरम शरीरी होता है. उसने तीनों ग-
निका आयुष्यका क्षय किया फक्त १ मनुष्यायु सत्ता में है.

की और १ अन्तरायकी १०२ की सत्ता.

क्षीण मोहमे के प्रथम भाग में—१ ज्ञानावरणीय की ६ दर्शनावरणीय की, १ वेदनीय की, १ आयुष्यकी, ८० नामकी, २ गौत्रकाँ और ५ अन्तरायकी यों १०१ की सत्ता. और दूसरे भागमें—दर्शनावरणीयकी ४ ही प्रकृति पाने से ९९ की सत्ता सयोगी केवलीमें—२ वेदनीय, १ आयुष्य, ८० नाम, २ गौत्र की यों ८५ की सत्ता.

अयोगी केवली के—आद्य भागमें तो ऊपरोक्त ८५ की ही सत्ता. मध्य भाग में २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, और ९ नामकी यों १३ की सत्ता. और अन्तिय भाग में—१ वेदनीयकी १ आयुष्यकी २ नामकी, १ गौत्र की यों १२ की सत्ता.

१४५, इक्कासवा कर्म व्युच्छति द्वार

मिथ्यात्वसे, उपशान्त मोह गुणस्थानतक—कर्मोंकी व्युच्छति नहीं.

क्षीण मोह गुणस्थान में मोहनीय कर्मकी व्युच्छति होती है. सयोगी आयोगी केवली गुणस्थानमें—४ घातिक कर्मकी व्युच्छति

१४६, बावीसवा-कर्म प्रकृति व्युच्छति द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानमें कर्म प्रकृतिकी व्युच्छति नहीं.

सास्वादन और मिश्रमें—फक्त १ तीर्थंकर नाम कर्मकी व्युच्छति.

अविरति से अप्रमत्त गुणस्थानतक उपशम श्रेणिगत, उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्वी के कर्म प्रकृति की व्युच्छति नहीं क्योंकि (पडता है.)

अविरति से अप्रमत्त गुणस्थानतक उपशम श्रेणिगत क्षायि-

क सम्यक्त्वी मोहनीय कर्मकी ७ प्रकृति की व्युच्छति और अपूर्व करण से उपशान्त मोहतक ७ मोहनीय की और २ आयुष्य की यों ९ प्रकृति की व्युच्छति होती है.

अविरतिमे अप्रमततक चरम शरीरके ३ आयुष्य की व्युच्छति.

अविरति से अप्रमततक क्षयिक सम्यक्त्वी चरम शरीरके-७ मोहनीयकी और ३ आयुष्य की यों १० प्रकृति व्युच्छति.

क्षपक श्रेणिगत-अपूर्व करण और अनियट बादर के प्रथम भागतक ऊपरोक्तही १० प्रकृति की व्युच्छति. अनियट बादर के दुसरे भाग में-३ दर्शनावरणी, ७ मोहनीय, ३ आयुष्य, और १३ नामकी यों. २६ कर व्युच्छति. तीसरे भागमें मोहनीय की १९ प्रकृति की व्युच्छति होनेसे ३४ की व्युच्छति, चौथे भाग में-मोहनीयकी १६ व्युच्छति होनेसे ३५ व्युच्छति, पांचवे भागे मोहनीयकी १७ व्युच्छति होनेसे ३६ की व्युच्छति, छठे भागमें मोहनी-२३ व्युच्छति होनेसे ४२ की व्युच्छति सातवे भाग में- मोहनीयकी २४की व्युच्छति होनेसे ४३ की व्युच्छति, आठवे भागमें मोहनीय की २५ की व्युच्छति होनेसे ४४ की व्युच्छति और नववे भाग में:-मोहनीयकी-२६ की व्युच्छति होनेसे ४५ की व्युच्छति.

क्षपक श्रेणिगत सूक्ष्म सस्परायमें ३ दर्शनावरणीय, २७ मोहनीय, ३ आयुष्य, और १३ नामकी यों ४६ की व्युच्छति.

क्षीण मोहके प्रथम भागमें ३ दर्शनावरणीय, २८ मोहनीय ३ आयुष्य, १३ नामकी यों ४७ की व्युच्छति, और दूसरे भागमें दर्शनावरणीयकी ५ का व्युच्छेद होनेसे ४९ की व्युच्छति.

सयोगी केवलीके ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २८ मोहनीय. ३ आयुष्य १३ नाम, और ५ अन्तराय यों ६३ की

व्युच्छति.

७

अयोगी केवलीकी प्रथम भागमें तो उपरोक्त ६३ कीही व्युच्छति मध्य भागमें ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्शनावरणीय, २८ मोहनीय, ३ आयुष्य, ८४ नाम और ५ अन्तराय यों १३४ की व्युच्छति, और अन्तिम भागमें ५ ज्ञानावरणीय, १ वेदनीय, २८ मोहनीय, ८४ नामकी १ गौत्रकी और ५ अन्तरायकी यों १३६ की व्युच्छति होती है.

फिर बाकी रही १३ ही प्रकृति यों को शुद्धध्यान के चौथे पाये रूप प्रबल ज्वाला में भस्मी भूत कर अर्थात् सर्व कर्मोंकी सर्व प्रकृतियों का सर्वथा प्रकारसे सर्वांश क्षय कर साकार उपयोग युक्त सहजानन्द अवस्था को प्राप्त होते हैं.

इति कर्मसत्ता नामक पञ्चम प्रकरण समाप्तम्

षष्ठम् प्रकरणम् - कर्मभङ्ग द्वार.

१ समुचयकर्म भङ्गद्वार, २ ज्ञानावरणीय भङ्गद्वार, ३ दर्शनावरणीय भङ्गद्वार, ४ वेदनीय भङ्गद्वार, ५ मोहनीय भङ्गद्वार, ६ आयुष्य भङ्गद्वार, ७ नाम भङ्गद्वार, ८ गौत्र भङ्गद्वार, ९ अन्तराय भङ्गद्वार, १० वन्धिके भङ्गद्वार, और ११ इर्यावही भंगद्वार.

१४७, पहिला समुचय कर्म भंग द्वार

मिथ्यात्व, सास्वदन, अविरति, देशविरति, प्रमत्त इन ६ गुणस्थानोंमें १ आयुवन्ध के वक्त तो ८ कर्मोंका वन्ध, ८ हीका उदय और ८ हीकी सत्ता. यह भांगा पाता है (२) और आयुवन्ध न होवे उसवक्त ७ कर्मोंका वन्ध ८ का उदय और ८ की सत्ता.

यह भांगा पाता है. यों २ भांगे पावे.

मिश्र, अपुर्व करण और अनीयट बादर इन तीनों गुणस्थानों में आयुबन्ध न होनेके सबबसे ७ कर्मोंका बन्ध ८ का उदय और ८ की सत्ता. यह १ भांगा पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें आयुव्य और मोहनीय का बन्ध न होने के सबब से ६ कर्मोंका बन्ध, ८का उदय, और ८ की सत्ता यह १ भाङ्गा पावे.

उपशान्त मो गुणस्थान में-एक साता वेदनीयका बन्ध मोहनीय विना ७ कर्मोंका उदय, और ८ हीकी सत्ता यह १ भाङ्गा पावे. क्षीण मोह गुणस्थानमें एक साता, वेदनीयका बन्ध, मोहनीय विना ७ का उदय, और इन ७ की साता यह १ भाङ्गा पावे.

सयोगी केवली गुणस्थान में-एक सत्ता वेदनीयका बन्ध. वेदनीय आयुव्य, नाम और गौत्र, इन चारोंका उदय और इन चारों की ही सत्ता. यह १ भाङ्गा पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान में बन्ध नहीं. ऊपरोक्त चारों कर्मोंका उदय, और चारों की सत्ता यह १ भाङ्गा पावे.

१४८, दुसरा-ज्ञानावरणीयकर्मभङ्ग द्वार.

मिथ्यात्वसे लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-ज्ञानावरणीय की पांचों प्रकृति का बन्ध, पांचोंका उदय, और पांचों की सत्ता यह १ भांगा पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-बन्ध नहीं, पांचों प्रकृतिका उदय और पांचोंकी सत्ता यह १ भागा पावे.

ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मोंके भांगे के खुलासेके लिये देखिये अर्थ काण्ड का पृष्ठ २२३.

सयोगी और अयोगी केवली के ज्ञानावरणीय का बन्ध, उदय, सत्ता, तीनोंही नहीं।

१४९ तीसरा-दर्शनावरणीय कर्मभंगद्वार

मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थानमें (१) एकाकबन्ध, ४ का उदय, और ९ की सत्ता. (२) ९ का बन्ध, ५ का उदय और ९ की सत्ता यह दो भाङ्गे पाते हैं।

मिश्र गुणस्थान से अनीयट बादर के प्रथम भाग तक (१) शीणद्वीत्रिक विना, ६ का बन्ध, ४ का उदय, और ९ की सत्ता. और (२) ६ का बन्ध, ५ का उदय और ९ की सत्ता यह दो भाङ्गे पाते हैं।

अनियट बादर के आठों भागमें और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें उपशम श्रेणीमें निद्रा प्रचला का बन्ध विना (१) ४ का बन्ध, ४ उदय और ९ की सत्ता. (२) ४ का बन्ध, ५ का उदय, और ९ की सत्ता यह दो भाङ्गे पाते हैं।

अनियट बादर और सूक्ष्म सम्पराय के क्षयक श्रेणि में ४ का बन्ध, ४ का उदय, और ६ की सत्ता यह १ भाङ्गा पावे।

उपशान्त मोह गुणस्थान में बन्ध के अभाव से (१) चार का उदय, और ९ की सत्ता, तथा ५ का उदय, और ९ की सत्ता यह दो भाङ्गे पावे।

क्षीण मोह गुणस्थान के द्वी चरम समय में ४ का उदय और ६ की सत्ता और अन्तिम समयमें दोनों निद्राकी सत्ता टलनेसे ४ का उदय, और ४ कीही सत्ता यह २ भाङ्गे।

सयोगी और अयोगी केवली के दर्शनावरणीय का बन्ध,

उदय, सता तीनों ही नहीं.

१५०, चौथा-वेदनीयकर्म भंग द्वार

मिथ्यात्व से लगा प्रमत्त संयति गुणस्थान तक (१) असाता का बन्ध, असाता का उदय, और दोनों की सता, (२) असाता का बन्ध, साताका उदय, और दोनों की सता. (३) साता का बन्ध, असाता का उदय और दोनोंकी सता. और (४) साता का बन्ध, साता का उदय, दोनों की सता. यह ४ भाङ्गे.

अप्रमत्त से सयोगी केवली तक (१) साताका बन्ध, असाताका उदय, और दोनों की सता. (२) साताका बन्ध, साताका उदय और दोनों की सता यह दो भाङ्गे पावे.

अयोगी केवली के द्वि चरम समयमें बन्ध के अभाव से (१)साताका उदय, दोनों की(२) और असाताका उदय दोनों की सता. यह दो भाङ्गे पावे. और अन्तिम समयमें (१)साताका उदय साता की सता. और(२)असाताका उदय, असाताकी सता यह दो भांगे पावे. यो ४ भांगे पाते हैं.

१५१, पांचवा-मोहनीय कर्म भंग द्वार.

मिथ्यात्व गुणस्थान में २२ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे ६ होते हैं और ७ का, ८ का, ९ का और १० का. यह उदयस्थान है, जिसके भांगे की चौबीसी ८ होती है.

सास्वादन गुणस्थान में २१ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे ४ होते हैं. और ७ का, ८ का, ९ का यह तीनों उदयस्थान हैं जिसके भांगे की चौबीसी ४ होती हैं.

वेदनीय कर्मके भाङ्गे के खुलासेके लिये देखीये अर्थ काण्डका पृष्ठ २२६ वा.

मोहनीय कर्मके भाङ्गके खुलासे के लिये देखीये अर्थ काण्डका पृष्ठ २२७ वा.

मिश्र गुणस्थानमें १७ का बन्धस्थान है, जिसके भांगे दो होते हैं, और ७ का, ८ का, और ९ का यह तीन उदयस्थान हैं, जिसके भाङ्गे की चौबीसी ५ होती है.

अविरति गुणस्थानमें १७ का बन्धस्थान है, जिसके भाङ्गे २ होते हैं, और ६ का, ७ का, ८ का ९ का यह चार उदयस्थान हैं, जिसके भाङ्गे की चौबीसी ४ होती है.

देशविरति गुणस्थानमें १३ का बन्धस्थान है, जिसके भाङ्गे दो होते हैं, और ५ का, ६ का, ७ का, और ८ का, यह ४ उदय स्थान है, जिसके भाङ्गे की चौबीसी ८ होती है.

प्रमत्त गुणस्थानमें ९ का बन्धस्थान है, जिसके भाङ्गे दो होते हैं, और ४ का, ५ का, ६ का, और ७ का, यह उदय स्थान है. जिसके भाङ्गे की चौबीसी ८ होती है.

अप्रमत्त गुणस्थानमें-३ का बन्ध स्थान, जिसका भांगा १ होता है. और ४ का, ५ का, ६ का, और ७ का यह ४ उदय स्थान, है जिसके भांगे की चौबीसी ८ होती है.

अपूर्व करण गुणस्थानमें-२ का बन्ध स्थान, जिसका भाङ्गा १ और ४ का, ५ का, ६ का यह तीन उदयस्थान जिसके भांगे चौबीसी ४ होती है.

अनियत वादर गुणस्थानमें-५ का, ४ का, ३ का, २ का, और

× चौबीसी बनानेकी सीधी रीति-हांस्य और रतिके युगल से तीनों वेदके तीन भाङ्गे, तैसही शोक अरति के युगल से तीन वेदके तीन भाङ्गे करने से ६ भाङ्गे होते हैं. यह ६ क्रोधसे, ६ मानसे, ६ मायासे, और ६ लोभसे, यों २४ भाङ्गे होवे सों १ चौबीसी विशेष खुलासा अर्थ कांड में देखीये.

+ यहां से आगे अरति और शोक इस जुगल का अभाव होता है. इसलिये १ ही भांग पाता है.

१ का यों ५ बन्ध स्थान होते हैं. जिसके ५ भांगे अलग अलग होते हैं. और १ का, तथा २ का, यह दो उदय स्थान हैं, जिसमें संज्वलकी चारों कषायोंमें की १ कषाय, और तीनों वेदों में का १ वेद, इन दोनों का उदय होता है. यों चारों कषायों को तीनों वेदों से ती गुणे करने से १२ भांगे होते हैं. और फिर वेद का उदय टलने से एक का उदय स्थान रहता है. सो चौ विध, त्रिविध द्विविध, और एक विध, यों १० उदयके भांगे होते हैं. तोभी यहां सा मान्य विविक्षासे-४-३-२ और १ इन चारों बन्ध स्थानकी अपेक्षासे एकेक ही भांगा गिननेसे चारही भांगे कहने, यों यहां १६ भांगे होते हैं.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होता है फक्त एक कीटीकृत संज्वल का लोभही का उदय है, जिसका एक ही भांगा पाता है.

उपशांत मोहसे अयोगी केवलीतक मोहका लवलेशही नहीं है.

मोहनीयके सर्व भाङ्गों की संख्या:—मिथ्यात्व, अविरति, देशविरति, प्रमत्त और अप्रमत्त, इन पांचों गुणस्थानों में-भाङ्गों की आठ आठ चौबीसी है, और सास्वादन, मिश्र और अपूर्व करण इन तीनों गुणस्थानों में चार चार चौबीसी है, सब १२ चौबीसी हूँ जिसके भाङ्गों $५२ \times २४ = १२४८$ होंतें हैं. और अनियत बादरके १६ भाङ्गों, सूक्ष्म सम्परायका एक भाङ्गा यह १७ और पहलेके १२४८ मिलकर १२६५ मोहनी के भांगे होते हैं.

१५२, छठा आयुष्य कर्म भंग द्वार

आयुष्य कर्मके भाङ्गोंके खलासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २४१ वा.

आयुष्य कर्म के २८ भांगे:-^१ नरकायुका बन्ध, नरकायुका, उदय, २ तिर्यंचायुका बन्ध, नरकायुका उदय, ३ मनुष्यायुका बन्ध, नरकायुका उदय, ४ नरकायुका उदय, और नरक तिर्यंचायुकी सत्ता. ५ नरकायुका उदय और नरक मनुष्यकी सत्ता.

ऊपर जिस तरह नरकायु के ५ भांगे किये, तैसे ही देवायु के भी ५ भांगे जानना. विशेष इतनाही की नरकायु के स्थान देवायु कहना. यों दोनों गति के १० भाङ्गे हूवे.

१ तिर्यंचायुका उदय, और तिर्यंचायुकी सत्ता. २ तिर्यंचायुका बंध तिर्यंचायुकी सत्ता, ३ मनुष्यायुका बन्ध, तिर्यंचायुका उदय, ४ देवायुका बन्ध, तिर्यंचायुका उदय, ५ नरकायु का बन्ध, तिर्यंचायुका उदय और नरकायु, तिर्यंचायु दोनों की सत्ता, ६ एक तिर्यंचायुका उदय, और दो तिर्यंचायुकी सत्ता. ७ तिर्यंचायु का उदय और तिर्यंचायु मनुष्यायु की सत्ता, ८ तिर्यंचायुका उदय, और तिर्यंचायु देवायु की सत्ता. और ९ तिर्यंचायुका उदय और तिर्यंचु नरकायु की सत्ता.

ऐसे १० ही भांगे मनुष्यायुके कहना. यों सब २८ भांगे आयुष्य के होते हैं.

मिथ्यात्व गुणस्थान में २८ ही भांगे पाते हैं. क्योंकि-चारोंही गति में मिथ्यात्व गुणस्थान पाता है. और मिथ्यात्वी चारों ही गति के आयुष्य का बन्ध करता है.

सास्त्रादन गुणस्थान में-नरकायु बन्ध न होनेसे तिर्यंच तथा मनुष्य के आयुर्वन्ध काल अवस्थाके दो भांगे बिना २६ भांगे पाते हैं. मिश्र गुणस्थानमें-यहां किसीभी गतिकी आयुर्वन्ध न होनेके सबब से-बन्ध काल अवस्थाके देवता के दो, नरक के दो, मनुष्यके चार

और तिर्यंचके चार यों १२ भांगे विना १६ भांगे पाते हैं.

अविरति गुणस्थान में इस गुणस्थान वर्ती मनुष्य और तिर्यंच एक देवगति का आयुर्वन्ध करते हैं, इसलिये बाकी की तीनों गतिके आयुर्वन्ध अवस्था के दोनों के ६ भांगे टले. और समग्रदृष्टि देवता नारकी फक्त एक मनुष्यायुकाही बन्धकरते हैं. इसलिये दोनों के दो भांगा तिर्यंचायुकेबन्ध के टले. यों ८ भांगे विना २० भांगे पावे.

देशविरति गुणस्थान में इस गुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही होते हैं. वो फक्त देवायुकाही बन्ध करते हैं. इसलिये इनके आयुर्वन्ध काल अवस्था का एकेक भांगा पाता है. और परभत्रायुर्वन्ध पहिले एकेक भांगा, और आयुर्वन्ध किये बाद ४ भांगे पाते हैं, क्योंकि प्रथम चारों गति में से किसी एक गतिका आयुर्वन्ध कर फिर देशविरति पणा धारन करे, इस अपेक्षासे, यों ६ भांगे तिर्यंचके और ६ भांगे मनुष्यके मिलकर १२ भांगें पातेहै.

प्रमत और अप्रमत गुणस्थान में इन गुणस्थानवर्ती फक्त मनुष्य ही होते है इसलिये ऊपरोक्त छेही भांगे मनुष्यके यहां पातेहै

अपूर्व करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्रेणी गति में (१) मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायु की सत्ता यह भांगा आयुर्वन्ध किये पहिले पावे, (२) और मनुष्यायुका उदय, मनुष्यायु देवायु दोनों की सत्ता. यह भांगा आयुर्वन्ध किये बाद पावे. यों दो भांगे पाते हैं.

इनके आयुर्वन्ध काल अवस्थाका भाङ्गा नहीं पाता है, क्योंकि अत्यन्त विशुद्ध परिणामी होनेसे आयु वन्ध नहीं करते हैं. और आयुर्वन्ध बाद जो श्रेणी प्रारंभ करनेको फक्त देवायु बन्ध वालेही करतेहैं. तीनों गतिके आयुर्वन्ध वाले श्रेणी नहीं क-

स्थान ६ जिसके भांगे ३१६ और सत्तास्थान ४ जिसके स्थान २० होते हैं।

अप्रमत गुणस्थानमें बन्धस्थान २ जिसके भांगे ४ उदयस्थान ४ जिसके भाङ्गे ५९२ और सत्तास्थान ४ जिसके स्थान ८ होते हैं।

अपूर्व करण में बन्धस्थान १, जिसके भांगे ५, उदयस्थान १ जिसके भांगे ३६० और सत्तास्थान ४ जिसके स्थान ८ होते हैं।

अनियट्ट वादरमें बन्धस्थान १ जिसके भांगा १, उदयस्थान १ जिसके भांगे ९६ और सत्तास्थान ८ जिसके स्थान ४ होते हैं।

सूक्ष्म सम्परायमें बन्धस्थान १ जिसके भांगा १, उदयस्थान १ जिसके भांगे ९६, और सत्तास्थान ८ जिसके स्थान ४ होते हैं।

उपशान्त मोहमें बन्ध स्थान नहीं, उदय स्थान १ जिसके भांगे ७२, और सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते हैं।

क्षीण मोहमें बन्ध नहीं, उदय स्थान १, जिसके भांगे २४ और सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते हैं।

सयागी केवलीके बन्ध नहीं, उदय स्थान ८, जिसके भांगे ६०० और सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते हैं।

अयोगी केवलीके बंध नहीं. उदयस्थान २, जिसके भांगे २ और सत्ता स्थान ६, जिसके भांगे ३ होते हैं. ❀

१.२४ आठवा-गौत्र कर्मभङ्ग द्वार.

मिथ्यात्वमें-(१) नीच गौत्र का बन्ध, नीच का उदय, और नीचकी सत्ता, (२) नीचका बन्ध, और नीच ऊंच दोनों की

* इस नाम कर्मके सर्व भाङ्गोका खुलासा अर्थ कांड में विस्तार से है.

❀ गौत्र कर्मके भांगेके खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ २८० वा

सत्ता. (३) नीचका बन्ध, ऊंचका उदय, और दोनों की सत्ता. (४) ऊंचका बन्ध, नीचका उदय, और दोनों की सत्ता. (५) ऊंचका बन्ध, ऊंचका उदय, और दोनों की सत्ता. यह पांच भांगे पाते हैं.

सास्वादनमें-ऊपरोक्त पांच भांगमें से प्रथम भांगा छोडकर *बाकी के ४ भांगे पाते हैं.

मिश्र अविरति, और देशविरति इन तीनों गुणस्थानमें नीच गौत्रके बन्धके अभावसे चौथा और पांचवा दोनों भांगे पाते हैं.

प्रमतसे सूक्ष्म सम्परायतक-(१) ऊंचका बन्ध, ऊंचका उदय और दोनों की सत्ता यह एकही भांगा पाता है.

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतक-बन्धके अभावसे-ऊंचका उदय, और दोनों की सत्ता यह छठा भांगा पाता है.

अयोगी केवली गुणस्थानमें-(१) ऊंच का उदय और दोनों की सत्ता यह छठा भांगा द्विचरम समय पर्यंत पाता है, (२) और ऊंचका उदय ऊंचकी सत्ता यह सातवा भांगा चरम समय में पाता है.

१५५, नववा-अन्तराय कर्मभङ्ग द्वार.

मिथ्यात्व से लगाकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक अन्तरायकी पांचों प्रकृतिका बन्ध, पांचों का उदय, और पांचों की सत्ता. ये १ भांगा पाता है.

* नीचका बन्ध, नीच का उदय और नीचकी सत्ता फक्त तेज काय और वायुका यमें होती है, और तेज वायुसे चत्रे बाद दुसरे स्थान अवतरते कितनेक काल तक पाता है, और तेज वायु में सम्यक्त्व हेही नहीं तो पडवाइ होवे कहांसे इसलिये यह पहिला भांगा नहीं पाता है.

अन्तराय कर्मके भांगेके खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ २८१ वा

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में-बन्ध के अभावसे-पांचोंका, उदय, और पांचोंकी सत्ता. यह १ भांगा पाता है.

सयोगी अयोगी केवलीके अन्तराय का बन्ध उदय सत्ता तीनों नहीं.

१५६, दशवा-बन्धीके भंग द्वार

बन्धी के भंग चारः—बन्धी, बन्धति बन्धेति, २ बन्धि, बन्धन्ति, नबन्धेति, ३ बन्धि, नबन्धे, नबन्धेति, और ४ नबन्धि, नबन्धे, नबन्धेती.

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, नाम गौत्र, और अंतराय इन ५ कर्मों आश्रिय.

मिथ्यात्वसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-पहिला और दूसरा दो भांगे पावे, उपशान्त मोहमेंपडवाइ होता है इसलिये तीसरा भांगा पावे. और उपशान्त मोहसे अयोगी केवलीतक एक चौथा भांगा पाता है.

वेदनीय कर्म आश्रिय-मिथ्यात्वसे सयोगी केवली गुण स्थानतक पहिलेके दो भांगे पावे, और अयोगी केवली के—१ चौथा भांगा पाता है.

मोहनीय कर्म आश्रिय-मिथ्यात्वसे अनियत बादर गुणस्थानतक पहिलेके दो भांगे पावे, सूक्ष्म सम्पराय में-उपशांत श्रेणि वालेके तीसरा, और क्षपक श्रेणिवाले के चौथा भांगा पावे, उपशान्त

÷ बन्धी-गये काल में बन्धन किया, बन्धन्ति वर्तमान में बन्धे सो, बन्धेति अनागत कालमें बन्धेगे सो.

बन्धिके भाङ्गेके सुन्यासेके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २८१वा

मोहमें पडवाइ होता है सो तीसरा भांगा पावे. और क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक १ चौथा भांगा पाता है.

आयुध्य कर्म आश्रिय-मिथ्यात्व, सास्वादन्न, अविरति, देशविरति, और प्रमत्त इन ५ गुणस्थानों में-चारों ही भांगे पावे. मिश्र में-आयु वन्ध के अभावसे तीसरा और चौथा भांगा पावे, अप्रमत्त से उपशान्त मोहतक-तीसरा और चौथा दो भांगे पावे. क्षीण मोह से अयोगी केवलीतक-एक चौथा भांगा पावे.

१५७, इग्यारवा इर्यावहीके भंग द्वार

इर्यावहीके भांगे ८:-१ वन्धि, वन्धन्ति, वन्धेति, २ वंधि, वन्धन्ति, नवन्धेति, ३ वन्धि, नवन्धन्ति, वन्धेति. ४ वन्धि, नवन्धन्ति, नवन्धेति. ५ नवन्धि, वन्धन्ति, वन्धेति, ६ नवन्धि, वन्धन्ति नवन्धेति, ७ नवन्धि, वन्धन्ति, वन्धेति. और ८ नवन्धि, नवन्धन्ति, न वन्धेति-इनमें से:-

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-तीसरा, सातवा, और आठवा भांगा पावे. सास्वादन्नसे सुक्ष्म संपरायतक-तीसरा और सातवा भांगा पावे. उपशान्त मोह गुणस्थान में-पाहिला और पांचवा भागा पावे. क्षीण मोह और सयोगी केवली में-एक दूसरा भांगा पावे. और अयोगी केवली गुणस्थान में-एक चौथा भांगा पावे.

इति कर्म भंग नामक-षष्ठम प्रकरण नामक समाप्तं.

सप्तम प्रकरणम भावादि द्वार*

भावादि १३ द्वारों के नाम.

१ मूल भावद्वार, २ औदायिक भावद्वार, ३ उपशामिक भावद्वार. ४ क्षयोपशामिक भावद्वार, ५ क्षायिक भावद्वार, ६ परिणामिक भावद्वार, ७ सन्नीवाइ भावद्वार, ८ समुचय भावद्वार, ९ श्रेणि द्वार, १० कर्मवेदे द्वार, ११ कर्मनिर्ज्जरा द्वार, १२ दशकरण द्वार, और १३ निर्ज्जरा वृद्धिद्वार.

१५८, पहिला मूल भाव द्वार

मूल भाव ५ हैं:—१ औदायिक, २ उपशामिक, ३ क्षयोपशामिक, ४ क्षायिक, और ५ परिणामिक इनमें से.

मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में १ औदायिक, २ क्षयोपशामिक, और ३ परिणामिक यह ३ भाव पाते हैं. अविरति से अप्रमत्त गुणस्थानतक क्षयोपशामिक सम्यक्त्वी में १ औदायिक, २ क्षयोपशामिक, और ३ परिणामिक, यह ३ भाव पाते हैं. क्षायिक सम्यक्त्वी में-क्षायिक भाव बढ़ने से चार भाव पावे. और उपशामिक सम्यक्त्वीमें भी चारही भाव पावे फक्त क्षायिके स्थान उपशामिक कहना.

अपूर्व करण गुणस्थान में-क्षायिक सम्यक्त्वी के-उपशामिक विना चार भाव पावे, उपशामिक सम्यक्त्वी के-क्षायिक विना चार भाव पावे और सर्व जीवों आश्रिय पांचों भाव पाते हैं.

अनियत वादर से उपशान्त मोह गुणस्थान तक-उपशामिक स

म्यक्त्विके क्षायिक विना चार भाव पावे. और क्षायिक सम्यक्त्विके पांचों भाव पावे.

क्षीण मोह गुणस्थानमें-उपशामिक विना चार भाव पावे. सयोगी और अजोगी केवली गुणस्थान में-^१ औदयिक, ^२ क्षायिक, और ^३ परिणामिक यह ^३ भाव पावे.

सिद्ध भगवंत में क्षायिक और परिणामिक दो भाव पावे

१५९, दुसरा औदयिक भाव द्वार

औदयिक भाव के २१ भेदः—४ गति, ४ कषाय, ६ लेश्या, ३ वेद, १ मिथ्यात्व, १ अविरति, १ अज्ञान, और १ असिद्ध.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-औदयिक भाव के २१ ही भेद पावे.

सास्वादन गुणस्थान में-मिथ्यात्व और अज्ञान विना १९ भेद पावे.

मिश्र गुणस्थान में-मिथ्यात्व विना २० भेद पावे.

अविरति गुणस्थान में-अविरत विना २१ भेद पावे.

देशविरति गुणस्थानमें-^१ देवगति, ^१ नरकगति विना ^{१७} भेद पावे

प्रमत्त में-^१ तिर्यचगति, ^१ असंयम विना ^{१३} भेद पावे.

अप्रमत्त में-^३ तीनों अशुभ लेश्या विना ^{१२} भेद पावे.

अपूर्व करण और अनियत वादरमें-^१ तेजु, ^१ पद्म लेश्या विना ^{१०} भेद पावे.

भेद पावे.

सूक्ष्म सम्पराय में-^३ वेद ^३ कषाय विना ^४ भेद पावे.

उपशान्त मोहसे सयोगी केवलीतिक-लोभ विना ^३ भेद पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान में-शुक्ल लेश्या विना ^२ भेद पावे.

१६०, तीसरा उपशामिक भाव द्वार

उपशमिक भावके २ भेदः-१ उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र्य मिथ्यात्वसे मिश्र गुणस्थानतक उपशमिक भाव नहीं।

अविरति और देशविरति गुणस्थानमें-एक उपशम सम्यक्त्व।

प्रमत्तसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक दोनों भेद पाते हैं।

क्षीण मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-उपशम भाव नहीं।

१६१. चौथा क्षयोपशमिक भाव द्वार

क्षयोपशमिक भावके १८-भेद-४ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दर्शन, ५ अन्तराय, १ क्षयोपशम सम्यक्त्व और १ क्षयोपशम चारित्र्य, १ संयमा संयम।

मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थानमें-५ लब्धि, ३ ज्ञान, ३ दर्शन, यह ११ भेद पावे।

सास्वादन गुणस्थान में-५ लब्धि, ३ दर्शन यह ११ भेद पावे।

अविरति गुणस्थान में १ क्षयोपशम सम्यक्त्व बढने से १२ भेद पावे।

देशविरति गुणस्थान में संयमा संयम बढनेसे १३ भेद पावे।

प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में संयमा संयम घटाना और मनपर्यवज्ञान तथा क्षयोपशम चरित्र बढानेसे १४ भेद पावे।

अपूर्व करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक १ क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम चरित्र इन दो विना १२ भेद पावे।

क्षीणमोह से अयोगी केवली तक क्षयोपशम भाव नहीं है।

१६२. पांचवा-क्षायिक भाव द्वार.

क्षायिक भाव के ९ भेद ५ क्षायिक लब्धि, १ केवल ज्ञान, १ केवल दर्शन, १ क्षायिक सम्यक्त्व और १ क्षायिक यथाख्यात चरित्र

मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थान तक क्षायिक भाव नहीं. अत्र-
ति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक १ क्षायिक सम्यक्त्व क्षीणमो-
ह गुणस्थान में १ क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चरित्र २ भेद पावे.

सयोगी केवली और अयोगी केवली गुणस्थान में १ ही
भेद पाते हैं.

सिद्ध भगवन्त में १ केवल ज्ञान, २ केवल दर्शन, और ३
क्षायिक सम्यक्त्व यह ३ भेद ३ पावे.

१६३, छुटा परिणामिक भाव द्वार.

परिणामिक भावके ३ भेद १ जीवत्व, १ भव्यत्व, १ अभव्यत्व
मिथ्यात्व गुणस्थान में तीनों भेद पाते हैं.

सास्वादन से अयोगी केवली तक १ जीवत्व, १ भव्यत्व,
यह २ भेद पावे.

१६४, सात्तवा सत्री पातिक भाव द्वार

मिथ्यात्व सास्वाद और मिश्र गुणस्थानों में उदयिक क्षयो-
पशमिक, और परणामिक यह त्रिसंयोगीक मूल १ भांगा पाता है.
और इसको अलग २ चारों गति में गिनने से उत्तर सत्रीपातिक
भांगे चार होते हैं.

अत्रिरति गुणस्थान में (१) उदयिक, क्षयोपशमिक, परि-
णामिक, यह १ त्रि संयोगी (२) उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशमि-
परिणामिक यह १ चतु संयोगी (३) उदयिक, क्षयोपशमिक, परि-
णामिक, यह चतु संयोगी. यों मूल तीन भांगे पाते हैं. और इन
तीनों को चारों गति से चौगुने करने से उत्तर भांगे १२ होते हैं.

= ९वे और १०वे गुणस्थानमें-क्षायिक चारित्र कितनेक आचार्य नहीं भी मानते हैं-

देशविरति गुणस्थान में अविरति गुणस्थान के जैसेही मूल भांगे तो तीनों पाते ही हैं. और इन तिर्यंच मनुष्य गतिसे दुगुने करते उत्तर भांगे ६ होते हैं.

प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान में एक मनुष्य गति आश्रित्य तीनों भांगे पाते हैं.

अपूर्व करण से उपशान्त मोह तक उपशम श्रेणिवाले के (१) उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशमिक, परिणामिक, यह १ चतुसंयोगी भांगा पाता है. और क्षपक श्रेणिवाले के (१) उदयिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, परिणामिक, यह १ चतुसंयोगी भांगा. और समुचय सर्व जीवों आश्रित्य, उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, और परिणामिक यह १ पंच संयोगी भांगा पाता है.

और क्षीण मोह से अयोगी केवली तक उदयिक, क्षायिक, परिणामिक, यह १ त्रि संयोगी भांगा पाता है.

१ स्थित्यात्व गुणस्थान में १ औदयिक भावके २१ भेद, २ क्षयोपशमिक भाव के ११ भेद, और ३ परिणामिक भावके ३ भेद, यों तीनों भावों के ३५ भेद पावे.

२ सास्वादन गुणस्थान में १ औदयिक भावके १९ भेद, २ क्षयोपशमिक भावके ११ भेद, ३ और परिणामिक भावके २ भेद, यों तीनों भावों के ३२ भेद पावे.

३ मिश्र गुणस्थान में-१ औदयिक भाव के-२० भेद. २ क्षयोपशमिक भावके ११ भेद, ३ परिणामिक भावके-२ भेद. यों तीनों भावोंके ३३ भेद पावे.

४ अविरति गुणस्थान में-१ औदयिक भाव के १९ भेद. २ उपशमिक भाव का १ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद. ४ क्षयो-

पशुभिक भावके १२ भेद, और ५ परिणामिक भाव के दो भेद, यों पांचों भाव के ३५ भेद पावे.

५ देशविरति गुणस्थानमें-१ औदयिक भावके १७ भेद, २ औपशुभिक भावका १ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोपशुभिक भावके १२ भेद, और ५ परिणामिक भावके २ भेद, यों पांचों भावके ३४ भेद पावे.

६ प्रमत संयति गुणस्थानमें-१ औदयिक भावके १५ भेद, २ औपशुभिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोपशुभिक भावके, १४ भेद, और ५ परिणामिक भाव के २ भेद, यों पांचों भावोंके ३४ भेद पावे.

७ अप्रमत संयति गुणस्थान में-१ औदयिक भावके १२ भेद, २ उपशुभिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका-१ भेद, ४ क्षयोपशुभिक भावके १२भेद, और ५ परिणामिक भावके २भेद यों पांचों भावोंके-३० भेद पावे.

८ अपूर्व करण गुणस्थान में-१ औदयिक भावके १० भेद, २ औपशुभिक भावके २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोपशुभिक भावके १२ भेद और ५ परिणामिक भावके २ भेद. यों पांचों भावोंके २७ भेद पावे.

९ अनियत वादर गुणस्थान में-१ औदयिक भावके १० भेद, २ औपशुभिक भाव के २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ भेद, ४ क्षयोपशुभिक भाव के १२ भेद और ५ परिणामिक भाव के २ भेद, यों पांचों भावोंके-२७ भेद पावे.

१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-१ औदयिक भाव के ४ भेद, २ उपशुभिक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशुभिक भाव के १२ भेद, ४

क्षायिक भावका १ भेद. और ५ परिणामिक भाव के २ भेद यों पांचों भावोंके २१ भेद पावे.

११ उपशान्त मोह गुणस्थान में-१ औदायिक भाव के-३ भेद, २ ओपशामिक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशम शामिक भाव के १२ भेद, ४ क्षायिक भावका १ भेद, और ५ परिणामिक भाव के २ भेद यों पांचों भावोंके २० भेद पावे.

१२ क्षीण मोह गुणस्थानमें-१ औदायिक भाव के ३ भेद, २ क्षायिक भावके २ भेद, ३ क्षयोपशामिक भावके १२ भेद, और ४ परिणामिक भावके दो भेद यों चारों भावोंके १९ भेद पावे.

१३ सयोगी केवली गुणस्थान में-१ औदायिक भावके ३ भेद, २ क्षायिक भाव के ९ भेद, ३ परिणामिक भावके २ भेद, यों तीनों भावके १४ भेद पावे.

१४ अयोगी केवली गुणस्थान में १ औदायिक भावके ३ भेद, २ क्षायिक भावके ९ भेद. ३ परिणामिक भावके २ भेद, यों तीनों भावके १४ भेद पावे.

१८६, नववा श्रेणी द्वार

श्रेणी दो-१ उपशम श्रेणी, और २ क्षपक श्रेणी.

भिख्यात्व गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थानतक क्षयोपशम सम्यक्त्व होनेसे श्रेणी नहीं करते हैं.

अपूर्व करण सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक दोनों श्रेणी करते हैं.

उपशान्त मोह गुणस्थान में-१ उपशम श्रेणी.

क्षीण मोह गुणस्थान में-१ क्षपक श्रेणी.

= कितनेक स्थान सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में भव्यत्व पणा नहीं लिया
श्रेणिद्वार के खुलासेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ १६ वा-

सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में-श्रेणी नहीं है.

१६७, दसवा कर्म वेदे द्वारा

मिथ्यात्वसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक आठोंही कर्म वेदते हैं.
उपज्ञांत मोह और क्षीण मो गुणस्थानमें-मोहनीय विना ७ कर्म वेदे
सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें, १ वेदनीय, २ आयुष्य
३ नाम, और ४ गौत्र. इन चारों कर्मोंको वेदते हैं.

१६८, इग्यारवा कर्म निज्जरा द्वारा

मिथ्यात्वसे उपज्ञान्त मोह गुणस्थानतक आठों कर्मोंकी निज्जरा है
क्षीणमोह गुणस्थानमें-मोहनीय विना सात कर्मोंकी निज्जरा.
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थानमें-ऊपरोक्त चारों कर्मोंकी निज्जरा

१६९, बाखा-दशकरण द्वारा.

दश करणके नाम-१ वन्ध करण, २ उत्कर्ष करण, ३ संक्र-
मण करण, ४ अपकर्षण करण, ५ उदीरणा करण, ६ सत्ता करण
७ उदय करण, ८ उपज्ञान्त करण, ९ निधित करण, और १० नि-
कचित करण.

मिथ्यात्व गुणस्थानसे-अपूर्व करण गुणस्थानतक-१० ही करण पावे.
अनियद् बादर और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-पाहिलेके ७ करण पावे
उपज्ञांत मोहसे अयोगी केवलीतक-सत्ता और उदय यह दो करण पावे

१७०, तेखा-गुण श्रेणी द्वारा

१ आयु कर्म विना सात कर्मोंकी निज्जरा-मिथ्यात्व और मिश्र से

अविरति सम्यक्त्वीके असंख्यात गुण अधिक होती है.

२ इनसे देशविरतिके असंख्यात गुण अधिक निर्ज्जरा.

३ इनसे-प्रमत संयतिके असंख्यात गुण अधिक यिज्जरा.

४ इनसे-अनन्तालवन्थि चौक विसं जोजी जीवके असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

५ इनसे-क्षाधिक सम्यक्त्वी के असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

६ इनसे-उपशम श्रेणी वालेके असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

७ इनसे-उपशान्त कषाय वालेके असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

८ इनसे-क्षपक श्रेणी वाले के असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

९ इनसे-क्षीण कषाय वालेके असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.


१० इनसे-सयोगी केवली के असंख्यात गुणी निर्ज्जरा.

और ११ इनसे-अयोगी केवलीके असंख्यात गुण अधिक निर्जरा.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजकी सम्प्रदायके बाल
ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज विरचित गुणस्थान
रोहण अष्टाशतद्वारी ग्रन्थके प्रथम मूल काण्डका कर्मद्वारा रोहण
नामक द्वितीय खण्ड.

समाप्त





तृतीय खण्ड-संसार द्वारा रोहण.

संसार रोहण खण्डके ४१ द्वारों के नाम.

१ आगतिद्वार, २ जागतिद्वार, ३ पागतिद्वार, ४ आज्ञातिद्वार, ५ पाजातिद्वार, ६ जाजातिद्वार, ७ आकायद्वार, ८ पाकायाद्वार, ९ जाकायाद्वार. १० आदंडकद्वार, ११ पादंडकद्वार, १२ जादंडकद्वार, १३ सामन्य जीव भेदद्वार, १४ विशेष जीवभेदद्वार, १५ जीवयोनिद्वार, १६ कुलकोडी द्वार, १७ सूक्ष्म वादरद्वार, १८ त्रसस्थावर द्वार, १९ सन्निअसन्नि द्वार, २० भाषकाभाषक द्वार, २१ अहारका नाहारकद्वार, २२ ओजादि आहारद्वार, २३ सचित्तादि अहार द्वार, २४ दिशी आहारद्वार, २५ पर्याप्तिपर्याप्तिद्वार, २६ पर्याद्वार, २७ प्रणद्वार, २८ इन्द्रियद्वार, २९ इन्द्रिय विषयद्वार, ३० सज्ञाद्वार, ३१ वेदद्वार, ३२ कपायद्वार, ३३ लेशाद्वार, ३४ योगद्वार, ३५ शरीर द्वार, ३६ संघयण द्वार, ३७ संठाणद्वार, ३८ मरणद्वार, ३९ विग्रह अविग्रहगति द्वार, ४० स्वर्गद्वार औरभी षटस्थान हानीवृद्धिद्वार.

१७१, प्रथम आगति द्वार

गति के तीनों द्वारोंका खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २२७ वा

चारोंही गतिके जीवों मनुष्यगतिमें आकर चउदेही गुणस्थानों
स्पर्श सकते हैं.

१७२, दुसरा पागति द्वार.

मिथ्यात्वसे अविरति गुणस्थान पर्यन्त चारों गतिके जीव पाते हैं.
देशविरति गुणस्थानमें-मनुष्य और तिर्यञ्च यह दो गति ही पाते हैं
प्रमत्त संयातिसे अयोगी केवलीतक-एक मनुष्यगति पावे हैं.

१७३, तीसरा जा गति द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान वाले-प्रकर चारों गति में जाते हैं.
सास्वादन गुणस्थानवाले नरक विना तीनों गति में जावे.
मिथ्र गुणस्थान वाले मरते ही नहीं है.
अविरति गुणस्थानवाले-मनुष्य और देव दोनों गतिमें जावे.
देशविरति से उपशान्त मोह गुणस्थानवाले एक देवगतिमें जावे.
क्षीण मोह और सयोगी केवली गुणस्थान वाले मरतेही नहीं हैं.
अयोगी केवली गुणस्थानवाले एक मोक्ष में जावे.

१७४, चौथा-आजाति द्वार

जाति ५ है-१ एकेन्द्रिय, २ वेन्द्रिय, ३ तेन्द्रिय, ४ चौरिन्द्रिय, और
५ पचेन्द्रिय.

मिथ्यात्व गुणस्थानसे प्रमत्त गुणस्थानतक पांचों जन्तिका आवें-
अप्रमत्तसे अयोगी केवली गुणस्थान तक एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय
दो जाति का आवे.

१७५, पांचवा-पाजाति द्वार

जातिके तीनों द्वारोंका मूलामके लिये देवीये अर्थ कांडका पृष्ठ २५६ वा.

मिथ्यात्व गुणस्थान में पांचों जाति पावे.

सास्वादन गुणस्थानमें-एकेन्द्रिय विना चारों जाति पावे.

मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक-एक पचेन्द्रियकी जाति पावे.

सयोगी अयोगी केवली गुणस्थानमें जाति नहीं-नो इन्द्रिय हैं.

१७६. छठा जा जाति द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान वाला पांचों जाति में जावे.

सास्वादन गुणस्थान वाला एकेन्द्रियविना चार जाति में जावे.

मिश्र, क्षीणमोह, सयोगी केवली, इन तीनों गुणस्थान वाले मरेनही

अविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान वाले एक पचेन्द्रियमें जावे.

अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती १ मोक्ष में ही पधारते हैं.

१७७. साववा-आ काया द्वार.

काया ६ हैं:-१ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, और ६ त्रसकाय.

मिथ्यात्व सास्वादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में ६ काया के जीवों आते हैं.

अविरति से अयोगी केवली तक तेज वायु छोडकर चार काया के जीव आते हैं.

१७८ आठवा पा काया द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान में छेही काया के जीव पाते हैं.

सास्वादन से अयोगी केवली गुणस्थान तक एक त्रस काया केही जीव पाते हैं.

११७, नववा-जा काया द्वार.

मिथ्यात्व गुणस्थान वाला छेही काया मे मर कर जावे.

सास्वादन गुणस्थान वाला एक त्रस काया में जावे.

मिश्र क्षीणमोह सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थान वाले मेरेनही.

अविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक के एक त्रस कायमे जावे

और अयोगी केवली गुणस्थान वाले एक मोक्ष में जावे.

१८०, दसवा आ दंडक द्वार

दंडक २४ हैं:- १ सातों नरक का एक दंडक, १० दशोभव

नपति देवके दश दंडक, ५ पांचों स्वाथर के पांच दंडक, ३ तीनों

विक्केन्द्रिय के तीन दंडक, १ तिर्यंच पचेन्द्रिय का, १ मनुष्यका, १ वा-

णव्यन्तर का, १ जोतिपी का और १ विमाणीक देवोंका यों २४-

मिथ्यात्व गुणस्थान में चौबीस ही दंडक के जीवों आतेहैं

सास्वादन से अप्रमत गुणस्थान तक तेउवायु विना २२

दंडक के जीव आवे.

अपूर्व करण से अयोगी केवली तक तीन विक्केन्द्रिय वि-

ना १९ दंडक के जीव आवे.

१८१, इग्यारवा पा दंडक द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान में चौबीस ही दंडक पावे.

सास्वादन मिश्र में पांच स्थावर विना १९ दंडक पावे.

अविरति गुणस्थान में तीन विक्केन्द्रिय विना १६ दंडक पावे.

देशविरति गुणस्थान मे १ मनुष्यका और तिर्यंचका २ दंडक पावे

दंडक के तीनों द्वारके खुलासे के लिये देखीये अर्थ कांड पृष्ठ २०८ वा.

प्रमत से अयोगी केवली गुणस्थान तक एक मनुष्यका दंडक पावे

१८२ बाखा-जादंडक द्वार.

मिथ्यात्व गुणस्थान वाले चौबीस दंडक में जाते हैं.

सास्वादन गुणस्थान वाले ५ स्थावर विना १९ दंडक में जाते हैं.

मिश्र. क्षीण मोह, सयोगी केवली इन तीनों गुणस्थानवाले मरेनही

अविरति गुणस्थानी पांच स्थार तीन ब्रिह्मेन्द्रिय विना १६ दंडक में जावे.

देशविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान वाले एक विमानी क देव में जावे.

अयोगी केवली गुणस्थानी मोक्ष में ही पधारते हैं.

१८३, तेखा-सामान्य जीव भेद द्वार

सामान्य जीवोंके १४ भेदः— १ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ बाहर एकेन्द्रिय, ३ बेन्द्रिय, ४ तेन्द्रिय, ५ चौरिन्द्रिय, ६ असन्नी पचेन्द्रिय, और ७ सन्नी पचेन्द्रिय, इन ७के अपर्याप्ता और ७ के पर्याप्ता यों १४ भेद होते हैं.

मिथ्यात्व गुणस्थान में जीवके भेद १४ ही पावे.

सास्वादन गुणस्थान में १ बेन्द्रिय, १ तेन्द्रिय, १ चौरिन्द्रिय और १ असन्नी पचेन्द्रिय, इन ४ का अपर्याप्ता और ५ सन्नी पचेन्द्रियका पर्याप्ता और ६ अपर्याप्ता दोनों यों ६ जीवको भेद पावे.

श्र मीगुणस्थानमें-१ जीवका भेद सन्नीका पर्याप्ताही पावे.

जीवके भेदके दोनों द्वारोंका खुलासके लिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ २१२वा यहाँ १ लोकान्तिक देव अविपति कोही ग्रहण किये हैं. नाकि उनके परिवारको.

अविरति गुणस्थानमें-सत्रीका पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों भेद पावे.
देशविरति से अयोगी केवली गुणस्थानतक-? सत्रीका पर्याप्ता पावे

चउदवा-विशेष जीव भेद द्वार

विशेष ५६३ जीवके भेद-?४ नरकके, ४८ तिर्यच के, ३१३ मनुष्य के, और १९८ देवता के यों ५६३ जीव के भेद होते हैं.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-५ पांच अनुत्तर विमान और ९ लोकान्तिक देव इन १४ का पर्याप्ता अपर्याप्ता यों २८ विना १७० भेद पावे. सास्वादन गुणस्थान में-७ नरक के पर्याप्ता, + ३ बिक्लेन्द्रिय, ५ अमत्री तिर्यच पचेन्द्रिय इन ८ के अपर्याप्ते, और ५ पांच सन्नि तिर्यच पचेन्द्रिय के पर्याप्ते अपर्याप्ते दोनों, यों १८ तिर्यचके, १०१ समुत्थिम मनुष्यविना २०२ मनुष्य के और ऊपरोक्त १७० देवता के यों ३१७ जीवके भेद पावे.

मिश्र गुणस्थान में-७ नरकके पर्याप्ते, ९ सन्नि तिर्यचके पर्याप्ते-?०१ सन्नि मनुष्य के पर्याप्ते. ऊपरोक्त १७० देवताके भेदों में से ८२ भेदोंमें से ८१ भेद अपर्याप्ता के कमी करने से ८१ भेद देवताके यों सब १९८ जीवके भेद पावे.

अविरति गुणस्थान में-सातवी नरकके अपर्याप्ता विना = नरकके १३ भेद, १० सत्री तिर्यच पचेन्द्रिय के. १५ कर्म भूमी, ९ देव कुल, ९ उत्तर कुल २९ के पर्याप्ता, अपर्याप्ता ९० मनुष्य के, और १९ परमाधामी, ३ किलविपी इन १८ देवताके पर्याप्ता अपर्याप्ता यों ३६ भेद कमी करने से-१६२ देवता के, यों सब २३९ जीवके भेद पाते हैं.

+ नरकानुपूर्वीका उदय सास्वादन में न होनेसे अपर्याप्ता अवस्था में नहीं पाता है.
= सम्यक दृष्टि सातवीमें जाता नहीं. परन्तु वहां वेदना अनुभवसे समदृष्टि होजाताहै.

देशविरति गुणस्थान में-१ सन्नितिर्यच कै और १० कर्मा भूमी मनुष्य के यों २० भेद पावे.

प्रमत्तसे अयोगी केवली गुणस्थानतक फक्त-१० कर्मा भूमी मनुष्य के ही भेद पाते हैं.

१८५, पंद्रहा-जीव योनी द्वार

पृथ्वी-अप-तेज-वाउ इन चारों की ७-७ लाख यों ७×४ २८, वन-स्यति की २४ लाख, वेन्द्रिय-तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय इन तीनों की २-२ लाख यों २×३६ लाख, पंचेन्द्रिय तिर्यचकी ४ लाख, नरक क ४ लाख, देवताकी ४ लाख, और मनुष्यके १४ लाख. यों सब ८१ लाख जीवोंकी योनी इसमें से.

भिख्यात्व गुणस्थानमें ८४ लाख ही जीवा योनी पावे.

सास्वदन गुणस्थानमें-पांचों स्थावरों की ३२ लाख विन ३२ लाख पावे.

मिश्र और अविरति में-तीनों विह्वेन्द्रियकी ६ लाख विन २३ लाख पावे.

देशविरति में-४ लाख तिर्यच पंचेन्द्रियकी और १४ लाख मनुष्यकी यों १८ लाख पावे.

प्रमत्त से अयोगी केवली गुणस्थानतक-१४ लाख मनुष्य की ही पावे.

१८६, सोलह-कुलकोडी द्वार

प्रथवी कायके १२ लाख अणु कायके ७ लाख अणु

जीवयोनी द्वारके कुलकोडी के लिये देखाये कर्मे जाइका सु ३०० का
" कुलकोडी द्वारके कुलकोडी के लिये देखाये कर्मे जाइका सु ३०० का.

तेज कायके ३ लाख क्रोड वायु कायके ७ लाख क्रोड, वनस्पतिके २८ लाख क्रोड, वेन्द्रियके ७ लाख क्रोड, तेन्द्रियके ८ लाख क्रोड चौरिन्द्रिय ९ लाख क्रोड, जलचरके १२॥ लाख क्रोड, स्थल चरके १० लाख क्रोड, खेचरके १२ लाख क्रोड. उरपरके १० लाख क्रोड, भुजपरके ९ लाख क्रोड, नरकके २५ लाख क्रोड देवताके २६ लाख क्रोड, और मनुष्य के १२ लाख क्रोड, यों सब १ एक क्रोड साडी संताणवे लाख क्रोड कुल होते है इसमेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थान में-१ क्रोड ९७॥ लाख क्रोडही कुल पाते हैं. सास्वादन में-५७ लाख क्रोड पांचों स्थावरके विना-१ क्रोड ४०॥ लाख क्रोड कुल पावे.

मिश्र और अविरतिमें-२४ लाख क्रोड बिक्हेन्द्रिय विना-१ क्रोड ६॥ लाख क्रोड कुल पावे.

देशविरतिमें-५३॥ लाख क्रोड तिर्येच पचेन्द्रियके, और १२ लाख क्रोड मनुष्य के दोनों मिल ६५॥ लाख क्रोड कुल पावे.

प्रमतसे अयोगी केवली तक-१२ लाख क्रोड मनुष्यकेही कुल पावे.

१८७, सतरवा-सूक्ष्मवादर द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान में सूक्ष्म वादर दोनों तरह के जीवों पावे.

सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक वादर जीव पावे.

१८८, अठारवा त्रस स्थावर द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान में-त्रस और स्थावर दोनों तरहके जीव पावे.

सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक त्रस जीव पावे.

१८९, उन्नीसवा सन्निअसन्नि द्वार

५७७ सूक्ष्म वादर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०१ वा.

.. वस स्थावर और सन्नी असन्नी द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०२ वा

मिथ्यात्व और सास्वादन दोनों गुणस्थानमें-सन्नि असन्नि दोनों पावे मिश्रसे क्षीणमोह गुणस्थानतक-एक सन्नीही जीव पाते है।
सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान वाले नो सन्नी नोअसन्नि.

१२०, बीसवा भाषक अभाषक द्वार

मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरति, और सयोगी केवली इन चारों गुणस्थानोंमें भाषक अभाषक दोनों प्रकार के जीवों पावे।
मिश्र, देशविरति से क्षीण मोह गुणस्थानतक-एक भाषकही होतेहैं अयोगी केवली गुणस्थानी-अभाषक होते हैं।

१२१, इक्कीसवा आहारक अनाहारक द्वार

मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरति और सयोगी केवली × इन चारों गुणस्थानोंमें आहारक अनाहारक दोनों प्रकारके जीवों पाते हैं।
मिश्र, देशविरतिसे जावत क्षीणमोह गुणस्थानतक-एक आहारक ही जीव पाते है।
अयोगी केवली गुणस्थान वाले-एक अनाहारक होते हैं।

१२२, बाबीसवा-आजादि आहार द्वार.

आहार ३ प्रकार का. १ ओज, २ रोम. ३ कवल.
मिथ्यात्व, सास्वादन और अविरति इन तीनों गुणस्थानोवाले. तीनों प्रकार का आहारलेते हैं।
मिश्र, देशव्रति से जावत सयोगी केवली गुणस्थान वर्ती जीवो

भाषक अभाषक द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०३ वा.

अहारके तीनो द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०३ वा.

×सयोगी केवली केवल समुदघात करती वक्त वीचके समय में अनाहारक होतेहैं.

ओज अहार विना दोनों प्रकारका अहार लेते हैं।
अयोगी केवली गुणस्थान व्रति अनहारक हैं।

१९३, तेबीसवा-सचितादि अहार द्वार

आहार ३ प्रकार के-१ सचित्त, २ अचित्त, ३ और मिश्र।
मिथ्यात्वसे देशविरति गुणस्थानतक-तीनों तरहका आहार करते हैं।
प्रमत्त*सयोगी केवली गुणस्थानतक-एक अचित्त आहारी हैं।
अयोगी केवली गुणस्थानी अनाहारक हैं।

१९४, चौबीसवा-दिशी अहार द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानवाले-जघन्य-दिशीका उत्कृष्ट ६ दिशीका अहार लेवे
सास्वादन गुणस्थानसे सयोगी केवलीतक-छहों दिशीका अहार लेते हैं।
अयोगी केवली गुणस्थानी अनाहारक हैं।

१९५, पच्चीसवा-पर्याप्त अपर्याप्त द्वार

मिथ्यात्व, सास्वादन, और अविरति इन तीनों गुणस्थानोंमें पर्याप्त
अपर्याप्त दोनों पावे।

मिश्र, देशविरति से जावत-अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक पर्याप्त ही पावे।

१९६, छब्बीसवा पर्या द्वार

पर्या ६ है:-आहार, २ शरीर, इन्द्र, ४ शासोश्वासी ५ भाप, औ-

पर्याके दोनों द्वारोंका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०३ वा

* कितनेक उग्रस्तता और प्रमत्ता के सवध से प्रमत्त गुणस्थान में मिश्र अहार लेते।

= लोकके अन्तमें जो एकेन्द्रिय सुक्ष्म जीवों हैं। फक्त लोकके तरफ के तीनों दिशामें रहे हुवे पुट्टल ग्रहण करते हैं। अलोककी दिशाके ग्रहण नहीं करते हैं- क्योंकि अलोकमें पुट्टल देही नहीं।

र ६ मन.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-एकेन्द्रिय आश्रिय ४, विक्लेन्द्रिय या असन्नि आश्रिय ५, और सन्नी आश्रिय ६ ही पर्या पावे.

सास्वादनमें-विक्लेन्द्रिय के अपर्याप्ता आश्रिय ४, असन्नी आश्रिय ५ और सन्निपचेन्द्रिय आश्रिय छेही पर्या पावे.

अविरति गुणस्थानमें-अपर्याप्त के मरण आश्रिय ४, अपर्याप्ता आश्रिय ५, और पर्याप्ता आश्रिय छेही पर्या पाती है.

मिश्र देशविरतिसे सयोगी केवली गुणस्थानतक ६ ही पर्यापावे.

अयोगी केवलीके अन्तिम भागमें-श्वाशोश्वास पर्या पाती है.

१८७, सत्तबीसवा प्राण द्वार.

प्राण १० हैं:- पांचों इन्द्रियके १, तीन जोगके ३, श्वासोश्वास १ और आयुष्य मिथ्यात्व गुणस्थानमें एकेन्द्रिय आश्रिय स्पर्शेन्द्रिय, काया श्वाशोश्व, और आयुष्य यह ४ प्राण, वेन्द्रिय, आश्रिय, रसेन्द्रिय, और वचन का जोग अधिक होने से ६ तेन्द्रिय अश्रिय घणेन्द्रिय बढ़ने से ७, चौरिन्द्रिय आश्रिय चक्षु इन्द्रिय बढ़ने से ८, असन्नी पचेन्द्रिय आश्रिय श्रोतेन्द्रिय बढ़ने से ९ और सन्नी आश्रिय दशों प्राण पाते हैं.

सास्वादन गुणस्थान में एकेन्द्रिय आश्रीय ४ प्राण छोड़ कर बाकी उपरक हे मुझवही ६-७-८-९-१० प्राण पाते हैं.

मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक दशों प्राण पाते हैं.

सयोगी केवली में पांचों इन्द्रिय के ५ प्राणविना ५ प्राण पाते हैं.

और अयोगी केवली में एक आयुष्य बल प्राण पावे.

१९८, अठावीसवा इन्द्रिय द्वार

इन्द्रिय ५ हैं १ श्रुतेन्द्रिय, २ चक्षुइन्द्रिय, ३ घणेन्द्रिय, ४ रसेन्द्रिय और ५ स्पर्शेन्द्रिय.

मिथ्यात्व गुणस्थान में एकेन्द्रिय आश्रिय १ स्पर्शेन्द्रिय, वेन्द्रिय. आश्रिय दो जावत् पचेन्द्रिय आश्रिय पांचों इन्द्रियों पावे. सास्वादन गुणस्थान में २ इन्द्रिय से पांच इन्द्रिय तक पावे. मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक पांचों इन्द्रियों पावे.

उनतीसवा-इन्द्रियाकी द्वार

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानी अणेन्द्रिय हैं.

१ श्रुतेन्द्रियकी ३, चक्षुइन्द्रियकी ५, घणेन्द्रियकी २ रसेन्द्रियकी ५, और स्पर्शेन्द्रियकी ८ यों पांचों इन्द्रियकी २३ विषय हैं. मिथ्यात्व गुणस्थान में जघन्य, ८ उत्कृष्ट २३ ही विषय पावे. सास्वादन गुणस्थान में जघन्य १३ उत्कृष्ट २३ ही विषय पावे. मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक २३ ही विषय पावे. सयोगी अयोगी केवली गुणस्थान में निर्विषयी है.

२००, तीसवा सज्ञा द्वार.

साज्ञा ४ हैं:—१ अहार २ भय, ३ मैथुन, और ४ परिग्रह.

मिथ्यात्व से प्रमत्त गुणस्थान तक चारो सज्ञा पाती है.

अप्रमत्त से अयोगी केवली गुणस्थान तक नो सज्ञा है (सज्ञानही)

इन्द्रियके दोनों द्वारोंके खुलासेकेलिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०४-३०५ ना—केवली भगवतके-कर्ण चक्षु प्रमुख द्रव्येन्द्रियोंतो है परन्तु वो उनके काम में नहीं आता है, अयोगी-इन्द्रियोंके ग्रहण किये पहिले ही सब पदार्थोंको जानते देखते हैं.

२०१, इकतीसवा वेद द्वार

वेद ३ हैं:-१ स्त्री, २ पुंलप, और २ नपुंसक.

मिथ्यात्व से अनियत वादर गुणस्थान तक तीनों वेदो पावे.
सूक्ष्म सम्पराय से अयोगी केवली गुणस्थान तक अवेदी हैं.

२०२, बत्तीसवा-कपाय द्वार

कपाय ४ हैं:-१ क्रोध, २ मान, ३ माया, और ४ लोभ.

मिथ्यात्व से अनियत वादर गुणस्थान तक चारों कपाय पावे.
सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में एक लोभ कपाय.

उपशान्त मोह से अयोगी केवली गुणस्थान तक अकपायी.

२०३, तैंतीसवा लेश द्वार

लेशा ६ हैं:-१ कृष्ण, २ नील, ३ कापोत, ४ तेजु, ५ पद्म, और शुक्ल.

मिथ्यात्व से प्रमत गुणस्थान तक ६ ही लेश्या.

अप्रमत गुणस्थान में उपरकी शुभ तीनों लेश्या पावे.

अपूर्व करण से सयोगी केवली गुणस्थान तक १ शुक्ल लेश्या पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती अलेशी होते हैं.

२०४, चौतीसवा योग द्वार

योग तीन १ मन, २ वचन, और ३ काया

मिथ्यात्व से स्वादन गुणस्थान में जघन्य १, मध्यम २, उत्कृष्ट ३,
ही जोग पावे

मिथ्यसे सयोगी केवली गुणस्थान तक तीनों जोग पावे.
अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती तो अजोगी ही हांतेहैं.

२०५, चैतीसवा-शरीर द्वार

शरीर ५ है:—१ ओदारिक २ वैक्रिय, ३ अहारक, ४ तेजस
ओर ५ कार्मण

मिथ्यात्व से अविशति गुणस्थान तक आहारक विन ४ शरीर पावे
प्रमत ओर अप्रमत गुणस्थान में पांचों शरीर पावे.

अपूर्व करणसे अजोगी केवलीतक वैक्रिय आहारक विना ३ श-
रीर पावे.

२०६, छत्तीसवा-संघयण द्वार.

संघयण ६ हैं:—१ वज्र वृषभ नारच, २ वृषभ नारच, ३ नारच, ४
अर्ध नारच, ५ किलिक, ओर ६ छेवटा.

मिथ्यात्वसे अप्रमत गुणस्थानतक, ६ ही संघयण पावे.

अपूर्व करणसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-१ वज्र वृषभ नारच
संघयण.

२०७, सैंतीसवा-संस्थान द्वार.

संस्थान ६ हैं. १ समचतुरस्र, २ निश्रोद्र परिमंडल, ३ साधिक, ४वां
न, ५ कुञ्ज, ओर ६ हूंड.

मिथ्यात्वसे अयोगी केवली गुणस्थानतक, ६ ही संस्थान पावे.

अडतीसवा-मरण द्वार

४२१ शरीर द्वार के खुलावेके लिये देखीये अर्थ कांड का पृष्ठ ३०८ वा.

संघयण द्वारोंके खुलावेकेलिये देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३०९ वा.

संस्थान द्वारका खुलावा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३१० वा.

मरण २ प्रकार के-समोया, और २ असमोया.

मिथ्यात्व, सास्वदन अविरतिसे अनियत वादरतक-दोनों माणप्रावे. मिश्र क्षीण मोह, सजोगी केवली. इन तीनों गुणस्थानोंमें मरे नहीं. सूक्ष्म संपराय और उपशान्त मोह में और अयोगी केवली गुणस्थान में-१ असमोहा मरण पाता है.

उनचालीसवा विग्रहगति द्वार

मरण नन्तर गति २ तरह की-१ विग्रह (वक्र), और ऋजु सरल. मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरतिसे उपशान्त मोहतक-दोनों गति करे मिश्र, क्षीण मोह सयोगी केवली यह तीनों गुणस्थानी मरे नहीं. अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती-१ ऋजु गति ही करे.

चालीसवा मरण द्वार

स्वर्ग २६ हैं-१२ देवलोक, ९ ग्रीवोक, ५ अनुत्तर विमान.

मिथ्यात्व गुणस्थान वाले-५ अनुत्तरविमान विना २१ स्वर्गतक जावे सास्वादन, अविरति और देशविरति, तीनों गुणस्थानी १२ स्वर्ग तक जावे.

मिश्र, क्षीण मोह, और सयोगी केवली मरेही नहीं.

प्रमतसे अनियत वादर गुणस्थानतक-२६ ही स्वर्गमें जावे.

सूक्ष्म संपराय और उपशान्त मोहवाले पांचों अनुत्तर विमानमें जावे और अयोगी केवली तो मोक्षमें ही पधारते हैं.

२११, एकचालीसवा-षष्ठस्थान वृद्धि द्वार


मरण विग्रहगति और स्वर्गकी मर्याद इन तीनों द्वारका खुलाना देवीये अर्थ काण्डका पृष्ठ ३११ वा


षष्ठस्थान द्वानी वृद्धि द्वारोंका खुलामके लिये देवीये अर्थ काण्डका पृष्ठ २१२ वा

षट्स्थान-१संख्यातगुण, २असंख्यात, ३अनन्त गुण, ४संख्यात भाग,
५असंख्यात भाग और ६अनन्त भाग.

मिथ्यात्व से अपूर्व करण तक-आपसमें छे स्थान बढ़ीये होते हैं.
अनियत वादर से अयोगी केवलीतक-आपस में तुल्य होते हैं.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदायके बाल
ब्रह्मचारी मुनि श्री असोलख ऋषिजी महाराज रचित
गुणस्थान रोहण अद्वैतद्वारी ग्रन्थका प्रथम मूल काण्ड
का संसारा रोहण द्वार नामक तीसरा खंड





चतुर्थ खण्ड-धर्म रोहण

धर्मा रोहणके ४१ द्वारोंके नाम.

१ मूल उपयोगद्वार, २ अज्ञानद्वार, ३ ज्ञानद्वार, ४ दर्शनद्वार
 ५ समुचय उपयोगद्वार, ६ दृष्टिद्वार, ७ भव्याभव्यद्वार, ८ चरमा-
 चरमद्वार, ९ परितापरितद्वार, १० पद्मीद्वार, ११ आत्माद्वार, १२ ध्या-
 नद्वार, १३ ध्यानके पयेद्वार, १४ द्रव्यद्वार, १५ परिणामद्वार, १६
 शीर्यद्वार, १७ तीर्थातीर्थद्वार, १८ सम्यक्त्वद्वार, १९ संजाता संजा-
 तिद्वार, २० लिंगद्वार, २१ चारित्र्यद्वार, २२ नियंठाद्वार, २३ कल्प-
 द्वार, २४ परिसहद्वार, २५ प्रमादद्वार, २६ सरागी वीतरागीद्वार,
 २७ पडवाइ अपडवाइद्वार, २८ छद्मस्तकेवलीद्वार, २९ समुदघातद्वार
 ३० पांचदेवद्वार, ३१ परिणामीद्वार, ३२ करणद्वार, ३३ निवृत्तिद्वार,
 ३४ आश्रवद्वार, ३५ संवरद्वार ३६ निज्जराद्वार, ३७ निज्जराभेदद्वार,
 ३८ करणीफलद्वार, ३९ तीर्थंकर गात्रापार्जनद्वार, ४० तीर्थंकर
 गुणस्थान स्पर्शनद्वार, और ४१ मोक्षद्वार.

२१२, प्रथम-मूल उपयोग द्वार.

मूल उपयोग दो- साकर बहुत और अनाकार बहुता.

उपयोग द्वारका खुलासा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३१३वा.

मिथ्यात्वसे अनियत वादर गुणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे.
 सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-एक साकर बहूता उपयोग पावे.*
 उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-दोनों उपयोग पावे

२१३, दुसरा अज्ञान द्वार.

अज्ञान ३ हैं-१ मति अज्ञान, २ श्रुति अज्ञान, ३ विभंग ज्ञान.
 मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थानमें-तीनों अज्ञान पावे.
 बाकी रहे वारेही गुणस्थानोंमें-अज्ञान नहीं पावे.

२१४, तीसरा-ज्ञान द्वार

ज्ञान ५ है-१ मति, २ श्रुति, ३ अवधि, ४ मनः पर्यव, और ५ केवल.
 मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थान में-ज्ञान नहीं.
 सास्त्रादन, अविरति और देशविरति गुणस्थानमें पहिले तीनों ज्ञान
 प्रमतसे क्षीण मोह गुणस्थानतक-केवल विना चार ज्ञान.
 सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानों में-एक केवल ज्ञान.

२१५, चौथा-दर्शन द्वार

दर्शन ४ हैं-१ चक्षु, २ अचक्षु, ३ अवधि, और ४ केवल.
 मिथ्यात्वसे क्षीणमोह गुणस्थानतक-केवल विना तीनों दर्शन पावे.
 सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें-एक केवल दर्शन पावे.

२१६, पांचवा समुचय उपयोग द्वार

समुचय उपयोग १२ है-१ ज्ञान, २ आज्ञान, और ३ दर्शन.
 मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थानमें-३ अज्ञान ३ दर्शन, यह ६ उपयोग.

* इस गुणस्थानकी स्थिति बहूनी थोड़ी दोन से यहां एकही उपयोग वर्तना है.

सास्वादन, अविरति, और देशविरतिमें-^३ज्ञान,^३ दर्शन यह ६ उपयोग प्रमत्तसे क्षीण यह गुणस्थानतक ४ ज्ञान^३ दर्शन यह ७ उपयोग. सयोगी और अयोगी केवलीके-^१केवल ज्ञान, और ^२केवल दर्शन

२१७ छुठा, दृष्टि द्वार

दृष्टि है-^१समदृष्टि, ^२मिथ्यादृष्टि, और ^३सममिथ्यादृष्टि. मिथ्यात्व गुणस्थानमें-^१मिथ्यादृष्टि. मिश्र गुणस्थानमें-^१मिश्र दृष्टि. सास्वादन, अविरतिसे अयोगी केवलीतक-एक समदृष्टि.

२१८ सातवा भव्याभव्य द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-भव्य अभव्य दोनों तरह के जीवों हैं. सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक भव्य जीवों.

२१९ आठवा चरमाचरम द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान में-चरम अचरम दोनों तरह के जीवों. सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक चरम जीवों.

२२० नववा परितापरित द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-परित अपरित दोनों तरह के जीवों. सास्वादनसे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक परत संसारी जीवों.

२२१ दसवा पद्मी द्वार

पद्मी ^{२३} है-७ एकेंद्रियरत्न, ७ पचेन्द्रियरत्न, और ९ बड़ी पद्मी. मिथ्यात्व गुणस्थान में-७ एकेंद्रियरत्न, ७ पचेन्द्रियरत्न? मंडलिक यों ^{१५} पद्मी पावे.

सास्वदन और मिश्र गुणस्थान में १ मांडलिकराजकी पाँच पावे.

अविरति में तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मंडलिक, राजा, समदृष्टि, यह ६ पावे.

देशविरति में १ श्रावककी और २ समदृष्टकी यह २ पद्वी पावे.

प्रमत्तसे सूक्ष्म सम्परायतक तीर्थकर, साधु, समदृष्टि यह ३ पद्वी पावे

उपशान्त मोह में १ समदृष्टि, और २ साधुकी यह २ पद्वी पावे.

क्षीणमोह में तीर्थकर, साधु, और समदृष्टि यह ३ पद्वी पावे.

सयोगी और अयोगी केवली में तीर्थकर, केवली, साधु, समदृष्टि यह ४ पद्वी पावे.

३२२ इग्यारवा आत्मा द्वार

आत्मा ८ हैं:- १द्रव्यात्मा, २कपायात्मा, ३जोगात्मा, ४ उपयोगात्मा, ५ ज्ञानात्मा, ६ दर्शनात्मा, ७ चरित्रात्मा और ८ वीर्यात्मा.

मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थान में ज्ञानात्मा, चरित्रात्मा, विना, ६ आत्मा पावे.

सास्वदन, और अविरति गुणस्थानमें चरित्र विना ७ आत्मा पावे

देशविरति गुणस्थान में चरित्राचरित होने से ७॥ आत्मा पावे.

प्रमत्त से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक आठोंही ८ आत्मा पावे.

उपशान्तमोहसे सयोगी केवली गुणस्थानतक कपाय विना ७ आत्मा

अयोगी केवली गुणस्थान में कपाय और योग विना ६ आत्मा पावे.

३२३, बारवा ध्यान द्वार

ध्यान ४ हैं १ आर्तध्यान, २ शौद्रध्यान, ३ धर्मध्यान, और ४ शुक्लध्यान.

आत्मा ध्यान और ध्यानके पावे का खुलासा अर्थ कांडके ३१६ वे पृष्ठमें देखीये.

मिथ्यात्व गुणस्थान में १ आर्त और २ रौद्र ध्यान पावे।
 सास्वादन और मिश्र गुणस्थान में निश्चयमें २ और व्यवहारमें ३
 अविरति और देशविरति गुणस्थान में शुक्लविना ३ ध्यान।
 प्रमत्त गुणस्थान में आर्तध्यान और धर्मध्यान २ ध्यान।
 अप्रमत्त गुणस्थान में एक धर्म ध्यान।
 अपूर्व करण से सूक्ष्म सम्पराय तक धर्म और २ शुक्ल ध्यान
 उपशान्त मोह से अयोगी केवली तक एक शुक्ल ध्यान. ×

२१३, तेरवा ध्यान पाये द्वार.

ध्यानके १६ पाये-आर्तके ४, रौद्रके ४ धर्मके ४, और शु-
 क्लके ४ यों १६ पायेचा ध्यानके
 मिथ्यात्व गुणस्थान में आर्तके ४ और रौद्रके ४ यों ८ पाये पावे।
 सास्वादन और मिश्र में धर्मध्यान का १ पाया बढने से ९ पावे।
 अविरति गुणस्थान में धर्मध्यानके २ पाये होनेसे १० पावे।
 देशविरति गुणस्थान में धर्मध्यानके ३ पाये होनेसे ११ पावे।
 प्रमत्त गुणस्थान में आर्तध्यानके ४ और धर्मध्यानके ४ यों ८ पावे
 अप्रमत्त गुणस्थानमें धर्मध्यानके ४ ही पावे।

अपूर्व करण से सूक्ष्म सम्पराय तक धर्मध्यानके ४ और शु-
 क्लध्यान १ यों ५ पाये पावे।

उपशान्त मोह गुणस्थान में शुक्लध्यान का एक पहला पाया।

क्षीणमोह गुणस्थान में शुक्लध्यानका एक दूसरा माया।

सयोगी केवली गुणस्थान में शुक्लध्यानका एक तीसरा पाया।

+ कितनेक स्थान लिखा है गि-साधु विना धर्म ध्यान की नास्ति होनेसे पहिलेके
 पांचों गुणस्थान में पहिले दो ध्यान ही पातेहे. तैसे ही आठवे गुणस्थान से ऊपर ए-
 क शुक्ल ध्यान ही पाता है. और ऐसे ही पाये आश्रय भी पाठान्तर है.

अयोगी केवली गुणस्थान में शुद्धध्यानका एक चौथा पाया:

२२५, चऊदवा-द्रव्य द्वार

द्रव्य ६ हैं धर्मास्ति, अर्धमास्ति, आकास्ति, काल, जीवास्ति और पुद्गलास्ति.

मिथ्यात्व गुणस्थान से अयोगी केवली गुणस्थान तक छेही द्रव्य पावे.

२२६, पंदरवा-परिणाम द्वार.

परिणाम ३ है-१ हायमान, २ वृद्धिमान, और ३ अवस्थित.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीनों तरह के परिणाम.

मास्वादन गुणस्थानमें एक हायमान परिणाम.

मिश्रगुणस्थानमें-हायमान और वृद्धमान दोनों परिणाम.

अविरतिसे अनियत बादर गुणस्थानतक-तीनों तरहके परिणाम.

सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-हायमान वृद्धमान दोनों परिणाम.

उपशान्त मोह गुणस्थान में-एक अवस्थित परिणाम.

क्षीणमोहमें अयोगी केवली गुणस्थानतक एक वृद्धिमान परिणाम.

२२७, सोलवा-वीर्य द्वार.

वीर्य ३ प्रकारके-१ बालवीर्य, २ बाल पंडितवीर्य, और ३ पंडित वीर्य.

मिथ्यात्वसे अविरति गुणस्थान पर्यन्त एक बाल वीर्य.

देशविरति गुणस्थान में-एक बाल पंडित वीर्य.

प्रमत्तमें अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक पंडित वीर्य.

द्रव्य द्वाका सुद्धामा देखीये अर्थ कांडका पृष्ठ ३१७ वा.

परिणाम-वीर्य-तार्थ और सम्यक्त्व द्वारोंका सुद्धामेकेलिये देखीये अर्थकांडका पृष्ठ ३१.

२२८, सतखा तीर्थातीर्थ द्वार

मिथ्यात्व सास्वादन, और मिश्र यह तीनों गुणस्थान अतीर्थ में.
अविरति से-सयोगी केवली गुणस्थानतक-तीर्थ में.
अयोगी केवली गुणस्थान-तीर्थ तीर्था है.

२२९, अठाशव-सम्यक्त्व द्वार

सम्यक्त्व द्वैः-सास्वादन, मिश्र, उपशम, क्षयोपशम, वेदक और
क्षायिक.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें-सम्यक्त्व नहीं.

सास्वादन गुणस्थानमें-एक सास्वादन सम्यक्त्व.

मिश्र गुणस्थान में-एक मिश्र सम्यक्त्व.

अविरतिसे अप्रमत्त गुणस्थानतक-उपरोक्त २ विना ४ सम्यक्त्वपावे

अपुर्व करण और अनियट्ट वादर में-वेदक विना ३ सम्यक्त्व पावे

सूक्ष्मसम्पराय और उपशान्तमोहमें-उपशम, क्षायिक २ सम्यक्त्वपावे.

क्षीणमोहमें अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक क्षायिक सम्यक्त्व.

२३०, उनीसवा संयतासंयती द्वार

मिथ्यात्वसे अविरति गुणस्थानतक-एक असंयति हैं.

देशविरति गुणस्थानवाले-एक संयतासंयति है.

प्रमत्तसे अयोगी केवली गुणस्थानतक एक संयति ही हैं.

२३१, बीसवा-लिंग द्वार,

लिंग ३ है. १ स्वलिंग, २ अन्यलिंग, और ३ ग्रहलिंग.

संयति, लिङ्ग, और चारित्रके खलासेके लिये अर्थ कांडका ३११ वा पृष्ठ देखिये

मिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक-द्रव्ये लिंग तीनोंही पावे और
र भावे स्वलिंग विना दो लिंग पावे.

प्रमत्त गुणस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थानतक द्रव्ये लिंग तीन
और भावे लिंग १.

२३२, इक्कीसवा-चारित्र्य द्वार

चारित्र्य ५ हैं:- १ सामायिक, २ छेदोस्थापनीय, ३ परिहार विशुद्ध
४ सूक्ष्म सम्पराय और ५ यथाख्यात.

मिथ्यात्वसे अविरति गुणस्थानतक-चारित्र्य नहीं.

देशविरति गुणस्थानमें-एक चरीता चारित्र्य.

प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानमें-पाहिले के चारित्र्य ३ पावे.

अपूर्व करण अनियत वादर में पाहिले के चारित्र्य २ पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में-एक सूक्ष्म सम्पराय चारित्र्य.

उपशान्त मोहसे अजोगी केवलीतक-एक यथाख्यात चारित्र्य.

२३३, बावीसावा भव्याभव्य द्वार

नियंटे ६ हैं-१पोलाक, २ बुकस, ३ प्रति सेवना. ४ कपाय कुशी
ल, ५ निग्रन्थ, और ६ स्नातक.

मिथ्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक. नियंटा नहीं पावे.

प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में-पाहिले के नियंटे ४ पावे.

अपूर्व करणसे सूक्ष्म सम्परायतक-नियंटा-१ कपाय कुशील.

उपशान्त मोह और क्षीण मोहमें-नियंटा-१ निग्रन्थ पावे.

मयोगी और अजोगी केवलीमें-नियंटा १ स्नातक पावे.

२३९ अठावीसवा छद्मस्त केवली द्वार

मिथ्यात्व गुणस्थान से क्षीणमोह गुणस्थान तक छद्मस्त-सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान वाले केवली हैं।

२४०, उन्नतीसवा समुद्घात द्वार

समुद्घात ७ हैं १ वेदनीय, २ कषाय, ३ मरणांतिक, ४

वैक्रिय, ५ तेजस, ६ आहारक, और ७ केवली इनमें से—

मिथ्यात्व से अविरति गुणस्थान तक पहिली ५ समुद्घात पावे

देशविरति और प्रमत्त गुणस्थान में पहिली ६ समुद्घात पावे।

अप्रमत्त से क्षीण मोह गुणस्थान तक समुद्घात नहीं होती है।

सयोगी केवली गुणस्थान में एक केवल समुद्घात होंगे

अयोगी केवली गुणस्थान में समुद्घात नहीं होती है।

२४१ तीसवा देव द्वार

देव ५ हैं:—१ भव्य द्रव्य देव, २ नरदेव, ३ धर्मदेव ४ देवाधीदेव, और ५ भावदेव।

मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थान तक १ धर्मदेव, और २ देवाधीदेव, विना ३ देव पावे।

अविरति गुणस्थान में धर्मदेव विना ४ देव पावे।

देशविरति गुणस्थान में एक भव्य द्रव्य देव पावे।

प्रमत्त से सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक नरदेव, भाव देव विना ३ देव पावे।

उपशान्त मोह गुणस्थान में १ भव्यद्रव्यदेव, और २ धर्मदेव यह २ देव पावे।

क्षीणमोह गुणस्थानसे अजोगी केवली गुणस्थान तक धर्म देव और देवाधिदेव यह २ देव पावे

२४२, एकतीसवा-परिणामी द्वार

परिणामिके ४२ बोल ४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ६ लेश्या, ३ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, ३अज्ञान, ३दृष्टि, ५ चारत्रि और ३ वेद यों ४२ इनमेंसे.

मिथ्यात्व गुणस्थानमें ४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३जोग, ६लेश्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिथ्यात्व दृष्टि, और ३वेद यों३१ बोल पावे.

सास्त्रादन गुणस्थान में ४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३ जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि और ३ वेद, यों ३१ बोल पावे

मिश्र गुणस्थान में ४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३ जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिश्रदृष्टि, और ३वेद यों ३१ बोल पावे.

अविरति गुणस्थान में ४ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि, और तीन वेद यों ३१ बोल पावे.

देशाविरति गुणस्थान में-२ गति ५ इन्द्रिय ४ कपाय ३जोग ६ लेश्या २ उपयोग, ३ ज्ञान, १ समदृष्टि और तीन वेद यों २९ बोल पावे

प्रमत्त गुणस्थान में-१ मनुष्यागति ५ इन्द्रिय ४ कपाय, ३ परिणामी कर्ण और निष्प्रति द्वारका की गाथा अर्थ कांदके ३२९ प्रष्टमें है.

जोग, ६ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दृष्टि, ३ वेद, ३ चारित्र्यों ३२ बोल पावे.

अप्रलत गुणस्थान में-१ गति, ५ इन्द्रिय ४ कपाय, ३ जोग, ३ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दृष्टि, ३ वेद और ३ चारित्र. यों २९ बोल पावे.

अपूर्व करण और अनियत वादर गुणस्थानमें-१ गति, ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३ जोग, १ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दृष्टि, ३ वेद, और ३ चारित्र. यों २७ बोल पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-१ गति, ५ इन्द्रिय, ३ जोग, १ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दृष्टि १ सूक्ष्म सम्पराय चरित्र. यों १८ बोल पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थानमें १ गती, ५ इन्द्रिय, ३ जोग, १ लेश्या, २ उपयोग, ४ ज्ञान, १ दृष्टि, १ यथाख्यात चारित्र यों १८ बोल पावे.

सयोगी केवली गुणस्थानमें-१ गति, ३ जोग, १ लेश्या, २ उपयोग १ केवल ज्ञान, १ दृष्टि, १ यथाख्यात चरित्र यों १८ बोल पावे.

अयोगी केवली गुणस्थानमें-१ गति, २ उपयोग, १ केवलज्ञान, १ दृष्टि, १ यथाख्यात चारित्र. यों ६ बोल पावे.

२४३, तीसवा करण द्वार.

करणके ५५ बोल-५ द्रव्य ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ वचन, ४ कपाय, ६ लेश्या, ७ समुत्घात, ४ सज्ञा, ३ दृष्टि वेद और ५ आश्रव. यिथ्यात्व गुणस्थानमें-५ द्रव्य, ४ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मनके, ४ वचनके, ४ कपाय, ६ लेश्या, ५ समुदघात पहिली, ४ सज्ञा, १ मि

व्यात्व, ३ वेद और १ आश्रव यों ५० बोल पावे.

साम्बादन गुणस्थान में-उपरोक्त ५० बोलही पाते हैं फरक फक्त मिथ्यात्व दृष्टिके स्थान सम्यक् दृष्टि कहना.

मिश्र गुणस्थानमें भी उक्त ५० बोल, मिश्र दृष्टि कहना.

अविगति और देशविगति में-साम्बादन मुझवही ५० बोल पावे.

प्रमत गुणस्थानमें-५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ वचन, ४ कपाय, ३ लेख्या, ३ समुद्रवात (केवल विना) ४ सज्ञा, १ दृष्टि, ३ वेद यों ४७ बोल पावे.

अप्रमत गुणस्थानमें-५ द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ वचन, ४ कपाय, ३ शुभलेख्या, ३ समुद्रवात, १ दृष्टि और ३ वेद यों ३७ बोल पावे.

अपूर्व कर्ण और अनियत वादर में-५ द्रव्य ३ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ वचन, ४ कपाय, १ लेख्या, ३ समुद्रवात और ३ वेद यों ३३ बोल पावे.

सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-५ द्रव्य ३ शरीर ५ इन्द्रिय, ४ मन, ४ वचन, १ कपाय, १ लेख्या और १ दृष्टि यों २४ बोल पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थानमें-१ कपाय विन २३ बोल पावे.

सयोगी केवली गुणस्थानमें-५ द्रव्य, ३ शरीर, २ मन, २ वचन, १ लेख्या, १ समुद्रवात और १ दृष्टि यों बोल १५ पावे.

अयोगी केवली गुणस्थानमें-५ द्रव्य, ३ शरीर, १ दृष्टि यों ९ बोल पावे.

तेतीसवा-निवृत्ति द्वार

निवृत्ति के ८२ बोलें-८ कर्म, ५ शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ भाषा, ४ मन

४ कपाय, ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श, ६ संठाण, ४ सज्ञा, ६
 लेश्या ३ दृष्टि, ५ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ जोग और उपयोग सब ८२
 मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान में-१ शरीर, ५ ज्ञान, २ दृष्टि इन ८ विना
 ७४ बोल पावे.

सास्वादन अविरति और देशविरति गुणस्थानमें-१ शरीर २ ज्ञान
 ३ अज्ञान और २ दृष्टि इन ८ विना ७४ बोल पावे.

प्रमत्त गुणस्थानमें-२ दृष्टि, १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ विना ७६
 बोल पावे.

अप्रमत्त गुणस्थान में- ३ अशुभ लेश्या, ४ सज्ञा इन ७ विना ६९
 बोल पावे.

अपूर्व करण और अनियत वादर में-२-शरीर, २ लेश्या इन ४ विना
 ६५ बोल पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-३ कपाय, १ उपयोग इन ४ विना ६१ पावे.
 उपशान्त मोहमें-१ कपायघटी, और १ उपयोग बढनेसे ६१ ही पावे.
 क्षीणमोहमें-१ मोहनीय कर्म विना ६० बोल पावे.

सयोगी केवलीमें ४ कर्म, ३ शरीर, २ भाषा, २ मन, २० वर्णादि,
 ३ संठाण, १ शुक्ल लेश्या, १ केवल ज्ञान ३ जोग, २ उपयोग, यों
 ४५ बोल पावे.

अयोगी केवली में ४ कर्म, ३ शरीर २० वर्णादि, ६ संठाण १ दृष्टि, १
 ज्ञान, और २ उपयोग यों ३७ बोल पावे.

२४४, चौतीसवा आश्रव द्वार.

आश्रवके ४२ भेदः-५ अत्रतः ५ इन्द्रियोंका अनिग्रह, ४ कपाय,
 आश्रव और संवर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ काण्डिका पृष्ठ ३३० वा.

४ कषाय, ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श, ६ संठाण, ४ सज्ञा, ६
लेश्या ३ दृष्टि, ५ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ जोग और उपयोग सब ८२
मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान में-१ शरीर, ५ ज्ञान, २ दृष्टि इन ८ विना
७४ बोल पावे.

सास्वादन अविरति और देशविरति गुणस्थानमें-१ शरीर २ ज्ञान
३ अज्ञान और २ दृष्टि इन ८ विना ७४ बोल पावे.

प्रमत गुणस्थानमें-२ दृष्टि, १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ विना ७६
बोल पावे.

अप्रमत गुणस्थान में- ३ अशुभ लेश्या, ४ सज्ञा इन ७ विना ६९
बोल पावे.

अपूर्व करण और अनियत बादर में-२-शरीर, २ लेश्या इन ४ विना
६५ बोल पावे.

सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-३ कषाय, १ उपयोग इन ४ विना ६१ पावे.
उपशान्त मोहमें-१ कषायघटी, और १ उपयोग बढनेसे ६१ ही पावे.
क्षीणमोहमें-१ मोहनीय कर्म विना ६० बोल पावे.

सयोगी केवलीमें ४ कर्म, ३ शरीर, २ भाषा, २ मन, २० वर्णादि,
३ संठाण, १ शुक्ल लेश्या, १ केवल ज्ञान ३ जोग, २ उपयोग, यों
४५ बोल पावे.

अयोगी केवली में ४ कर्म, ३ शरीर २० वर्णादि, ६ संठाण १ दृष्टि, १
ज्ञान, और २ उपयोग यों ३७ बोल पावे.

२४४, चौतीसवा आश्रव द्वार.

आश्रवके ४२ भेदः—५ अव्रत, ५ इन्द्रियोंका अनिग्रह, ४ कषाय,

आश्रव और संवर द्वारका खुलासा देखीये अर्थ काण्डका पृष्ठ ३३० वा.

और २५ क्रिया. यों ४२ में से.

मिथ्यात्वमें मिश्रगुणस्थानतक-इर्यावही क्रिया विना ४१ भेद पावे.

अविरति गुणस्थानमें-मिथ्यात्वी क्रिया विना ४० भेद पावे.

देशविरति गुणस्थानमें-अविरति क्रिया विना ३९ भेद पावे.

प्रमत्त गुणस्थानमें-१ अव्रत, प्रणाति पांत-परिग्रही अनापउगी, पाडु

ची, कामन्तवणी, नैसर्त्या, साहर्त्या, आणवणी, समुदाणी *इन १४

विना ३९ भेद पावे.

अप्रमत्त गुणस्थान में-५ इन्द्रियके आश्राव, और १ आरंभ क्रिया,

इन ६ विना. १९ भेद पावे.

अपूर्व करण और अनियत वादर में-मायाविति क्रिया विना १८

भेद पावे.

मृक्ष मम्यराय गुणस्थान में-१ पेजवती क्रिया ही पाती है.

उपशान्त मोहमें अयोगी केवलीतक-एक इर्यावही क्रियाही पावे.

अयोगी केवली गुणस्थान में आश्रव नहीं.

५२०, पैंतीसवा-संवर द्वार

संवरके ५७ भेदः-५ समिति, ३ गुप्ति, २२ परिग्रह, १० याति धर्म

१२ भावना और ९ चास्त्रि. यों ५७ भेद इसमें से:-

मिथ्यात्वमें मिश्रगुणस्थानतक-संवर नहीं.

अविरति गुणस्थान में-१ मम्यकत्व और १२ भावना यों १३ भेदपावे

देशविरति गुणस्थानमें-१व्रत और २२ परिग्रह अधिक होनेसे ३५

* और कितनेक स्थान पांचों इन्द्रिय के ५ आश्रव भी यज्ञ कर्मा करने हैं. कितने क स्थान प्रमत्त गुणस्थान में और भी आरंभ मायावर्तीया फक्त दोही क्रिया कहीये वरत केवली गम्य.

भेद पावे.

प्रमत और अप्रमत गुणस्थानमें-१ सुक्ष्म सम्पराय और २ यथाख्यात चारित्रि विना ५५ भेद पावे.

अपूर्व करण और अनियत वादर गुणस्थान में-परिहार विशुद्ध चारित्रि विना ५४ भेद पावे.

सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें-सूक्ष्म सम्परायविना ४ चारित्रि, और ८ परिसह इन १२ विना ४५ भेद पावे.

उपशान्त मोह और क्षीण मोह गुणस्थानमें-यथाख्यात विना ४ चारित्रि और ८ परिसह विना ४५ भेद पावे.

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थान में-पहिला ४ चारित्रि और ११ परिसह विना ४२ भेद संवरके पावे.

२४७ छत्तीसवा-निर्जरा द्वार.

मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र गुणस्थान में-अकाम निर्जरा. अविरति से अजोगी केवली गुणस्थानतक-सकाम निर्जरा.

२४८ सैंतीसवा निर्जरा द्वार

निर्जराके १२ भेद:-१ अणसण २ ऊणोदरी, ३ शिक्षाचरी, ४ रसप-स्तियाग, ५ कायाक्लेश, ६ प्रतिसलेना, ७ प्रायाश्चित, ८ विनय, ९ वैयावच्च, १० सञ्जाय, ११ ध्यान, और १२ का उसरग.

मिथ्यात्वसे अविरति, गुणस्थानतक-निर्जराके भेद नहीं पावे.

देशविरतिसे क्षीण मोह गुणस्थानतक निर्जराके १२ ही भेद पावे.

सयोगी और अयोगी केवली गुणस्थानमें-१ शुद्ध ध्यान पावे.

२४९, अडतीसवा-कारणीफल द्वार

निर्जरा और करणी फलद्वारोंका खुलासके लिये देखीये अर्थ काण्डकापृष्ठ ३१.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के
बाल ब्रम्हचारि मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज
रचित " गुणस्थानरोहण अढशित द्वारी", ग्रंथ
का चौथा धर्मा रोहन खण्ड
समाप्तम्.

श्री गुणस्थाना रोहण-अढशितद्वारीका
द्वितीय-मूल काण्ड-समाप्तम्.

जैनधर्म विभागात् प्रसिद्ध आचार्य १००८ पूज्यश्री
रघुनाथजी महाराज सं. १००८ गणनी श्रीब्रह्मचन्द्रजी
महाराज मुनि श्रीब्रह्मचन्द्रजी न. श्री जयचन्द्रजी



मिथ्यात्व साम्बादन, और मिश्र गुणस्थानकी सफल करणी-
अविरतिसे अयोगी केवली गुणस्थानतक निष्फल करणी.

२५०, चालीसवा-तीर्थकर गौत्रोपार्जनद्वार

अविरति, देशविरति, प्रमत्त, और अप्रमत्त इन चारों गुणस्थानोंमें रहे
जीवों २० बोलोंमेंके बोलोंका आराधन कर तीर्थकर गौत्र उपार्जतेहैं.

२५१, एकचालीसवा-तीर्थकर स्पर्शनाद्वार

अविरति, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्व करण, अनियद्गी वादर, सूक्ष्म संप
गय, क्षीण मोह, सयोगी केवली, और अयोगी केवली इन ९ गुण
स्थानोंको तीर्थकर महाराज स्पर्शते हैं.

२५२ बेंतालीसवा-मोक्ष द्वार

मोक्ष ४ कारण से होवे-१ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र और ४ तप.
मिथ्यात्व गुणस्थानमें मुक्तिका कारण नहीं.

साम्बादन और मिश्र गुणस्थानमें-व्यवहारमें मुक्तिका कारण नहीं
निश्चयमें मत्ता मात्र फक्त ज्ञान दर्शन.

अविरति गुणस्थानमें मुक्तिके कारण-ज्ञान और दर्शन दो हैं.

देशविरतिमें अयोगी केवलतिक-मुक्ति के कारण चारोंही पावे.



६८ तीर्थ गौत्र उपार्जनके २० बोल अर्थ काण्डके ३३२ वे पृष्ठ में हैं.

६९ तीर्थकर गुणस्थान स्पर्शन द्वारमें और मोक्ष द्वारके मुख्यामेंके लिये देखीये अ
काण्ड का पृष्ठ ३३३ वा.

रम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के
वाल ब्रम्हचारि मुनि श्री अमोलख ऋषिजी महाराज
रचित “ गुणस्थानरोहण अष्टशत द्वारी”, ग्रंथ
का चौथा धर्मा रोहन खण्ड
समाप्तम्.

श्री गुणस्थाना रोहण-अष्टशतद्वारीका
द्वितीय-मूल काण्ड-समाप्तम्.

जैनधर्म विनायक ब्रह्मिन्द्र आचार्य १०६८ पूज्यश्री
रघुनाथजी महाराज सं० ११० श्रीज्जानचन्द्रजी
बहागज मुनि श्रीभुवनाकाचन्द्रजी सं० श्री जयचन्द्रजी



॥ श्री ॥

मुक्ती -- सोपान

श्री गुणस्थान रोहण अठशतद्वारि
का संक्षिपित यन्त्र

श्री मुक्ति सोपान ३३

	१	२	३	४	५
१.१ पावती द्रव्य प्रमाण	अनन्त	असंख्याते	"	"	"
१.१ स्वपती द्रव्य प्रमाण	अनन्त	असंख्याते	"	"	"
१.२ क्षेत्र प्रमाण द्वार	सर्व लोक	त्रस नाडी	"	"	आधो और तिरछालोक
१.३ क्षेत्र स्पर्शना द्वार	सर्व लोक	छठी नर्कमे ग्रीवेक	लोक का असंख्यात वा भाग.	छठी नर्क १२वा स्वर्ग	अधोवीज १२वा स्वर्ग
१.४ काल प्रमाण (स्थिति)	३ प्रकारकी	६ आंवली ७ समय	अन्तर मुहुर्त	ज. अन्त ६ सागर	ज० अन्त १० ऊणा क्रोड पूर्व
१.५ काल प्राप्त द्वार	मेरे	"	नहीं मेरे	मेरे	"
१.६ भाव प्रमाण द्वार	असंख्य स्थान	"	"	"	"
१.७ भिन्नतर गुण द्वार	प्रत्येक असंख्यात वे भाग	"	"	अवलियाके असंख्यात वे भाग	"
१.८ मार्गना द्वार	४	०	३	२	१
१.९ अज्ञानिया द्वार	०	१	१	२	४

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
प्रत्येक हजा र क्रोड	प्रत्येक सो	१६२	"	"	६४	१०८	प्रत्येक क्रोड	१०८
प्रत्येक सो	"	१६२	"	"	९४	१०८	"	"
अढाइ द्वीप	"	"	"	"	"	"	"	"
अधोधीज अनत्तरवी	"	"	"	"	"	लोक का असंख्या वा भाग	सम्पूर्ण लोक	लोकका असंख्या तवा भाग
"	ज. १ समय उत्कृष्ट-अंत तर मुबूर्त	"	"	"	"	अन्तर मुबूर्त	ऊणा क्रो ड पूर्व	पांच लघु अक्षर
"	"	"	"	"	"	तहीं घरे	"	घरे
"	"	"	"	"	१	१	१	१
८ समय	"	"	"	"	"	"	"	"
१	१	१	१	२	०	१	१	मोक्ष
६	२	२	२	२	२	०	०	०

	१	२	३	४	५
२० परस्पर मार्गणा	३	१	२	५	५
२१ परस्पर उपमार्गणा	५	३	४	९	३
२२ अरोह उवरोह	१ उवरोह	१ अवरोह	२	२	२
२३ चलाचड गति	१	१	२	४	३
२४ अन्तर काल द्वार	अन्तरं मु. द्वि सा०	पल्याका अ संखत भाग अर्ध पुत्रल	" "	" "	" "
२५ विरह काल द्वार	०	एक समय अंतर मुहूर्त	"	०	०
२६ एकभय में स्पर्शना	१ ०००	१ २	१ प्रत्येकहजार	"	१ २००
२७ बहुत भय में स्पर्शना	२ असंख्यात	२ ५	२ असंख्यात	"	२ ००००
२८ परस्पर स्पर्शना	१ नियमा १० भजना	३ नियमा ८ भजन	३ नियमा ८ भजन	२ नियमा १ भजन	३ नियमा ८ भजन
२९ पद्म पद्म द्वार	२	२	२	२	२
३० शाश्वता शाश्वत	शाश्वत	अशाश्वत	"	शाश्वत	"

श्री गुणस्थान रोहण अष्टाशतद्वारीका संक्षेपी यन्त्र

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
६	३	३	३	४	२	१	१	मास
१	५	२	२	२	१	१	१	१
२	२	२	२	२	१ अवरोह	१ उवरोह	१	१
३	३	३	३	४	२	१	१	१
११	११	११	११	११	११	०	०	०
११	११	११	११	११	११	०	०	०
०	अन्तर मुहूर्त ६ महीने	११	११	११	११	११	०	अन्तर ६ मांस
१ १००	१ १००	१ ४	१ ४	१ ४	१ २	१	१	१
२ १००	२ १००	२ ९	२ ९	२ ९	२ ५	१	१	१
४ नियमा ७ भजना	३ नियमा ८ भजना	५ नि. ६ भजन	६ नि. ५ भजन	७ नि. ४ भजन	८ नि. ३ भजन	१० नि. ४ भजन	११	११
२	२	२	२	२	२	१	१	१
११	अशाश्वत	११	११	११	११	११	शाश्वत	

श्री मुक्ति सोपान ३३

	१	२	३	४	५
परभव गमन द्वार	साथ जावे	”	नहीं जावे	साथ जावे	नहीं जावे
भव संख्या द्वार	अनन्त	१ ७-८	”	”	”
अल्या बहूत द्वार	१२ अनंत गुणे	८ असंख्याते	२ असंख्याते	१० असंख्याते	७ असंख्याते
किरिपा द्वार	२४	२३	२४	२३	२२
मूल हेतु (कारण)द्वार	५	४	४	४	४
मिथ्यात्व हेतु द्वार	५	०	०	०	०
अविगति हेतु द्वार	१२	१२	१२	१२	११
कपाय हेतु द्वार	२५	२५	२१	२१	१७
योग हेतु द्वार	१३	१३	१०	१३	१२
समुचय हेतु द्वार	५५	५०	४३	४६	४०
चार बन्ध द्वार	४	४	४	४	४
समुचय कर्म बन्ध	८	८	७	८	८

	१	२	३	४	५
४३ ज्ञानावरणीय बन्ध द्वारा	५	५	५	५	५
४४ दर्शनावरणी बन्ध द्वारा	९	९	६	६	६
४५ वेदनीय बंध द्वारा	२	२	२	२	२
४६ मोहनीय बंध द्वारा	२६	२४	१९	१९	१६
४७ आयु बंध द्वारा	४	३	०	२	१
४८ नाम बन्ध द्वारा	६४	५०	३६	३७	३२
४९ गात्र बन्ध द्वारा	२	२	१	१	१
५० अन्तराय बन्ध द्वारा	५	५	५	५	५
५१ ध्रुव कर्म बन्ध द्वारा	५	५	५	५	५
५२ ध्रुव कर्म प्रकृति बन्ध	४७	४६	३०	३२	३६
५३ अध्रुव कर्म बन्ध द्वारा	५	५	४	५	५
५४ अध्रुव कर्म प्रकृति बंध	७०	६६	३६	३९	३३

श्री मुक्ति सोपान ३३

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
६	६	६	६	६	०	०	०	०
६	६	६	४	४	०	०	०	०
२	१	१	१	१	१	१	१	०
११	९	९	६	०	०	०	०	०
१	१	०	०	०	०	०	०	०
३२	३१	३१	१	१	०	०	०	०
१	१	१	१	१	०	०	०	०
६	६	६	६	६	०	०	०	०
६	६	६	६	६	०	०	०	०
३१	३१	२९	१८	१४	०	०	०	०
६	६	४	४	३	१	१	१	०
३३	२८	८	४	३	१	१	१	०

	१	२	३	४	५
५५ सर्व याति कर्म बन्ध	३	३	३	३	३
५६ सर्व यातिकर्म प्रकृति बंध	२०	१९	१२	१२	८
५७ देश यातिक कर्म बन्ध	४	४	४	४	४
५८ देश यातिक कर्म प्रकृति बंध द्वार	२५	२४	२३	२३	२३
५९ अयाति कर्म बंध द्वार	४	४	३	४	४
६० अयाति कर्म प्रकृति बन्ध	७२	५८	३९	४२	३६
६१ पुण्य कर्म बंध द्वार	४	४	३	४	४
६२ पुण्य कर्म प्रकृति बंध	३९	३८	३४	३७	३५
६३ पाप कर्म बन्ध द्वार	८	८	६	६	६
६४ पाप कर्म प्रकृति बन्ध	८२	६७	४४	४४	४०
६५ परावर्तमान कर्म बन्ध	६	६	६	६	६
६६ परावर्तमान कर्म प्रकृति बन्ध	८९	७४	४७	४९	३९

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
३	३	२	२	२	०	०	०	०
४	४	२	२	२	०	०	०	०
४	४	४	४	३	०	०	०	०
२३	२१	२१	१७	१२	०	०	०	०
४	४	३	३	३	१	१	१	०
३६	३२	३	३	३	१	१	१	०
४	४	३	३	३	१	१	१	०
३१	३३	३२-३	३	३	१	१	१	०
६	६	६	६	४	०	०	०	०
३६	३०	३०-२३	१२-१६	१४	०	०	०	०
६	६	४	१	१	१	१	१	०
३६	२२	२७	८	३	१	१	१	०

	१	२	३	४	५
६७ अपरावर्तमान कर्म बंध	१	५	५	५	५
६८ अपरावर्तमान कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	२८	२७	२७	२८	२८
६९ भूयस्कार कर्म बन्ध	१	१	१	१	१
७० भूयस्कार कर्म प्रकृति बन्ध	८	०	०	४	२
७१ अल्पतर कर्म बन्ध	१	१	१	१	१
७२ अल्पतर कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	जो ऊपर	भूयस्कार	बन्ध के	स्थान	कहे हैं,
७३ अवास्थित कर्म बन्ध	जो भूयस्कार	बन्ध	पअल तर	बन्ध के	प्रथम समय
७४ अवास्थित कर्म प्रकृति बन्ध द्वार	भूयस्कार	बन्ध के २९	स्थान या	अल्पतरके	२८ स्थानका
७५ अज्यव कर्म बन्ध	०	०	०	०	०
७६ समुचय कर्म प्र० बंध	११७	१०१	७४	७७	६७
७७ कर्म बन्ध व्यंछद	०	०	१	०	०
७८ कर्म प्र० बन्ध व्यंछद	३	१०	४६	४३	५३

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५	५	५	३	३	०	०	०	०
२८	२८	२८	१४	१४	०	०	०	०
१	१	१	१	१	१	०	०	०
१	१	७	५	५	१	०	०	०
१	१	१	१	१	१	१	१	०
उनकोउलटे	पढने से	अल्पतर	कर्म	प्रकृति	बन्ध के	स्थान	होते	हैं.
बन्धा	बोबन्ध	जितने	काल	तक रहे	उसे अवस्थित	बन्ध	कहना.	
बंध किये बाद	फिर वो	बंध जितने	काल	रहेसो अवस्थित	कर्म	प्रकृति	बन्ध	
०	०	०	०	०	०	०	”	”
६३	५९	२६	१८	१७	१	१	१	०
०	०	१	१	२	७	७	७	८
५७	६१	९०	१०३	१०२	११२	११२	११२	१२०

		१	२	३	४	५
७९	समुच्चय कर्मोदय द्वार	८	८	८	८	८
८०	ज्ञानावरणी उदय द्वार	५	५	५	५	५
८१	दर्शनावरणी उदय द्वार	९	९	९	९	९
८२	वेदनीय कर्मोदय द्वार	२	२	२	२	२
८३	मोहनीय कर्मोदय द्वार	२६	२५	१९	१९	१५
८४	आयु कर्मोदय द्वार	४	४	४	४	२
८५	नाम कर्मोदय द्वार	६४	५९	५१	५५	५५
८६	गोत्र कर्मोदय द्वार	अनन्त	२	२	२	२
८७	अन्तराय कर्मोदय	२	५	५	५	५
८८	ध्रुव कर्मोदय द्वार	५	४	४	४	४
८९	ध्रुव कर्म प्रकृति उदय	२७	२६	२६	२६	२६
९०	भद्रव कर्मोदय	६	६	६	६	६

श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्वारीका संक्षेपी यस्व

६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८
३	३	३	३	३	२	२	०
७	४	४	४	४	४	२	०
४	४	४	४	४	३	३	०
२५	२५	२५	१२	१३	१२	१२	०
४	४	४	४	४	४	४	४
७६	४७	४४	४४	४४	४४	४२	४३
८१	७६	७२	६६	६०	५५	५३	४२
४१	४६	५०	५६	६२	६३	६५	६०
०	०	०	०	०	१	१	४
८	६	६	६	६	६	६	२
६	६	६	६	६	६	६	०

	१	२	३	४	५
११५ दर्शना वरणी ऊदीरणा	९	९	९	९	९
११६ वेदनीय कर्म ऊदीरणा	२	२	२	२	२
११७ मोहनीय ऊदीरणा	२६	२९	२२	२२	१८
११८ आयुर्कर्म ऊदीरणा	४	४	४	४	२
११९ नामकर्म ऊदीरणा	६४	५२	५१	५५	४४
१२० गोत्रकर्म ऊदीरणा	२	२	२	२	२
१२१ अन्तराय ऊदीरणा	५	५	५	५	५
१२२ समुचय कर्मप्र. ऊदीरणा	११७	१११	१००	१०४	८७
१२३ कर्मोदीरणा युच्छेद	०	०	०	०	०
१२४ कर्मप्र. उदीरणा व्युच्छेद	५	११	२२	१८	३५
१२५ समुचय कर्म मत्तद्वार	८	८	८	८	८
१२६ ज्ञाना वरणी कर्मसत्ता	५	५	५	५	५

	१	२	३	४	५
१.२७ दर्शना वरणी कर्मसत्ता	९	९	९	९	९
१.२८ वेदनयि कर्मसत्ता	२	२	२	२	२
१.२९ मोहनीय कर्मसत्ता	२८	२८	२८	२८-२९	२८-२९
१.३० आयुर्कर्म सत्ताद्वार	४	४	४	४-९	४-९
१.३१ नाम कर्म सत्ताद्वार	९३	९३	९३	९३	९३
१.३२ गोत्र कर्म सत्ताद्वार	२	२	२	२	२
१.३३ अन्तराय कर्मसत्ता	५	५	५	५	५
१.३४ ध्रुव कर्म सत्ताद्वार	७	७	७	७	७
१.३५ ध्रुव कर्म प्रकृति सत्ता	१२६	१२२	१२६	१२६	१२६
१.३६ अध्रुव कर्म सत्ताद्वार	४	४	४	४	४
१.३७ अ. कर्म प्रकृति सत्ता	२२	२२	२२	२२	२२
१.३८ सर्व घाती कर्म सत्ताद्वार	३	३	३	३	३

श्री हुक्त सापान

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
९	९	९	९	९	९	९	०	०
२	२	२	२	२	२	२	२	२
२८-२९	२८-२९	२८ २४ २३	२९-९३ ९२-९९ ५४३२	२८ २४ २९९	२८ २४ २९	०	०	०
४-९	४-९	४-२-९	९	२ ९	४ ९	९	१	१
९३	९३	९३	९३ ८०	९३ ८०	९३ ८०	८०	८०	८० ९
२	२	२	२	२	२	२	२	२-१
६	६	६	६	६	६	६	०	०
७	७	७	७	७	७	७	३	३
१२६	१२६	१२६	१२६ ९३	१२६ ९२	१२६	९९ ८२	७९	७९
४-३	४-३	४-३	४-३	४-३	४-३	०	०	०
२२	२२	२२	२२	२२	२२	३	३	३
३	३	३	३	३	३	२	०	०

	१	२	३	४	५
१३९. स.घा. कर्मप्रकृति सत्ता	२०	२०	२०	२०	२०
१४०. देशघाति कर्मसत्ता	४	४	४	४	४
१४१. दे. घा. कर्मप्रकृतिसत्ता	२७	२७	२७	२७	२७
१४२. अघाति कर्म सत्ताद्वार	४	४	४	४	४
१४३. अघा. कर्मप्रकृतिसत्ता	१०१	१००	१००	१०१ २७	१०१ २७
१४४. समुचयकर्मप्रकृतिसत्ता	१४८	१४७	१४७	१४८	१४८
१४५. कर्म व्युच्छतिद्वार	०	०	०	०	०
१४६. कर्मप्रकृतिव्युच्छतिद्वार	०	१	७-१० क्षायिक	७-१० "	७-१० "
१४७. समुचय कर्मभङ्गद्वार	२	२	१	२	२
१४८. ज्ञानावरणी भङ्गद्वार	१	१	१	१	१
१४९. दर्शनावरणभङ्गद्वार	२	२	२	२	२
१५०. वेदनीय भङ्गद्वार	४	४	४	४	४

	१	२	३	४	५
१५१ मोहनीय भङ्गद्वार	दचौ, दभां	४चौ, ४भां	४चौ, २भां	८चौ, २भां	८चौ, २भां
१५२ आयु भङ्गद्वार	२८	२६	१६	२०	१२
१५३ नामभङ्गद्वार	१३१२३ १११३ २३२	१६०८ ४०१७ १८	१६ ४०१७ ६	३२ ५२ ५४	१६ ५९१ ३३
१५४ गोन भङ्गद्वार	५	४	२	२	२
१५५ अन्तराय भङ्गद्वार	१	१	१	१	१
१५६ वन्यशिके भङ्गद्वार	१०	१०	८	१०	१०
१५७ इयावही भङ्गद्वार	३	२	२	२	२
१५८ मृग भावद्वार	३	३	३	३ ४	३ ४
१५९ औद्यमिक भावद्वार	२१	१९	२०	१९	१७
१६० उपशमिक भावद्वार	०	०	०	१	१
१६१ अयोवशमिक भावद्वार	११	११	११	१२	१३
१६२ आर्यक भावद्वार	०	०	०	१	१

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
चौ, १भां	८चौ, १भां	४चौ१	१६भां	१	०	०	०	०
६	६	२ १	२ १	२	२ १	१	१	१
१६ ६९२	४ ६९२	६ ३६०	१ २६	१ २६	७२ ४	२४ ४	६०० ४	२ ३
१	१	१	१	१	१	१	१	२
१	१	१	१	१	१	१	०	०
१०	१०	८	८	८	७	६	६	४
२	२	२	२	२	२	१	१	१
३ ४	३ ४	४ ६	४ ६	४ ६	४ ६	४	३	३
१६	१२	१०	१०	४	३	३	३	२
२	२	२	२	२	२	०	०	०
१४	१४	१२	१२	१२	१२	१२	०	०
१	१	१	१	१	१	२	१	१

	१	२	३	४	५
१.६३ परिणामिक भावद्वार	३	२	१२	२	२
१.६४ सन्निपातिभावद्वार	१ ४	१ ४	१ ४	३ १२	३ ६
१.६५ समुचयभावभेदद्वार	३५	३२	३३	३५	३४
१.६६ श्रेणिद्वार	०	०	०	०	०
१.६७ कर्मवेदद्वार	८	८	८	८	८
१.६८ कर्मनिर्जराद्वार	८	८	८	८	८
१.६९ दशकरणद्वार	१०	१०	१०	१०	१०
१.७० गुणश्रेणिद्वार	सकाम निर्जरानही	"	"	तीसरे सं ख्यातगुणी	चौथे सं असख्या
१.७१ आगतिद्वार	४	४	४	४	४
१.७२ वागतिद्वार	४	४	४	४	२
१.७३ जागतिद्वार	४	३	०	२	१
१.७४ आजगतिद्वार	५	५	५	५	५

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२	२	२	२	२	२	२	२	२
३	३	३	३	३	३	१	१	१
३४	३१	२७	२७	२१	२०	१२	१४	१३
०	०	२	२	२	१	१	०	०
८	८	८	८	८	७	७	४	४
८	८	८	८	८	८	७	४	४
१०	१०	१०	७	७	२	२	२	२
पांचवेसे असंख्या	छेबेसेअ संख्यागुणी	सातवेसे असंख्या	आठवेसे असंख्या	नववेसे असंख्या	दशवेसे असंख्या	ग्यारवेसे असंख्या	बारवेसे असंख्या	तेरवेसे असंख्या
४	४	४	४	४	४	४	४	४
१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	०	०	मोक्ष
५	२	२	२	२	२	२	२	२

		१	२	३	४	५
१७५	पाजाति द्वार	५	४	१	१	१
१७६	जाजाति द्वार	५	४	०	१	१
१७७	आकाया द्वार	६	६	६	४	४
१७८	पाकाया द्वार	६	१	१	१	१
१७९	आकाया द्वार	६	१	०	१	१
१८०	आदण्डक द्वार	२४	२२	२२	२२	२२
१८१	पादण्डक द्वार	२४	१९	१६	१६	२
१८२	जादण्डक द्वार	२४	१९	०	१६	१
१८३	सामान्य जीवभेद द्वार	१४	६	१	२	१
१८४	विशेष जीवभेद द्वार	१७०	३०७	१९८	२३५	२०
१८५	जीवायोनी द्वार	८४ लक्ष	३२ लक्ष	२६ लक्ष	२६ लक्ष	१८ लक्ष
१८६	कुल कोडी द्वार	१ कोड १.७॥ लक्ष कोड	१ कोड ४०॥ लक्ष कोड	१ कोड १.६॥ लक्ष कोड	६५॥ लक्ष कोड	१२ लक्ष कोड

	१	२	३	४	५
१९९ इन्द्रिय विषयद्वार	८से२३	१३से२३	२३	२३	२३
२०० सज्ञाद्वार	४	४	४	४	४
२०१ वेदद्वार	३	३	३	३	३
२०२ कृपायद्वार	४	४	४	४	४
२०३ लेशाद्वार	६	६	६	६	६
२०४ योगद्वार	३	३	३	३	३
२०५ शरीरद्वार	४	४	४	४	५
२०६ संघयणद्वार	६	६	६	६	६
२०७ संटाणद्वार	६	६	६	६	६
२०८ मरणद्वार	२	२	०	२	२
२०९ विग्रहगतिद्वार	२	२	०	२	२
२१० स्वर्ग मर्यादाद्वार	२१	१२	०	१२	१२

	१	२	३	४
२११ पदस्थानहानीद्वि द्वार	२	२	२	२
२१२ मूलउपयोगद्वार	२	२	२	२
२१३ अज्ञानद्वार	३	०	३	०
२१४ ज्ञानद्वार	०	३	०	३
२१५ दर्शनद्वार	३	३	३	३
२१६ समुचय उपयोगद्वार	६	६	६	६
२१७ दृष्टिद्वार	१	१	१	१
२१८ भव्याभवयद्वार	२	१	१	१
२१९ चरमाचरमद्वार	२	१	१	१
२२० परितापरितद्वार	२	१	१	१
२२१ पद्मीद्वार	१६	१	१	६
२२२ आम्पद्वार	६	६	६	७

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२	२	२	तुल्य	"	"	'	"	"
२	२	२	२	१	२	२	२	२
०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	४	४	४	४	४	४	१	१
३	३	३	३	३	३	३	१	१
७	७	७	७	७	७	७	२	२
१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	३	३	३	३	२	३	४	४
८	८	८	८	८	७	७	७	६

	१	२	३	४	५
२२३ ध्यानद्वार	२	२-३	२-३	३	२
२२४ ध्यानकेपायेद्वार	८	४	१	११	८
२२५ पद्मद्वार	६	६	६	६	६
२२६ परिणामद्वार	३	१	२	३	३
२२७ धार्यद्वार	१	१	१	१	१
२२८ तर्थात्तर्थाद्वार	१	१	१	१	१
२२९ सम्यकत्वद्वार	०	१	१	४	४
२३० संयता संयतीद्वार	१	१	१	१	१
२३१ लिंगद्वार	३ २	३ २	३ २	३ २	३ २
२३२ चरिवद्वार	०	०	०	०	॥
२३३ नियंटाद्वार	०	०	०	०	०
२३४ कल्पद्वार	०	०	०	०	०

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२	२	२	२	२	१	१	१	१
४	६	६	६	६	१	१	१	१
६	६	६	६	६	६	६	६	६
३	३	३	३	२	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	४	३	३	२	२	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	३	३	३	३	३	३	३	३
१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	३	४	४	१	१	१	१	१
४	४	१	१	१	१	१	१	१
६	६	६	६	३	३	३	३	३

	१	२	३
२३५ परिसहद्वार	०	०	०
२३६ प्रमादद्वार	५	५	५
२३७ साराणी वीतराणी द्वार	सराणी	"	"
२३८ पडवाइ अपडवाइ द्वार	अपडवाइ	पडवाइ	२
२३९ छप्रस्त केवली	छप्रस्त	"	"
२४० समुत्थातद्वार	५	५	५
२४१ देवद्वार	३	३	३
२४२ परिणामीद्वार	३१	३१	३१
२४३ करणद्वार	५०	५०	५०
२४४ गिर्योत्तद्वार	७४	७४	७४
२४५ श्रीश्रवद्वार	४१	४१	४१
२४६ विचरद्वार	०	०	०

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
"	"	"	"	"	"	"	"	"
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१	१
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	०	०	०	०	०	०
स्पर्श	"	"	"	"	०	१	"	"
४	४	४	४	४	४	४	४	४

१ यन्त्रमें विन्दी है सो नास्तिका चिन्ह है, और " ऐसे कामा सो आस्तिका चिन्ह है. यह चिन्ह १ कोष्टसे १४ वे कोष्टतक क्रम जानना.

इति गुणस्थान रोहण अष्टाशत द्वारी का संक्षेपित यन्त्र समाप्तं